

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN  
VISWA BHARATI  
LIBRARY

262

V 19 N

79678









नायाधम्मकहाओ ।

NĀYĀDHAMMAKAHĀO

[*The Sixth Āṅga of the S'vetāmbara Jain Canon* ]

critically edited

by

N. V. VAIDYA,

M. A.

Fergusson College, Poona

1940

---

POONA

*First Edition*

[ Price :— Indian : Rs. ~~Five~~ Two.  
Foreign : Shillings 7/6; \$2.00 ]

---

Printed by Lakshman Narayan Chapekar at the Aryasamskriti Press,  
198(17) Sadashiv, Tilak Road, Poona 2, and published by  
Prof. N. V. Vaidya, M.A., Fergusson College, Poona 4.

## PREFACE

The present edition was undertaken two years back. When I undertook it, I had no idea that the text alone would cover so many pages. Again, owing to the out-break of war, the cost of paper has gone very high, and I had, therefore, to give up the idea of adding notes, index and commentary for the present. The Commentary, however, will be printed soon, and issued separately.

The editor acknowledges his indebtedness to the University of Bombay, for the substantial financial help it has granted towards the cost of the publication of this book.

I must also acknowledge with gratitude the help that I received from Prin. R. D. Karmarkar, M. A. from time to time. His advice and help were very useful to me on more than one occasion.

I have also to thank my students Mr. S. L. Hirve, B. A. and Mr. S. S. Deshpande, B. A. for doing most of the copying work. To Mr. Chapekar and Mr. Vaze, of the Arya Sanskriti Press, and to Mr. Barve of the Aryabhushan Press, my thanks are due for having done the work neatly and satisfactorily.

I only hope that the work would be of some use to those who are working in the field of Prakrits, and Jain Literature.

Fergusson College,  
Poona 4 }

N. V. VAIDYA.

## INTRODUCTION

The present edition of Nāyādhammakaḥāo is based on the following five manuscripts from the Bhandarkar Oriental Research Institute :—

C. No. 124

32  
1869 - 70

**SIZE.**—10" by 4 $\frac{3}{8}$ ". **EXTENT.**—155 Folios, 13 lines to a page ( sometimes 15 lines ) ; 40 to 45 letters to a line.

**DESCRIPTION.**—Country paper thick and greyish, Devanāgarī characters with पृष्ठमात्राः; big, legible and good hand-writing; condition on the whole good; complete; extent 5500 ślokas.  
**AGE.**—Old.

**BEGINS.**—Fol. 1<sup>b</sup> श्रीजिनाय नमः ॥ तेण कालेण तेण समएण चंपा नामं नयरी होत्या । वन्नओ । तीसे णं चंपाए नयरीए etc.

**ENDS.**—Fol. 155<sup>b</sup> सब्दुक्खाण ( ण ) अंत ( तं ) काहीति ॥ एवं खलु जंचू निक्षेपगो ॥ दसमस्स वग्गस्स दस्मो वग्गो समत्तो ॥ छ ॥ १० एवं खलु जंचू समणेण भगवया महावीरेण आयगरेण ( तिथ्यगरेण ) सय( यं )स( सं )बुद्धेण पुरिसोत्तमेण पुरिसीहेण जाव संपत्तेण धम्मकहाण अयमट्टे पत्रते ॥ धम्मकहासूय( क् )खंयो समत्तो दसिंह वग्गेहि नायाधम्मकहाउ समत्ता ॥ छ ॥ इति श्रीज्ञाताधर्मकथा समाप्ता ॥ १५००

D. No. 126

193  
1871 - 72

**SIZE.**—9 $\frac{7}{8}$  in. by 4 $\frac{3}{8}$  in. **EXTENT**—103 + 1 = 104 folios; 15 lines to a page; 60 letters to a line.

**DESCRIPTION.**—Country paper rough, tough and greyish; Devanāgarī characters with occasional पृष्ठमात्राः; small, legible and very fair hand-writing; complete; extent 5750 ślokas.  
**AGE.**—Samvat 1625.

**BEGINS.**—Fol. 1<sup>b</sup> तेण कालेण तेण समएण चंपा etc.

**ENDS.**—Fol. 103<sup>a</sup> सब्दुक्खाण etc., upto धम्मकहाओ as in No. 124 followed by समत्ताऊ । छ । इति श्रीज्ञाताधर्मकथांगसूत्र समाप्तः ॥ छ etc. प्रथाप्रे श्लोकसंख्या ५७५० ॥ छ ॥ संवत् १६२५ वर्षे श्रावणमासे शुक्लपक्षे सप्तमीदिने शुक्रवासरे 'सारंगपुर' नगरे पटनार्थे पंडितश्रीश्रुतनिधानस्य ॥ छ etc.

A No. 127

192	
1871 - 72	

SIZE.—10 in. by  $4\frac{3}{8}$  in. EXTENT— $221 - 1 + 2 + 2 - 2 = 222$  folios ; 11 lines to a page, 34 letters to a line.

DESCRIPTION.—Country paper thick, rough and greyish ; Devanāgarī characters with occasional पृष्ठमात्राः; big, quite legible and elegant hand-writing. AGE.—Old.

BEGINS.—Fol. 3<sup>a</sup> तं जहा । नाया [ णिय ] धमकहाउ । पढम [ ण ] स्स भेते सुय ( कृ ) खंधस्स समणेण etc.

ENDS.—Fol. 221<sup>a</sup> सव्वदुक्खाणं etc., upto नायाधमकहाओ as in No. 124 followed by समत्ताउ । छ etc. श्रीज्ञाताथर्मकथांग छठ( दु )मंगं सम्मतं छ । ग्रंथाग्रं ५६२७ [ ७ ] ( ५६७७ ? ) छ etc. Then we have in a different hand :—ग्या ( ज्ञा ) नाभ्यासी वरद्धमानं सएस करणिपरीग्रह उपरथी ... ... मोषगरणकी ... वेचवाथी लेह जई पाढी ... ... ते अरीहंत सिद्ध ... ... .

B No. 128

790

1895 - 1902	
-------------	--

SIZE.— $10\frac{1}{4}$  in. by  $4\frac{3}{8}$  in. EXTENT.—193 folios ; 11 lines to a page ; 40 letters to a line.

DESCRIPTION.—Country paper rough and white ; Devanāgarī characters with पृष्ठमात्राः; big, legible and good handwriting ; AGE.—Samvat 1661.

BEGINS.—Fol. 1<sup>b</sup> ओ नम ( : ) सर्वज्ञाय ।

तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा etc.

ENDS.—Fol 193<sup>a</sup> सव्वदुक्खाणं, etc., up to छठमंगं सम्मतं as in No. 127 followed by छ ग्रंथाग्रं ५२५० ॥ छ । etc., भग्न etc., जलाद्धक्षे etc., संवत् १६६१ वर्षे भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे द्वादशि तिथौ बृहत्प( स्प )तिवासरे शक्तिपुरस्थाने दुनी १८७ चंदलिखितं etc.

E. No. 129

430

1882 - 83	
-----------	--

SIZE.—10 in. by  $4\frac{1}{4}$  in. EXTENT.— $147 - 3 = 144$  folios ; 11 lines to a page ; 48 letters to a line.

DESCRIPTION.—Country paper thin and greyish ; Devanāgarī characters with occasional पृष्ठमात्राः; bold, clear, and beautiful hand-writing ; Extent 6000 Slokas.

AGE.—Samvat 1686.

AUTHOR OF THE COMMENTARY.—Abhayadeva Sūri.

BEGINS.—(text) fol. 4<sup>a</sup> एं दुद्विनाणेण । तस्य सुमिणस्स अत्थागग्ह करेइ । ३ ता धारिणि देवि ताहि जाय हियय etc.

—(Com.) fol. 4<sup>a</sup> एवं खलु ति । एवंरूपादुक्तफलसाधनसमर्थोत्प्राहारकपुनर्ज-निष्ठसीति संबंधः etc.

ENDS.—(text) fol. 147<sup>a</sup> सव्वदुक्त्याणमंत.....एवं खलु जंबू etc., upto जाव ठाणं संपत्ताणं as in No. 124 followed by छ । धम्मकहासुय (कृ) खंपो सम्मतो । छ दसहिं व(गो)हि नायव्रम्मकहाओ सम्मताओ ॥ ग्रंथाग्रं ६००० ॥ शुभं भवतु ॥ संवत् १६८६ वर्षे भाद्रवा सुदि ५ दिने ॥ श्री 'विकानेर' मध्ये लिपतं.

(Com.) fol. 141<sup>b</sup> अत एव वरकवर्जिते ति etc., up to सिद्धेण, followed by the lines :—प्रत्यक्षरं निरूप्यास्य ग्रंथमानं विविधितं ।

अनुश्वरां सहस्राणि त्रीणि सप्त शतानि च ॥ १२ ( १३ ? ).

[Vide :—The descriptive catalogue of MSS. at the B. O. R. I. compiled by Prof. H. R. Kapadia, M. A. Part I. Pages :—113 to 125.]

Out of these, MS. C is the best. It is written in a uniformly beautiful hand and is very accurate. MSS. A and D were collated only for five chapters, but it was found that they did not give any independently good reading. MS. A is written shabbily and MS. D is spoiled, as many folios have stuck together, and the ink has spread. So MSS. C. B. and E alone were collated for the text.

A word of explanation is necessary for giving all the variants at the end. Practically all the variants are merely orthographical. There are hardly any variants that change the sense. That clearly shows that the traditional text has been faithfully handed down. The 'त' श्रुति, which is a characteristic of some MSS., is absent in MS. C.

N. B. Sūtras (41) and (42) on pages 50, and 51, should be numbered as (42 A), and (42 B) respectively. As the error was detected too late, it was thought advisable not to disturb the order.

There are many imperfections in the present edition. An index, for instance, is absolutely necessary for these texts. But for various reasons I could not add it to the present Volume. I intend, however, to get it published in some Journal.

## ॥ नायाधम्मकहाओ ॥

ॐ नमः सर्वज्ञाय ।

- (1) तेण कालेण तेण समएण चंपा नामं नयरी होत्था । वणओ ।  
(2) तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरात्थमे दिसीभाए पुण्ड-  
भद्रे नामं चेइए होत्था । वणओ ।  
(3) तथ णं चंपाए नयरीए कोणिए नामं राया होत्था । वणओ ।  
(4) तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स अंते-  
वासी अज्जुहम्मे नामं थेरे जाइसंपन्ने कुलसंपन्ने बलूरुवविणयनाण-  
दंसणचरित्तालाघवसंपन्ने ओयंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी जियकोहे  
जियमाणे जियमाए जियलोहे<sup>३</sup> जिइंदिए जियनिहे जियपरीसहे  
जीवियासामरणभयाविष्पमुके तवप्पहाणे गुणप्पहाणे एवं चरणकरण-  
निग्गहनिच्छयअज्जवमदवलाघवखंतिगुत्तिविज्ञामंतबंभवयनयनि-  
यमसञ्चसोयनाणदंसणचारित्तप्पहाणे उराले घोरे घोरव्वए घोरतवस्सी  
घोरवंभचेरवासी उच्छृद्धसरीरे संखित्तविउलतेउझेसे चोहसपुव्वी चउ-  
नाणोवगए<sup>१</sup> पंचाहिं अणगारसएहिं सद्धिं संपरिवुडे पुव्वाणुपुर्विंव चर-  
माणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे सुहंसुहेण विहरमाणे जेणेव चंपा नयरी<sup>२</sup>  
जेणेव पुण्डभद्रे चेइए तेणामेव उवागच्छइ २ ता अहापडिरुवं उगाहं  
ओगिणहत्ता संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।

- (5) तए णं चंपाए नयरीए परिसा निगया । कोणिओ निगओ । धम्मो  
कहिओ । परिसा जामेव दिसिं पाउभूया तामेव दिसिं पडिगया । तेण  
कालेण तेण समएण अज्जसुहम्मस्स अणगारस्स जेडे अंतेवासी अज्ज-  
जंबू नामं अणगारे कासवगोत्तेणं सञ्जुस्सेहे जाव अज्जसुहम्मस्स थेरस्स  
अदूरसामंते उडुंजाणू अहोसिरे ज्ञाणकोटोवगए संजमेण तवसा  
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं से अज्जजंबूनामे जायसडे जाय-

संसए जायकोउहले संजायसडै संजायसंसए संजायकोउहले उप्पन्नसडै उप्पन्नसंसए उप्पन्नकोउहले समुप्पन्नसडै समुप्पन्नसंसए समुप्पन्नकोउ-  
हले उट्टाए उट्टेइ २ जेणामेव अज्जसुहम्मे थेरे तेणामेव उवागच्छइ २ अज्जसुहम्मे थेरे तिकखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ बंदइ नमंसइ २ अज्जसुहम्मस्स थेरस्स नच्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभि-  
मुहे पंजलिउडे विणएणं पञ्जुवासमाणे एवं वयासी—जइ णं भंते ! सम-  
णेणं भगवया महावीरेण आईगरेण तित्थगरेण सयंसंबुद्धेण पुरिसुत्त-  
मेण पुरिससीहिणं पुरिसवग्धेण पुरिसवरगंधहात्थिणा लोगुत्तमेण लोगना-  
हेण लोगाहिएणं लोगपर्द्वेण लोगपञ्जोयगरेण अभयदएणं सरणदएणं  
चक्खुदएणं मगदएणं बोहिदएणं धम्मदएणं धम्मदेसगेणं धम्मनायगेणं  
धम्मसारहिणा धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टिणा अप्पडिहयवरनाणदंसणधरेण  
वियद्वृज्जमेणं जिणेणं<sup>५</sup> जाणएणं तिणेणं तारएणं बुद्धेणं बोहएणं मुत्तेणं  
मोयगेणं सठ्वणेणं सठ्वदरसिणा सिवमयलमरुयमणंतमक्खयमव्वाबा-  
हमपुणरावत्तियं सासयं ठाणमुवगएणं पंचमस्स अंगस्स अयमट्टे  
पन्त्रत्ते, छट्टस्स णं भंते ! नायाधम्मकहाणं के अट्टे पन्त्रत्ते ? जंबूति  
अज्जसुहम्मे थेरे अज्जजंबूनामं अणगारं एवं वयासी—एवं खलु  
जंबू समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं छट्टस्स अंगस्स दो  
सुयक्खंधा पन्त्रत्ता, तंजहा— नायाणि य धम्मकहाओ य । जइ णं भंते !  
समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं छट्टस्स अंगस्स दो सुय-  
क्खंधा पन्त्रत्ता तंजहा — नायाणि य धम्मकहाओ य, पढमस्सणं भंते !  
मुर्यक्खंधस्स समणेणं जाव संपत्तेणं नायाणं कइ अज्जयणा पन्त्रत्ता ?  
एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं नायाणं एगूणवीसं अज्जयणा  
पन्त्रत्ता, तंजहा - उक्खित्तणाए संघाडे अंडे कुम्मे यं सेलगे । तुवे यं रोहिणी  
मल्ली मायंदी चंदिमा इ य ॥१॥ दावहवे उदगणाए मंडुके तेयली वि  
य । नंदीफले अवरकंका आइन्ने सुंसुमा इ य ॥२॥ अवरे थीं पुंडरीए  
नायए एगूणवीसइमे ।

(6) जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं नायाणं एगूणवीसं

अज्ञयणा पन्नता, तंजहा—उक्खित्तणाए जाव पुँडरीए त्ति<sup>१</sup> य, पढमस्स णं भंते ! अज्ञयणस्स के अट्टे पन्नते ? एवं खलु जंबू ! तेण कालेण २ इहेव जंबुदीवे दीवे भारहे वासे दाहिणद्वभरहे रायगिहे<sup>२</sup> नामं नैयरे होतथा । वण्णओ । गुणसिलए चेइए । वण्णओ । तत्थ णं रायगिहे नयरे सेणिए नामं राया होतथा । वण्णओ । तस्स णं सेणियस्स रन्नो नंदा नामं देवी होतथा सुकुमालैपाणिपाया । वण्णओ ।

(7) तस्स णं सेणियस्स पुत्ते नंदाए देवीए अत्तए अभए नामं कुमारे होतथा अहीण जाव सुरुवे सामदंडभेयउवप्पयाणनीइसुपउत्तनय-विहिन्नू ईहापोहमगणगवेसणअत्थसत्थमइविसारए उपत्तियाए वेण-इयाए कस्मियाए पारिणामियाए चौउठिवहाए बुद्धीए उववेए सेणियस्स रन्नो बहुसु कज्जेसु य कुङ्बेसु य मंतेसु य गुज्जेसु य रहस्सेसु य निच्छ्लेसु य आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे मेढी पमाणं आहारे आलं-वणं चक्कवू मेढीभूए पमाणभूए आहारभूए आलंबणभूए चक्कवूभूए सठ्वकज्जेसु सठ्वभूमियासु लद्धपञ्चए विइणीवियारे रज्जधुरचिंतए यावि होतथा । सेणियस्स रन्नो रज्जं च रट्ठं च कोसं च कोट्टागारं च बलं च वाहणं च पुरं च अंतेउरं च सयमेव समुपेक्खमाणे २ विहरइ ।

(8) तस्स णं सेणियस्स रन्नो धारिणी नामं देवी होतथा जाव सेणि-यस्स रन्नो इट्टा जाव विहरइ ।

(9) तए णं सा धारिणी देवी अन्रया कयाइ तंसि तारिस-गंसि छक्कट्टगलट्टमट्टसंठियखंभुगगयपवरवरसालभंजियउज्जलमाणिकणग-रयणथूभियविडंकजालद्वचंदनिज्जूहकंतरकणयालिचंदसालियाविभैत्ति-कलिए सरसच्छधाऊवलवण्णरइए बाहिरओ दूमियघट्टमट्टे अबिंभत-रओ पसत्तेसुविलिहियचित्तकम्मे नाणाविहपंचवण्णमणिरयणकोट्टिमतले पउमैलयाफुलवलिवरपुफ्फजाइउलोयचित्तियतले चंद्रेणवरकणगकलस-सुणिम्मियपडिपुज्जियसरसपउमसोहंतदारभाए पयरगलंबंतमाणिमुत्तदा-मसुविरइयदारसोहे सुगंधवरकुसुममउपम्हलसयणोवयारमणहियच-निवुइयरे कप्पूरलवंगमलयचंदणकालागरुपवरकुंदुरुक्तुरुक्त्यूवडज्जंत-

सुरभिमधमधंतगंधुद्युयाभिरामे सुंगंधवरगंधिए गंधवट्टभूए मणि-  
किरणपणासियंधयारे । किंबहुणा ? जुइगुणेहि सुरवरविमाणवेलंबवर-  
घरए तंसि तारिसगंसि सयणिज्जांसि सालिंगणवट्टै उभओ विब्बोयणे  
दुहओ उन्नए मज्जे णयगंभीरे गंगापुलिणवालुयाउहालसालिसए  
डयचियखोमदुगुलपट्टपडिच्छायणे अत्थरयमलयनवतयकुसत्तलिंबसीह-  
केसरपच्चुत्थए सुविरइयरयत्ताणे रत्तसुयसंबुए सुरम्मे आइणगरूय-  
धूरनवणीयतुलफासे पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि सुत्तजागरा ओहीर-  
माणी २ एं महं सत्तुस्सेहं रययकूडसंत्रिहै नह्यलंसि सोमं सोमा-  
गारं लीलायंतं जंभायमाणं मुहमइगयं गयं पासित्ता णं पडिबुद्धा ।  
तए णं सा धारिणी देवी अयमेयारूवं उरालं कलाणं सिवं धन्नं  
मंगलं सस्सरीयं महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुद्धा समाणी हट्टुद्वा  
चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण-  
हियया धाराह्यकंलंबपुष्फगं पिव समूससियरोमकूवा तं सुमिणं ओ-  
गिणहै २ सयणिज्जाओ उट्टेहै २ पायपीढाओ पच्चोरुहै २ त्ता अतुरिय-  
मचबलमसंभंताए अविलंवियाए रायहंससारिसीए गईए जेणामेव  
से सेणिए राया तेणामेव उवागच्छहै २ त्ता सेणियं रायं ताहिं इट्टाहिं  
कंताहिं पियाहिं मणुन्नाहिं मणामाहिं उगलाहिं कलाणाहिं सिवाहिं  
धन्नाहिं मंगलाहिं सस्सरीयाहिं हिययगमणिज्जाहिं हिययपल्हाय-  
णिज्जाहिं मियमहुररिभियगंभीरंससिंरीयाहिं गिराहिं संलवमाणी २  
पडिबोहै २ त्ता सेणिएणं रन्ना अद्भुतुन्नाया समाणी नाणामणिकणग-  
रयणभत्तिचित्तांसि भहासणांसि निसीयहै २ त्ता आसत्था वीसत्था सुहा-  
सणवरगया करयलपरिगगहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु सेणियं  
रायं एवं वयासी—एवं खलु अहं देवाणुपिया ! अज्ज तांसि तारिस-  
गंसि सयणिज्जांसि सालिंगणवट्टै जाव नियगवयणमइवयंतं गयं  
सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा । तं एयस्स णं देवाणुपिया ! उरालस्स  
जावं सुमिणस्स के मन्ने कलाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सहै ।

(10) तए णं से सेणिए राया धारिणीए देवीए अंतिए एयमट्टुं सोचा

निसम्म हट्ट जाव हियए धाराहयनीवसुरभिकुसुमचंचुमालहयतणुऊस-  
वियरोमकूवे तं सुमिणं उगिण्हइ २ चा ईं पविसैइ २ अप्पणो साभा-  
विएणं मद्दपुब्बएणं बुद्धिविश्वाणेणं तस्स सुमिणस्स अत्थोगगहं करेइ २ चा  
धारिणं देविं ताहिं जाव हिययपलहायणिज्जाहिं मियंमहुररिभिय-  
गंभीरससिसरीयाहिं वगूहिं अणुवूहेमाणे २ एवं वयासी-उराले णं  
तुमे देवाणुपिए ! सुमिणे दिट्ठे । कलाणे णं तुमे देवाणुपिए सुमिणे  
दिट्ठे । सिवे<sup>१</sup> धन्ने मंगळे ससिसरीए णं तुमे देवाणुपिए<sup>२</sup> सुमिणे दिट्ठे ।  
आरोगतुड्डिहाऊयकलाणमंगलकारए णं तुमे देवी<sup>३</sup> सुमिणे दिट्ठे ।  
अत्थलाभो देवाणुपिए ! पुत्तलाभो देवाणुपिए । रज्जलाभो भोग-  
सोक्खलाभो ते देवाणुपिए ! एवं खलु तुमं देवाणुपिए नवण्हं मासाणं  
बहुपडिपुण्णाणं अछट्टमाण य रौइंदियाणं वीइकंताणं अम्हं कुलकेऽं  
कुलदीवं कुलपञ्चयं कुलवांडेसंयं कुलतिलकं कुलकित्तिकरं कुलवित्तिकरं  
कुलनंदिकरं कुलजसकरं कुलाधारं कुलपायवं कुलविवद्धणकरं सुकुमाल-  
पाणिपायं जाव दारयं पयाहिसि । से वि य णं दारए उम्मुक्खवालभावे  
विन्नायंपरिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते सूरे वीरे विकंते विथिणविपुल-  
बलवाहणे रज्जवई राया भविस्सइ । तं उराले णं तुमे देवी सुमिणे  
दिट्ठे जाव आरोगतुड्डिहाऊयकलाणकारए णं तुमे देवी ! सुमिणे दिट्ठे  
ति कट्ट भुज्जो २ अणुवूहेइ ।

(11) तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रत्रा एवं वुत्ता समाणी हट्ट-  
तुट्टा जाव हियया करयलपरिगहियं जाव अंजलिं कट्टु एवं वयासी-  
एवमेयं देवाणुपिया ! तैंहमेयं अवितैंहमेयं असंदिद्धमेयं इच्छियमेयं  
पडिच्छियमेयं इच्छियपडिच्छियमेयं सच्चे णं एसमट्टे जं तुव्वमे  
वयहै ति कट्ट तं सुमिणं सम्मं पडिच्छइ २ चा सेणिएणं रत्रा  
अबमणुत्राया समाणी नाणामणिकणगरयणभत्तिचित्ताओ भद्रासणाओ  
अब्मुट्टेइ २ चा जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ २ चा सयांसि  
सयणिज्जांसि निसीयइ २ चा एवं वयासी-मा मे|से उत्तमे पहाणे  
मंगळे सुमिणे अनेहिं पावसुमिणेहिं पडिहम्माहिति कट्ट देवयगुरुजण-

संबद्धाहिं पसत्थाहिं धन्मियाहिं कहाहिं सुमिणजागरियं पडिजागर-  
माणी विहरइ ।

(12) तए ण से सेणिए राया पच्चूसकालसमयांसि कोडुंबियपुरिसे  
सहावेइ २ त्ता एवं वयासी—स्विप्पामेव भो देवाणुपिया ! बाहिरियं  
उवट्टाणसालं अज्ज सविसेसं परमरम्मं गंधोदगसित्तसुइयसंमज्जिओब-  
लित्तं पंचवण्णसरसमुभिमुक्षुपुंजोवयारकलियं कालांगैरपवरकुंदु-  
रुक्तुहक्खूवड्जश्चत्तमधमधेतगंधुद्धुयाभिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवट्टिभूयं  
करेह कारवेह य २ एयमाणन्तियं पच्चपिणह । तए ण ते कोडुंबिय-  
पुरिसा सेणिएण रत्ना एवं वुत्ता समाणा हट्टतुद्वा जाव पच्चपिणंति ।  
तए ण से सेणिए राया कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए फुल्लुप्पलकमलकोमलु-  
म्मिलियंमि अहापंडुरे पभाए रत्नासोगप्पगासकिसुयसुयमुहुगुंजङ्घवंधु-  
जीवगपारावयचलणनयणपरहुयसुरत्तलोयणजासुमणकुसुमजलियजलण-  
तवणिज्जकलसहिंगुलयनिगररुवाइरेगरेहन्तसस्सिरीए दिवायरे अह-  
कमेण उदिए तस्स दिणकरकरपरंपरावयारपारद्वंमि अंधयारे बालायव-  
कुंकुमेण खईयव जीवलोए लोयणविसयाणुयासविगसंतविसद-  
दंसियंमि लोए कमलांगैरसंडबोहए उट्टियंमि सूरे सहस्सरस्सिमि दिण-  
यरे तेयसा जलंते सयणिज्जाओ उट्टेइ २ त्ता जेणेव अट्टणसाला तेणेव  
उवागच्छइ अट्टणसालं अणुपविसइ अणेगवायामजोगवगणवामदण-  
महजुङ्घकरणेहिं संते परिस्संते सयपागसहस्सपागेहिं सुगंधवरतेल्ल-  
माईएहिं पीणणिज्जेहिं दीवणिज्जेहिं दप्पणिज्जेहिं भृयणिज्जेहिं बिई-  
णिज्जेहिं सविवदियगायपलहायणिज्जेहिं अबभंगैएहिं अबभंगिएै समाणे  
तेल्लचम्मांसि पडिपुण्णपाणिपायसुकुमालकोमलतलेहिं पुरिसेहिं छेएहिं  
दक्खेहिं धैट्टेहिं कुसलेहिं मेहावीहिं निउणेहिं निउणसिप्पोवगणेहिं  
जियपरिस्समेहिं अ३८भंगणपरिमहणुवलणकरणगुणनिम्माँएहिं अट्टि-  
सुहाए मंससुहाए तयासुहाए रोमसुहाए चौउविवहाए संवाहणाए सं-  
वाहिए समाणे अवगयपरिस्समे नरिदे अट्टैसालाओ पडिनिकखमइ २  
जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मज्जणघरं अणुपविसइ

२ ता समत्तजालाभिरामे विचित्तमणिरथणकोट्रिमतले रमणिज्जे ष्हाणमंडवंसि नाणामणिरथणभत्तिचित्तंसि ष्हाणपीढंसि सुहनिसणे सुहोदगेहिं पुष्कोदएहिं गंधोदएदिं सुद्धोदएहिं य पुणो पुणो कल्लाणग-पवरमज्जणविहीए मज्जिए तथ कोउयसएहिं बहुविहोहिं कल्लाणगपवर-मज्जणावसाणे पम्हलसुकुमालगंधकासायलूहियंगे अहयसुमहग्घदूसरथण-सुसंवुप सरससुरभिगोसीसचंदणाणुलित्तगते सुइमालावणगाविलेवणे आविद्धमणिसुवणे कपियहारद्धहारतिसरथपालंबपलंबमाणकडिसुत्तसु-कयसोहे पिणिद्धेगेविज्जे अंगुलेज्जगलालियंगयलियकयाभरणे नाना-मणिकडगतुद्यथंभियभुए अहियरूवसस्सिरीए कुंडलुज्जोइयाणे मउडं-दित्तसिरए हारोत्थयसुकयरहयवच्छे पालंबपलंबमाणसुकयपडउत्तरिज्जे मुहियापिंगलंगुलीए नाणामणिकणगरथणविमलमहरिहनिउणोवियमिसि-मिसंतैविरइयसुसिलिट्टविसिहुलहुसंठियपसत्थआविद्धवीरवलए, किं बहुणा ? कपपरुक्खए चेव सुअलंकियविभूसिए नरिदे सकोरंटमङ्ग-दामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण चौउचामरवालवीइयंगे मंगलज्जयसह-कयालोए अणेगगणनायगदंडनायगराईसरतलवरमाडंवियकोडुंवियमंति-महामंतिगणगदोवारियअमच्चवेडपीढमदनगरनिगमसेडिसेणावइसत्थ-वाहदूयसंधिवालंसद्विं संपरिद्धुडे धबलमहामेहनिगंए विः गहगण-दिप्पंतरिक्खतारागणाण मज्जे ससि व्व पियदंसणे नरवई मज्जण-घराओ पडिनिक्खमइ २ ता जेणेव बाहिरिया उवटाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सञ्जिसणे । तए णं से सेणिए राया अपणो अदूरसामंते उत्तरपुरात्थमे दिसीभाएँ अड भदासणाइं सेयवत्थपच्चत्थुयाइं सिद्धत्थमंगलोवयारकयसंतिकम्माइं रयावेइ २ ता नाणामणिरथणमांडियं अहियपेच्छणिज्जरुवं महग्घवर-पट्टणुग्गयं सण्हबहुभत्तिसयचित्तठाणं ईहामियउसभतुरयनरमगरविहग-वालगकिनररुहसरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभत्तिचित्तं सुखचिय-वरकणगपवरपेरंतदेसभागं अडिभतरियं जवणियं अंछावेइ २ ता अस्थरगम्भेच्छमसूरगउच्छइयं धबलवत्थपच्चत्थुयं विसिद्धं अंगसुह-

फासयं सुमउयं धारिणीए देवीए भद्रासणं रथावेइ २ त्ता कोडुंबिय-  
पुरिसे सहावेइ २ त्ता एवं वयासी—खिप्पामेकभो देवाणुपिया ! अटुंग-  
महानिमित्तसुचत्यपाढए विविहस्तथकुसले सुमिंगपाढए सहावेह २  
त्ता एयमाणत्तियं खिप्पामेव पच्चपिणह । तए णं ते कोडुंबियपुरिसा  
सेणिएणं रत्रा एवं वुत्ता समाणा हठ जाव हियया करयलपरिगगहियं  
दसनहं सिरसावतं मत्थए अंजलि कटु एवं देवो तह त्ति आणाए  
विणएणं वयणं पडिसुरेति सेणियस्स रत्रो अंतियाओ पडिनिकखमंति  
२ त्ता रायगिहस्स नगरस्स मज्जंमज्जेणं जेणेव सुमिणपाढगगिहाणि  
तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सुमिणपाढए सहावेति । तए णं ते सुमिण-  
पाढगा सेणियस्स रत्रो कोडुंबियपुरिसेहं सहाविया समाणा हठ जाव  
हियया एहाया कयबलिकम्मा जाव पायचिछत्ता अप्पमहगवाभरणालं-  
कियसरीरा हरियालियसिद्धत्थयकयमुद्धाणा सएहिं सएहिं गिहेहितो  
पडिनिकखमंति रायगिहस्स नगरस्स मज्जंमज्जेणं जेणेव सेणियस्स  
भवणवडेसगदुवारे तेणेव उवागच्छंति २ एगयओ मिळायंति २ सेणि-  
यस्स रत्रो भवणवडेसगदुवारेण अणुप्पविसंति २ त्ता जेणेव बाहिरिया  
उवद्धाणसाला जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सेणियं  
रायं जएणं विजएणं वद्धावेति, सेणिएणं रत्रा अच्चियवंदियपूह्य-  
माणियसकारियसम्माणिया समाणा पत्तेयं २ पुववन्नत्येसु भद्रासणेसु  
निसीयंति । तए णं सेणिए राया जवगियंतरियं धारिणं देविं ठवेइ  
२ त्ता पुफ्फलपडिपुणहत्ये परेणं विणएणं ते सुमिणपाढए एवं  
वयासी—एवं खलु देवाणुपिया ! धारिणी देवी अज्ज तंसि तारिसगंसि  
सयणिज्जंसि जाव महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुद्धा । तं एयस्स णं  
देवाणुपिया ! उरालस्स जाव सस्तरीयस्स महासुमिणस्स के मन्ने  
कळाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ । तए णं ते सुमिणपाढगा सेणियस्स  
रत्रो अंतिए एयमठं सोड्वा निसम्म हठ जाव हियया तं सुमिणं सम्म  
ओगिणहंति २ ईहं अणुप्पविसंति २ अन्नमन्नेण सँद्धि संचालेति २ त्ता  
तस्स सुमिणस्स लद्धड्वा गहियड्वा पुच्छियड्वा विणिच्छियड्वा

अभिगयद्वा सेणियस्स रन्नो पुरओ सुमिणसत्थाइं उच्चारेमाणा  
 एवं वयासी—एवं खलु० अम्हं सामी ! सुमिणसत्थंसि बायालीसं  
 सुमिणा तीसं महासुमिणा बावत्तरि सव्वसुमिणा दिट्ठा । तथं णं सामी !  
 अरहंतमायरो वा चक्रवट्टिमायरो वा अरहंतंसि वा चक्रवट्टिंसि वा  
 गढं वक्कममाणंसि एएसि तीसाए महासुमिणाणं इमे चोहस महासुमिणे  
 पासित्ता णं पडिबुज्जंति तं जहा—गयवंसहसीहअभिसेयदामससिद्धियरं  
 झयं कुंभं । पउमसरसागरविमाणभवंणरयणुच्य सिहिं च ॥१॥ वासुदेव-  
 मायरो वा वासुदेवंसि गढं वक्कममाणंसि एएसि चोहसणं महासुमिणाणं  
 अन्नयरे सर्तं महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुज्जंति । बलदेवमायरो  
 वा बलदेवंसि गढं वक्कममाणंसि एएसि चोहसणं महासुमिणाणं  
 अन्नयरे चत्तारि महासुविणे पासित्ता णं पडिबुज्जंति । मंडलियमायरो वा  
 मंडलियंसि गढं वक्कममाणंसि एएसि चोहसणं महासुमिणाणं अन्नयरं  
 महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुज्जंति । इमे य सामी धारिणीए देवीए  
 ऐगे महासुमिणे दिट्ठे । तं उराले णं सामी ! धारिणीए देवीए सुमिणे दिट्ठे  
 जाव आरोगतुठिदीहाउकल्लाणमंगल्कारए णं सामी ! धारिणीए देवीए  
 सुमिणे दिट्ठे । अत्थलाभो सामी ! सोक्खलाभो सामी ! भोगलाभो सामी !  
 पुत्तलाभो० रज्जलाभो० । एवं खलु सामी ! धारिणीदेवी नवणं मासाणं  
 बहुपडिपुण्णाणं जाव दारगं पैयाहिई । से वि य णं दारए उम्मुक्कबालभावे  
 विन्नायपरिणायमित्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते सूरे वीरे विक्केते० वितिथणविउँ-  
 बलवाहणे रज्जवई राया भाविस्सइ अणगारे वा भावियप्पा । तं उराले णं  
 सामी ! धारिणीए देवीए सुमिणे दिट्ठे जाव आरोगतुठि जाव दिट्ठे  
 च्चिकट्टु भुज्जो० २ अणुवृहौति । तए णं सेणिए राया तोसिं सुमिणपाढ-  
 गाणं अंतिए एयमडुं सोष्ठा निसम्म हट्ट जाव हियए करयल जाव एवं  
 वयासी—एवमेयं देवाणुपिप्या ! जाव जं णं तुव्वे वयहै च्चिकट्टु तं  
 सुमिणं सम्मं संपैडिच्छइ० २ ते सुमिणपाढए विपुलेणं असणपाणखाइम-  
 साइमेणं वत्थगंधमझालंकारेण य सक्कारेइ० सम्माणेइ० विपुलं जीवियारिहं  
 पीइदाणं दलयइ० पडिविसज्जेइ० । तए णं से सेणिए राया सीहासणाओ

अबुष्ट्रेइ २ ता जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छइ २ ता धारिणि देवि एवं वयासी—एवं खलु देवाणुपिए सुमिणसत्थंसि<sup>१७</sup> बायालीसं सुमिणा जाव एगं महासुमिणं जाव भुज्जो २ अणुवूहेइ । तए णं सा धारिणीदेवी सेणियस्स रन्नो अंतिए एयमटुं सोच्चा निसम्म हट्ट जाव हियया तं सुमिणं सम्म पडिच्छइ २ जेणेव सए वासघरे तेणेव उवागच्छइ २ एहाया कयबलिकम्मा जाव विपुलाइ जाव विहरइ ।

(13) तए णं तीसे धारिणीए देवीए दोसु मासेसु वीइकंतसु तैइए मासे बट्टमाणे तस्स गवभस्स दोहैलकालसमयंसि अयमेयारुवे अकाल-मेहेसु ‘दोहले पाउभभवित्था — धन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ सपुण्णाओ ताओ अम्मयाओ कयत्थाओ कयपुण्णाओ कयलक्खणाओ कयविहवाओ सुलद्वे णं तासि माणुस्सए जम्मजीवियफले जाओ णं मेहेसुं अबुर्मगएसु अबुज्जजएसु अबुन्नाएसु अबुष्ट्रिएसु सगज्जिएसु सविज्जुएसु सफुसिएसु सथणिएसु धंतधोयरुपपट्टांकसंखचंदकुंदसालि-पिट्टरासिसमप्पभेसु चिकुरहरियालभेयचंपगसणकोरंटसरिसवपउमरय-समप्पभेसु लक्खारससरसरत्तकिंसुयजासुमणरत्तंधुजीवगजाइहिंगुल्य-सरसकुंकुमउरब्भससरसहिरइंदगोवगसमप्पभेसु बरहिणनीलगुलियासु<sup>१८</sup> गुंगचा-सपिच्छभिंगभेयरिट्टगभमरावलिगवलगुलियकज्जलसमप्पभेसु जच्छजणभिंगभेयरिट्टगभमरावलिगवलगुलियकज्जलसमप्पभेसु फुरंत-विज्जुयसगज्जिएसु वायवसविपुलगणचवलपरिसंक्रियेसु निम्मलवरवारि-धारापयलियपयंडमारुयसमाहयसमोत्थरंतउवरितुरियवासं पवासि-एसु धारापहकरनिवायनिवाविय<sup>१९</sup> मेइणितले हरियगगणकंचुए पलविय पायवगणेसु खैलिवियाणेसु पसरिएसु उन्नएसु सोहगमुवागएसु वेभार-गिरिर्पंवायतडकडैगविमुक्षेसु उज्ज्वरेसु तुरियपहावियपलोट्टफेणाउलं सकलुसं जलं वहंतीसु गिरिनईसु सज्जज्जुणनीखैकुडयकंदलसिलिंध-कलिएसु उववणेसु मेहरसियहट्टुट्टचिट्टियहरिसवसपभुक्कंठकेकारवं मुयंतेसु बरहिणेसु उजवसमयजणियतरुणसहयरिपणाच्चिएसु नवसुरभि-सिलिंधकुडयैकंदलकलंबगंधद्विणि मुयंतेसु उववणेसु परहुयरैयारिभिय-

संकुलेसु उद्दाइंतरत्तैइंद्रगोवयथोवयकारुण्णाविलविएसु उन्नेयतणमंडिएसु  
दहुरपयंपिएसु संपिंडियदरियभमरमहुयरिपहकरपरिलिंतमत्तछप्पयकुसुमा-  
सवलोलमहुरगुंजंतदेसभाएसु उववणेसु परिसामियचंदसूरगहगणपणहु-  
नक्खत्ततारांगपहे इंद्राउहर्बद्धविधपट्टमि अंबरतले उड्हीणर्बलागपंतिसोहंत-  
मेहवन्दे कारंडगचक्कवायकलहंसउसुयकरे संपत्ते पाँसंमि काले एहायाओ  
कयबलिकम्माओ कयकोउयमंगलपायच्छत्ताओ किं' ते वरपायपत्तनेउर-  
मणिमेहलहारंरइयउवचियकडगखुङ्यविचित्तवरवलयथंभियभुयाओ कुंड-  
लउज्जोवियाणणाओ र्यणभूसियंगीओ नासानीसासवायवोज्जं चक्खु-  
हरं वणफरिसंजुत्तं हयलालापेलवाइरेयं धवलकणयखचियंतकम्मं  
आगासफलिहसरिसप्पभं अंसुयं पवरपरिहियाओ दुगुलसुकुमालउत्तरिज्जाओ  
सव्वोउयसुरभिकुसुमपवरमल्लसोहियसिराओ कालांगरुपवरधूवधूवियाओ  
सिरीसमाणवेसाओ सेयणयगंधहत्थिरयणं दुरुद्धाओ समाणीओ सकोरंट-  
मल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं चंदप्पभवेयरवेसुलियविमलदंडसंखकुंद-  
दगरयअमयमहियफेणपुंजसत्रिगासचउचामरवालवीजियंगीओ सेणिएणं  
रञ्जा सद्धि हत्थिखंधवरगणं पिट्ठओ २ समणुगच्छमाणीओ चाउरंगिणीए  
सेणाएं महया हयाणीएणं गयाणिएणं रहाणिएणं पायत्ताणीएणं सच्चिङ्गीए  
सव्वज्जुर्झए जाव निघोसनाइयरवेणं रायगिहं नयरं सिंघाडगतिगचउक्क-  
चच्चरचउम्मुहमहापहपहेसु आसित्तसित्तसुइयसंमजिजओवालित्तं जाव  
सुगंधवरगंधियं गंधवट्टभूयं अबलोएमाणीओ नागरजणेणं अभिनंदिज्ज-  
माणीओ गुच्छलयारुक्खगुम्मवलिगुच्छोच्छाइयं सुरम्मं वेभारगिरिकडग-  
पायमूलं सव्वओ समंता आहिडेमाणीओ २ डोहलं विणयंति । तं जइ णं  
अहमवि मेहेसु अवभुगएसु जाव दोहलं विणिज्जामि ।

(14) तए णं सा धारिणी देवी तंसि डोहलंसि अविणिज्जमाणांसि  
असंपत्तदोहला असंपुण्णदोहला असंमाणियदोहला सुक्का भुक्खा निम्मंसा  
ओलुग्गा ओलुग्गसरीरा पमझलदुब्बला किलंता ओमंथियवयणनयणकमला  
पंडुइयमुही करयलमलियव्व चंपगमाला नित्तेया दीणविवणवयणा जहो-  
चियपुप्फरंधमलालंकारहारं अणभिलसमाणी कीडारमणकिरियं परिहावे-

माणी दीणा हुम्मणा निराणंदा भूमिगयदिट्टीया ओहयमणसंकप्ता जाव  
झियाइ। तए णं तीसे धारिणीए देवीए अंगपडियारियाओ अबिभतरियाओ  
दासचेडियाओ धारिणी देवीं ओलुगं जाव झियायमाणि पासंति २ एवं  
वयासी—किन्नं तुमे देवाणुपिए ! ओलुगा ओलुगसरीरा जाव झियायसि ?  
तए णं सा धारिणी देवी ताहिं अंगपडियारियाहिं अबिभतरियाहिं दास-  
चेडियाहिं य एवं बुत्ता समाणी ताओ चेडियाओ नो आढाइ नो परियाणाइ  
अणाढायमाणी अपरियाणमाणी तुसिणीया चिट्ठइ। तए णं ताओ अंगपडि-  
यारियाओ अबिभतरियाओ दासचेडीओ धारिणि देविं दोच्चं पि तच्चं पि  
एवं वयासी—किन्नं तुमे देवाणुपिए ! ओलुगा ओलुगसरीरा जाव झिया-  
यसि ? तए णं सा धारिणी देवी ताहिं अंगपडियारियाहिं अबिभतरियाहिं  
य दासचेडीहिं दोच्चं पि तच्चं पि एवं बुत्ता समाणी नो आढाइ नो  
परियाणाइ अणाढायमाणी अपरियाणमाणी तुसिणीया संचिट्ठइ। तए णं  
ताओ अंगपडियारियाओ दासचेडियाओ य धारिणीए देवीए अणाढाइज्ज-  
माणीओ अपरिजाणिज्जमाणीओ तहेव संभंताओ समाणीओ धारिणीए  
देवीए अंतियाओ पडिनिक्खमंति २ जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति२  
करयलपरिग्गहियं जाव कट्टु जएणं विजएणं वद्वावेति २ एवं वयासी—एवं  
खलु सामी ! किपि अज्ज धारिणी देवी ओलुगा ओलुगसरीरा जाव अट्ट-  
ज्ञाणोवगया झियायइ। तए णं से सोणिए राया तासिं अंगपडियारियाणं  
अंतिए एयमहुं सोच्चा निसम्म तहेव संभंते समाणे सिग्घं तुरियं<sup>१</sup> चबलं  
वेहयं जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छइ २ धारिणि देविं ओलुगं  
ओलुगसरीरं जाव अट्टज्ञाणोवगयं झियायमाणि पासइ २ एवं वयासी—  
किन्नं तुमं देवाणुपिए ! ओलुगा ओलुगसरीरा जाव अट्टज्ञाणोवगया  
झियायसि ? तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रन्ना एवं बुत्ता समाणी  
नो आढाइ जाव तुसिणीया संचिट्ठइ। तए णं सेणिए राया धारिणि देविं  
दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी—किन्नं तुमं देवाणुपिए ! ओलुगा जाव  
झियायसि ? तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रन्ना दोच्चं पि तच्चं पि  
एवं बुत्ता समाणी नो आढाइ नो परियाणाइ तुसिणीया संचिट्ठइ। तए

णं से सेणिए राया धारिणि देविं सवहसावियं करेह २ एवं वयासी— किं णं तुमं देवाणुपिष्टे ! अहमेयस्स अटुस्स अणरिहे सवणयाए तो णं तुमं ममं अयमेयारूबं मणोमाणसियं दुक्खं रहस्सीकरेसि । तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रन्ना सवहसाविया समाणी सेणियं रायं एवं वयासी—एवं खलु सामी ! मम तस्स उरालस्स जाव महासुमिणस्स तिण्हं मासाणं बहुपदिपुण्णाणं अयमेयारूबे अकालभेसु डोहले पाडब्भूए— धन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ कयत्थाओ णं ताओ अम्मयाओ जाव वेभारगिरिपायमूलं आहिंडमाणीओ दोहलं विणेंति । तं जइ णं अहमावि जाव दोहलं विणेज्जामि । तए णं हं सामी ! अयमेयारूबंसि अकाल- दोहलंसि अविणिज्जमाणंसि ओलुग्गा जाव अटुज्ज्ञाणोवगया झियायामि । तए णं हं कारणेणं सामी ! ओलुग्गा जाव झियायामि । तए णं से सेणिए राया धारिणीए देवीए अंतिए एयमठुं सोच्चा निसम्म धारिणीं देवीं एवं वयासी—मा णं तुमं देवाणुपिष्टे ! ओलुग्गा जाव झियाहि । अहं णं तहा करिस्सामि जहा णं तुमं अयमेयारूबस्स अकालदोहलस्स मणोरह- संपत्ती भविस्सइ त्तिकट्ठु धारिणीं देवीं इट्टाहिं कंताहिं पियाहिं मणु- न्नाहिं मणामाहिं वग्गूहिं समासासेइ २ जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ सीहासणवरगए पुरथाभिमुहे सञ्जिसणे धारिणीए देवीए एयं अकालडोहलं बहूहिं आएहि य उवाएहि य उप्पत्तियाहि य वेणह्याहि य कम्मियाहि य पारिणामियाहि य चउठिवैहाहिं बुद्धीहिं<sup>३</sup> अणुचितेमाणे २ तस्स दोहलस्स आयं वा उवायं वा ठिंहं वा उप्पत्ति वा अविंदमाणे ओहयमणसंकष्टे जाव झियायइ ।

(15) तयाणंतरं च णं अभए कुमारे ण्हाए कयबलिकम्मे जाव सव्वालं- कारविभूसिए पायत्रंदए पहारेत्थ गमणाए । तए णं से अभयकुमारे जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ सेणियं रायं ओहयमणसंकष्टं जाव झियायमाणं पासइ अयमेयारूबे अज्जस्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगणे संकष्टे समुप्पज्जित्था — अन्नया ममं सेणिए राया एज्ज- माणं पासित्ता आढाइ परियाणाइ सक्कारेइ सम्माणेइ आलवइ संलवइ

अद्वासणेण उवनिमंतेइ मत्थयंसि अग्धाइ । इयाणि मम सेणिए राया नो आढाइ नो परियाणइ नो सक्कारेइ नो सम्माणेइ नो इट्टाहिं कंताहिं पियाहिं मणुन्नाहिं ओरालाहिं वगूहिं आलवइ संलवइ नो अद्वासणेण उवनिमंतेइ नो मत्थयंसि अग्धायइ किं पि ओहयमणसंकप्ते श्नियायह । तं भवियव्वं णं एत्थ कारणेण । तं सेयं खलु मम सेणियं रायं एय-मटुं पुच्छित्तए । एवं संपेहेइ २ जेणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छइ २ करयलपरिगहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटु जएणं विजएणं बद्धावेइ २ एवं वयासी – तुब्भे णं ताओ ! अन्नया मम एज्जमाणं पासित्ता आढाह परियाणह जाव मत्थयंसि अग्धायह आसणेण उवनिमंतेह । इयाणि ताओ ! तुब्भे मम नो आढाह जाव नो आसणेण उवनिमंतेह किं पि ओहयमणसंकप्ता जाव श्नियायह । तं भवियव्वं ताओ एत्थ कारणेण । तओ तुब्भे मम ताओ एयं कारणं अग्हौमाणा असंकमाणा अनिण्हवेमाणा अपच्छाएमाणा जहाभूयम-वितहमसंदिद्धं एयमटुं आइकखह । तए णं अहं तस्स कारणस्स अंत-गमणं गमिस्सामि । तए णं से सेणिए राया अभएणं कुमारेणं एवं बुन्ने समाणे अभयं कुमारं एवं वयासी – एवं खलु पुत्ता ! तव चुलमाउयाए धारिणीदेवीए तस्स गब्भस्स दोसु मासेसु अइकंतेसु तइयमासे वट्टमाणे दोहलकालसमयांसि अयमेयारूबे दोहले पाउब्भवित्था – धन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ तहेव निरवसेसं भाणियव्वं जाव विणेति । तए णं अहं पुत्ता धारिणीए देवीए तस्स अकालदोहलस्स बहूहिं आएहि य उवाएहिं जाव उप्पत्तिं अविंदमाणे ओहयमणसंकप्ते जाव श्नियामि तुमं आगयं पि न याणामि । तं प्रएणं कारणेणं अहं पुत्ता ! ओहय जाव श्नियामि । तए णं से अभए कुमारे सेणियस्स रण्णो अंतिए एयमटुं सोच्चा निसम्म हड्ड जाव हियए सेणियं रायं एवं वयासी – मा णं तुब्भे ताओ ओहय जाव श्नियायह । अहं णं तहा करिस्सामि जहा णं मम चुलमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयारूबस्स अकालडोहलस्स मणोरहसंपत्ती भविस्सइ त्तिकटु सोणियं रायं ताहिं

इट्टाहिं कंताहिं जाव समासासेइ । तए णं सेणिए राया अभएणं कुमारेणं एवं बुत्ते समाणे हट्टुतुट्टे जाव अभयं कुमारं सक्कारेइ संमाणेइ २ पडिविसज्जेइ ।

(16) तए णं से अभए कुमारे सक्कारिए सम्माणिए पडिविसज्जिए समाणे सेणियस्स रण्णो अंतियाओ पडिनिक्खमइ २ जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ २ सीहासणे निसणे । तए णं तस्स अभय-कुमारस्स अयमेयारूबे अज्ञत्थिए जाव समुप्पजित्था – नो खलु सक्का माणुस्सएणं उवाएणं मम चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए अकालडोहल-मणोरहसंपत्ति करित्तए नन्नत्थ दिव्वेणं उवाएणं । अत्थि णं मज्ज सोहम्म-कप्पवासी पुञ्चसंगइए देवे महिड्वीए जाव महासोक्खे । तं सेयं खलु मम पोसहसालाए पोसहियस्स बंभयारिस्स उम्मुँक्कमणिसुवण्णस्स ववगय-मालावण्णगाविलेवणस्स निक्खित्तसत्थमुसलस्स एगस्स अबीयस्स दब्भसंथारोवगयस्स अट्टमभत्तं पगिष्ठित्ता पुञ्चसंगंगइयं देवं मणसीकरे-माणस्स विहरित्तए । तए णं पुञ्चसंगइए देवे मम चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयारूबं अकालमेहेसु डोहलं विणेहिइ । एवं संपेहेइ २ जेणेव पोसहसाला तेणामेव उवागच्छइ २ पोसहसालं पमज्जइ उच्चारपासवणभूमिं पडिलेहेइ २ दब्भसंथारगं दुरुहइ २ अट्टमभत्तं पगिष्ठहइ २ पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी जाव पुञ्चसंगंगइयं देवं मणसीकरेमाणे २ चिढ्हइ । तए णं तस्स अभयकुमारस्स अट्टमभत्ते परिणममाणे पुञ्चसंगइयस्स देवस्स आसणं चलइ । तए णं पुञ्चसंगइए सोहम्मकप्पवासी देवे आसणं चलियं पासइ २ ओहिं पउंजइ । तए णं तस्स पुञ्चसंगइयस्स देवस्स अयमेयारूबे अज्ञत्थिए जाव समुप्पजित्था – एवं खलु मम पुञ्चसंगइए जंबुद्वीबे २ भारहे वासे दाहिणद्वृभरहे<sup>४</sup> रायगिहे नयरे पोसहसालाए पोसहिए अभए नामं कुमारे अट्टमभत्तं पगिष्ठित्ता णं मम मणसीकरे-माणे २ चिढ्हइ । तं सेयं खलु मम अभयस्स कुमारस्स अंतिए पाउ-ब्भवित्तए । एवं संपेहेइ २ उत्तरपुरात्थिमं दिसीभागं अबक्कमइ २ वेउवियसमुग्धाएणं समोहणइ २ संखेज्जाइं जोयणाइं दंडं निसिरइ ।

तंजहा—रथणाणं घयराणं वेरुलियाणं लोहियकखाणं मसारगलाणं हंस-  
गढभाणं पुलगाणं सोगंधियाणं जोईरसाणं अंकाणं अंजणाणं रथणाणं  
जायरूवाणं अंजणपुलगाणं फलिहाणं रिट्राणं अहाबायरे पोगगले परि-  
साडेइ अहासुहुमे पोगगले परिगिणहइ २ अभयकुमारमणुकंपमाणे देवे  
पुञ्चभवजणियनेहपीइबहुमाणजायसोगे तओ विमाणवरपुङ्डरीयाओ  
रथणुत्तमाओ धरणियलगमणतुरियसंजणियगमणपयारे वाधुणियविमल-  
कणगपयरगवडिंसगमउडउक्काढोवदंसणिज्जे अणेगमणिकणगरथण-  
पहकरपरिमंडियभत्तचित्तविणिउत्तगमंगजणियहरिसे<sup>३</sup> पेंखोलमाणवर-  
ललियकुंडलुज्जलियवयणगुणजणियसोमरूवे उदिओ विव कोमुदीनिसाए  
सणिच्छरंगारकुज्जलियमज्ज्ञभागत्थे नयणाणंदे सरथचंदे दिव्वोसहिप-  
ज्जलुज्जलियदंसणाभिरामे उउलच्छसमंजायसोहे पइट्टगंधुरुद्धुयाभिरामे  
मेरुविव नगवरे वेरुविवयविचित्तवेसे दीवसमुहाणं असंखपरिमाणनाम-  
धेजाणं मज्ज्यारेण वीइवयमाणे उज्जोयंतो<sup>४</sup> पभाए विमलाए जीवलोयं<sup>५</sup>  
रायगिहं पुरंवरं च अभयस्तं पासं ओवयइ २ दिव्वरूवधारी ।

(17) तए णं से देवे अंतलिकखपडिवन्ने दसद्ववण्णाइं सखिखिणि-  
याइं पवरत्त्थाइं परिहिए । एको ताव एसो गमो । अन्नो वि गमो—  
ताए उक्किट्टाए तुरियाए चवलाए चंडाए सीहाए उद्धुयाए जयणाए  
छेयाए दिव्वाए देवगर्ईए जेणामेव जंबुहीवे २ भारहे वासे जेणामेव  
दाहिणद्वभरहे रायगिहे नयरे पोसहसाला अभए कुमारे तेणामेव उवा-  
गच्छइ २ अंतलिकखपडिवन्ने दसद्ववण्णाइं सखिखिणीयाइं पवरत्त्थाइं  
परिहिए अभयं कुमारं एवं वयासी— अहं णं देवाणुपिया ! पुञ्चसंगइए  
सोहम्मकप्पवासी देवे महडीए जं णं तुमं पोसहसालाए अट्टमभत्तं  
पंगिणिहत्ता णं ममं मणसीकरेमाणे चिट्ठसि । तं एस णं देवाणुपिया ! अहं  
इहं हव्वमागए । संदिसाहि णं देवाणुपिया ! किं करेमि कि दलामि  
किं पयच्छामि कि वा ते हियैइच्छियं । तए णं से अभए कुमारे तं  
पुञ्चसंगद्वयं देवं अंतलिकखपडिवन्ने पासइ २ हट्टुडे पोसहं पारेइ २  
करयल जाव अंजलि कट्ट एवं वयासी— एवं खलु देवाणुपिया ! मम

चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयारूवे अकालडोहळे पाढब्भै –  
धन्नाओ णं ताओ अस्मयाओ तहेव पुष्पगमेण जाव विणेज्जामि । तं णं  
तुमं देवाणुपिया मम चुल्लमाऊयाए धारिणीए देवीए अयमेयारूवं  
अकालडोहळं विणेहि । तए णं से देवे अभएणं कुमारेणं एवं बुते  
समाणे हट्टुट्टे अभयं कुमारं एवं वयासी – तुमं णं देवाणुपिया !  
सुनिव्वुयवीसित्थे अच्छाहि । अहं णं तव चुल्लमाउयाए धारिणीए  
देवीए अयमेयारूवं डोहळं विणेमि त्तिकट्टु अभयस्स कुमारस्स अंति-  
याओ पडिनिक्खमइ उत्तरपुरत्थिमे णं वेभारपव्वए वेडवियसमुग्धाएणं  
समोहण्णइ संखेज्जाइं जोयणाइं दंडं निस्सरइ जाव दोञ्चिपि वेडविय-  
समुग्धाएणं समोहणइ खिप्पामेव सगर्जैइयं सविज्जुयं सफुसियं  
पंचवण्णमेहनिणाओवसोहियं दिव्वं पाउंससिरि विउव्वइ २ जेणेव  
अभए कुमारे तेणेव उवागच्छइ २ अभयं कुमारं एवं वयासी –  
एवं खलु देवाणुपिया ! मए तव पियट्टुयाए सगज्जिया सफुसिया  
सविज्जुया दिव्वा पाउंससिरि विउविया । तं विणेऽ णं देवाणुपिया  
तव चुल्लमाऊया धारिणीदेवी अयमेयारूवं अकालमेहडोहळं । तए णं से  
अभए कुमारे तस्स पुव्वसंगइयस्स सोहम्मकप्पवासिस्स देवस्स अंतिए  
एयमट्टं सोच्चा निसम्म हट्टुट्टे सयाओ भवणाओ पडिनिक्खमइ २  
जेणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छइ करयल जाव अंजलिं कट्टु  
एवं वयासी – एवं खलु ताओ ! मम पुव्वसंगइएण सोहम्मकप्पवासिणा  
देवेणं खिप्पामेव सगज्जियसविज्जुयपंचवण्णमेहनिणाओवसोभिया  
दिव्वा पाउंससिरि विउविया । तं विणेऽ णं मम चुल्लमाऊया  
धारिणी देवी अकालडोहळं । तए णं से सेणिए राया अभयस्स  
कुमारस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म हट्टुट्ट कोहुंब्रियंपुरिसे  
सदावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवाणुपिया ! रायगिहं  
नगरं सिंघाडगतिगच्छक्कचक्कर आसित्तसित्त जाव सुगंधवरगंधियं  
गंधवट्टिभूयं करेह य कारवेह य एँयमाणत्तियं पच्चपिणह । तए  
णं ते कोहुंब्रियपुरिसा जाव पच्चपिणंति । तए णं से सेणिए राया

दोच्चंपि कोडुंवियपुरिसे सहावेह २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवाणुपिया ! हयगयरहजोहपवरकलियं चाउरंगिणि सेणं सन्नाहेह-सेयणयं च गंधहत्थि परिकप्पेह । तेवि तहेव जाव पच्चपिणंति । तए णं से सेणिए राया जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छइ २ धारिणि देविं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिए ! सगज्जिया जाव पाउससिरी पाडब्बूया । तं णं तुम् देवाणुपिए ! एयं अकालदोहलं विणेहि । तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रन्ना एवं तुत्ता समाणी हट्टुढा जेणामेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ २ मज्जणघरं अणुप्प-विसह २ अंतो अंतेउरंसि ष्हाया क्यबलिकम्मा क्यकोउयमंगलपायच्छित्ता किं ते वरपायपत्तनेउर जाव आगासफालियसमप्पभं अंसुयं नियत्था सेयणयं गंधहत्थि दुरुढा समाणी अमयमहियफेणपुंजसन्निगासाहिं सेयचामरवालवीयणीहिं वीझ्जमाणी २ संपत्थियं । तए णं से सेणिए राया ष्हाए क्यबलिकम्मे जाव सस्सिरीए हत्थिखंधवरगए सकोरेंट-मल्हदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं चउचामराहिं वीझ्जमाणे धारिणीदेवीं पिढुओ अणुगच्छइ । तए णं सा धारिणीदेवी सेणिएणं रन्ना हत्थिखंध-वरगएणं पिढुओ २ समणुगम्ममाणमग्गा हयगयरहजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सद्द्वि संपरिबुडा महया भड्चडगरवंदपरिक्षित्ता सञ्चिवड्हीए सञ्चज्जुर्द्दीए जाव दुंदुभिनिग्धोसनाइयरवेणं रायगिहे नयरे सिंघाडगतिगचउक्कच्चर जाव महापहेसु नाँगरजणेणं अभिनंदिज्जमाणी २ जेणामेव वेभारगिरिपव्वए तेणामेव उवागच्छइ वेभारगिरिकडग-तडपायमूले आरामेसु य उज्जाणेसु य काणणेसु य वणेसु य वणसंडेसु य रुक्खेसु य गुच्छेसु य गुम्मेसु य लयासु य वलीसु य कंदरासु य दरीसु य चुण्डीसु य दहेसु य कच्छेसु य नरीसु य संगमेसु य विवर्णेसु य अच्छमाणी य पेच्छमाणी य मज्जमाणी य पत्ताणि य पुफ्काणि य फलाणि य पल्लवाणि य गिण्हमाणी य माणेमाणी य अग्धायमाणी य परिमुंजमाणी य परिभाईमाणी य वेभारगिरिपायमूले दोहलं विणमाणी सञ्चओ समंता आहिंडइ । तए णं सा धारिणीदेवी तंसि अकाल-

दोहलंसि विणीयंसि संमाणियदोहला विणीयदोहला संपुण्डदोहला संपन्न-  
डोहला जाया यावि होत्था । तए णं सा धारिणीदेवी सेयणयगंधहत्थि  
दूरुढा समाणी सेणिएं हत्थिवंधवरगएं पिट्ठओ २ समणुगम्ममाण-  
मग्गा हयगय जाव रवेणं जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवागच्छइ राय-  
गिहं नयरं मज्जंमज्जेणं जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ २  
विउलाइं माणुस्सगाइं भोगभोगाइं जाव विहरइ ।

(18) तए णं से अभए कुमारे जेणामेव पोसहसाला तेणामेव उवा-  
गच्छइ २ पुब्वसंगइयं देवं सक्कारेइ सम्माणेइ २ पडिविसज्जेइ ।  
तए णं से देवे सगाजियं पंचवण्णमेहोवसोहियं दिव्वं पाउससिरि  
पडिसाहरइ २ जामेव दिंसि पाउब्भूए तामेव दिंसि पडिगए ।

(19) तए णं सा धारिणी देवी तंसि अकालदोहलंसि विणीयंसि  
सम्माणियडोहला तस्स गढभस्स अणुकंपणट्टाए जयं चिट्ठइ जयं आसइ  
जयं सुवइ आहारं पि य णं आहारेमाणी नाइतित्तं नाइकडुयं नाइ-  
कसायं नाइअंविलं नाइमहुरं जं तस्स गढभस्स हियं भियं पत्थयं देसे  
य काळे य आहारं आहारेमाणी नाइचित्तं नाइसोयं नाइमोहं नाइभयं  
नाइपरित्तासं ववगयचित्तासोयमोहभयपरित्तासा उउभयमाणसुहेहिं  
भोयणच्छायणगंधमलालंकारेहिं तं गढभं सुहंसुहेणं परिवहइ ।

(20) तए णं सा धारिणी देवी नवणहं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं  
अद्धुडमाण य राइंदियाणं वीइकंताणं अद्वरत्तकालसमयंसि सुकुमालपाणि-  
पायं जाव सव्वंगसुंदरं दारगं पयाया । तए णं ताओ अंगपडियारियाओ  
धारिणि देविं नवणहं मासाणं जाव दारगं पयायं पासंति २ सिग्धं तुरियं  
चवलं वेङ्गयं जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति सेणियं रायं जएणं  
विजएणं बद्धावेंति करयलपरिगहियं सिरसावत्तं मथए अंजालि कटु एवं  
वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! धारिणीदेवी नवणहं मासाणं जाव  
दारगं पयाया ! तं णं अम्हे देवाणुपियाणं पियं निवेएमो पियं भे भवउ ।  
तए णं से सेणिए राया तासिं अंगपडियारियाणं अंतिए एयमदुं सोच्चा  
निसम्म हट्टुडे ताओ अंगपडियारियाओ महुरोहिं वयणेहिं विउडेण

य पुष्पगंधमल्लालंकारेण सक्कारेइ सम्माणेइ २ मत्थथधोयाओ करेइ  
 पुत्ताणुपुक्तियं वित्ति कप्पेइ २ पडिविसज्जेइ । तए णं से सेणिए राया  
 पच्चूसकालसमयंसि कोङुबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी—खिप्पामेव  
 भो देवाणुपिया ! रायगिहं नगरं आसिय जाव परिगीयं करेह २ चारग-  
 परिसोहणं करेह २ माणुस्माणवद्वणं करेह २ एयमाणत्तियं पच्चपिणह  
 जाव पच्चपिणंति । तए णं से सेणिए राया अट्टारससेणिप्पसेणीओ  
 सहावेइ २ एवं वयासी—गच्छह णं तुब्बे देवाणुपिया ! रायगिहे नगरे  
 अदिंभतरबाहिरिए उस्सुक्कं उक्करं अभडप्पवेसं अबंडिमकुदंडिमं अधरिमं  
 अधारणिउजं अणुद्धयमुइंगं अमिलायमल्लदामं गणियावरनाडिज्जकलियं  
 अणेगतालायराणुचरियं पमुइयपक्कीलियाभिरामं जहारिहं ठिइबाडियं  
 वसदिवसियं करेह २ एयमाणत्तियं पच्चपिणह तेवि करेति तहेव  
 पच्चपिणंति । तए णं से सेणिए राया बाहिरियाए उवट्टाणसालाए  
 सीहासणवरगए पुरस्थाभिमुहे सन्निसण्णे सयर्पाहि य साहस्सिएहि य  
 सयसाहस्रिसएहि य जाएहि य दाएहि य भाएहि य दलयमाणे २ पडि-  
 रछेमाणे २ एवं च णं विहरइ । तए णं तस्स अन्मापियरो पढमे दिवसे  
 जायकस्मं करेति २ विइयदिवसे जागरियं करेति तइए दिवसे चंदसूर-  
 दंसाणियं करेति २ एवामेव निववत्ते असुइजायकस्मकरणे संपत्ते बारसाह-  
 दिवसे विपुलं असणपाणखाइमसाइमं उवक्खडावेति २ मित्तनाइनियग-  
 सयण संबंधिपरियणं बलं च बहवे गणनायग जाव आमंतेति तओ ण्हाया  
 कयबलिकस्मा कयकोउय जाव सञ्चालंकारविभूसिया महइमहालयंसि  
 भोयणमंडवंसि तं विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं मित्तनाइगणनायग  
 जाव सद्दिं आसाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणा परिभुंजेमाणा एवं  
 च णं विहरंति जिमियभुत्तरागयावि य णं समाणा आयंता चोक्खा  
 परमसुइभूया तं मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणं बलं च बहवे गण-  
 नायग जाव विपुलेणं पुष्पवत्थगंधमल्लालंकारेण सक्कारेति सम्माणेति २  
 एवं वयासी — जम्हा णं अम्हं इमस्स दारगस्स गबभृत्यस्स चेव समाणस्स  
 अकालमेहेसु डोहले पाउब्भूए तं होऊ णं अम्हं दारए मेहे नामेणं मेहे ।

तस्स दारगास्स अम्मापियरो अयमेयारूबं गोणं गुणनिष्कण्णं नामधेजजं करेति मेहे इ । तए णं से मेहे कुमारे पंचधाईपरिग्गहिए तंजहा — खीर-धाईए मजजनधाईए कीलावणधाईए मंडणधाईए अंकधाईए अन्नाहि य बहूहिं खुज्जाहिं चिलाइयाहिं वांमणिवडभिबच्चरिबउसिजोणियपलहवि-इसिणिधोरुणिगिणिलासियलउसियंदमिलिसिहलिआरबिपुलिदिपक्कणिवह-लिमुरंडिसबरिपारसीहिं नानादेसीहिं विदेसपरिमंडियाहिं इंगियचिंतिय-पत्थियवियाणियाहिं सदेसनेबत्थगहियवेसाहिं निउणकुसलाहिं विणीयाहिं चेडियाचक्कवालवरिसधरकंचुइज्जमहयरगवंदपरिक्षत्ते हत्थाओ हृत्थं साहंरिज्जमाणे अंकाओ अंकं परिभुज्जमाणे परिगिज्जमाणे उवलालिज्ज-माणे रम्मांसि मणिकोट्टिमतलांसि परिमिज्जमाणे २ निब्बायनिब्बाघायांसि गिरिकंदरमलीणेव चंपगपायवे सुहंसुहेणं बढ़ुइ । तए णं तस्स मेहस कुमारस्स अम्मापियरो अणुपुवेणं नामकरणं च पजेमणगं च एवं चंक-मणगं च चोलोवेणयं च महया २ इड्डीसक्कारसमुदाणं करेंसु । तए णं तं मेहं कुमारं अम्मापियरो साइरेगट्टवासजायगं चेव गबभट्टमे वासे सोह-णंसि तिहिकरणमुहुत्तांसि कलायरियस्स उवणेति । तए णं से कलायरिए मेहं कुमारं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणरुयपञ्जवसाणाओ बाव-त्तरिक्लाओ सुत्तओ य अत्थओ य करणओ य सेहावेइ सिक्खवेइ तंजहा — लेहं गणियं रूबं नद्वं गीयं वाइयं सरगयं पोक्खरगयं समतालं जूयं जणवायं पासयं अट्टावयं पोरेकच्चं दगमट्टियं अन्नविहिं पाणविहिं वत्थविहिं विलेवणविहिं सयणविहिं अजं पहेलियं मागहियं गाहं गीइयं सिलोगं हिरण्णजुत्तिं सुवण्णजुत्तिं चुण्णजुत्तिं आभरणविहिं तरुणीपडिकम्मं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्खणं ह्यलक्खणं गयलक्खणं गोणलक्खणं कुकुड-लक्खणं छत्तलक्खणं दंडलक्खणं असिलक्खणं मणिलक्खणं कागिणि-लक्खणं वथुविजं खंधारमाणं नगरमाणं वूहं पडिवूहं चारं पडिचारं चक्कवूहं गरुलवूहं सगडवूहं जुद्वं निजुद्वं जुद्वाइजुद्वं अट्टिजुद्वं मुट्टिजुद्वं बाहुजुद्वं लयाजुद्वं ईस्त्थं छरुप्पवायं धणुवेयं हिरण्णपागं सुवण्णपागं सुत्तखेडं वट्टखेडं नालियाखेडं पत्तच्छेज्जं कडंच्छेज्जं सज्जीवं निज्जीवं

सउणरुंयं ति ।

(21) तए णं से कलायरिए मेहं कुमारं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणरुंयपज्जवसाणाओ बावत्तरि कलाओ सुत्तओ य अत्थओ य करणओ य सेहावेइ २ अम्मापिऊणं उवणेइ । तए णं मेहस्स कुमारस्स अम्मा-पियरो तं कलायरियं महुरोहिं वयणेहिं विउलेणं वर्त्थगंधमलालंकरेणं सक्कारेति सम्माणेति विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दलयंति २ पडिविसज्जेति ।

(22) तए णं से मेहे कुमारे बावत्तरिकलापंडिए नवंगसुत्तपडिबोहिए अट्टारसविहिप्पिगरदेसीभासाविसारए गीयरइयगंधव्वनट्टकुसले हयजोही गयजोही रहजोही बाहुप्पमही अलंभोगसमत्थे साहसिए वियालचारी जाए यावि होत्था ।

(23) तए णं तस्स मेहकुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं बावत्तरि-कलापंडियं जाव वियालचारीं जायं पासंति २ अट्ट पासायवडिंसए कारेति अब्मुगग्यमूसियपहसिए विव मणिकणगरयणभत्तिचित्ते वाउधुय-विजयवेजयंतीपडागाछत्ताइच्छत्तकलिए तुंगे गगणतलमभिलंघमाणसिहरे जालंतररयणपंजरुमिलिएव मणिकणगथूभियाए वियसियसयवत्तपुंडरीए तिलयरयणद्वचंदश्चिए नानामणिमयदामालंकिए अंतो बहिं च सण्हे तवणिज्जरुहलवालुयापत्थरे सुहफासे सस्तिरीयरुवे पासाईं जाव पडिरुवे । एगं च णं महं भवणं कारेति अणेगावंभसयसन्निविडुं लीलट्रिय-सालभंजियां अब्मुगग्यसुक्यवइरवेइयातोरणवररइयसालभंजियासुसिलिट्टविसिट्टलट्टसंठियपसत्थवेहलियखंभनाणामणिकणगरयणखचियउज्जलं बहुसमसुविभत्तिनिचियरमणिज्जभूमिभागं ईहामिय जाव भत्तिचित्तं खंभु-गगयवर्यरवेइयापरिग्याभिरामं विज्जाहरजमलजुयलंतजुत्तंपिव अच्ची-सहस्समालणीयं रुवगसहस्सकलियं भिसमाणं भिदिभसमाणं चक्कु-ल्लोयणलेसं सुहफासं सस्तिरीयरुवं कंचणमणिरयणथूभियां नाणाविहपंच-वण्णघंटापडागपरिमंडियग्गसिहरं धवलमिरीचिकवयं विणिम्मुयंतं लाउ-ल्लोइयमहियं जाव गंधवटिभूयं पासाईयं दरिसणिज्जं अभिरुवं पडिरुवं ।

(24) तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं सोह-

णंसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तंसि सरिसियाणं सरिव्वयाणं सरित्तयाणं मरिसलावण्णरूपजोव्वणगुणोवेयाणं सरिसएहितो रायकुलेहितो आणिलियाणं पसाहणद्वंगअविहववहूओवयणमंगलसुजंपिएहिं अट्टहिं रायवरकन्नाहिं साद्धिं एगादिवसेणं पाणिं गिण्हाविंसु । तए णं तस्स मेहस्स अम्मापियरो इमं एयारूपं पीइदाणं दलयंति – अट्ट हिरण्ण-कोडीओ अट्ट सुवण्णकोडीओ गाहाणुसारेण भाणियवं जाव पेसण-कारियाओ अन्नं च विपुलं धणकणगरयणमणिमोत्तियसंखसिलप्पवाल-रत्तरयणसंतसारसावएज्जं अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं दाउं पकामं भोत्तुं पकामं परिभाँएउं । तए णं से मेहे कुमारे एगमेगाए भारियाए एगमेगं हिरण्णकोडिं दलयइ एगमेगं सुवण्णकोडिं दलयइ जाव एगमेगं पेसणकारिं दलयइ अन्नं च विउलं धणकणग जाव परि-भाएउं दलयइ । तए णं से मेहे कुमारे उपिं पासायवरगए फुट्टमाणेहिं मुँगमत्थएहिं वरतरुणिसंपउत्तेहिं बत्तीसइबद्धएहिं नाडएहिं विहरइ ।

(25) तेणं कालेणं २ समणे भगवं महावीरे पुञ्चाणुपुठिंच चरमाणे गामाणुगामं दूझजमाणे सुहंसुहेण विहरमाणे जेणामेव रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए जाव विहरइ । तए णं रायगिहे नयरे सिंधाढगतिग-चउक्कचब्रे महया बहुजणसहे इ वा जाव बहवे उगा भोगा जाव राय-गिहस्स नगरस्स मज्जंमज्जेणं एगादिसिं एगाभिमुहा निगच्छंति । इमं च णं मेहे कुमारे उपिं पासायवरगए फुट्टमाणेहिं मुयंगमत्थएहिं जाव माणुस्सए कामभोगे भुंजमाणे रायमग्गं च आँलोएमाणे २ एवं च णं विहरइ । तए णं मेहे कुमारे ते बहवे उगा भोगा जाव एगादिसाभिमुहे निगच्छमाणे पासइ २ कंचुइज्जपुरिसं सहावेइ २ एवं वयासी – किन्नं भो देवाणुपिया ! अज्ज रायगिहे नगरे इंदमहे इ वा खंदमहे इ वा एवं रुहसिववेसमणनागजक्खभूयनर्हतलायरुक्खचेइयपव्यउज्जाण-गिरिजत्ताइ वा जओ णं बहवे उगा भोगा जाव एगादिसिं एगाभिमुहा निगच्छंति । तए णं से कंचुइज्जपुरिसे समणस्स भगवओ महावीरस्स गहियागमणपवित्तीए मेहं क़मारं एवं वयासी – नो खलु देवाणुपिया !

अज्ज रायगिहे नयरे इंदमहे इ वा जाव गिरिजत्ता इ वा जणं एए उम्मा जाव एगविसिं एगाभिमुहा निगगच्छंति । एवं खलु देवाणुपिया ! समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे इहमागए इह संपत्ते इह समोसढे<sup>१</sup> इह चेव रायगिहे नगरे गुणसिलए चेइए अहापडिरुवं जाव विहरइ ।

(26) तए णं से मेहे कुमारे कंचुइज्जपुरिसस्स अंतिए एयमटुं सोच्चा निसम्म हट्टुटुडे कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवाणुपिया ! चाउगधंटं आसरहं जुन्नामेव उवटुवेह जाव उवणेंति । तए णं से मेहे ष्ठाए जाव सब्बालंकारविभूसिए चाउगधंटं आसरहं दुरुडे समाणे सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं महया भड-चडगरवंदपारियालसंपरिवुडे रायगिहस्स नयरस्स मज्जंमज्जोणं निगच्छइ २ जेणामेव गुणसिलए चेइए तेणामेव उवागच्छइ २ समणस्स भगवओ महावीरस्स छत्ताइच्छत्तं पडागाइपडागं विज्जाहरचारणे जंभए य देवे ओवयमाणे पासइ २ चाउगधंटाओ आसरहाओ पच्चोरुहइ २ समणं भगवं महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छइ तंजहा – सचित्ताणं दृव्वाणं विउसरणयाए, अचित्ताणं दृव्वाणं अविउ-सरणयाए, एगसाडियं उत्तरासंगकरणेणं, चक्रवुफासे अंजलिपगगहेणं, मणसो एगत्तीकरणेणं । जेणामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छइ २ समणं भगवं तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ वंदइ नमंसइ २ समणस्स भगवओ नच्चासन्ने नाइदूरे सुसूसमाणे नमंसमाणे पंजलिउडे अभिमुहे विणएणं पञ्जुवासइ । तए णं समणे भगवं महावीरे मेहस्स कुमारस्स तीसे य महइमहालियाए महच्चपरिसाए मज्जगए विचित्तं धम्ममाइक्खइ, जहा – जीवा बैज्ञानिति मुच्चंति जहा य संकिलिसंति । धम्मकहा भाणियव्वा जाव परिसा पडिगया ।

(27) तए णं से मेहे कुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्टुटुडे समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आया-हिणपयाहिणं करेइ २ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – सहहामि णं भंते ! निगंथं पावयणं एवं पत्तियामि णं रोएमि णं अब्मुद्दोमि णं भंते !

निगरथं पावयणं । एवमेयं भंते ! तहमेयं अवितहमेयं इच्छियमेयं पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छियपडिच्छियमेयं भंते ! से जहेव तं तुब्बे वयह जं नवरं देवाणुपिया ! अम्मापियरो आपुच्छामि तओ पच्छा मुँडे भवित्ताणं पञ्चइस्सामि । अहासुहं देवाणुपिया मा पडिबंधं । तए णं से मेहे कुमारे समणं भगवं वंदइ नमंसइ २ जेणामेव चाउघंटे आसरहे तेणामेव उवागच्छइ २ चाउघंटं आसरहं दुरुहइ महया भडचडगर-पहकरेणं रायगीहस्स नगरस्स मज्जांमज्जेणं जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ २ चाउघंटाओ पच्चोरुहइ २ जेणामेव अम्मापियरो तेणामेव उवागच्छइ २ अम्मापिऊणं पायवडणं करेइ २ एवं वयासी—एवं खलु अम्मयाओ ! मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मे निसंते से वि य मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुहए । तए णं तस्स मेहस्स अम्मापियरो एवं वयासी—धन्नेसि तुमं जाया ! संपुण्णे कयत्थे कयलखणे सि तुमं जाया ! जन्नं तुमे समणस्स ३ अंतिए धम्मे निसंते । सेवि य ते धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुहए । तए णं से मेहे कुमारे अम्मापियरो दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी—एवं खलु अम्मयाओ ! मए समणस्स ३ अंतिए धम्मे निसंते । से वि य मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुहए । तं इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुब्बेहिं अबभुन्नाए समाणे समणस्स ३ अंतिए मुँडे भवित्ताणं अगाराओ अणगारियं पञ्चइत्तए । तए णं सा धारिणी देवी तं अणिडं अकंतं अपियं अमणुञ्जं अमणामं असुयपुवं फरुसगिरं सोच्चा निसम्म इमेणं एयारुवेणं मणोमाणसिएणं महया पुत्तदुक्क्लेणं अभिभूया समाणी सेयागयरोमकूव-पगलंतविलीणगाया सोयभरपवेवियंगी नित्तेया दीणविमणवयणा कर-यलमङ्गियव्व कमलमाला तक्खणओलुगदुच्चलसरीरा लावण्णसुन्ननि-च्छायगयसिरीया पसिद्धिलभूसणपडंतखुम्मयसंचुणियधवलवलयपढम-द्वउत्तरिज्जा सूमालविकिणकेसहत्था मुच्छावसनहुचेयंगरुई पैरसुनिय-त्तव्व चंपगलया निव्वत्तमहे व इंदलट्टी विमुक्संधिवंधणा कोट्टिमतलंसि सञ्चंगेहिं धसत्ति पडिया । तए णं सा धारिणी देवी ससंभमोवत्तियाए

तुरियं कंचणभिंगारमुहविणिगयसीयलजलविमलधाराए परिसिंचमाणा  
निष्वावियगयलट्टी उक्खेवणतालविंटवीयणगजणियवाएणं संफुसिएणं  
अंतेउरपरियणेण आसासिया समाणी मुत्तावलीसन्निगासपवडंतअंसुधाराहिं  
सिंचमाणी पओहरे कलुणविमणदीणा रोयमाणी कंदमाणी तिष्पमाणी  
सोयमाणी विलवमाणी मेहं कुमारं एवं वयासी । —

(28) तुमं सि णं जाया ! अम्हं एगे पुत्ते इट्टे कंते पिए मणुञ्जे मणामे  
थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे रयण-  
भूए जीवियउस्सासए हिययाणंदज्जणेण उंबरपुफ्फं पिव दुल्हे सवणयाए  
किमंग पुण पासणयाए । नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो खणमवि  
विष्पथोगं सहित्तए । तं भुंजाहि ताव जाया ! विपुले माणुस्सए  
कामभोगे जाव ताव वयं जीवामो । तओ पच्छा अम्हेहिं काल-  
गएहिं परिणयवए वडियकुलवंसतंतुकज्जंमि निरवएक्खे समणस्स ३  
अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पठवइस्ससि । तए  
णं से मेहे कुमारे अम्मापिडाहिं एवं बुत्ते समाणे अम्मापियरो एवं  
वयासी — तहेव णं तं अम्मो ! जहेव णं तुब्मे ममं एवं वयह—तुमं सि  
णं जाया ! अम्हं एगे पुत्ते तं चेव जाव निरवएक्खे समणस्स जाव  
पठवइस्ससि । एवं खलु अम्मयाओ ! माणुस्सए भंवे अधुवे अणियाए  
असासए वसणसउवहवाभिभूए विज्जुलयाचंचले अणिच्चे जलबुब्बुय-  
समाणे कुसग्गजलविंदुसन्निभे संझब्भरागसरिसे सुविणदंसणोवमे सडण-  
पडणविद्धंसणधम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्सविष्पजहाणिज्जे । से केंणं  
जाणइ अम्मयाओ ! के पुठिंव गमणाए के पच्छा गमणाए ? तं इच्छामि  
णं अम्मयाओ ! तुब्मेहिं अवधणुञ्जाए समाणे समणस्स ३ जाव  
पठवइत्तए । तए णं तं मेहं कुमारं अम्मापियरो एवं वयासी—इमाओ  
ते जाया । सरिसियाओ सरित्तयाओ सरिँवश्याओ सरिसलावण्ण-  
रूवजोच्चणगुणोववेयाओ सरिसेहितो रायकुलेहितो आणियालियाओ  
भारियाओ । तं भुंजाहि णं जाया ! एयाहिं सद्धि विड्ले माणुस्सए  
कामभोगे । पच्छा भुत्तभोगे समणस्स जाव पठवइस्ससि । तप्प णं से मेहे

कुमारे अम्मापियरं एवं वयासी – तहेव णं अम्मयाओ ! जं णं तुब्बे  
 ममं एवं वयह – इमाओ ते जाया ! सरिसियाओ जाव पव्वइस्सासि ।  
 एवं खलु अम्मयाओ माणुस्सगा कामभोगा असुई असासया वंतासवा  
 पित्तासवा खेलासवा सुकासवा सोणियासवा दुरुस्सासनीसासा  
 कुरुवमुत्तपुरीसपूयबहुपडिपुण्णा उच्चारपासवणखेलसिंधाणगवंतपित्त-  
 सुक्कसोणियसंभवा अधुवा आणियत्ता असासया सडणपडणविद्धंसण-  
 धम्मा पच्छा पुरं च णं अवस्सविष्पजहणिज्जा । से<sup>१</sup> के णं अम्मयाओ !  
 जाव पव्वइत्तए । तए णं तं मेहं कुमारं अम्मापियरो एवं वयासी – इमे  
 य ते जाया ! अज्जयपज्जयपित्तज्जयागए सुबहु हिरण्णे य सुवण्णे य  
 कंसे य दूसे य मणिमोत्तियसंखसिलप्पबालरत्तरयणसंतसीरसावएडजे  
 य अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पगामं दाउं पगामं भोतुं  
 पकामं परिभाएउं । तं अणुहोहि तावैं जाया ! विपुलं माणुस्सगं  
 इड्डिसक्कारसमुदयं । तओ पच्छा अणुभूयकळाणे समणस्स ३ जाव  
 पव्वइस्सासि । तए णं से मेहे कुमारे अम्मापियरं एवं वयासी –  
 तहेव णं अम्मयाओ ! जं णं तं<sup>२</sup> वयह – इमे ते जाया ! अज्जग-  
 पज्जग जाव तओ पच्छा अणुभूयकळाणे पव्वइस्सासि । एवं खलु  
 अम्मयाओ ! हिरण्णे य जाव सावएडजे अगिसाहिए चोरसाहिए  
 रायसाहिए दाइयसाहिए मच्चुसाहिए अगिसामन्ने जाव मच्चुसामन्ने  
 सडणपडणविद्धंसणधम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्सविष्पजहणिज्जे । से  
 के णं जाणइ अम्मयाओ ! के पुनिंव जाव गमणाए । तं इच्छामि णं  
 जाव पव्वइत्तए । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो जाहे नो  
 संचाइंति मेहं कुमारं बहूहिं विसयाणुलोमाहिं आघवणाहि य पन्रवणाहि  
 य सञ्चवणाहि य विन्रवणाहि य आघवित्तए वा पन्रवित्तए वा सञ्चवि-  
 त्तए वा विन्रवित्तए वा ताहे विसयपडिकूलाहिं संजमभउव्वेयकारि-  
 याहिं पन्रवणाहिं पन्रवेमाणा एवं वयासी – एसु णं जाया ! निगंथे  
 पावणे सञ्चे अणुत्तरे केवलिए पडिपुण्णे नेयाउए संसुद्धे सलगल्लणे  
 सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे निज्जाणमग्गे निव्वाणमग्गे सव्वदुक्खपहीणमग्गे

अहीव पगंतदिद्वीए खुरो इव एगंतधाराए लोहमया इव जवा चावेयव्वा बालुयाकवले इव निरस्साए गंगा इव महानई पडिसोयगमणाए महासमुद्दो इव भुयाहिं दुत्तरे तिक्खं चंक्मियव्वं गरुओं लंबेयव्वं अंसिधारव्वयं चरियव्वं । नो खलु कप्पइ जाया ! समणाणं निगंथाणं आहाकम्मिए वा उद्देसिए वा कीयगडे वा ठवियए वा रहयए वा दुविभक्खभत्ते वा कंतारभत्ते वा वहलियाभत्ते वा गिलाणभत्ते वा मूलभोयणे वा कंदभोयणे वा फलभोयणे वा बीयभोयणे वा हरियभोयणे वा भोत्तेए वा पायए वा । तुमं च णं जाया ! सुहसमुचिए नो चेव णं दुहसमुचिए नालं सीयं नालं उण्हं नालं खुहं नालं पिवासं नालं वाइयपित्तियसिंभियसन्निवाइयविविहे रोगायंके उच्चावए गामकंटए बाबीसं परीसहोवसगे उदिणे सम्मं अहियासित्तए । भुंजाहि ताव जाया ! माणुस्साए कामभोगे । तओ पच्छा भुत्तभोगी समणस्स जाव पव्वइस्ससि । तए णं से मेहे कुमारे अम्मापित्तहिं एवं त्रुत्ते समाणे अम्मापियरं एवं वयासी – तहेव णं अम्मयाओ ! जं णं तुझे ममं एवं वयह – एस णं जाया ! निगंथे पावयणे सज्जे अणुत्तरे पुणरवि तं चेव जाव तओ पच्छा भुत्तभोगी समणस्स जाव पव्वइस्ससि । एवं खलु अम्मयाओ ! निगंथे पावयणे कीबाणं कायराणं कापुरिसाणं इहलोग-पडिबद्धाणं परलोगनिप्पिवासाणं दुरुणुचरे पाययजणस्स नो चेव णं धीर्ँस्स निच्छियस्स ववसियस्स । एत्थ किं दुकरं करणयाए ? तं इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुझेहिं अब्मणुआए समाणे समणस्स जाव पव्वइत्तए ।

(29) तए णं तं मेहं कुमारं अम्मापियरो जाहे नो संचाइंति बहूहिं विसयाणुलोमाहि य विसयपडिकूलाहि य आघवणाहि य पन्रवणाहि य सन्नवणाहि य विन्नवणाहि य आघवेत्तए वा पन्रवेत्तए वा सन्नवित्तए वा विन्नवित्तए वा ताहे अकामाइं चेव मेहं कुमारं एवं वयासी – इच्छामो ताव जाया ! एगदिवसमवि ते रायसिरि पासित्तए । तए णं से मेहे कुमारे अम्मापियरमणुवत्तमाणे तुसिणीए संचिट्ठइ । तए णं से सेणिए राया कोङुबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवा-

णुपिया ! मेहस्स कुमारस्स महत्थं महग्नं महरिहं विजलं रायाभिसेयं उवङ्गवेह । तए णं ते कोङ्गवियपुरिसा जाव ते वि तहेव उवङ्गवेंति । तए णं से सेणिए राया बहूहिं गणनायगदंडनायगेहिं य जाव सपंरिकुडे मेहं कुमारं अट्टसएणं सोवणिणयाणं कलसाणं एवं रूपमयाणं कलसाणं सुवण्णरूपमयाणं कलसाणं मणिमयाणं कलसाणं सुवण्णमणिमयाणं रूपमणिमयाणं सुवण्णरूपमणिमयाणं भोमेज्जाणं सञ्चोदएहिं सञ्चमट्टियाहिं सञ्चपुफेहिं सञ्चगंधेहिं सञ्चमल्लेहिं सञ्चोसहीहिं य सिद्धस्थ-एहिं य सञ्चिवड्डीए सञ्चज्जुर्ईए सञ्चबलेणं जाव दुंदुभिनिग्योसणाइयरवेणं महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचइ २ करयल जाव कट्टु एवं वयासी – जय २ नंदा ! जय २ भहा ! जय नंदा० ! भदं ते अजियं जिणाहि ! जियं पालयाहि जियमज्जे वसाहि अजियं जिणेहि सत्तुपक्खं जियं च पालेहि मित्तपक्खं जाव भरहो इव मणुयाणं रायगिहस्स नगरस्स अन्नेसिं च बहूणं गामागरनगर जाव सन्निवेसाणं आहेवज्जं जाव विहराहि त्तिकट्टु जय २ सहं पउंजंति । तए णं से मेहे राया जाए महया जाव विहरइ । एण णं तस्स मेहस्स रन्नो अम्मापियरो एवं वयासी – भण जाया ! किं दलयामो किं पयच्छामो किं वा ते हियइच्छिए सामत्थे ? तए णं से मेहे राया अम्मापियरो एवं वयासी – इच्छामि णं अम्मयाओ ! कुत्तियावणाओ रयहरणं पडिगगं च आणियं कासवयं च सद्वावेहं । तए णं से सेणिए राया कोङ्गवियपुरिसे सद्वावेह २ एवं वयासी – गच्छह णं तुव्वेदे वाणु-पिया ! सिरिघराओ तिन्नि सयसहस्राइं गहाय दोहिं सयसहस्रेहिं कुत्तियावणाओ रयहरणं पडिगगं च उवणेह सहसहस्रेणं कासवयं सद्वावेह । तए णं ते कोङ्गवियपुरिसा सेणिएणं रन्ना एवं तुत्ता समाणा हठतुट्टा सिरिघराओ तिन्नि सयसहस्राइं गहाय कुत्तियावणाओ दोहिं सयसहस्रेहिं रयहरणं पडिगगं च उवणेंति सयसहस्रेणं कासवयं सद्वावेंति । तए णं से कासवए तेहिं कोङ्गवियपुरिसेहिं सद्वाविए समाणे हठ जाव हियए ण्हाए कयबलिकम्मे कयकोउयमंगलपायच्छत्ते सुद्धपावेसाइं वत्थाइं पवरपरिहिए अप्पमहग्नाभरणालंकियसरीरे जेणेव सेणिए राया तेणेव

उवागच्छइ २ सेणियं रायं करयलमंजलि कट्टु एवं वयासी – संदिसह णं देवाणुपिया ! जं मए करणिजं । तए णं से सेणिए राया कासबयं एवं वयासी – गच्छाहि णं तुमं देवाणुपिया ! सुरभिणा गंधोदएणं निक्षे हत्थपाए पक्खालेहि सेयाए चउफ्कालाए पोत्तीए मुहं बंधित्ता मेहस्स कुमारस्स चउरंगुलवज्जे निक्खमणपाउग्गे अग्गकेसे कप्पेहि । तए णं से कासबए सेणिएणं रजा एवं वुत्ते समाणे हट्ट जाव हियए जाव पडिसुणेहि सुरभिणा गंधोदएणं हत्थपाए पक्खालेहि २ सुद्धवत्थेणं मुहं बंधइ २ परेण जत्तेणं मेहस्स कुमारस्स चउरंगुलवज्जे निक्खमणपाउग्गे अग्गकेसे कप्पइ । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स माया महरिहेणं हंसलक्खणेणं पडसाडएणं अग्गकेसे पडिच्छइ २ सुरभिणा गंधोदएणं पक्खालेहि २ सरसेणं गोसीसचंदणेणं चज्जाओ दलयइ २ सेयाए पोत्तीए बंधइ २ रयणसमुग्यायंसि पक्खिवइ २ मंजूसाए पक्खिवइ २ हारवारिधार-सिंदुवारछिन्नमुत्तावलिप्पगासाइं अंसूइ विणिम्युयमाणी २ रोयमाणी २ कंदमाणी २ विलवमाणी २ एवं वयासी – एस णं अम्हं मेहस्स कुमारस्स अब्मुद्येसु य उससवेसु य पसवेसु य तिहीसु य छणेसु य जन्नेसु य पव्वणीसु य अपच्छिमे दरिसणे भविस्सइ त्तिकट्टु उस्सीसामूले ठावेहि । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो उत्तरावक्कमणं सीहासणं रयावेति मेहं कुमारं दोच्चं पि तच्चं पि सेयापीहिं कलसेहि ण्हावेति २ पम्हलस्मूमालाए गंधकासाइयाए गायाइं ल्हहेति २ सरसेणं गोसीस-चंदणेणं गायाइं अणुलिंपंति २ नासानीसासवायवोज्ज्ञं जाव हंसलक्खणं पडुसाडगं नियंसेति २ हारं पिणद्वेति २ अद्वहारं पिणद्वेति २ एवं एगाबलिं मत्तावालिं कणगावालिं २ रयणावालिं २ पालंबं २ पायपलंबं कडगाइं २ तुडिगाइं २ केऊराइं २ अंगयाइं २ दसमुहियाणंतयं कडिसुत्तयं २ कुंडलाइं चूडामणि रयणुक्कडं मैउडं पिणद्वेति २ दिठ्बं सुमणदामं पिणद्वेति २ दृढ़रमलयसुगंधिए गंधे पिणद्वेति । तए णं तं मेहं कुमारं गंठिमवेढिमपूरिमसंघाइमेण चउठिवहेणं मल्लेणं कप्परुक्खगं पिव अलंकिच्चिभूस्तिं करेति । तए णं से सेणिए राया कोडुंवियपुरिसे

सद्वेष्ट २ एवं व्यासी – स्विप्पामेव भो देवाणुपिया ! अणेगखंभसय-  
सश्रिविद्धं लीलट्टियसाँलभंजियां ईहामियउसभतुरयनरमगरविहगवालग-  
किन्नररुहसरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभत्तिचित्तं घंटावलिमहुरमण-  
हरसरं सुभकंतदरिसणिब्जं निउणोवियमिसिमिसेंतमाणिरयणधंटियाजाल-  
परिक्खित्तं अबभुगयवझरवेझ्यापरिगयाभिरामं विजाहरजमलजंतजुत्तं  
पिव अच्चीसहस्रमालणीयं रुवगसहस्रकालियं भिसमाणं भिन्निमसमाणं  
चक्खुलोयणलेसं सुहफासं सस्सीरीयरूवं सिगं तुरियं चबलं वेइयं  
पुरिससहस्रवाहिणीयं सीयं उवट्टवेह । तए णं ते कोडुंबियपुरिसा  
हट्टुहट्ट जाव उवट्टवेति । तए णं से भेहे कुमारे सीयं दुरुहइ २  
सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सन्निसण्णे । तए णं तस्स मेहस्स  
कुमारस्स माया ण्हाया कयबलिकम्मा जाव अप्पमहग्धाभरणालंकियसरीरा  
सीयं दुरुहइ २ मेहस्स कुमारस्स दाहिणपासे भद्वासणंसि निसीयह ।  
तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अंबधाई रयहरणं च पडिगहगं च  
गहाय सीयं दुरुहइ २ मेहस्स कुमारस्स वामपासे भद्वासणंसि निसीयह ।  
तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स पिट्टओ एगा वरतरुणी सिंगारा-  
गारचारुवेसा संगयगयहसियभणियचेट्टियविलाससंलालुलावनिउणजुत्तो-  
वयारकुसला आमेलगजमलजुयलवट्टियअब्जुन्नयपीणरइयसंठियपओहरा  
हिमरययकुदेदुपगासं सकोरेटमल्लदामधवलं आयवत्तं गहाय सलीलं  
ओहाँरेमाणी २ चिट्टह । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स दुवे वरतरुणीओ  
सिंगारागारचारुवेसाओ जाव कुसलाओ सीयं दुरुहंति २ मेहस्स कुमारस्स  
उभ्यओ पासं नानाभणिकणगरयणमहरिहतवणिज्जलविचित्तदंडाओ  
चिलियाओ सुहुमवरदीहवालाओ संखकुंददगरयअमयमहियफेणपुंजस-  
श्रिगासाओ चामराओ गहाय सलीलं ओहाँरेमाणीओ २ चिट्टहंति । तए णं  
तस्स मेहकुमारस्स एगा वरतरुणी सिंगारा जाव कुसला सीयं जाव दुरुहइ २  
मेहस्स कुमारस्स पुरओ पुरत्थिमेणं चंदप्पभवयरवेहलियविमलदंडं  
तालियंटं गहाय चिट्टह । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स एगा वरतरुणी  
जाव सुरुक्का सीयं दुरुहइ २ मेहस्स कुमारस्स पुच्चवद्विलणेणं सेयं

रथयामयं विमलसलिलपुण्णं मत्तगयमहामुहाकैइसमाणं भिंगारं गहाय चिट्ठइ । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स पिया कोडुंबियपुरिसे सदावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवाणुपिया ! सरिसयाणं सरित्याणं सरिठ्वयाणं एगाभरणगहियनिज्जोयाणं कोडुंबियवरतरुणाणं सहस्रं सदावेह जाव सदावेति । तए णं ते कोडुंबियवरतरुणपुरिसा सेणियस्स रन्नो कोडुंबियपुरिसेहिं सदाविया समाणा हट्टा ष्हाया जाव एगाभरणगहियनिज्जोया जेणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छंति २ सोणियं रायं एवं वयासी – संदिसह णं देवाणुपिया । जं णं अम्हेहिं करणिज्जं । तए णं से सेणिए राया तं कोडुंबियवरतरुणसहस्रं एवं वयासी – गच्छह णं तुब्बे देवाणुपिया ! मेहस्स कुमारस्स पुरिस-सहस्रवाहिणीं सीयं परिवहह । तए णं तं कोडुंबियवरतरुणसहस्रं सेणिएण रन्ना एवं बुत्तं संतं हट्टं मेहस्स कुमारस्स पुरिससहस्रवाहिणीं सीयं परिवहइ । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स पुरिससहस्रवाहिणीं सीयं दुरुढस्स समाणस्स इमे अट्टहमंगलया तप्पढमयाए पुरओ अहाणुपुठ्वीए संपट्टिया, तंजहा – सेतिथ्य सिरिवच्छ नंदियावत्त वद्धमाणग भद्वासण कलस मच्छ दप्पण जाव बहवे अत्थत्थिया जाव ताहिं इट्टाहिं जाव अणवरयं अभिनंदता य अभिशुण्टा य एवं वयासी – जय २ नंदा ! जय २ भद्वा ! जय २ नंदा ! भद्वं ते अजियं जिणाहि इंदियाइं जियं च पालेहि समणधम्मं जियविग्धो वि य चसाहि तं देव ! सिद्धिमज्जे निहणाहि रागदोसमले तवेणं धिइधाणियबंद्रकच्छे मद्वाहि य अट्ट-कम्मसत्तू झाणेणं उत्तमेणं सुक्षेणं अप्पमत्तो पावय वितिमिरमणुत्तरं केवलं नाणं गच्छ य मोक्षं परमं पयं सासयं च अयलं हंता परीसह-चमूणं अभीओ परीसहोवसगगाणं धम्मे ते अविग्धं भवउं त्तिकट्टु पुणो २ मंगलजयसहं पउंजंति । तए णं से मेहे कुमारे रायगिहस्स नगरस्स मज्जामज्जेणं निगच्छइ २ जेणेव गुणसिलए चेह्हए तेणेव उवागच्छइ २ पुरिससहस्रवाहिणीओ सीयाओ पच्चोरुहइ ।

(30) तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं पुरओ

कट्टु जेणामेव समणे ३ तेणामेव उवागच्छंति २ समणं ३ तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेति २ वंदंति नमंसंति २ एवं वयासी – एस णं देवाणुपिया ! मेहे कुमारे अम्हं एगे पुते इट्टे कंते जाव जीवियउसासए हिययनंदिजणए उंबरपुष्फं पिव दुल्लहे सवणयाए किमंग पुण दरिसणयाएमं ? से जहानामए उप्पले इ वा पउमे इ वा कुमुदे इ वा पंके जाए जले संवड्हिए नोवलिप्पइ पंकरएणं नोवलिप्पइ जलरएणं एवामेव मेहे कुमारे कामेसु जाए भोगेसु संवुड्हे नोवलिप्पइ कामरएणं नोवलिप्पइ भोगरएणं । एस णं देवाणुपिया ! संसारभउठिवगे भीए जम्मणमरणाणं इच्छइ देवाणुपियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पठवइत्तए । अम्हे णं देवाणु-पियाणं सिस्सभिक्खं दलयामो । पडिच्छंतु णं देवाणुपिया ! सिस्स-भिक्खं । तए णं से समणे ३ मेहस्स कुमारस्स अम्मापिऊहिं एवं वुत्ते समाणे एयमट्टुं सम्मं पडिसुणेइ । तए णं से मेहे कुमारे समणस्स ३ अंतियाओ उत्तरपुरथिमं दिसीभागं अवक्कमइ सयमेव आभरणमङ्गालंकारं ओमुयइ । तए णं तस्स मेहकुमारस्स माया हंसलक्खणेणं पडग-साडएणं आभरणमङ्गालंकारं पडिच्छइ २ हारवारिधारसिंदुवारछिन्न-मुत्तावलिप्पगासाइं अंसूणि विणिम्मुयमाणी रोयमाणी कंदमाणी बिलव-माणी २ एवं वयासी – जइयव्वं जाया ! घडियव्वं जाया ! परक्कमियव्वं जाया ! अस्सिं च णं अट्टे नो पमाएयव्वं । अम्हंपि णं एसवै मग्गे भवउत्तिकट्टु मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो समणं ३ वंदंति नमंसंति २ जामेव दिसं पाउब्भूया तामेव दिसं पडिगया ।

(31) तए णं से मेहे कुमारे सयमेव पंचमुष्टियं लोयं करेइ २ जेणामेव समणे ३ तेणामेव उवागच्छइ २ समणं ३ तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ २ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – आलित्ते णं भंते ! लोए । पलित्ते णं भंते ! लोए । आलित्तपलित्ते णं भंते ! लोए जराए मरणेण्य । से जहानामए केइ गाहावई अगारंसि जिझयायमाणांसि जे तत्थ भंडे भवइ अपर्मारे मोलगर्हए तं गहाय आयाए एगंतं अवक्कमइ – एस मे नित्यारिए समाणे पच्छा पुरा लोए हियाए सुहाए खेर्माए निस्सेसाष्

आणुगमियत्ताए भविस्सइ – एवामेव ममवि एगे आयाभांडे इहे कंते पिए मणुजे मणामे । एस मे नित्यारिए समाणे संसारबोच्छेयकरे भवि-  
स्सइ । तं इच्छामि णं देवाणुपिएहिं सयमेव पठवावियं सयमेव मुंडा-  
वियं सेहावियं सिक्खावियं सयमेवं आयारगोयरविणयवेणइयचरण-  
करणजायामायावत्तियं धम्ममाइक्खियं । तए णं समणे ३ मेहं कुमारं  
सयमेव पठवावेइ सयमेव आयार जाव धम्ममाइक्खियइ – ऐवं 'देवा-  
णुपिया ! गंतव्वं चिट्ठियव्वं निसीयव्वं तुयट्ठियव्वं भुंजियव्वं भासियव्वं  
एवं उद्धाए उद्धाय पाणेहिं भूएहिं जीवेहिं सत्तेहिं संजमेणं संजभियव्वं  
अस्सिं च णं अड्डे नो पमाएयव्वं । तए णं से मेहे कुमारे समणस्स ३  
अंतिए इमं एयारूवं धम्मियं उवएसं सम्मं पडिवज्जैइ तमाणाए तह गच्छइ  
तह चिट्ठइ जाव उद्धाए उद्धाय पाणेहिं भूएहिं जीवेहिं सत्तेहिं संजमइ ।

(३२) जं दिवसं च णं मेहे कुमारे मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं  
पठवइए तस्स णं दिवसस्स पच्चावरणहकालसमयंसि समणाणं निगं-  
थाणं अहाराइणियाए सेज्जासंथारएसु विभज्माणेसु मेहकुमारस्स दार्मूले  
सेज्जासंथारए जाए यावि होत्था । तए णं समणा निगंथा पुव्वरत्ताव-  
रत्तकालसमयंसि वायणाए पुच्छणाए परियट्णाए धम्माणुजोगचिंताए  
य उच्चारस्स य पासवणस्स य अइगच्छमाणा य निगच्छमाणा य अप्पे-  
गइया मेहं कुमारं हत्थेहिं संघट्टेति एवं पाएहिं सीसे<sup>९</sup> पोट्टे<sup>१०</sup> कायंसि अप्पे-  
गइया ओलंडेति अप्पेगइया पोलंडेति अप्पेगइया पायरयरेणुगुंडियं करेति ।  
एवं महालियं च रयणी मेहे कुमारे नो संचाएइ खणमवि अच्छी निमी-  
लित्तए । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अयमेयारूवे अज्ञतिथए ४  
जाव समुप्पजित्था – एवं खलु अहं सेणियस्स रन्नो पुत्ते धारिणीए देवीए  
अत्तए मेहे जाव समणयाए । तं जया णं अहं अगारमज्जे वसामि तया  
णं मम समणा निगंथा आढायंति परियाणंति सक्कारेति सम्माणेति  
अद्वाइं हेऊइं पसिणाइं कारणाइं वागरणाइं आइक्खंति इहाहिं कंताहिं  
वगूहिं आलवेति संलवेति । जप्पाभिइं च णं अहं मुंडे भवित्ता अगा-  
राओ अणगारियं पठवइए तप्पाभिइं च णं ममं समणा नो आढायंति

जाव नो संलवेति । अदुत्तरं च णं ममं समणा निगंथा राओ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि बायणाए पुच्छणाए जाव महालियं च णं रत्ति नो संचाप्ति अच्छि निमिलावेत्तप । तं सेयं खलु मज्जं कलं जाव जलंते समणं ३ आपुच्छित्ता पुणरवि अगारैमज्जे वसित्तप त्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ अदृदुहृवसद्भाणसगए निरयपडिरूवियं च णं रैयां खवेइ २ कलं पाउप्पभायाए सुविमलाए रयणीए जाव जलंते जेणामेव समणे ३ तेणामेव उवागच्छइ २ तिकखुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ वंदइ नमंसइ जाव पञ्जुवासइ ।

(33) तए णं मेहा इ समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं एवं बयासी – से नूणं तुमं मेहा ! राओ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि समणेहिं निगंथेहि बायणाए पुच्छणाए जाव महालियं च णं राहं नो संचाप्ति मुहुत्तमवि अच्छि निमिलावेत्तप । तए णं तुव्वमे मेहा ! इमेयारूपे अज्ञातिथए जाव समुप्पजित्था – जया णं अहं अगारैमज्जे वसामि तया णं मम समणा निगंथा आढायंति । जप्पभिङ् च णं सुडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वर्यामि तप्पभिङ् च णं मम समणा नो आढायंति जाव नो परियाणंति अदुत्तरं च णं मम समणा निगंथा राओ अप्पेगइया बायणाए जाव पायरयरेणुगुंडियं करेति । तं सेयं खलु मम कलं पाउप्पभायाए समणं ३ आपुच्छित्ता पुणरवि अगारैमज्जे आवसित्तप त्तिकट्टु एवं संपेहेसि २ अदृदुहृवसद्भाणसे जाव रयणी खवेसि २ जेणामेव अहं तेणामेव हव्वमागए । से नूणं मेहा ! एस अद्दे समडे ? हंता अद्दे समडे । एवं खलु मेहा ! तुमं इओ तच्चे अईए भव-गगहणे वेयडुगिरिपायमूले वणयरोहिं निर्बन्धित्यनामधेज्जे सेए संख-उज्जलविमलनिम्मलदहिघणगोअखीरफेणरयणियरप्पयासे सञ्चुस्सेहे नवायए दसपरिणाहे सत्तंगपद्धिए सोमे समिएं सुरूपे पुरओ उद्गगे समूसियसिरे सुहासणे पिडुओ वराहे अइयाकुच्छी अच्छिदकुच्छी अलंबकुच्छी पलंब-लंबोदराहरकरे धणुपद्धागइविसिद्धपुडे अल्लीणपमाणजुत्तवट्टियपीवरगत्तै-वरे अल्लीणपमाणजुत्तपुच्छे पडिपुण्णसुचारुकुम्मचलणे पंडुरसुविसुद्धनिद्ध-

निरुवहयविंसतिनहे छद्वंते सुमेरुपभे नामं हत्थिराया होत्था । तथं णं तुमं मेहा ! बहूहिं हत्थीहि य हत्थिणियाहि य लोट्टुहि य लोट्टियाहि य कलभ-एहि य कलभियाहि य सद्वं संपरिवुडे हत्थिसहस्रनायए देसए पैगढ़ी पट्टुवप जैहवई वंदपरियट्टु अन्नोसिं च बहूणं एकलाणं हत्थिकलभाणं आहेवचं जाव विहरसि । तए णं तुमं मेहा ! निष्पत्पमत्ते सद्वं पललिए कंदपर्हर्ह मोहणसीले अवितण्हकामभोगतिसिए बहूहिं हत्थीहि य जाव संपरिवुडे वेयडृगिरिपायमूले गिरीसु य दरीसु य कुहरेसु य कंदरासु य उज्ज्वरेसु य निज्ञरेसु य वियरेसु य गहासु य पल्लेसु य चिछलेसु य कडगेसु य कडयपल्लेसु य तडीसु य वियडीसु य टकेसु य कूडेसु य सिहरेसु य पव्वभारेसु य मंचेसु य मालेसु य काणणेसु य वणेसु य वणसंडेसु य वणराईसु य नदीसु य नदीकच्छेसु य जैहेसु य संगमेसु य वावीसु य पोक्खरिणीसु य दीहियासु य गुंजालियासु य सरेसु य सरपंतियासु य सरसरपंतियासु य वैयणयरेहिं दिन्नवियार बहूहिं हत्थीहि य जाव सद्वं संपरिवुडे वहुविहतरुपल्लवपउरपाणियतणे निवभए निरुठिवग्गे सुहंपुहेणं विहरसि । तए णं तुमं मेहा ! अन्नया कयाइ पाउसौविसारत्तसरयहेमंतवसंतेसु कमेण पंचसु उऊसु समझकंतेसु गिम्हकालसमयंसि जेड्हामूलमासे पायवधंससमुट्टिएणं सुकतणपत्तकयवरमारुयसंजोगदीविएणं महाभयंकरेणं हुयवहेणं वणदवजालासंपलित्तेसु वणंतेसु धूमाउलासु दिसासु महावायवेगेणं संघट्टिएसु छिन्नजालेसु आवयमाणेसु पोह-रुक्खेसु अंतो २ झियायमाणेसु मर्यैकुहियविणट्टुकिमियकैहमनईवियरग-ज्ज्विणपाणीयंतेसु वणंतेसु भिंगारकदीणकंदियरवेसु खरफरुसअणिट्ट-रिट्टुवाहित्तैविहुमगेसु दुमेसु तण्हावसमुक्कपक्खपैयडियजिब्भतालुय-असंपुडियतुंडपक्खिक्खसंघेसु सैसंतेसु गिर्हउण्हवायखरफरुसचंडमारुयसुक्क-तणपत्तकयवरवाउलिभमंतदिन्नसंभंतसावयाउलमिगतण्हाबद्धचिंधपट्टेसु गिरिवरेसु संबद्धैसु तथं भियपसयसरीसिवेसु अवदालियवयणविवर-निलालियगगजीहे महंततुंबहयपुण्णकणे संकुचियथोरपीवरकरे ऊसिय-नंगले पीणाइयविरसरडियसहेण फोडयंतेव अंबरतलं पायदहरएणं कंपयंते-

व मेइणितलं विणिम्मुयमाणे य सीर्यारं सव्वाओ समंता बलिवियाणाइं छिंदमाणे रुक्खसहस्राइं तथ्य सुबहूणि नोङ्गयंते विणटुरडेव्व नरवरिदे वायाइद्वेव पोए मंडलवाएव्व परिभ्वमंते अभिक्खणं २ लिंडनियरं पमुंचमाणे २ बहूइं हत्थीहिं य जाव सद्विं दिसोदिसि विप्पलाइत्था । तथ्य णं तुमं मेहा । जुणे जराजज्जरियदेहे आउरे झंझिईं पिवासिए दुव्वच्छे किलंते नद्वसुइं मूढदिसाए सयाओ जूहाओ विप्पहूणे वणदव्व-जाँलापारद्वे उण्हेण य तण्हाए य छुहाए य परव्वभाइए समाणे भीए तथ्ये तसिए उठिवगे संजायभए सव्वाओ समंता आधावमाणे परिधावमाणे एगं चं णं महं सरं अप्पोययं पंकवहुलं अंतितिथणं पाणियपाए ओइणे । तथ्य णं तुमं मेहा । तीरमझगए पाणियं असंपत्ते अंतरा चेव सेयांसि बिसण्णे । तथ्य णं तुमं मेहा । पाणियं पाइस्सामि त्तिकट्टु हत्थं पसारोसि । से वि य ते हत्थे उदगं न पावइ । तए णं तुमं मेहा ! पुणरवि कायं पच्चुद्वारिस्सामि त्तिकट्टु बलियतरायं पंकांसि खुत्ते । तए णं तुमं मेहा ! अन्नया कयाइ एगे चिरनिंजूढए गयवरजुवाणए सगाओ जूहाओ कर-चरणदंतमुसल्लप्पहरेहिं विप्परद्वे समाणे तं चेव महदहं पाणीयपाए समोयरइ । तए णं से कलभए तुमं पासइ २ तं पुव्ववेरं सैंमरइ २ आसुरुते रुठे कुविए चंडिकिए भिसिभिसेमाणे जेषेव तुमं तेषेव उवा-गच्छइ २ तुमं तिक्खेहिं दंतमुसलेहिं तिक्खुत्तो पिढुओ उच्छुभइ २ पुव्ववेरं निज्जाएइ २ हट्टुतुष्टे पाणीयं पियइ २ जामेव दिसं पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए । तए णं तव मेहा ! सरीरगंसि वेयणा पाउब्भ-वित्था उज्जंल्ला विउला कक्खडा दुरहियासा पित्तज्जरपरिगय-सरीरे दाहवक्कंतीए यावि विहरित्थीं । तए णं तुमं मेहा ! तं उज्जलं जाव दुरहियासं सत्तराइंदियं वेयणं वेदेसि सैंवीसं वाससयं परमाडं पालइत्ता अद्वसद्वदुहट्टे कालमासे कालं किञ्चा इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे दाहिण्डूभरहे गंगाए महानईए दाहिणे कूले विंशगिरिपायमूले एगेणं मत्तवरगंधहस्तिणा एगाए भैयवरकरेणूए कुचिंछसि गयकैलंभए जणिए । तए णं सा गयकलभिया नवण्हं मासाणं वसंतमासांसि तुमं

पयाया । तए णं तुमं मेहा ! गव्भवासाओ विष्पमुके समाणे गयकलभए  
यावि होत्था रत्तुप्पलरत्तसूमालए जासुमणारत्तपारिज त्तयलक्खारससरस-  
कुंकुमसंज्ञव्यभरागवणे इडे नियगस्स जूहवइणो गणियारकणेरुकोत्थहत्थी  
अणेगहत्थिसयसंपरिवुडे रम्मेसु गिरिकाणेसु सुहंसुहेण विहरसि । तए  
णं तुमं मेहा उम्मुक्कबालभावे जोव्वणगमणुप्पत्ते जूहवइणा कालधम्मुणा  
संजुत्तेणं तं जूहं सयमेव पडिव्वज्जसि । तए णं तुमं मेहा ! बणयरेहिं निव-  
त्तियनामधेज्जे जाव चउदंते मेरुप्पमे हत्थिरयणे होत्था । तत्थ णं तुमं  
मेहा ! सत्तंगपझट्टिए तहेव जाव पढिरुवे । तत्थ णं तुमं मेहा ! सत्तसाइयस्स  
जूहस्स आहेवच्चं जाव अभिरमेत्था । तए णं तुमं अन्नया कयाइ गिम्हकाल-  
समयंसि जेद्वामूळे वणदव्वजालापलित्तेसु वणंतेसु धूमाउलासु दिसासु जाव  
मंडलवाएव परिभमंते भीए तत्थे जाव संजायभए बहूहिं हत्थीहि य जाव  
कलभियाहि य सद्विं संपरिवुडे सव्वओ समंता दिसोदिसि विष्पलाइत्था ।  
तए णं तव मेहा ! तं बणदवं पासित्ता अयमेयारुवे अज्ञत्थिए जाव समु-  
प्पदिजत्था — कहिं णं मन्ने मए अयमेयारुवे अरिगसंभवे अणुभूयपुव्वे ?  
तए णं तव मेहा ! लेसाहिं विसुज्जमाणीहिं अज्ञवसाणेण सोहणेणं  
सुभेणं परिणामेणं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापोहमगण-  
गवेसणं करेमाणस्स सन्निपुठ्वे जाईसरणे समुप्पजित्था । तए णं तुमं  
मेहा ! एयमटुं सम्मं अभिसमेसि — एवं खलु मया अईए दोषे भवगगहणे  
इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे वेयझगिरिपायमूळे जाव तत्थ णं महया अय-  
मेयारुवे अरिगसंभवे समणुभूए । तए णं तुमं मेहा ! तस्सेव दिवसस्स  
पञ्चावरण्हकालसमयंसि नियएणं जूहेणं सद्विं समन्नागए यावि होत्था ।  
तए णं तुमं मेहा ! सत्तुस्सेहे जाव सन्निजाईसरणे चउदंते मेरुप्पमे नामं  
हत्थी होत्था । तए णं तुज्जं मेहा अयमेयारुवे अज्ञत्थिए जाव समुप्प-  
जित्था — सेयं खलु मम इयाणिं गंगाए महानईए दाहिणिङ्गंसि कूलंसि  
विज्ञगिरिपायमूळे दव्वगिगसंज्ञायकारणद्वा सएणं जूहेणं महइमहालयं मंडलं  
घाइत्तए त्तिकट्टु एवं संपेहेसि २ सुहंसुहेण विहरसि । तए णं तुमं मेहा !  
अन्नया कयाइ पढमपाउसंसि महावुट्टिकायांसि सन्निवइयांसि गंगाए महा-

नईए अदूरसामंते बहुहिं हस्थीहि जाव कलभियाहि य सत्तहि य हस्थि-  
सएहिं संपरिखुडे एंग महं जोयणपरिमंडलं महइमंडलं घाएसि जं तत्थ  
तणं वा पत्तं वा कट्टं वा कंटए वा लया वा वळी वा खाणुं वा रुक्खे वा  
खुवं वा तं सवं तिक्खुत्तो आहुणिय २ पाएण उद्धरोसि हस्थेण  
गेण्हसि एंगांते एडेसि । तए णं तुमं मेहा ! तस्सेव मंडलस्स अदूरसामंते  
गंगाए गहानईए दाहिणिले कूले विंझगिरिपायमूले गिरीसु य जाव विह-  
रसि । तए णं तुमं मेहा ! अन्नया कयाइ मज्जिमए वारिसारत्तंसि महावुडि-  
कायंसि सत्रिवइयंसि जेणेव से मंडले तेणेव उवागच्छसि २ दोञ्चंपि मंडलं  
घाएसि २ एवं चरिमवासारत्तंसि महावुडिकायंसि सत्रिवयमाणंसि  
जेणेव से मंडले तेणेव उवागच्छसि २ तच्चंपि मंडलघायं कोसि जं तत्थ  
तणं वा जाव सुहंसुहेण विहरसि । अह मेहा ! तुमं गइंदभावम्भि  
वट्ठमाणे कमेण नलिणिवणविहवंणगरे हेमंते कुंदलोद्धउद्धुयतुसारपउरम्भि  
अइक्कंते अहिणवगिम्भसमयंसि पत्ते वियट्ठमाणे वणेसु वणकरेणु-  
विविहदिग्रकयपसवैधाओ तुमं उउयकुसुर्मचामरकण्णपूरपरिमंडियाभि-  
रामो मयवसविगसंतकडतडकिलिन्गंधमदवारिणा सुरभिजणियंधो  
करेणुपरिवारिओ उउसर्मत्तजणियसोहो काळे दिणयरकरपयंडे परिसोसिय-  
तरुवरसिरहरभीमतरदंसणिज्जे भिंगारवंतभेरवरबे नाणाविहपत्तकट्ठतण-  
कयबरुद्धुयपइमारुवाइद्धनहयलदुमगणे वाऊलिदारुणतरे तण्हावसदोस-  
दूसियममंतविविहसावयसमाऊले भीमदरिसणिज्जे बट्टंते दारुणंमि गिम्हे  
मारुयवसपसरपसरियवियंभिएण अबभियभीमभेरवरवप्पगारेण महुधारा-  
पडियसिचउद्धायमाणधगधगेंतसहुद्धएण दित्ततरसफुलिंगेण धूममालाउडेण  
सावयसयंतकरणेण वणदवेण जालालोवियनिरुद्धधूमंधकारभीओ आयबी-  
लोस्महंतुंबइयपुण्णकणो आकुंचियथोरपीवरकरो भयवसभयंतदित्तन-  
यणो वेगेण महामेहोव्व वायणोलियमहलरुवो जेण कओ तेण पुरा दवगिग-  
भयभीयहियएण अवगयतप्पएसरुक्खो रुक्खोहेसो दवगिगसंताणकारण-  
द्वा जेणेव मंडले तेणेव पहारेत्थ गमणाए । एको ताव एस गमो । तए णं  
तुमं मेहा ! अन्नया कयाइ कमेण पंचसु उउसु समझकालसम-

यंसि जेद्वामूले भासे पायेवसंघससमुद्घिएणं जाव संवट्टिएसु मियपसुपांखि-  
सरीसिवेसु दिसोदिसिं विष्पलायमाणेसु तेहिं बहूहिं हत्थीहि य सद्विं जेणेव  
से मंडले तेणेव पहारेत्थ गमणाए। तत्थ णं अन्ने बहवे सीहा य वगधा य  
विगा य दीविया अच्छा तरच्छा पारासरा सियाला विराला सुणह्य कोला  
ससा कोकंतिया चिन्नै चिल्ला पुञ्चपविड्वा अगिगभयभिद्धुया एगयओ वि-  
लधम्मेण चिद्धुंति। तए णं तुमं मेहा! जेणेव से मंडले तेणेव उचागच्छसि  
२ तेहिं बहूहिं सीहेहिं जाव चिल्लेहिं य एगयओ विलधम्मेण चिद्धुसि।  
तए णं तुमं मेहा! पाएणं गत्तं कंडुइस्सामीतिकट्टु पाए उंकिखत्ते।  
तंसि च णं अंतरांसि अन्नेहिं बलवंतेहिं सत्तेहिं पुणोळिङ्गमाणे २ ससए  
अणुप्पविड्वे। तए णं तुमं मेहा! गायं कंडुइत्ता पुणरवि पायं पडिनिक्खे-  
विस्सामि त्तिकट्टु तं ससयं अणुपविड्वं पासासि २ पाणाणुकंपयाए  
भूयाणुकंपयाए जीवाणुकंपयाए सत्ताणुकंपयाए से पाए अंतरा चेव  
संधारिए नो चेव णं निखित्ते। तए णं तुमं मेहा! तए पाणाणुकंपयाए  
जाव सत्ताणुकंपयाए संसारे परित्तीकए माणुस्साउए निबद्धे। तए णं से  
वणदेव अड्वाइज्जाइं राइंदियाइं तं वणं ज्ञामेइ २ निद्धिए उवरए उवसंते  
विज्ञाए यावि होत्था। तए णं ते बहवे सीहा य जाव चिल्ला य तं वण-  
दवं निद्धियं जाव विज्ञायं पासंति २ अगिगभयविष्पमुक्ता तण्हाए य  
छुहाए य परब्भाहया समाणा मंडलाओ पडिनिक्खमंति २ सव्वओ समंता  
विष्पसरित्था। तए णं ते बहवे हत्थी जाव छुहाए य परब्भाहया समाणा  
तओ मंडलाओ पडिनिक्खमंति २ दिसोदिसिं विष्पसरित्था। तए णं  
तुमं मेहा! जुणे जराजजरियदेहे सिदिलबलितयापिणिद्धगते दुब्बले  
किलते जुंजिएं पिवासिए अत्थामे अबले अपरकम्मे" ठाणुकडे वेगेण  
विष्पसरिस्सामि त्तिकट्टु पाए पसारेमाणे विज्जुहए विव रेवंयगिरिपब्भारे  
धरणितलंसि सव्वगोहिं सत्रिवद्द्वए। तए णं तव मेहा! सरीरगंसि वेयणा  
पाउब्भूया उज्जला जाव दाहवकंतिए यावि विहरसि। तए णं तुमं मेहा!  
तं उज्जलं जाव दुरहियासं तिन्नि राइंदियाइं वेयणं वेएमाणे विहरित्ता  
एगं वाससयं परमाउं पालइत्ता इहेव जंबुहीवे २ भारहे वासे रायगिहे

नयरे सोणियस्स रत्रो धारिणीए देवीए कुच्छिसि कुमारत्ताए पच्चायाए ।

(34) तए णं तुमं मेहा ! आणुपुव्वेण गद्भवासाओ निकवंते समाणे उम्मुक्कबालभावे जोव्ववणगमणुप्पत्ते मम अंतिए मुँडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए । तं जड ताव तुमे मेहा ! तिरिक्खजो-णियभावमुवगएणं अपडिलद्धसंमत्तरयणलंभेणं से पाए पाणाणुकंपयाए जाव अंतरा चेव संधारिए नो चेव णं निक्खन्ते किंग पुण तुमं मेहा ! इयाणिं विपुलकुलसमुव्वभवेणं निरुवहयसरीरपेत्तलद्धपंचिदिएणं एवं उद्गान-बलवीरियपुरिसगारपरक्कमसंजुत्तेणं ममं अंतिए मुँडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए समाणे समणाणं राओ पुव्वरत्तावरत्त-कालसमयांसि वायणाए जाव धम्माणुओगचिंताए य उच्चारस्स वा पास-वणस्स वा अइगच्छमाणाण य निगच्छमाणाण य हृथ्यसंघटृणाणि य जाव रयरेणुगुंडणाणि य नो सम्मं सहसि खमसि तितिक्खसि अहियासेसि ? तए णं तस्स मेहस्स अणगारस्स समणस्स ३ अंतिए एयमट्टुं सोच्चा निसम्म सुभेहिं परिणामेहिं पसत्थेहिं अज्जवसाणेहिं लेसाहिं विसुज्ज्ञमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापोहमगणगेवसणं करे-माणस्स सन्निपुव्वे जाईसरणे समुप्पत्ते एयमट्टुं सम्मं अभिसमेइ । तए णं से मेहे कुमारे समणेणं ३ संभारियपुव्वजाईसरणे दुगुणाणीयसंवेगे आणंदयंसुपुण्णमुहे हरिसवसधाराहयकयंबकं पिव समूसिसियरोमकूवे समणं ३ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – अज्जप्पभिईं णं भंते ! मम दो अच्छीणि मोत्तूणं अवसेसे काए समणाणं निगंथाणं निसहे त्तिकट्टु पुणरवि समणं ३ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – इच्छामि णं भंते ! इयाणिं दोच्चंपि सयमेव पव्वावियं सयमेव मुँडावियं जाव सयमेव आयार्गोयरं जायामायावंत्तियं धम्ममाईक्खंतु । तए णं समणे ३ मेहं कुमारं सयमेव पव्वावेइ जाव जायामायावंत्तियं धम्ममाईक्खइ – एवं देवाणु-पिया ! गंतव्बं एवं चिट्ठियव्बं एवं भुंजियव्बं एवं भासियव्बं उद्गाय २ पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमियठ्बं । तए णं से मेहे समणस्स ३ अयमेयारूपं धम्मियं उवएसं सम्मं पद्धिव्वज्जइ ३ तह

गच्छइ जाव संजमइ । तए ण से मेहे अणगारे जाए इरियासमिए अणगारवणओ भाणियबो । तए ण से मेहे अणगारे समणस्स ३ अंतिए तहारूवाण थेराण सामाइयमाइयाणि एक्कारस अंगाइ अहिज्जइ २ बहूहिं छट्टुमदसमदुवालसेहिं मासद्वमासखमणेहिं अप्पाण भावेमाणे विहरइ । तए ण समणे ३ रायगिहाओ नयराओ गुणसिल्याओ चेइयाओ पडिनिक्खमइ २ बहिया जणवयविहारं विहरइ ।

(35) तए ण से मेहे अणगारे अन्नया कयाइ समण ३ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी — इच्छामि ण भंते ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए समाणे मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं । तए ण से मेहे अणगारे समणेण ३ अब्भणुन्नाए समाणे मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । मासियं भिक्खुपडिमं अहासुत्तं अहाकष्टं अहामगं सम्मं काएणं फासेइ पालेइ सोभेहै तीरेइ किट्टेइ सम्मं काएणं फासेत्ता पालित्ता सोभित्ता तीरेत्ता किट्टेत्ता पुणरवि समण ३ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी — इच्छामि ण भंते ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए समाणे दोमासियं भिक्खुपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं । जहा पढमाए अभिलाबो तहा दोच्चाए तच्चाए चउत्थाए पंचमाए छम्मासियाए सत्तमासियाए पढमसत्तरायंदियाए दोच्चं सत्तरायंदियाए तईयं सत्तरायंदियाए अहोरायंदियाए वि एगराइंदियाए वि । तए ण से मेहे अणगारे बारस भिक्खुपडिमाओ सम्मं काएणं फासेत्ता पालेत्ता सोभेत्ता तीरेत्ता किट्टेत्ता पुणरवि वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी — इच्छामि ण भंते ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए समाणे गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं । तए ण से मेहे अणगारे पढमं मासं चउत्थंचउत्थेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेण दिया ठाणुकुङ्कुइ सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्ति बीरासणेणं अवाजडेणं । दोच्चं मासं छट्टुछट्टेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेण दिया ठाणुकुङ्कुइ सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्ति बीरासणेणं

अवाउडेणं । तब्बं मासं अट्ठमं अट्ठमेणं अणिक्खित्तेणं तबोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेणं अवाउडेणं । चउत्थं मासं दसमंदसमेणं अणिक्खित्तेणं तबोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेणं अवाउडेणं । पंचमं मासं दुवालसमंदुवालसमेणं अणिक्खित्तेणं तबोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेणं अवाउडेणं । एवं खलु एणं अभिलावेण छडे चोहसमं २ सत्तमे सोलसमं २ अट्ठमे अट्ठारसमं २ नवमे वीसइमं २ दसमे बावीसइमं २ एकारसमे चउब्बीसइमं २ बारसमे छब्बीसइमं २ तेर-समे अट्ठावीसइमं २ चोहसमे तीसइमं २ पन्नरसमे बत्तीसइमं २ सोलसमे चउत्तीसइमं २ अणिक्खित्तेणं तबोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुडुए सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेण य अवाउडेण य । तए णं से मेहे अणगारे गुणरयणसंवच्छरं तबोकम्मं अहासुत्तं जाव सम्मं काएणं फासेइ पालेइ साभेइ तीरेइ किट्टेइ अहासुत्तं अहाकप्पं जाव किट्टेत्ता समणं ३ वंदइ नमंसइ २ बहूहिं छट्टुभद्रसमदुवालसेहिं मासद्वमासखमणेहिं विचित्तेहिं तबोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।

(36) तए णं से मेहे अणगारे तेणं उरालेणं विपुलेणं सस्सिरीएणं पयत्तेणं पग्गहिएणं कल्लाणेणं सिवेणं धन्नेणं मंगल्हेणं उद्गरेणं उदारएणं उत्तमेणं महाणुभावेणं तबोकम्मेणं सुके लुक्खे निम्मंसे किडिकिडियाभूए अट्ठिचम्मावणद्वे किसे धमाणिसंतए जाए यावि होत्था जीवंजीवेण गच्छइ जीवंजीवेणं चिट्टइ भासं भासिच्चा गिलाइ भासं भासमाणे गिलाइ भासं भासिस्सामि त्ति गिलाइ । से जहानामए इंगालसगडिया इ वा कट्टुसगडिया इ वा तिल्सगडिया इ वा एरंडकट्टुसगडिया इ वा उण्हे दिन्ना सुक्का समाणी ससदं गच्छइ ससदं चिट्टइ एवामेव मेहे अणगारे ससदं गच्छइ ससदं चिट्टइ उवचिए तवेणं अवचिए मंससोणिएणं हुयासणे इव भासरैसिपरिच्छन्ने तवेणं तेएणं तवतेयसिरीए अईव २ उवसोभेमाणे २ चिट्टइ । तेणं कालेणं २ समणे ३ महावीरे

आइगे तित्थगे जाव पुव्वाणुपुव्विं चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे सुहंसुहेण विहरमाणे जेणामेव रायगिहे नयरे जेणामेव गुणसिलए चेइए तेणामेव उवागच्छइ २ अहापडिरूबं उगाहं ओगिएहिता संजमेण तवसा अप्पाणं भाषेमाणे विहरइ । तए णं तस्स मेहस्स अणगारस्स राओ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूबे अज्ञातिथिए जाव समुप्पज्जित्था — एवं खलु अहं इमेणं उरालेणं तहेब जाव भासं भासिस्सामि त्ति गिलामि । तं अथिं ता मे उट्टाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसकारपरकमे सद्वा धिइ संवेगे तं जाव ता मे अथिं उट्टाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसकारपरकमे सद्वा धिइ संवेगे जाव य मे धम्मायारिए धम्मोबएसए समणे ३ जिणे सुहत्थी विहरइ ताव मे सेयं कङ्गं पाउप्प-भायाए रयणीए जाव जलंते समणं ३ वंदिता नमंसित्ता समणेणं ३ अब्भणुन्नायस्स समाणस्स सयमेव पंच महव्वयाइं आरोहित्ता गोयमाइए समणे निगंथे निगंथीओ य खामेत्ता तहारूबेहिं कडाईहिं थेरेहिं सद्द्वि विउलं पठवयं सणियं २ दुरुहित्ता सयमेव मेहघणसन्निगासं पुढविसिला-पट्टयं पडिलेहित्ता संलेहैणाझूसणाझूसियस्स भत्तापाणपडियाइक्कियस्स पाओवगयस्स कालं अणवकंद्वमाणस्स विहरित्ताए । एवं संपेहेइ २ कलं जाव जलंते जेणेव समणे ३ तेणेव उवागच्छइ २ समणं ३ तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ वंदइ नमंसइ २ नच्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूस्स-माणे नमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पञ्जुवासइ । मेहा इ समणे ३ मेहं अणगारं एवं बयासी — से नूणं तव मेहा ! राओ पुव्वरत्तावरत्त-कालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूबं अज्ञातिथिए जाव समुप्पज्जित्था — एवं खलु अहं इमेणं उरालेणं जाव जेणेव ईहं तेणेव हृव्वमागए । से नूणं मेहा ! अट्टे समट्टे ? हंता अथिं । अहासुहं देवाणु-प्तिया ! मा पडिबंधं । तए णं से मेहे अणगारे समणेणं ३ अब्भणुन्नाए समाणे हट्ट जाव हियए उट्टाए उट्टेइ २ समणं ३ तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ वंदइ नमंसइ २ सयमेव पंच महव्वयाइं आरोहेइ २ गोयमाइ समणे निगंथे निगंथीओ य खामेइ २ तहारूबेहिं कडाईहिं

थेरेहिं सद्दि विपुलं पठवयं साणियं २ दुरुहइ सयमेव मेहधणसन्निगासं  
 पुढविसिलापट्ट्यं पडिलेहेइ २ उच्चारपासवणभूमिं पडिलेहेइ २ दब्भसंथा-  
 रगं संथरइ २ दब्भसथारगं दुरुहइ २ पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसणे  
 करयलपरिगहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु एवं वयासी – नमोत्थु  
 णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं । नमोत्थु णं समणस्स जाव संपाविउकामस्स  
 मम धर्मायरियस्स । वंदामि णं भगवंतं तत्थगयं इहगए पासउ मे भगवं  
 तत्थगए इहगयं तिकट्टु वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – पुनिं पि णं  
 मए समणस्स ३ अंतिए सब्बे पाणाइवाए पच्चक्खाए मुसावाए अदिन्ना-  
 दाणे भेहुणे परिगहे कोहे माणे माया लोहे पेज्जे दोसे कलहे अब्भ-  
 क्खाणे पेसुन्ने परपरिवाए अरइरइ मायामोसे मिच्छादंसणसङ्गे पच्चक्खाए ।  
 इयाणि पि णं अहं तस्सेव अंतिए सब्बं पाणाइवायं पच्चक्खामि सब्बं  
 असणपाणखाइमसाइमं चउठिवहंपि आहारं पच्चक्खामि जावज्जीवाए ।  
 जंपि य इमं सरीरं इडुं कंतं पियं जाव विविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा  
 फुसंतीतिकट्टु एयं पि य णं चरमेहिं ऊसासनीसासेहिं वोभिरामि तिकट्टु  
 संलेहणाशूसणाशूमिए भत्तपाणपडियाइक्खिवाए प/ओवगए कालं अणव-  
 कंखमाणे विहरइ । तए णं थेरा भगवंतो मेहस्स अणगारस्स अगिलाए वेया-  
 वाडियं करेति । तए णं से मेहे अणगारे समणस्स ३ तहारुवाणं थेराणं  
 अंतिए सामाइयमाइयाइं एकारस अंगाइं अहिजित्ता बहुपडिपुण्णाइं दुवा-  
 लसवरिसीइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं  
 झोसेत्ता साडुं भत्ताइं अणसणाए छेएत्ता आलोइयपडिकंते उद्दियसङ्गे  
 समाहिपत्ते आणुपुञ्चवेणं कालगए । तए णं थेरा भगवंतो मेहं अणगारं  
 आणुपुञ्चवेणं कालगयं पासंति २ परिनिव्वाणवत्तियं काउस्सगं करेति २  
 मेहस्स आयारभंडगं गेणहंति विउलाओ पव्वयाओ सणियं २ पच्चो-  
 रुहंति २ जेणामेव गुणसिलए चेइए जेणामेव समणे ३ तेणामेव उवा-  
 गच्छंति २ समणं ३ वंदंति नमंसंति २ एवं वयासी – एवं खलु देवाणु-  
 पियाणं अंतेवासी मेहे नामं अणगारे पगाइभहए जाव विणीए । से णं  
 देवाणुपिएहिं अब्भणुन्नाए समाणे गोयमाइए समणे निगंथे २ खामेत्ता

अम्हेहिं सद्दिं विपुलं पञ्चवयं सणियं २ दुरुहइ २ सयमेव मेघघणसत्रि-  
गासं पुढिसिलं पडिलेहेइ २ भन्तपाणपडियाइकिखए अणुपुञ्बेण कालगए ।  
ऐस णं देवाणुपिया ! मेहस्स अणगारस्स आयारभंडए ।

(३७) भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं ३ वंदइ नमंसइ २ एवं  
वयासी – एवं खलु देवाणुपियाणं अंतेवासी मेहे नामं अणगारे । से णं  
भंते ! मेहे अणगारे कालमासे कालं किञ्चा कहिं गए कहिं उववन्ने ? गोयमा  
इ समणे ३ भगवं गोयमं एवं वयासी – एवं खलु गोयमा ! मम अंतेवासी  
मेहे नामं अणगारे पगइभदए जाव विणीए । से णं तहारूवाणं थेराणं  
अंतिए सामाइयमाइयाइं एकारस अंगाइं अहिजजइ बारस भिक्खुपडि-  
माओ गुणरयणसंबच्छरं तवोकम्मं काण्णं फासेत्ता जाव किट्टेत्ता मए  
अब्धणुन्नाए समाणे गोयमाइ थेरे खामेइ तहारूवेहिं जाव विपुलं पञ्चवयं  
दुरुहइ दब्भसंथारगं संथरइ २ दब्भसंथारोवगए सयमेव पंचमहब्बाएं  
उच्चारेइ बारस बासाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए  
अप्पाणं झूसित्ता सद्दिं भत्ताइं अणसणाए छेदेत्ता आलोइयपडिकंते  
उद्धियसले समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा उद्धं चांदिमसूरगहणग-  
नक्खत्ततारारूवाणं बहूइं जोयणाइं बहूइं जोयणसयाइं बहूइं जोयण-  
सहस्साइं बहूइं जोयणसयसहस्साइं बहूइं जोयणकोडीओ बहूइं जोयण-  
कोडाकोडीओ उड्हं दूरं उप्पइत्ता सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिंदबंभलंतगमहा-  
सुक्षसहस्साराणयपाणंयारणच्चुए तिणिण य अट्टारसुत्तरे गेवेज्जविमाण-  
वाससए बीइवइत्ता विजए मैहाविमाणे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं अत्ये-  
गइयाणं देवाणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । तत्थ णं मेहस्स वि-  
देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । ऐस णं भंते ! मेहे देवे ताओ  
देवलोयाओ आउक्खएणं ठिइक्खएणं भवक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता  
कहिं गच्छहिइ कहिं उववजिहिइ ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्जहिइ  
बुज्जहिइ मुच्चहिइ परिनिव्वाहिइ सञ्चवदुक्खाणमंतं काहिइ ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अप्पोपालंभनिमित्तं  
पठमस्स नायज्ञयणस्स अयमट्टे पन्नत्ते तिबेमि ।

## ॥ बीयं अज्ञायणं ॥

(38) जइं भंते ! समणेण जाव संपत्तेण पढमस्स नायज्ञायणस्स अयमट्टे पन्नते विईयस्स ण भंते ! नायज्ञायणस्स के अट्टे पन्नते ? एवं खलु जंबू ! तेण कालेण २ रायगिहे नामं नयरे होतथा वण्णओ । तत्थं ण रायगिहस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरतिथमे दिसीभाए गुणसिलए नामं चेइए होतथा वण्णओ । तस्स ण गुणसिलयस्स चेइयस्स अदूरसामंते एत्थं ण महं एगं जिणुज्जाणे यावि होतथा विणट्टदेवउले पैरिसाडियतोरणघरे नाणाविहुच्छगुम्मलयावल्लिवच्छच्छाइए अणेगवालसयसंकणिज्जे यावि होतथा । तस्स ण जिणुज्जाणस्स बहुमज्जादेसभाए एत्थं ण महं एगे भग्ग-कूवए यावि होतथा । तस्स ण भग्गकूवस्स अदूरसामंते एत्थं ण महं एगे मालुयाकच्छए यावि होतथा किण्हे किंहोभासे जाव रम्मे महामेह-निउरंब्भूए बहूहिं रुक्खेहि य गुच्छेहि य गुम्मेहि य लयाहि य वलीहि य कुसेहि य खाणुएहि य संच्छन्ने पलिच्छन्ने अंतो झुसिरे बाहिं गंभीरे अणेगवालसयसंकणिजे यावि होतथा ।

(39) तत्थं ण रायगिहे नयरे धंणे नामं सत्थवाहे अट्टे दिते जाव विउलभत्तपाणे । तस्स ण धणस्स सत्थवाहस्स भदा नामं भारिया होतथा सुकुंमालपाणिपाया अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरा लक्ष्वणबंजणगुणो-वचेया माणुम्माणप्पमाणपाडिपुण्णसुजायसव्वंगसुंदरंगी सर्सिसोमागारा कंता पियदंसणा सुरुवा करयलपरिमियतिवलियमज्जा कुंडलुलिहियगंड-लेहा कोमुइयरयणियरपडिपुण्णसोमवयणा सिंगारागारचारुवेसा जाव पडिरुवा वंशा अवियाउरी जाणुकोप्परमाया यावि होतथा ।

(40) तस्स ण धणस्स सत्थवाहस्स पंथए नामं दासचेडे होतथा सव्वंगसुंदरंगे मंसोवचिए बालकीलावणकुसले यावि होतथा । तए णं से धणे सत्थवाहे रायगिहे नयरे बहूणं नगरनिगमसेडिसत्थवाहाणं अट्टार-ससेणिप्पसेणीणं बहूसु कज्जेसु य कुडुंबेसु य जाव चकखुभूए यावि होतथा नियगस्स वि य णं कुडुंबस्स बहूसु कज्जेसु जाव चकखुभूए यावि होतथा ।

(41) तत्थं ण रायगिहे नयरे विजए नामं तक्के होतथा पावे

चंडालरूपे भीमतररुद्रकम्मे आहेसियादित्तरत्तनयणे खरफरुंसमहळविगय-  
बीभच्छदाढिए असंपुडियउटे उद्धुयपईण्णक्लंबंतमुद्धए भमरराहुवणे निर-  
णुकोसे निरणुतावे दारुणे पईभए निसंसइए निरणुकंपे अहीव एगंत-  
दिट्ठीए खुरेव एगंतधाराए गिद्धेव आमिसतल्हिच्छे अग्रिमिव सव्वभक्ती  
जलमिव सर्वगगाही उक्कचणवंचणमायानियडिकूडकवडसाइसंपओग-  
बहुले चिरनगरविणटुटुडसीलायारचरिते जूयप्पसंगी मज्जप्पसंगी भोज्ज-  
प्पसंगी मंसप्पसंगी दारुणे हियथदाराए साहसिए संधिच्छेयए उवहिईं  
विसंभधाई आलीयगतित्थभेयलहुहत्थसंपउते परस्स दव्वहरण्मि निष्ठ  
अणुबद्धे तिव्ववेरे रायगिहस्स नगरस्स बहूणि अईगमणाणि य निग-  
मणाणि य वाराणि य अवबाराणि य छिंडीओ य खंडीओ य नगर-  
निद्धमणाणि य संवृष्टणाणि य निवृष्टणाणि य जूयंखलयाणि य पाणा-  
गाराणि य वेसागाराणि य तक्रद्वाणाणि य तक्रघराणि य सिंघाडगाणि  
य तिगाणि य चउक्काणि य चब्बराणि य नागघराणि य भूयघराणि य  
जक्खदेउलाणि य सभाणि य पवाणि य पणियसालाणि य सुन्नघराणि य  
आभोएमाणे मग्गमाणे गवेसमाणे बहुजणस्स छिद्देसु य विसमेसु य  
विहुरेसु य वसणेसु य अव्युदएसु य उम्सवेसु य पसवेसु य तिहीसु य  
छणेसु य जन्नेसु य पव्वणीसु य मन्तपमत्तस्स य वक्खित्तस्स य  
वाउलस्स य सुहियस्स य दुहियस्स य विदेसत्थस्स य विष्ववसियस्स य  
मग्गं च छिहं च विरहं च अंतरं च मग्गमाणे गवेसमाणे एवं च पं  
विहरइ बहिया वि य पं रायगिहस्स नगरस्स आरामेसु य उज्जाणेसु य  
वाविपोक्खवरणीदीहियांगुजालियांसिरपंतियसरसरपंतियासु य जिणुज्जा-  
णेसु य भगगक्कवएसु य मालुयाकच्छएसु य सुसाणेसु य गिरिकंदर-  
लेणउवद्वाणेसु य बहुजणस्स छिद्देसु य जाव एवं च पं विहरइ ।

(42) तए पं तीसे भहाए भारियाए अन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्त-  
कालसमयंसि कुंबजागरियं जागरमाणीए अयमेयारूपे अज्ञात्यिए जाव  
समुप्पज्जित्या — अहं धणेण सत्थवाहेण सद्दिं बहूणि वासाणि सहफरिस-  
रसरुणाणि माणस्सगाहं कामभोगाहं पच्चण्णब्भवमाणी विहरामि नो चेव

णं अहं दारगं वा दारियं वा पैयामि । तं धन्नाओ णं ताओ अम्म-  
 याओ जाव सुलद्वे णं माणुस्सए जम्मजीवियफले तासिं अम्मयाणं जासिं  
 मन्ने नियगकुच्छिसंभूयाइं थणदुद्धलुद्धयाइं महुरसमुलावगाइं मम्मण-  
 पयंपियाइं थणमूळां कक्खदेसभागं अभिसरमाणाइं मुद्धयाइं थणयं पियंति  
 तओ य कोमलकमलोवमेहिं हत्थेहिं गिणहऊणं उच्छंगे निवेसियाइं देंति  
 समुलावए पिए सुमहुरे पुणो २ मंजुलप्पभणिए । अहं णं अधन्ना  
 अपुण्णा अक्यलक्खणा एत्तो एगमवि न पत्ता । तं सेयं मम कल्लं जाव  
 जलंते धणं सत्थवाहं आपुच्छित्ता धणेणं सत्थवाहेणं अब्भणुन्नाया  
 समाणी सुवहुं विपुलं असणं ४ उवक्खडावेत्ता सुवहुं पुण्फगंधमलालंकारं  
 गहाय ब्रह्महिं मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणमहिलाहिं साद्विं संपरि-  
 बुडा जाइं इमाइं रायगिहस्सै नयरसम बहिया नागाणि य भूयाणि य  
 जक्खाणि य इंदाणि य खंदाणि य रुद्धाणि य सिवाणि य वेसमणाणि य  
 तथं वहूणं नागपडिमाण य जाव वेसमणपडिमाण य मंहरिहं पुण्फ-  
 चाणियं करेत्ता जन्मुपायपडियाए एवं वइत्तए – जइ णं अहं देवाणु-  
 पिया ! दारगं वा दारिगं वा पैयायामि तो णं अहं तुव्वमं जायं च दायं च  
 भायं च अक्खयणिहिं च अणुवड्हेमि त्तिकट्टु उंवाइयं उवाइत्तए । एवं सेपे-  
 हेहि २ कल्लं जाव जलंते जेणामेव धणे सत्थवाहे तेणामेव उवागच्छइ २  
 एवं वयासी-एवं खलु अहं देवाणुपिया ! तुव्वमेहिं साद्विं ब्रह्महिं वासाइं जाव  
 देंति समुलावए सुमहुरे पुणो २ मंजुलप्पभणिए ! तं णं अहं अहन्ना अपुण्णा  
 अक्यलक्खणा एत्तो एगमवि न पत्ता । तं इच्छामि णं देवाणुपिया !  
 तुव्वमेहिं अब्भणुन्नाया समाणी विपुलं असणं ४ जाव अणुवड्हेमि उंवाइयं  
 करित्तए । तए णं धणे सत्थवाहे भदं भारियं एवं वयासी – ममं पि य णं  
 देवाणुपिए ! एस चेव मणोरहे – कहं णं तुमं दारगं वा दारियं वा  
 पयाएज्जासि भद्धाए सत्थवाहीए एयमहुं अणुजाणइ । तए णं सा भद्धा  
 सत्थवाही धणेणं सत्थवाहेणं अब्भणुन्नाया समाणी हड जाव हिया  
 विपुलं असणं ४ उवक्खडावेहि २ सुवहुं पुण्फगंधैमलालंकारं गेणहइ २  
 सयाओ गिहाओ निगच्छइ २ रायगिहं नयरं मज्जंमज्जेणं निगच्छइ २

जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ २ पुक्खरिणीए तीरे सुबहुं पुण्फ  
जाव मल्लालंकारं ठवेइ २ पुक्खरिणि ओगाहेइ २ जलमज्जणं करेइ जल-  
किङुं करेइ २ ष्हाया कयबलिकम्मा उळपडसाडिगा जाइं तत्थं उप्पलाइं  
जाव सहस्रसंत्ताइं गिणहइ २ पुक्खरिणीओ पच्चोरुहइ २ तं पुर्फ्कवत्थ-  
गंधमल्लं गेणहइ २ जेणामेव नागघरए जाव वेसमणघरए य तेणामेव  
उवागच्छइ २ तत्थं नागपडिमाण य जाव वेसमणपडिमाण य आलोए  
पणामं करेइ ईसिं<sup>५</sup> पच्चुन्नमइ २ लोमहत्थं परामुसइ २ नागपडि-  
माओ य जाव वेसमणपडिमाओ य लोमहत्थेणं पमज्जइ उदगधाराए  
अब्मुक्खेइ २ पम्हलसूमालाए गंधकासाइए गायाइं ल्हेइ २ मंहरिहं  
वत्थारुहणं च मल्लारुहणं च गंधारुहणं च चुण्णारुहणं च वण्णारुहणं  
च करेइ २ धूवं डहइ २ जन्नुपायपडिया पंजलिउडा एवं वयासी –  
जइं अहं दारगं वा दारियं वा पयामि तो णं अहं जायं च जाव  
अणुवडैमि त्तिकट्टु उवाइयं करेइ २ जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवा-  
गच्छइ २ विपुलं असणं ४ आसाएमाणी जाव विहरइ जिमिय जाव  
सुइभूया जेणेव सए गिहे तेणेव उवाँगया । अदुत्तरं च णं भदा सत्थवाही  
चाउहसट्टमुहिंपुण्णमासिणीसु विपुलं असणं ४ उवक्खडेइ २ बहवे नागा  
य जाव वेसमणा य उवायमाणी नमंसमाणी जाव एवं च णं विहरइ ।

(41) तए णं सा भदा सत्थवाही अन्नया कयाइ केणइ कालंत-  
रेणं आवन्नसत्ता जाया यावि होत्या । तए णं तीसे भदा ए सत्थवाहीए  
दोसु मासेसु वीइकंतेसु तईए मासे वट्टमाणे इमेयारुवे दोहले पाउब्मूए –  
धन्नाओ णं ताओ अस्मयाओ जाव कयलक्खणाओ ताओ अस्मयाओ  
जाओ णं विउलं असणं ४ सुबहुं पुण्फगंधमल्लालंकारं गहाय मित्तनाइ-  
नियगसयणसंबंधिपरियणमहिलियाहि य सद्विं संपरिवुडाओ रायगिहं नयरं  
मज्जामज्जेणं निगगच्छंति २ जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छंति २ पोक्ख-  
रिणी ओगाहेति २ ष्हायाओ कयबलिकम्माओ सब्बालंकारविभूसियाओ  
विपुलं असणं ४ आसाएमाणीओ जाव पेडिभुंजेमाणीओ दोहलं विणेति । एवं  
संपेहेइ २ कलं जाव जलंते जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ २ धणं

सत्थवाहं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! मम तस्स गबभस्स जाव 'विणेति' । तं इच्छामि णं देवाणुपिया ! तु ब्मेहिं अबभणुन्नाया समाणी जाव विहरित्तेऽ । अहासुहं देवाणुपिया ! मा पडिवंधं । तए णं सा भद्रा धणेणं सत्थवाहेणं अबभणुन्नाया समाणी हट्टा जाव विपुलं असणं ४ जाव उल्लपडसाडगा जेणेव नागघरए जाव धूवं डहइ २ पणामं करेइ २ जेणेव पोकखरिणी तेणेव उवागच्छइ । तए णं ताओ मित्तनाइ जाव नग्नरमहिलाओ भद्रं सत्थवाहिं सव्वालंकारविभूसियं करेति । तए णं सा भद्रा सत्थवाही ताहिं मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणनगरमहिलियाहिं साद्विं तं विपुलं असणं ४ जाव परिमुंजेमाणी दोहलं विणेइ २ जामेव दिसं पाउव्युया तामेव दिसं पडिगया । तए णं सा भद्रा सत्थवाही संपुण्णदोहला जाव तं गव्यं सुहंसुहेणं परिवहइ । तए णं सा भद्रा सत्थवाही नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्वट्टमाण य राइंदियाणं सुकुमालपाणिपायं जाव दारगं पयाया । तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पढमे दिवसे जायकम्मं करेति २ तहेव जाव विपुलं असणं ४ उवक्व-डावेति २ तहेव मित्तनाइनियं भोयावेत्ता अयमेयारूवं गोणं गुण-निष्फन्नं नामधेज्जं करेति – जम्हा णं अम्हं इमे दारए बहूणं नागपडिमाण य जाव वेसमणपडिमाण य उवाईंयलद्वे तं होउंणं अम्हं इमे दारए देवदिन्ने नामेणं । तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधेज्जं करेति देवदिन्ने त्ति । तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो जायं च दायं च भायं च अक्खयनिहि च अणुवड्हेति ।

(42) तए णं से पंथए दासचेडए देवदिन्नस्स दारगस्स बालगगाही जाए । देवदिन्नं दारगं कडीए गेणहइ २ बहूहिं डिभएहि य डिभियाहि य दारएहि य दारियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य साद्विं संपरिखुडे अभिरमइ । तए णं सा भद्रा सत्थवाही अन्नया कयाइ देवदिन्नं दारयं ण्हायं कयबलिकम्मं कयकोउयमंगलपायच्छित्तं सव्वालंकारविभूसियं करेइ २ पंथयस्स दासचेडगस्स हत्थगंसि दलयइ । तए णं से पंथए दास-चेडए भद्राए सत्थवाहीए हत्थाओ देवदिन्नं दारगं कडीए गेणहइ २

सयाओ गिहाओ पडिनिकखमइ बहूहिं डिंभएहि य जाव कुमारियाहि य सद्दि संपरिवुडे जेणेव रायमगे तेणेव उवागच्छइ २ देवदिनं दारगं एगते ठावेइ २ बहूहिं डिंभएहि य जाव कुमारियाहि य सद्दि संपरिवुडे पमत्ते यावि विहरइ । इमं च णं विजए तकरे रायगिहस्स नगरस्स बहूणि बाराणि य अवबाराणि य तहेव जाव आभोएमाणे मगे-माणे गवेसमाणे जेणेव देवदिने दारए तेणेव उवागच्छइ २ देवदिनं दारगं सव्वालंकारविभूसियं पासइ २ देवदिनस्स दारगस्स आभरणा-लंकारेसु मुच्छए गढिए गिद्वे अज्ञोववन्ने पंथगं दासचेडं पमत्त पासइ २ दिसालोयं करेइ २ देवदिनं दारगं गेणहइ २ कक्खंसि अल्लियावेइ २ उत्तरिज्जेणं पिहेइ २ सिगधं तुरियं चवलं वेइयं रायगिहस्स नगरस्स अवदीरेणं निगगच्छइ २ जेणेव जिण्णुज्जाणे जेणेव भग्गकूवए तेणेव उवागच्छइ २ देवदिनं दारयं जीवियाओ ववरोवेइ २ आभरणालंकारं गेणहइ २ देवादिनस्स दारगस्स सरीरं निप्पाणं निच्चेडं जीवविष्पजदं भग्गकूवए पक्षिववइ २ जेणेव मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छइ २ मालुगाकच्छयं अणुष्पविसइ २ निच्चचले निष्फंदे तुसिणीए दिवसं खवेमाणे चिट्ठइ ।

(43) तए णं से पंथए दासचेडे तओ मुहुत्तंतरस्स जेणेव देवदिने दारए ठविए तेणेव उवागच्छइ २ देवदिनं दारगं तंसि ठाणंसि अपास-माणे रोयमाणे कंदमाणे देवदिनस्स दारगस्स सव्वाओ समंता मग्गण-गवेसणं करेइ २ देवदिनस्स दारगस्स कत्थइ मुईं वा खुइं वा पैजाति वा अलभमाणे जेणेव सए गिहे जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ २ धणं सत्थवाहं एवं वयासी – एवं खलु सामी ! भदा सत्थवाही देवदिनं दारयं ष्हायं जाव मम हत्थे दलयइ । तए णं अहं देवदिनं दारयं कडीए गिण्हामि जाव मग्गणगवेसणं करेमि । तं न नज्जइ णं सामी ! देवदिने दारए केणइ नीर्ए वा अवहिए वा अंकिखत्ते वा पायवडिए धणस्स सत्थवाहस्स एयमटुं निवेदेइ । तए णं से धणे सत्थवाहे पंथयस्स दासचेड-गस्स एयमटुं सोज्जा निसम्प तेण य भद्या पुत्तसोएणाभिभूए समाणे

फरसुणियते व चंपगपायवे धसति धरणीयलंसि सब्बंगेहि॒ सन्निवइ॒ ।  
 तए ण से धणे सत्थवाहे॒ तओ मुहुत्तंतरस्स आसत्थे पञ्चागयपाणे॒ देव-  
 दिन्नस्स दारगस्स सब्बओ॒ समंता॒ मगगणगवेसणं करेइ॒ देवदिन्नस्स दार-  
 गस्स कत्थइ॒ सुइ॒ वा॒ खुइ॒ वा॒ पवत्ति॒ वा॒ अलभमाणे॒ जेणेव सए॒ गिहे॒  
 तेणेव॒ उवागच्छइ॒ २ महत्थं पाहुडं गेणहइ॒ २ जेणेव॒ नगरगुत्तिया॒ तेणेव॒  
 उवागच्छइ॒ २ तं॒ महत्थं पाहुडं उवणेइ॒ २ एवं॒ वयासी॒— एवं॒ खलु॒ देवाणु-  
 पिया॒ ! मम पुत्ते॒ भद्राए॒ भारियाए॒ अत्तए॒ देवदिन्ने॒ नामं॒ दारए॒ इट्टे॒ जाव॒  
 उच्चरपुष्कं पिव॒ दुलहे॒ सवणयाए॒ किमंग पुण॒ पासणयाए॒ । तए ण सा॒ भद्रा॒  
 भारिया॒ देवदिन्नं॒ दारगं॒ एहायं॒ सब्बालंकारविभूतियं॒ पंथगस्स हत्थे॒ दलाइ॒  
 जाव॒ पायवडिए॒ तं॒ मम निवेदेइ॒ । तं॒ इच्छामि॒ णं॒ देवाणुपिया॒ ! देवदिन्नस्स  
 दारगस्स सब्बओ॒ समंता॒ मगगणगवेसणं कयं॒ । तए ण ते॒ नगरगोत्तिया॒  
 धणेणं॒ सत्थवाहेणं॒ एवं॒ तुत्ता॒ समाणा॒ सन्नद्धवद्धकवया॒ उपीलियसरासण-  
 पट्टिया॒ जाव॒ गहियाउहपहरणा॒ धणेणं॒ सत्थवाहेणं॒ सद्दिं॒ रायगिहस्स  
 नगरस्स बहूणि॒ अइगमणाणि॒ य जाव॒ पवासु॒ य मगगणगवेसणं करेमाणा॒  
 रायगिहाओ॒ नगराओ॒ पडिनिकखमंति॒ २ जेणेव॒ जिष्णुज्जाणे॒ जेणेव॒  
 भगगकूवए॒ तेणेव॒ उवागच्छंति॒ २ देवदिन्नस्स दारगस्स सरीरगं॒ निष्पाणं॒  
 निष्वेष्टं॒ जीवं॒ विष्पजढं॒ पासंति॒ २ हा॒ हा॒ अहो॒ अकज्जमित्तिकट्टु॒ देव-  
 दिन्नं॒ दारगं॒ भगगकूवाओ॒ उत्तारेति॒ २ धणस्स सत्थवाहस्स हत्थे॒ दल्यंति॒ ।

(44) तए ण ते॒ नगरगुत्तिया॒ विजयस्स तकरस्स पयर्मगमण-  
 गच्छमाणा॒ २ जेणेव॒ मालुयाकच्छणे॒ तेणेव॒ उवागच्छंति॒ २ मालुयाक-  
 च्छंगं॒ अणुप्पविसंति॒ २ विजयं॒ तकरं॒ मसक्खं॒ सहोडं॒ सगेवैजं॒ जीव-  
 गाहं॒ गेणहंति॒ २ अट्टिमुट्टिजाणुकोप्परपहारसंभगमहियगत्तं॒ करेति॒ २  
 अबओडगवंधणं॒ करेति॒ २ देवदिन्नस्स दारगस्स सब्बं॒ आभरणं॒ गेणहंति॒ २  
 विजयस्स तकरस्स गीवाए॒ बंधंति॒ २ मालुयाकच्छगाओ॒ पडिनिकख-  
 मंति॒ २ जेणेव॒ रायगिहे॒ नयरे॒ तेणेव॒ उवागच्छंति॒ २ रायगिहं॒ नयरं॒  
 अणुप्पविसंति॒ २ रायगिहे॒ नयरे॒ सिंघाडगतिगचउकच्चरमहापहेसु॒  
 कसप्पहारे॒ य लयापहारे॒ य छिवापहारे॒ य निवायमाणा॒ २ छारं॒ च

धूलिं च कयवरं च उवरिं पकिरमाणा २ महया २ सदेण उग्योसेमाणा  
एवं वयंति — एस णं देवाणुपिया ! विजए नामं तकरे जाव गिद्रे विव  
आमिसभक्षी बालघायए बालमारए । तं नो खलु देवाणुपिया !  
एयस्स केइ राया वा रायमचे वा अवरज्ञइ नन्नत्थ अप्पणो सयाइं  
कम्माइं अवरज्ञांति त्तिकट्टु जेणामेव चारगसाला तेणामेव उवागच्छंति  
२ हडिबंधणं करेति २ भत्तपाणनिरोहं करेति २ तिसङ्गं कसप्पहारे  
य जाव निवाएमाणा २ विहरंति । तए णं से धणे सत्थवाहे मित्तनाइनियं-  
गसंबंधिपरियणेण माद्वे रोयमाणे जाव विलवमाणे देवदिनस्स दार-  
गस्स सरीरस्स महया इडुीसकारसमुद्दैणं नीहरणं करेति बहूद्वाइं लोइयाइं  
मयकिज्ञाइं करेति २ केणइ कालंतरेण अवगयसोए जाए यावि होत्था ।

(45) तए णं से धणे सत्थवाहे अन्नया कयाइं लहुसंयांसि राया-  
वराहंसि संपलत्ते जाए यावि होत्था । तए णं ते नगरगुत्तिया धणं सत्थ-  
वाहं गेणहंति २ जेणेव चारए तेणेव उवागच्छंति २ चारगं अणुप-  
वेसंति २ विजएणं तकरेणं साद्वे एगयओ हडिबंधणं करेति । तए णं  
सा भद्वा भारिया कळु जाव जलते विपुलं असणं ४ उवक्स्लेडेइ २ भोयण-  
पिंडए करेइ २ भोयेणाइं पकिखवइ लंछियमुद्दियं करेइ २ एगं च सुरभि-  
वारिपादिपुणं दगवारयं करेइ २ पंथयं दासचेडं सहावेइ २ एवं  
वयासी — गच्छहैं णं तुमं देवाणुपिया ! इमं विपुलं असणं ४ गहाय चारग-  
सालाए धणस्स सत्थवाहस्स उवणेहि । तए णं से पंथए भद्वाए सत्थ-  
वाहीए एवं बुते समाणे हट्टुट्टे तं भोयणपिंडगं तं च सुरभिवरवारि-  
पादिपुणं वारयं गेणहइ २ सयाओ गिहाओ पडिनिकखमइ २ राय-  
गिहं नगरं मज्जांमज्जेणं जेणेव चारगसाला जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव  
उवागच्छइ २ भोयेणपिडियं ठावेइ २ उंलेछेइ २ भोयेणं गेणहइ २  
भायणाइं धोवेइ २ हत्थसोयं दलयइ २ धणं सत्थवाहं तेणं विपुलेणं  
असणेणं ४ परिवेसेइ । तए णं से विजए तकरे धणं सत्थवाहं एवं वयासी—  
तुव्वभे णं देवाणुपिया ! ममं एयांओ विपुलाओ असणाओ ४ संविभागं  
करेहि । तए णं से धणे सत्थवाहे विजयं तकरं एवं वयासी — अवियाइं

अहं विजया ! एयं विपुलं असणं ४ कागाणं वा सुणगाणं वा दलएज्जा उक्कुसुडियाए वा णं छड्डेज्जा नो चेब णं तव पुत्तघायगस्स पुत्तमारगस्स अरिस्स वेरियस्स पंडिणीयस्स पञ्चामित्तस्स एत्तो विपुलाओ असणाओ ४ संविभागं करेज्जामि । तए णं से धणे सत्थवाहे तं विपुलं असणं ४ आहारेइ २ तं पंथगं पडिविसज्जेइ । तए णं से पंथए दासचेडे तं भोयणपिंडगं गिणहइ २ जामेव दिसिं पाउब्भौए तामेव दिसिं पडिगए । तए णं तस्स धणस्स सत्थवाहस्स तं विपुलं असणं ४ आहारियस्स समाणस्स उच्चारपासवणे णं उच्चाहित्था । तए णं से धणे सत्थवाहे विजयं तकरं एवं वयासी – एहि ताव विजया ! एगंतमवक्कमामो जेणं अहं उच्चारपासवणं परिठ्वेमि । तए णं से विजए तकरे धणं सत्थवाहं एवं वयासी – तुब्भं देवाणुपिया ! विपुलं असणं ४ आहारियस्स अतिथ उच्चारे वा पासवणे वा । ममं णं देवाणुपिया ! इमेहिं बहूहिं कसप्पहारेहि य जाव लया – पहारेहि य तण्हाए य छुहाए य परदभावमाणस्स नत्थि केइ उच्चारे वा पासवणे वा । तं छंदेणं तुमं देवाणुपिया ! एगंते अवक्कमित्ता उच्चारपासवणं परिठ्वेहि । तए णं से धणे सत्थवाहे विजएणं तकरेणं एवं वुत्ते समाणे तुसिणीए संचिट्ठइ । तए णं से धणे सत्थवाहे मुहुन्तरस्स बलियतरागं उच्चारपासवणेण उच्चाहिज्जमाणे विजयं तकरं एवं वयासी – एहि ताव विजया ! जाव अवक्कमामो । तए णं से विजए धणं सत्थवाहं एवं वयासी – जइ णं तुमं देवाणुपिया ! ताओ विपुलाओ असणाओ ४ संविभागं करेहि तओ हं तुब्भेहिं साद्धिं एगंते अवक्कमामि । तए णं से धणे सत्थवाहे विजयं एवं वयासी – अहं णं तुब्भं ताओ विपुलाओ असणाओ ४ संविभागं करिस्सामि । तए णं से विजए धणस्स सत्थवाहस्स एयमटुं पडिसुणेइ । तए णं से विजए धणेणं सद्धिं एगंते अवक्कमइ उच्चारपासवणं परिठ्वेइ आयंते चोक्खे परमसुइभौए तमेव ठाणं उवसंकमित्ताणं विहरइ । तए णं सा भदा कळं जाव जलते विपुलं असणं जाव परिवेसेइ । तए णं से धणे सत्थवाहे विजयस्स तकरस्स ताओ विपुलाओ असणाओ ४ संविभागं करेइ । तए णं से धणे सत्थवाहे पंथगं दासचेडं

विसज्जेइ । तए णं से पंथए भोयणपिडेयं गहाय चारगसालाओ पडि-  
निक्खमइ २ रायगिहं नयरं मज्जंमज्जेणं जेणेव सए गिहे जेणेव भहा  
सत्थवाही तेणेव उवागच्छइ २ भहं सत्थवाहिणि एवं बयासी—एवं खलु  
देवाणुपिए ! धणे सत्थवाहे तव पुत्थवायगस्स जाव पञ्चामित्स्स ताओ  
विपुलाओ असणाओ ४ संविभागं करेइ ।

(46) तए णं सा भदा सत्थवाही पंथगस्स दासचेडगस्स अंतिए एय-  
महं सोच्चचा आसुरुत्ता रुट्टा जाव मिसिमिसेमाणी धणस्स सत्थवाहस्स  
पओसमावज्जइ । तए णं से धणे सत्थवाहे अन्नया कयाइ मित्तनाइ-  
नियगसयणसंबंधिपरियणेणं सएण य अथसारेणं रायकज्जाओ अप्पाणं  
मोयावेइ २ चारगसालाओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव अलंकारियसभा  
तेणेव उवागच्छइ २ अलंकारियकमं करावेइ २ जेणेव पोक्खरिणी तेणेव  
उवागच्छइ २ अहं धोयमैट्रियं गेण्हइ पोक्खरिणीं ओगाहइ २ जल-  
मज्जं करेइ २ एहाए कयबलिकम्मे जाव रायगिहं नगरं अणुप्पविसइ २  
रायगिहस्स नगरस्स मज्जंमज्जेणं जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्थ गम-  
णाए । तए णं धणं सत्थवाहं एज्जमाणं पासित्ता रायगिहे नयरे बहवे  
नियगसेंट्टिसत्थवाहपभिइओ आढंति परियाणंति सक्कारेति सम्माणेति  
अब्मुट्टेति सरीरकुसलोदंतं संपुच्छंति । तए णं से धणे सत्थवाहे जेणेवे सए  
गिहे तेणेव उवागच्छइ । जावि य से तथं बाहिरिया परिसां भवइ तंजहा—  
दासा इ वा पेस्सा इ वा भियगा इ वा भाइङ्गा इ वा सा वि य णं धणं  
सत्थवाहं एज्जमाणं पासइ २ पायबडिया खेमकुसलं पुच्छइ । जावि य से  
तथं अडिभतरिया परिसा भवइ तंजहा—माया इ वा पिया इ वा भाया इ  
वा भझी इ वा सावि य णं धणं सत्थवाहं एज्जमाणं पासइ २  
आसणाओ अब्मुट्टेइ २ कंठाकंठियं अवयासिय बांहप्पमोक्खणं करेइ । तए  
णं से धणे सत्थवाहे जेणेव भदा भारिया तेणेव उवागच्छइ । तए णं सा  
भदा धणं सत्थवाहं एज्जमाणं पासइ २ नो आढाइ नो परियाणाइ  
अणाढायमाणी अपरियाणमाणी तुसिणीया परम्मुही संचिट्टइ । तए णं  
से धणे सत्थवाहे भहं भारियं एवं बयासी—किं णं तुळभं देवाणुपिए !

न तुट्टी वा न हरिसे वा नाणंदे वा जं मए सएण अत्थसारेण राय-  
 कज्ञाओ अप्पाण विमोईए। तए णं सा भद्रा धणं सत्थवाहं एवं वयासी—  
 कहं णं देवाणुपिप्या ! मम तुट्टी वा जाव आणंदे वा भविस्सइ जेणं तुमं मम  
 पुत्तधायगस्स जाव पश्चामित्स्स ताओ विपुलाओ असणाओ ४ संविभागं  
 करोसि। तए णं से धणे भदं भारियं एवं वयासी— नो खलु देवाणुपिप्ये !  
 धम्मो ति वा तचो ति वा कयपडिकइया इ वा लोगजत्ता इ वा नायए इ वा  
 संघाडिए इ वा सहाए इ वा सुहि ति वा ताओ विपुलाओ असणाओ ४  
 संविभागे कए नन्नत्थ सरीरचिंताए। तए णं सा भद्रा धणेण सत्थवाहेण  
 एवं चुत्ता समाणी हट्टा जाव आसणाओ अबमुट्टेइ २ कंठाकंठि अवयासेइ  
 खेमकुसलं पुच्छइ २ ष्हाया जाव पायच्छित्ता विपुलाइ भोगभोगाइ भुज-  
 माणी विहरइ। तए णं से विजए तक्रे चारगसालाए तेहिं बंधेहि वहेहिं  
 कसप्पहारेहि य जाव तण्हाए य छुहाए य परव्वभैमाणे कालमासे काळं  
 किश्चा नरएसु नेरइयत्ताए उववन्ने। से णं तत्थ नेरइए जाए काळे  
 कालोभासे जाव वेयणं पच्चयुव्वभवमाणे विहरइ। से णं तओ उव्वैट्टित्ता  
 अणादीयं अणवैदरगं चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियट्टिस्सइ। एवामेव  
 जंबू ! जे णं अम्हं निगंथो वा २ आयरियउवज्ञायाणं अंतिए मुंडे  
 भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए समाणे विपुलमणिमोत्तियधण-  
 कणगरयणसारेण लुब्भमइ से वि एवं चेव।

(47) तेणं कालेणं २ थेराँ भगवंतो जाइसंपन्ना जाव पुञ्चाणुपुठिंव  
 घरमाणा जाव जेणेव रायगिहे नयरे जेणेव गुणसिलए चेइए जाव अहा-  
 पडिरूवं उग्गहं उगिणिहत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति।  
 परिसा निगया धम्मो कहिओ। तए णं तस्स धणस्स सत्थवाहस्स बहु-  
 जणस्स अंतिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म इमेयारूवे अंज्ञतिथिए जाव  
 समुप्पज्जित्था — एवं खलु थेरा भगवंतो जाइसंपन्ना इहमागया इहसंपत्ता।  
 तं इच्छामि णं थेरे भगवंते वंदामि नमंसामि ष्हाए जाव सुद्धप्पावेसाइ  
 मङ्गलाइ वत्थाइ पवरपरिहिए पायविहारचारेण जेणेव गुणसिलए चेइए  
 जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ २ वंदइ नमंसइ। तए णं थेरा

धणस्स विचित्रं धम्ममाइक्खर्वति । तए णं से धणे सत्थवाहे धम्मं सोषा  
एवं वयासी – सहहामि णं भंते ! निगंथे पावयणे जाव पञ्चइए जाव  
बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाजणित्ता भत्तं पञ्चक्खाइत्ता मासियाए  
सलेहणाए सट्टिं भत्ताइं अणसणाए छेदित्ता कालमासे कालं किञ्चा  
सोहम्मे कर्पे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं चत्तारि  
पलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता । तत्थ णं धणस्स वि देवस्स चत्तारि पलिओव-  
माइं ठिई पन्नत्ता । से णं धणे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं  
ठिइक्खएणं भवक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ  
जाव सञ्चदुक्खाणमंतं करेहिइ ।

(48) जहा णं जंबू ! धणेणं सत्थवाहेणं नो धम्मो ति वा जाव  
विजयस्स तक्करस्स ताओ विपुलाओ असणाओ ४ संविभागे कए नन्नत्थ  
सरीरसारक्खणट्टाए एवामेव जंबू ! जे णं अम्हं निगंथे वा जाव पञ्च-  
इए समाणे ववगयण्हाणमहणपुफ्फंधमल्लालंकारविभूसे इमस्स ओरालिय-  
सरीरस्स नो वण्हेउं वा रूवहेउं वा बैलविसयहेउं वा तं विपुलं असणं ४  
आहारमाहारेह नन्नत्थ नाणदंसणचरित्ताणं वहणट्टयाए से णं इहलोए चेव  
बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावगाण य सावियाण य अञ्चणिज्जे  
जाव पञ्चुवासणिज्जे भवइ । परलोए वि य णं नो आगच्छइ बहूणि हृत्थ-  
च्छेयणाणि य कणच्छेयणाणि य नासाछेयणाणि य एवं हियउप्पायणाणि  
य वसणुप्पायणाणि य उल्लंबणाणि य पाविहिइ अणाईयं च णं अणबदगं  
दीहमद्धं जाव वीईवइस्सइ जहा व से धणे सत्थवाहे ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपेत्तण दोषस्स नायज्ज्ञयणस्स  
अयमद्धे पन्नत्ते त्तिबेमि ॥

॥ बीयं अज्ज्ञयणं समर्तं ॥

## ॥ तत्र अज्ञयण ॥

(49) जइ णं भेते ! समणेणं जाव संपत्तेणं दोषस्स अज्ञयणस्स नायाधम्मकहाणं अयमद्वे पञ्चते तइअस्स अज्ञयणस्स के अडे पञ्चते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ चंपा नामं नयरी होत्था वण्णओ । तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरात्थिमे दिसीभाए सुभूमिभागे नामं उज्जाणे सेव्वउयपुफफलसमिद्वे सुरम्मे नंदणवणे इव सुहसुरभिसीयलच्छायाए समणुबद्धे । तस्स णं सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स उत्तरपुरात्थिमे एगदेसंमि मालुयाकच्छए होत्था वण्णओ । तत्थ णं एगा वणीमयूरी दो पुटे परियाँगए पिट्ठुंडीपंडुरे निववणे निरुवहए भिन्नमुठिप्पमाणे मयूरी अंडए पसवइ २ सएणं पक्खवाएणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी संचिट्ठेमाणी विहरइ । तत्थ णं चंपाए नयरीए दुवे सत्थवाहदारगा परिवसंति तंजहा-जिणदत्तपुत्ते य सागरदत्तपुत्ते य सहजायया सहवड्डियया सहपंसु-कीलियया सहदारदरिसी अन्नमन्नमणुरत्ता अन्नमन्नमणुव्यया अन्नमन्न-च्छुंदाणुवत्तया अन्नमन्नहियइच्छियकारया अन्नमन्नेसु गिहेसु कम्माइं करणिज्जाइं पच्चणुब्भवमाणा विहरंति ।

(50) तए णं तेसि सत्थवाहदारगाणं अन्नया कयाइं एगयओ सहियाणं समुवागयाणं सत्रिसण्णाणं सत्रिविट्टाणं इमेयारूवे भिहोकहा-समुळावे समुप्पज्जित्था — जन्नं देवाणुपिप्या । अम्हं सुहं वा दुहं वा पञ्चज्जी वा विदेसगमणं वा समुप्पज्जइ तं णं अम्होहिं एगयओ समेझा नित्थरियवं तिकट्टु अन्नमन्नमेयारूवं संगारं पडिसुणेति सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्था ।

(51) तत्थ णं चंपाए नयरीए देवदत्ता नामं गणिया परिवसइ अड्हा जाव भत्तपाणा चैउसट्टिकलापंडिया चउसट्टिगणियागुणोवेया अड-णत्तीसविसेसे रममाणी एकवीसरइगुणपहाणा बत्तीसपुरिसोवयारकुसला नवंगसुत्तपडियोहिया अड्हारसदेसीभासाविसारया सिंगारागारचारुवेसा संगयगयहसिय जाव ऊसियज्जया सहस्सलंभा विदिन्नछत्तचामरबालवीय-णिया कणीरहप्पयाया वि होत्था बहूणं गणियासहस्साणं आहेवच्चं जाव

विहरइ । तए णं तेसि सत्थवाहदारगाणं अन्नया कयाइं पुव्वरत्तावैरत्तकालसमयंसि जिमियभुत्तरागयाणं समाणाणं आयन्ताणं चोक्खाणं परम-सुइभूयाणं सुहासणवरगयाणं इमेयारुवे मिहोकहासमुळावे समुप्पज्जित्थासेयं खलु अम्हं देवाणुपिया ! कळं जाव जलंते विपुलं असणं ४ उव-क्खडावेत्ता तं विपुलं असणं ४ ध्रूवपुष्फगंधवत्थं गहाय देवदत्ताए गणियाए साद्धि सुभूमिभागस्स उज्जाणसिरिं पच्चणुबभवमाणाणं विहरित्तए तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयम्हं पडिसुर्णेति २ कळं पौउप्पभायाए कोङुबियपुरिसे सहावेंति २ एवं वयासी — गच्छह ४ णं देवाणुपिया ! विपुलं असणं ४ उवक्खंडावेह २ तं विपुलं असणं ४ ध्रूवपुष्फं गहाय जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे जेणेव नंदापुक्खरिणी तेणामेव उवागच्छह २ नंदाए पोक्खरिणीए अदूरसामंते थूणामंडवं आहणह २ आसियसम्मज्जिओवलित्तं सुगंध जाव कलियं करेह २ अम्हं पडिवालेमाणा २ चिढ्हह जाव चिढ्हंति । तए णं ते सत्थवाहदारगा दोच्चंपि कोङुबियपुरिसे सहावेंति २ एवं वयासी — खिप्पामेव लहुकरणजुत्तजोइयं समखुरवालिहाणं समलिहियतिक्खगसिंगएहिं रययामयघंटसुत्तरज्जुपवरकंचणखचियनत्थपगहोवग्गहिएहिं नीलुप्पलकर्यामेलएहिं पवरगोणजुवाणएहिं नानामणिरयण-कंचणधंटियाजालपरिक्खत्तं पवरलक्खणोववेयं जुत्तामेव पवहणं उवणेह । ते वि तहेव उवणेति । तए णं ते<sup>१</sup> सत्थवाहदारगा ण्हाया जाव सरीरा पवहणं दुरुहंति २ जेणेव देवदत्ताए गणियाए गिहे तेणेव उवागच्छंति २ पवहणाओ पच्चोरुहंति २ देवदत्ताए गणियाए गिहं अणुप्पविसंति । तए णं सा देवदत्ता गणिया ते सत्थवाहदारए एज्जमाणे पासइ २ हड्हुद्वा आसणाओ अब्मुड्हइ २ सत्तडु पयाइं अणुगच्छइ २ ते सत्थवाहदारए एवं वयासी — संदिसंतुं ४ णं देवाणुपिया ! किमिहागमणप्पओयणं । तए णं ते सत्थवाहदारगा देवदत्तं गणियं एवं वयासी — इच्छामो ४ देवाणुपिए ! तुड्भेहिं साद्धि सुभूमिभागस्स उज्जाणसिरिं पच्चणुबभवमाणा विहरित्तए । तए णं सा देवदत्ता तेसि सत्थवाहदारगाणं एयम्हं पडिसुर्णेह २ ण्हाया कयबलिकम्मा किं ते पवर जाव सिरिसमाणवेसा

जेणेव सत्थवाहदारगा तेणेव उवागया । तए णं ते सत्थवाहदारगा देव-  
दत्ताए गणियाए सद्दिं जाँण दुरुहंति २ चंपाए नयरीए मज्जंमज्जेणं  
जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे जेणेव नंदापोक्खरिणी तेणेव उवागच्छंति  
२ पवहणाओ पठ्चोरुहंति २ नंदापोक्खरिणी ओगाहंति २ जलमज्जणं  
करेति जलकिङ्गु करेति ष्हायी देवदत्ताए सद्दिं पच्चुत्तरंति जेणेव थूणा-  
मंडबे तेणेव उवागच्छंति २ अणुप्पविसंति २ सञ्चालंकारभूसिया आसत्था  
वीसत्था सुहासणवरगया देवदत्ताए सद्दिं तं विपुलं असणं १ धूबपुप्फ-  
गंधवत्थं आसाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणा परिभुजंति एवं च णं  
विहरंति जिमियभुत्तुत्तरागया वि य णं समाणा आयंता देवदत्ताए सद्दिं  
विपुलाइं कामभोगाइं भुजमाणा विहरंति ।

(५२) तए णं ते सत्थवाहदारगा पुञ्चावरण्हकालसमयंसि देव-  
दत्ताए गणियाए सद्दिं थूणामंडबाओ पडिनिक्खमंति २ हत्थंसंगेल्लीए  
सुभूमिभागे बहूसु आलिघरएसु जाव कुसुमघरएसु य उज्जाणसिरिं पच्च-  
णुबभवमाणा विहरंति ।

(५३) तए णं ते सत्थवाहदारगा जेणेव से मालुयाकच्छए तेणेव  
पहारेत्थ गमणाए । तए णं सा वणमयूरी ते सत्थवाहदारए एजमाणे  
पासइ २ भीया तथा महया २ सद्देण केकारवं विणिमुयमाणी २  
मालुयाकच्छाओ पडिनिक्खमइ २ एगंसि रुक्खडालयंसि ठिच्चा ते सत्थ-  
वाहदारए मालुयाकच्छं च अणिमिसाए दिट्टीए पेहंमाणी २ चिढ्हइ । तए णं  
ते सत्थवाहदारगा अन्रमन्नं सद्दावेंति २ एवं वयासी – जहा णं देवाणु-  
पिया ! एसा वणमयूरी अम्हे एजमाणे पासित्ता भीया तथा तसिया  
उठिवग्गा पलाया महया २ सद्देण जाव अम्हं मालुयाकच्छयं च पेच्छमाणी  
२ चिढ्हइ तं भवियव्वमेत्थ कारणेण तिकट्टु मालुयाकच्छयं अंतो अणुप्प-  
विसंति । तथ णं दो पुढे परियागए जाव पासित्ता अन्रमन्नं सद्दावेंति २  
एवं वयासी – सेयं खलु देवाणुपिया ! अम्हं इमे वणमयूरीअंडए  
साणं जाइमताणं कुक्कुडियाणं अंडएसु पवित्रवावित्तए । तए णं ताओ  
जाइमंताओ कुक्कुडियाओ एए अंडए सए य अंडए सणं पंख्वापणं

सारक्षमाणीओ संगोवेमाणीओ विहरिस्संति । तए णं अम्हं एत्थ दो कीलावणगा मयूरपोयगा भविस्संति त्तिकट्टु अन्नमन्नस एथमहं पड़ि-  
सुणेंति २ सए सए दासेचेडए सहावेंति २ एवं वयासी – गच्छहं णं  
तुब्बे देवाणुपिया ! इमे अंडए गहाय सगाणं कुकुडीणं अंडएसु पक्खि-  
वह जाव ते पक्खिवेंति । तए णं ते सत्थवाहदारगा देवदत्ताए गणियाए  
साद्विं सुभूमिभागस्स उज्जाणसिरिं पच्चण्डभवमाणा विहरिता तमेव  
जाणं दुरुढा समाणा जेणेव चंपा नयरी जेणेव देवदत्ताए गणियाए गिहे  
तेणेव उवागच्छंति २ देवदत्ताए गिहं अणुप्पविसंति २ देवदत्ताए  
गणियाए विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दलयंति २ सकारेंति सम्माणेंति २  
देवदत्ताए गिहाओ पडिनिक्खमंति २ जेणेव सयाहं २ गिहाहं तेणेव  
उवागच्छंति २ सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्था ।

(54) तत्थ णं जे से सागरदत्तपुत्रे सत्थवाहदारए से णं कलं  
जाव जलंते जेणेव से वणमयूरीअंडए तेणेव उवागच्छइ २ तांसि मयूरी-  
अंडयंसि संकिए कंखिए विझिगच्छसमावन्ने भेयसमावन्ने कलुससमावन्ने  
किंभं मर्म एत्थ कीलावणए मयूरपोयए भविस्सइ उदाहु नो भविस्सइ  
त्तिकट्टु तं मयूरीअंडयं अभिक्खणं २ उव्वत्तेइ परियत्तेइ आसारेइ  
संसारेइ चालेइ कंदेइ घट्टेइ खोभेइ अभिक्खणं २ कण्णमूलंसि टिट्टि-  
यावेइ । तए णं से वणमयूरीअंडए अभिक्खणं २ उव्वत्तिज्जमाणे जाव  
टिट्टियावेज्जमाणे पोच्चडे जाए यावि होत्था । तए णं से सागरदत्तपुत्रे  
सत्थवाहदारए अन्नया कयाहं जेणेव से वणमयूरीअंडए तेणेव उवागच्छइ  
२ तं मयूरीअंडयं पोच्चडमेव पासइ २ अहो णं ममं एत्थ कीलावणए  
मयूरपोयए न जाए त्तिकट्टु ओह्यमण जाव झियायइ । एवामेव समणा-  
उसो ! जो अम्हं निगंथो वा २ आयरियउवज्ज्ञायाणं अंतिए पव्वइए  
समाणे पंचमहव्वएसु जाव छज्जीवनिकाएसु निगंथे पावयणे संकिए  
जाव कलुससमावन्ने से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं २ बहूणं सावगाणं  
सावियाणं हीलणिज्जे निंदणिज्जे खिंसणिज्जे गरहणिज्जे पर्मिभवणिज्जे  
परलोए विय णं आगच्छइ बहूणि दंडणाणि य जाव ससारं अणुपरियद्वइ ।

(55) तए णं से जिणदत्तपुत्ते जेणेव से मयूरीअंडए तेणेव उवा-  
गच्छइ २ तंसि मयूरीअंडयांसि निस्संकिए सुव्वत्ताए णं मम एत्थ कीला-  
वणए मयूरपोयए भविस्सह त्तिकट्टु तं मयूरीअंडयं अभिक्खणं २ नो  
उव्वत्तेइ जाव नो टिट्टियावेइ । तए णं से मयूरीअंडए अणुव्वत्तिज्ज-  
माणे जाव अटिट्याविज्जमाणे कालेणं समएणं उभिन्नमयूरपोयए एत्थ  
जाप । तए णं से जिणदत्तपुत्ते मयूरपोययं पासइ २ हट्टुहें मयूर-  
पोसए सहावेइ २ एवं वयासी – तुब्बे णं देवाणुपिया ! इमं मयूरपोयगं  
बहूहिं मयूरपोसणपाओगगेहिं दव्वेहिं अणुपुढ्वेणं सारक्खमाणा संगो-  
वेमाणा संवड्हेह नट्टुल्लगं च सिक्खावेह । तए णं ते मयूरपोसगा  
जिणदत्तस्स पुत्तस्स एयमट्टुं पडिसुणेंति २ तं मयूरपोयगं गेण्हंति जेणेव  
सए गिहे तेणेव उवागच्छंति २ तं मयूरपोयगं जाव नट्टुल्लगं सिक्खा-  
वेंति । तए णं से वणमयूरपोयए उम्मुक्खबालभावे विन्नाय जाव लक्खण-  
वंजणगुणोवए माणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णपक्खपेहुणकलावे विचित्तपिच्छ-  
सत्तचंदए नीलकंठए नच्चणसीलए एगाए चप्पुडियाए क्याए समाणीए  
अणेगाइं नट्टुल्लगसयाइं केकारवसयाणि य करेमाणे विहरइ । तए णं  
ते मयूरपोसगा तं मयूरपोयगं उम्मुक्ख जाव करेमाणं पासित्ताणं तं मयूरपोयगं  
गेण्हंति २ जिणदत्तपुत्तस्स उवणेंति । तए णं से जिणदत्तपुत्ते सत्थवाहदारए  
मयूरपोयगं उम्मुक्ख जाव करेमाणं पासित्ता हट्टुहें तेसिं विपुलं जीवियारिहं  
पीह्वाणं दलयइ २ पडिविसज्जेइ । तए णं से मयूरपोयगे जिणदत्तपुत्तेणं  
एगाए चप्पुडियाए क्याए समाणीए नंगोलाभंगसिरोधरे सेयावंगे  
ओर्हालियपइण्णपक्खे उक्खत्तचंदंकाइयकलावे केकाइयसयाणि विमुंच-  
माणे नच्चइ । तए णं से जिणदत्तपुत्ते तेणं मयूरपोयएणं चंपाए नयरीए  
सिंघाष्ठग जाव पहेसु सएहि य साहसिएहि य सयसाहसिएहि य पणि-  
एहि य जयं करेमाणे विहरइ । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगंथो  
वा २ पव्वइए समाणे पंचमहव्वएसु छज्जीवनिकाएसु निगंथे पावयणे  
निस्संकिए निक्कंखिए नित्तिव्विगिच्छे से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं

जाव वीद्वविस्सइ ।

एवं खलु जंबू ! समणेण जाव संपत्तेण नायाणं तच्चस्स अज्ञ-  
यणस्स अयमट्टे पञ्चतोति बेमि ॥

॥ तच्चं अज्ञयणं समर्थं ॥ ३ ॥

---

॥ चउत्थं अज्ञायणं ॥

(56) जइ ण भंते ! समणेण ३ नायाणं तच्चस्स नायज्ञयणस्स  
 अयमटु पन्नते चउत्थस्स ण नायाणं के अटु पन्नते ? एवं खलु जंबू ! तेण  
 कालेण २ वाणारसी नामं नयरी होत्था वणओ । तीसे ण वाणारसीए  
 नयरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए गंगाए महानईए मयंगतीरदहे नामं दहे  
 होत्था आणुपुव्वसुज्ञायवप्पगंभीरसीयलजले अच्छविमलसलिलपंलि-  
 च्छन्ने संछन्नपत्तपुफ्पलासे बहुउप्पलउमकुमुयनलिणसुभगसोगंधि-  
 यपुंडरीयमहापुंडरीयसयपत्तसहस्सपत्तकेसरपुफ्फोवच्चिए पासाईए ४ ।  
 वृत्तथं ण बहूणं मच्छाण य कच्छुभाण य गाहाण य मगराण य सुंसु-  
 माराण य सयाणि य सहस्साणि य सयसहस्साणि य जूहाइं निभयाइं  
 निरुद्धिगगाइं सुहंसुहेणं अभिरममाणाइं २ विहरंति । तस्स ण मयंगतीर-  
 दहस्स अदूरसामंते एत्थं ण महं मालुयाकच्छाए होत्था वणओ । तत्थ  
 ण दुवे पावसियालगा परिवसंति पावा चंडा रुद्धा तल्लिच्छासाहसिया  
 लोहियपाणी आमिसत्थी आमिसाहारा आमिसपिया आमिसलोला  
 आमिसं गवेसमाणा रन्ति वियालचारिणो दिया पच्छीन्नं वि चिट्ठुंति । तए  
 ण ताओ मयंगतीरद्दहाओ अन्नया कयाइं सूरियंसि चिरत्थमियंसि लुलि-  
 याए संद्वाए पविरलमाणुसंसि निसंतपडिनिसंतंसि समाणंसि दुवे  
 कुम्मगा आहारत्थी आहारं गवेसमाणा सणियं २ उत्तरंति तस्सेव मयंग-  
 तीरदहस्स परिपेरंतेणं सघ्नओ समंता परिघोलेमाणा २ विर्तिंकप्पेमाणा  
 विहरंति । तयाणंतरं च ण ते पावसियालगा आहारत्थी जाव आहारं  
 गवेसमाणा मालुयाकच्छाओ पडिनिक्खमंति २ जेणेव मयंगतीरदहे  
 तेणेव उवागच्छंति २ तस्सेव मयंगतीरदहस्स परिपेरंतेणं परिघोलेमाणा  
 २ विर्तिंकप्पेमाणा विहरंति । तए ण ते पावसियाला ते कुम्मए पासंति  
 २ जेणेव ते कुम्मए तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए ण ते कुम्मगा पाव-  
 सियालए एज्जमाणे पासंति २ भीया तत्था तसिया उद्धिगगा संज्ञाय-  
 भया हृत्थे य पाए य गीवाए य सणहिं २ काएहिं साहरंति २ निच्छला  
 निष्फंदा तुसिणीया संचिट्ठुंति । तए ण ते पावसियालगा जेणेव ते कुम्मगा

तेणेव उवागच्छंति २ ते कुम्मगा सब्बओ समंता उव्वत्तेंति परियत्तेंति आसारेति संसारेति चालेति घट्टेति फँदेति खोमेति नहेहिं आलुंपंति दंतेहि य अक्खोडेति नो चेव णं संचाएंति तेसि कुम्मगाणं सरीरस्स आवाहं वा पवाहं वा वावाहं वा उष्पाइत्तए छविच्छेयं वा करित्तए । तए णं ते पावसियालगा ते कुम्मए दोच्चंपि तच्चंपि सब्बओ समंता उव्वत्तेंति जाव नो चेव णं संचाएंति करित्तए ताहे संता तंता परितंता निविषणा समाणा सणियं २ पच्चोसक्रंति एगंतमवक्रमंति २ निच्चला निष्फदा तुसिणीया संचिद्गुंति । तत्य णं एगे कुम्मए ते पावसियालए चिरगए दूरंगए जाणित्ता सणियं २ एगं पायं निच्छुभइ । तए णं ते पावसियालगा तेणं कुम्मएणं सणियं २ एगं पायं नीणियं पासंति २ सिग्धं तुरियं चबलं चंडं जँझणं वेगियं जेगेव से कुम्मए तेणेव उवागच्छंति २ तस्स णं कुम्मगस्स तं पायं नखेहिं आलुंपंति दंतेहिं अक्खोडेति तओ पच्छा मंसं च सोणियं च आहारेति २ तं कुम्मगं सब्बओ समंता उव्वत्तेंति जाव नो चेव णं संचाएंति करेत्तए ताहे दोच्चंपि अवक्रमंति एवं चत्तारि वि पाया जाव सणियं २ गीवं नीगेह । तए णं ते पावसियालगा तेणं कुम्मएणं गीवं नीणियं पासंति २ सिग्धं चबलं ४ नहेहिं दंतेहिं य कवालं विहाडेति २ तं कुम्मगं जीवियाओ ववरोवेति २ मंसं च सोणियं च आहारेति । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगंयो वा २ आयरियउवज्ञायाणं अंतिए पव्वइए समाणे पंव य से इंदिया अगुत्ता भवंति से णं इहभवे चेव बहुणं समणाणं ४ हीलणिज्जे परलोए वि य णं आगच्छइ बहुणं दंडणाणं जाव ससारं अगुपरियद्वृइ जहा व से कुम्मए अगुर्त्तिदिए । तए णं ते पावसियालगा जेगेव से दोच्चे कुम्मए तेणेव उवागच्छंति २ तं कुम्मगं सब्बओ समंता उव्वत्तेंति जाव दंतेहिं अर्क्खुडेति जाव करित्तए । तए णं ते पावसियालगा दोच्चंपि तच्चंपि जाव नो संचायंति तस्स कुम्मगस्स किंचि आवाहं वा विवाहं वा जाव छविच्छेयं वा करेत्तए ताहे संता तंता परितंता निविषणा समाणा जामेव दिसं पाउभूया तामेव दिसं पडिगया ।

तए ण से कुम्मए ते पावसियालए निरगए दूरगए जाणिता सणियं  
 २ गीवं नीणेह २ दिसावलोयं करेह २ जमगसमगं चत्तारि वि पाए  
 नीणेह २ ताए उकिट्टाए कुम्मगईए वीईवयमाणे २ जेणेव मयंगतीरहहे  
 तेणेव उवागच्छह २ मित्तनाइनियगसयणसंवंधिपरियगेण साक्षि अभिस-  
 मन्नागए यावि होथा । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं समणो वा  
 समगी वा पञ्च महव्याइं इंदियाइं गुत्ताइं भवंति सेै ण इहभवे चेव  
 वहूणं समणाणं ४ नो हीलणिज्जे नो निंदणिज्जे परलोए वि य ण सुग्गइं  
 गच्छह वहूणं नो दंडणाणं नो मुङ्डणाणं जाव संसारं नो अणुपरियट्टहैं  
 जहा व से कुम्मए गुर्त्तिदिए ।

एवं खलु जंवू ! समणेण भगवया महावीरेण चउत्थस्स  
 नायज्ञयणस्स अयमद्दे पन्नत्तेत्ति व्रेमि ॥

---

॥ चउत्थं नायज्ञयणं समतं ॥ ४ ॥

## ॥ पंचमं अज्ञयणं ॥

(57) जइ णं भंते ! समणेण ३ चउत्थस्स नायज्ञयणस्स अयमद्दे पञ्चते पंचमस्स नायज्ञयणस्स के अद्दे पञ्चते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेण २ वारवई नामं नयरी होत्था पाईणपडीणायया उदीणदाहिणवित्थिणा नवजोयणवित्थिणा दुवालसजोयणायामा धणवइमइनिम्माया चामीयंरपवरपागारा नाणामणिपंचवणकविसीस-गसोहिया अलयापुरिसंकासा पमुइयपक्कीलिया पञ्चक्खं देवलोगभूया । तीसे णं वारवईए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए रेवयगे नामं पव्वए होत्था तुंगे गगणतलमणुलिहंतसिहरे नाणाविहगुच्छगुम्म-लयावल्लिपरिगए हंसमियमयूरकोंचसारसचक्खायमयणसालकोइल-कुलोववेए अङेगतडकडगवियरउज्ज्वरपवायपभारसिहरपउरे अच्छर-गणदेवसंघचारणविज्ञाहरमिहुणसंविचिणे निच्छ्छणए दसारवर-वीरपुरिसतेलोक्कलवगाणं सोमे सुभगे पियदंसणे सुरुवे पासाईए ४ । तस्स णं रेवयगस्स अदूरसामंते एत्थं णं नंदणवणे नामं उज्जाणे होत्था सध्वउंयपुण्फफलसमिद्दे रम्मे नंदणवणप्पगासे पासाईए ४ । तस्स णं उज्जाणस्स बहुमज्ञदेसभाए सुराणिए नामं जक्खाययणे होत्था वणओ । तत्थं णं वारवईए नयरीए कण्हे नामं वासुदेवे राया परिवसइ । से णं तत्थं समुद्विजयपामोकखाणं दसणहं दसाराणं बलदेवपामो-कखाणं पंचणहं महावीराणं उग्गसेणपामोकखाणं सोलसणहं राईसह-स्साणं पञ्जुन्नपामोकखाणं अदुट्टाणं कुमारकोडीणं संवपामोकखाणं सट्टीए दुहंतसाहसीणं वीरसेणपामोकखाणं एक्कवीसाए वीरसाह-सीणं महासेणपामोकखाणं छप्पन्नाए बलवगसाहस्सीणं हृषिणिप्पामो-कखाणं वत्तीसाए महिलासाहस्सीणं अणंगसेणापामोकखाणं अणगाणं गणियासाहस्सीणं अन्नेसिं च बहूणं राईसरतलवर जाव सत्थवाह पभिईणं वेयहुगिरिसागरपेरंतस्स य दाहिणहुभरहस्स य वारवईए नयरीए आहेवचं जाव पालेमाणे विहरइ ।

। (58) तत्थं णं वारवईए थावच्चा नामं गाहावइणी परिवसइ अह्ना जाव अपरिभूया । तीसे णं थावच्चाए गाहावईणीए पुत्ते थावच्चापुत्ते

नामं सत्थवाहदारए होथा सुकुमालपाणिपाए जाव सुरुवे । तए णं सा थावच्चा गाहावइणी तं दारगं साइरेगअटुवासजायं जाणित्ता सोहणंसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तंसि कलार्थियस्स उवणेइ जाव भोगसमत्थं जाणित्ता वत्तीसाए इब्बकुलवालियाणं एगदिवसेणं पाणिं गेण्हावेह वत्तीसओ दाओ जाव वत्तीसाए इब्बकुलवालियाहिं सर्द्धि विपुले सद्वफरिसरसरूववण्णगंधे जाव भुंजमाणे विहरइ । तेणं कालेणं २ अरहा अरिटुनेमी सो चेव वण्णओ दसधणुस्सेहे नीलुप्पलगवलगुलिय-अयसिकुसुमण्णगासे अटुरसहिं समणसाहस्रीहिं चत्तालीसाए अज्जियासाहस्रीहिं सर्द्धि संपरिवुडे पुव्वाणुपुर्विव चरमाणे जाव जेणेव वारवई नगरी जेणेव रेवयगपव्वए जेणेव नंदणवणे उज्जाणे जेणेव सुर-पियस्स जक्खस्स जक्खाययणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २ अहापडिरुवं उगगहं ओगिणिहत्ता संजमेणं तवसा अण्णाणं भावेमाणे विहरइ । परिसा निगगया धम्मो कहिअो । तए णं से कणहे वासुदेवे इमीसे कहाए लद्धेटु समाणे कोहुंवियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी - खिप्पामेव भो देवाणुपिया ! सभाए सुहम्माए मेघोघरसियं गंभीरमहुरसहं कोमुइयं भेरिं तालेह । तए णं ते कोहुंवियपुरिसा कणहेणं वासुदेवेणं एवं बुत्ता समाणा हटु जाव मत्थए अंजलि कटु एवं साँमी ! तह त्ति जाव पडिसुर्णेति २ कणहस्स वासुदेवस्स अंतियाओ पडिनिक्खमंति २ जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव कोमुइया भेरी तेणेव उवागच्छंति २ तं मेघोघरसियंगंभीरमहुरसहं कोमुइयं भेरिं तालेंति । तओ निद्वमहुरगंभीरपडिसुर्णें पिव सारइएणं बलाहएणं अणुरसियं भेरीए । तए णं तीसे कोमुइयाए भेरीए तालियाए समाणीए वारवईए नयरीए नवजोयणवित्थिणाए दुवालसजोयणायामाए सिंघाडगतियचउक्खचरकंदरदरीविवरकुहरगिरिसिहरनगरगोपुर-पासायदुवाँभवणदेउलपडिस्सुयासयसहस्रसंकुलं करेमाणे वारवईए नयरीए सर्विभत्रवाहिरियं सध्वओ समंता सहे विप्पसरित्था । तए णं वारवईए नयरीए नवजोयणवित्थिणाए वारसजोयणायामाए समुद-

विजयपामोक्षा दस दसारा जाव गणियासहस्राहं कोमुईयाए भेरीए सहं सोचा निसम्म हट्टुट्टु जाव एहाया आविद्वग्यारियमल्लदाम-कलावा अहयवत्थंदणोक्खिन्नगायसरीरा अप्येगइया हयगया एवं गयगया रहसीयासंदमाणीगया अप्येगइया पायविहारन्चारेण पुरिस-वग्गुरापरिक्खित्ता कणहस्स वासुदेवस्स अंतिए पाउभवित्था । तए ण से कण्हे वासुदेवे समुद्विजयपामोक्खे दसं दसारे जाव अंतियं पाउ-भवमाणे पासित्ता हट्टुट्टे जाव कोडुंवियपुरिसे सदावेइ २ एवं वयासी-खिण्पामेव भो देवाणुपिया ! चाउरंगिणि सेणं सज्जेह विजयं च गंधहर्त्थ उयट्टुवेह । तेवि तहेव उवट्टुवेंति जाव पञ्जुवासंति ।

(59) थावच्चापुत्ते वि निगगए जहा मेहे तहेव धम्मं सोचा निसम्म जेणेव थावच्चा गाहावइणी तेणेव उवागच्छइ २ पायगगहणं करेइ जहा मेहस्स तहा चेव निवेयणा जाहे नो संचाएइ विसयाणुलोमाहि य विसयपडिकूलाहि य बहूहिं आघवणाहि य पन्नवणाहि य सन्नवणाहि य विन्नवणाहि य आघवित्तए वा ४ ताहे अकामिया चेव थावच्चा-पुत्तस्स निक्खमणमणुमन्नित्थाँ । तए णं सा थावच्चा आसणाओ अभुट्टेइ २ महत्थं महग्घं महरिहं रायारिहं पाहुडं गेणहइ २ मित्त जाव संपरिबुडा जेणेव कणहस्स वासुदेवस्स भवणवरपडिदुवारदेसभाए तेणेव उवागच्छइ २ पडिहारंदेसिएणं मगरोणं जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ २ करयल जाव वद्वावेइ २ तं महत्थं ३ पाहुडं उवणेइ २ एवं वयासी-एवं खलु देवाणुपिया । मम एगे पुत्ते थावच्चापुत्ते नामं दारए इट्टे जाव संसारभउविग्गे भीए इच्छाइ अरहओ अरिट्ट-नेमिस्स जाव पव्वइत्तए । अहं णं निक्खमणसक्कारं करेमि । इच्छामि णं देवाणुपिया ! थावच्चापुत्तस्स निक्खममाणस्स छत्तमउडचामराओ य विदिन्नाओ । तए णं कण्हे वासुदेवे थावच्चागाहावइणि एवं वयासी-अच्छाहि णं तुमं देवाणुपियए ! सुनिव्वयवीसत्था । अहं णं सयमेव थावच्चापुत्तस्स दारगस्स निक्खमणसक्कारं करिस्सामि । तए णं से कण्हे वासुदेवे चाउरंगिणीए सेणाए विजयं हृत्थिरयणं दुरुढे

समाणे जेणेव थावच्चाए गाहावइणीए भवणे तेणेव उवागच्छइ २  
 थावच्चापुत्तं एवं वयासी-मा णं तुमं देवाणुपिया ! मुँडे भवित्ता  
 पव्वयाहि । भुज्जाहि णं देवाणुपिया ! विपुले माणुस्सए कामभोगे मम  
 वाहुच्छायापरिग्गहिए । केवलं देवाणुपियस्स नो संचारमि वाउकायं  
 उवरिमेणं गच्छमाणं निवारित्तए । अन्ने णं देवाणुपियस्स जं किंचि  
 आवाहं वा विवाहं वा उप्पारह तं सव्वं निवारेमि । तए णं से थाव-  
 च्चापुत्ते कणहेणं वासुदेवेणं एवं तुते समाणे कणहं वासुदेवं एवं  
 वयासी-जइ णं देवाणुपिया ! मम जीवियंतकरणिज्जं मच्चुं एज्ज-  
 माणं निवारेसि जरं वा सरीररूपविणासर्णि सरीरं अइवयमाणिं  
 निवारेसि तए णं अहं तत्र वाहुच्छायापरिग्गहिए विउले माणुस्सए  
 कामभोगे मुंजमाणे विहरामि । तए णं से कणहे वासुदेवे थावच्चा-  
 पुत्तेणं एवं तुते समाणे थावच्चापुत्तं एवं वयासी - एए णं देवाणुपिया  
 दुरइक्कमणिज्जा । नो खलु सक्का सुवलिएणावि देवेण वा दाणवेण वा  
 निवारित्तए नन्नत्य अप्पणो कम्मक्खणेण । तए णं से थावच्चापुत्ते कणहं  
 वासुदेवं एवं वयासी - जइ णं एए दुरइक्कमणिज्जा नो खलु सक्का  
 सुवलिएणावि देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए नन्नत्य अप्पणो कम्म-  
 क्खणेणं तं इच्छामि णं देवाणुपिया ! अन्नाणमिच्छत्तभिराइक्कसाय-  
 संचियस्स अत्तणो कम्मक्खयं करित्तए । तए णं से कणहे वाखुदेवे  
 थावच्चापुत्तेणं एवं तुते समाणे कोडुंवियपुरिसे सहावेइ २ एवं  
 वयासी-गच्छह णं देवाणुपिया ! वारवईए नयरीए सिंघाडगतिग  
 जाव पहेसु य हत्थिखंधवरगया महया २ सहेणं उग्घोसेमाणा २ उग्घो-  
 सणं करेह - एवं खलु देवाणुपिया ! थावच्चापुत्ते संसारभउविग्गे  
 भीए जम्मणमरणाणं इच्छइ अरहओ अरिट्टनेमिस्स अंतिए मुँडे  
 भवित्ता पव्वइत्तए । तं जो खलु देवाणुपिया ! राया वा जुवराया वा  
 देवी वा कुमारे वा ईसरे वा तलवरे वा कोडुंवियमाडंवियइव्वभसेट्टि-  
 सेणावइस्त्थवाहे वा थावच्चापुत्तं पव्वयंतमणुपव्वयइ तस्स णं कणहे  
 वासुदेवे अग्जाणइ पच्छाउरस्त वि य से मित्तनाइनियासंवंधिपरि-

जणस्स जोगकखेमं बट्टमाणं पडिवहइ त्तिकदु घोसणं घोसेह जाव  
घोसंति । तए णं थावच्चापुत्तस्स अणुराएणं पुरिससहस्सं निकख-  
मणाभिसुहं एहायं जाव सध्वालंकारविभूसियं पत्तेयं २ पुरिससहस्स-  
वाहिणीसु सिवियासु दुर्लं समाणं मित्तनाइपरिवुंडं थावच्चापुत्तस्स  
अंतियं पाउभूयं । तए णं से कण्हे वासुदेवे पुरिससहस्सं अंतियं पाउ-  
भवमाणं पासइ २ कोइंवियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी - जहा मेहसु  
निकखमणाभिसेओ तहेव सेयापीएहिं कलसेहिं एहावेइ जाव अरहओ अरिट्ट-  
नेमिस्स छत्ताइच्छत्तं पडागाइपडागं पासइ २ विज्ञाहरचारणे जाव  
पासित्ता सीयाओ पच्चोरुहइ । तए णं से कण्हे वासुदेवे थावच्चापुत्तं  
पुरओ काउं जेणेव अरहा अरिट्टनेमी सब्बं तं चेव जाव आभरणं ओमुयइ ।  
तए णं सा थावच्चा गाहावइणी हंसलकखणेणं पडगसाइएणं आभरण-  
मह्लालंकारं पडिच्छइ हारवारिधारालिन्नमुत्तावलिप्पगासाइं अंसूणि  
विणिमुंचमाणी २ एवं वयासी - जइयव्वं जाया ! घडियव्वं जाया !  
परक्कमियव्वं जाया ! अस्सिं च णं अट्टे नो पमाएयव्वं । जामेव दिसि  
पाउभूया तामेव दिसि पडिगया । तए णं से थावच्चापुत्ते पुरिस-  
सहस्सेणं सद्दि सयमेव पंचमुट्ठियं लोयं करेइ जाव पव्वइए । तए णं  
से थावच्चापुत्ते अणगारे जाए इरियासमिए भासासमिए जाव विहरइ ।  
तए णं से थावच्चापुत्ते अरहओ अरिट्टनेमिस्स तहारुवाणं थेराणं  
अंतिए सामाइयमाइयाइं इक्कारस अंगाइं चोहसपुव्वाइं अहिज्जइ २  
वह्वहिं जाव चउथेणं विहरइ । तए णं अरहा अरिट्टनेमी थावच्चा-  
पुत्तस्स अणगारस्स तं इभाइयं अणगारसहस्सं सीसत्ताए दलयइ ।  
तए णं से थावच्चापुत्ते अन्नया कयाइं अरहं अरिट्टनेमिं वंदइ नमंसइ २  
एवं वयासी - इच्छामि णं भंते ! तुव्वमेहिं अभ्यणुज्ञाए समाणे अणगार-  
सहस्सेणं सद्दि वहिया जणवयविहारं विहरित्तप । अहासुहं देवाणु-  
पिया । तए णं से थावच्चापुत्ते अणगारसहस्सेणं सद्दि तेणं उरालेणं  
उग्गेणं पयत्तेणं पगगहिएणं बहिया जणवयविहारं विहरइ ।

(60) तेणं कालेणं २ सेलगपुरे नामं नगरे होत्था । सुभूमि-  
भागे उज्जाणे । सेलए राया पउमावई देवी<sup>१</sup> मंडुए कुमारे जुवराया ।

तस्स णं सेलगस्स पंथगपामोक्खा णं पंच मंतिसया होत्था उपर्त्ति-  
याए ४ उववेया रज्जधुरं चित्यंति । थावच्चापुत्ते सेलगपुरे समोसदे ।  
राया निगगए धम्मकहा । धम्मं सोच्चा जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिए  
बहवे उग्गा भोगा जाव चइत्ता हिरण्णं जाव पघ्बइया तहा णं अहं नो  
संचाएमि पघ्बइत्तए । अहं णं देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुघ्बइयं जाव  
समणोवासए जाए अहिगयजीवाजीवे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।  
पंथगपामोक्खा पंच मंतिसया य समणोवासया जाया । थावच्चापुत्ते  
बहिया जणवयविहारं विहरइ । तेणं कालेणं २ सोगंधिया  
नामं नयरी होत्था वणओ । नीलासोए उज्जाणे वणओ । तथं णं  
सोगंधियाए नयरीए सुदंसणे नामं नयरसेट्टी परिवसइ अहे जाव अपरि-  
भूए । तेणं कालेणं २ सुए नामं परिव्यायए होत्था रिउव्वेयजउव्वेय-  
सामवेयअथघ्बणवेयसट्टितंकुसले संखसमए लद्धटे पंचांगपंच-  
नियमजुत्तं सोयमूलं दसप्पयारं परिव्यायगधम्मं दोणधम्मं च सोय-  
धम्मं च तिथाभिसेयं च आघवेमाणे पञ्चवेमाणे परुवेमाणे धाउरत्त-  
पवरवत्थपरिहए तिदंडकुडियछत्तछन्नालयअंकुसपवित्तयकेसरिहत्थगए  
परिव्यायगसहस्सेणं सर्दि संपरिवुडे जेणेव सोगंधिया नयरी जेणेव परि-  
व्यायगावसहे तेणेव उवागच्छह २ परिव्यायगावसहंसि भंडगनिक्खेवं  
करेइ २ संखसमएणं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं सोगंधियाए  
नगरीए सिंघाडग जाव बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ - एवं खलु  
सुए परिव्यायए इहमागए जाव विहरइ । परिसा निगगया । सुदंसणे वि  
निगगए । तए णं से सुए परिव्यायए तीसे परिसाए सुदंसणस्स अघोस्से  
च बहूणं संखाणं धम्मं परिकहेइ - एवं खलु सुदंसणा ! अम्हं सोय-  
मूलए धम्मे पञ्चते । से वि य सोए धम्मे दुविहे पञ्चते तंजहा-  
दघ्बसोए य भावसोए य । दघ्बसोए य उदएणं मट्टियाए य । भावसोए  
दघ्बमेहि य मंतेहि य । जं णं अम्हं देवाणुप्पिया ! किंचि असुई भवइ  
तं सव्वं सज्जपुढवीए आळिपह तओ पच्छा सुद्रेण वारिणा पक्खा-  
लिज्जइ तओ तं असुई सुई भवइ । एवं खलु जीवा जलाभिसेय-

पूर्यपाणो अविग्नेण सगं गच्छति । तए णं से सुदंसणे सुयस्स अंतिए धम्मं सोचा हटे सुयस्स अंतियं सोयमूलयं धम्मं गेणहइ २ परिव्यायए विउलेण असणेण ४ पडिलाभेमाणे जाव विहरइ । तए णं से सुए परिव्यायगवसहाओ सोगंधियाओ नयरीओ निगच्छइ २ बहिया जणवयविहारं विहरइ । तेण कालेण २ थावच्चापुत्तस्स समो-सरणं । परिसा निगया । सुदंसणो वि निगांओ थावच्चापुत्तं वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी-तुम्हाणं किंमूलए धम्मे पन्नते ? तए णं से थावच्चापुत्ते सुदंसणेण एवं बुत्ते समाणे सुदंसणं एवं वयासी-सुदं-सणा ! विणयमूले धम्मे पन्नते । से वि य विणए दुविहे पन्नते तंजहा-अगारविणए अणगारविणए य । तथ्य णं जे से अगारविणए से णं पंच अणुघ्ययाइं सत्त सिक्खावयाइं एकारस उवासगपडिमाओ । तथ्य णं जे से अणगारविणए से णं पंच महघ्ययाइं तंजहा-सद्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं सद्वाओ मुसावायाओ वेरमणं सद्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं सद्वाओ मेहुणाओ वेरमणं सद्वाओ परिगहाओ वेरमणं सद्वाओ राइ-भोयणाओ वेरमणं जाव मिच्छादंसणसल्लाओ दसविहे पञ्चकखाणे बारस भिक्खुपडिमाओ इच्छेण दुविहेण विणयमूलएणं धम्मेणं आणुपुष्टेणं अटुकम्पंगडीओ खवेत्ता लोयगपट्टाणा भवति । तए णं थावच्चापुत्ते सुदंसणं एवं वयासी-तुव्यं णं सुदंसणा ! किंमूलए धम्मे पन्नते ? अम्हाणं देवाणुपिया ! सोयमूलए धम्मे पन्नते जाव सगं गच्छति । तए णं थावच्चापुत्ते सुदंसणं एवं वयासी-सुदंसणा ! से जहानामए केइ पुरिसे एगं महं रुहिरकयं वथं रुहिरेण चेव धोवेज्जा तए णं सुदं-सणा ! तस्स रुहिरकयस्स वथ्यस्स रुहिरेण पक्खालिज्जमाणस्स अतिथ काइ सोही ? नो इणटे समटे । एवामेव सुदंसणा ! तुव्यं पि पाणाइ-वाएणं जाव मिच्छादंसणसलेणं नतिथ सोही जहा तस्स रुहिरकयस्स वथ्यस्स रुहिरेण चेव पक्खालिज्जमाणस्स नतिथ सोही । सुदंसणा ! से जहानामए केइ पुरिसे एगं महं रुहिरकयं वथं सज्जियाखारेणं अणु-लिंपइ २ पयेणं आरोहेइ २ उण्हं गाहेइ तओ पच्छा सुझेण वारिणा

धोवेजा से नूणं सुदंसणा ! तस्स रुहिरकयस्स वथस्स सज्जियाखारेण अणुलित्तस्स पयणं आरोहियस्स उण्हं गाहियस्स सुद्रेण वारिणा पकखालिज्जमाणस्स सोही<sup>३</sup> भवइ ? हंता भवइ । एवामेव सुदंसणा ! अम्हं पि पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादंसणसल्लवेरमणेण अत्थि सोही जहा वा तस्स रुहिरकयस्स वथस्स जाव सुद्रेण वारिणा पकखालिज्जमाणस्स अत्थि सोही । तथ्य णं सुदंसणे संबुद्धे थावच्चापुत्तं वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी - इच्छामि णं भंते ! धम्मं सोच्चा जाणित्तए जाव समणोवासए जाए अभिगयजीवार्जीवे जाव पडिलामेमाणे विहरइ । तए णं तस्स सुयस्स परिव्वायगस्स इमीसे कहाए लद्धटुस्स समाणस्स अयमेयारूवे जाव समुपज्जित्या - एवं खलु सुदंसणेण सोयधम्मं विष्णुजहाय विणयमूले धम्मे पडिवन्ने । तं सेयं खलु मम सुदंसणस्स दिंडिवामेत्तए पुणरवि सोयमूलए धम्मे आघवित्तए त्तिकडु एवं संपेहेइ २ परिव्वायगसहस्सेण संद्धि जेणेव सोगंधिया नयरी जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छइ २ परिव्वायगावसहंसि भंडनिक्खेवं करेइ २ धाउरत्तवथ्यवरपरिहिए पविरलपरिव्वायगेणं संद्धि संपरिवुडे परिव्वायगावसहाओ पडिनिक्खमइ २ सोगंधियाए नयरीए मञ्ज्ञामञ्ज्ञेणं जेणेव सुदंसणस्स गिहे जेणेव सुदंसणे तेणेव उवागच्छइ । तए णं से सुदंसणे तं सुयं एज्जमाणं पासइ २ नो अब्मुट्टइ नो पच्चुगाँच्छइ नो आढाइ नो वंदइ तुसणीए संचिट्टइ । तए णं से सुए परिव्वायए सुदंसणं अणव्बुट्टियं पासित्ता एवं वयासी - तुव्वे णं सुदंसणा ! अन्नया मम एज्जमाणं पासित्ता अब्मुट्टेसि जाव वंदसि । इयाणि सुदंसणा ! तुम मम एज्जमाणं पासित्ता जाव नो वंदसि । तं कस्स णं तुमे सुदंसणा ! इमेयारूवे विणयमूले धम्मे पडिवन्ने ? तए णं से सुदंसणे सुरणं परिव्वायगेणं एवं बुत्ते समागे आसणाओ अब्मुट्टइ २ करयल जाव सुयं परिव्वायगं एवं वयासी - एवं खलु देवाणुपिष्या ! अरहओ अरिट्टनेमिस्स अंतेवासी थावच्चापुत्ते नामं अणगारे जाव इहमागए इह चेव नीलासोए उज्जाणे विहरइ । तस्स णं अंतिए विणयमूले धम्मे पडिवन्ने ।

तए ण से सुए सुदंसणं एवं वयासी - तं गच्छामो णं सुदंसणा ! तव धम्मायरियस्स थावच्चापुत्तस्स अंतियं पाउधवामो इमाइं च णं एयारूवाइं अटुइं हेऊइं पसिणाइं कारणाइं वागरणाइं पुच्छामो । तं जह मे से इमाइं अटुइं जाव वागरह तओ णं वंदामि नमंसामि । अह मे से इमाइं अटुइं जाव नो से वागरेइ तओ णं अहं पणहिं चेव अटुहिं हेऊहिं निष्पटुपसिणवागरणं करिस्सामि । तए णं से सुए परिव्वायग-सहस्सेणं सुदंसणेण य सेट्रिणा संद्विं जेणेव नीलासोए उज्जाणे जेणेव थावच्चापुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ थावच्चापुत्तं एवं वयासी - जत्ता ते भंते ! जवणिज्जं ते अव्वावाहं फासुविहारं ? तए णं से थावच्चापुत्ते सुएणं एवं बुत्ते समागे सुयं परिव्वायगं एवं वयासी - सुया ! जत्तावि मे जवणिज्जं पि मे अव्वावाहं पि मे फासुविहारं पि मे । तए णं सुए थावच्चापुत्तं एवं वयासी - किं भंते ! जत्ता ? सुया ! जं णं मम नाणदंसणचरित्ततवसंजममाइणहिं जोणहिं जोयणा से तं जत्ता । से किं तं भंते ! जवणिज्जं ? सुया ! जवणिज्जे दुविहे पन्नत्ते तंजहा - इंदियजवणिज्जे य नोइंदियजवणिज्जे य । से किं तं इंदिय-जवणिज्जं ? सुया ! जं णं ममं सोयंदियचर्किखदियधारिणदियजिर्भ-दियफार्सिदियाइं निरुवहयाइं वसे वट्टुंति से तं इंदियजवणिज्जे । से किं तं नोइंदियजवणिज्जे ? सुया ! जं<sup>३</sup> णं कोहमाणमायालोभा खीणा उवसंता नो उदयंति से तं नोइंदियजवणिज्जे । से किं तं भंते ! अव्वावाहं ? सुया जं णं मम वाइयपित्तियसिंभियसज्जिवाइयविविहरोगायंका नो उदीरेति से तं अव्वावाहं । से किं तं भंते ! फासुविहारं ? सुया ! जं णं आरामेसु उज्जाणेसु देउलेसु सभासु पवासु इत्थीपसुपंडगविवज्जियासु वसहीसु पाडिहारियं पीढफलगसेज्जासंथारयं ओगिण्हत्ताणं विहरामि से तं फासुविहारं । सरिसवया भक्खेया भंते ! किं भक्खेया अभक्खेया ? सुया ! सरिसवया भक्खेया वि अभक्खेया वि । से केणट्रेण भंते ! एवं बुच्छह सरिसवया भक्खेया वि अभक्खेया वि ? सुया ! सरिसवया दुविहा पन्नत्ता तंजहा - मित्तसरिसवया य धन्नसरिसवया य । तत्थ णं जे ते

मित्तसरिसवया ते तिविहा पन्नत्ता तंजहा - सहजायया सहवह्नियया सहपंसुकीलिया य । ते णं समणाणं निगंथाणं अभक्खेया । तथं णं जे ते धन्नसरिसवया ते दुविहा पन्नत्ता तंजहा - सत्थपरिणया य असत्थ-परिणया य । तथं णं जे ते असत्थपरिणया ते समणाणं निगंथाणं अभक्खेया । तथं णं जे ते सत्थपरिणया ते दुविहा पन्नत्ता तंजहा - फासुया य अफासुया य । अफासुया णं सुया ! नो भक्खेया । तथं णं जे ते फासुया ते दुविहा पन्नत्ता तंजहा - जाइया य अजाइया य । तथं णं जे ते अजाइया ते अभक्खेया । तथं णं जे ते जाइया ते दुविहा पन्नत्ता तंजहा - एसणिज्जा य अणेसणिज्जा य । तथं णं जे ते अणेसणिज्जा ते अभक्खेया । तथं णं जे ते एसणिज्जा ते दुविहा पन्नत्ता तंजहा - लद्धा य अलद्धा य । तथं णं जे ते अलद्धा ते अभक्खेया । तथं णं जे ते लद्धा ते निगंथाणं भक्खेया । एण्णं अटेणं सुया ! एवं बुच्चइ सरिसवया भक्खेया वि अभक्खेया वि । एवं कुलत्था वि भाणियवा नवरं इमं नाणत्तं - इत्थिकुलत्था य धन्नकुलत्था य । इत्थिकुलत्था तिविहा पन्नत्ता तंजहा - कुलधूया य कुलमाउया इ य कुलधूया इ य । धन्नकुलत्था तहेव । एवं मासा वि नवरं इमं नाणत्तं - मासा तिविहा पन्नत्ता तंजहा - कालमासा य अत्थ-मासा य धन्नमासा य । तथं णं जे ते कालमासा ते णं दुवालसविहा पन्नत्ता तंजहा - सावणे जाव आसाढे । ते णं समणाणं २ अभक्खेया । अत्थमासा दुविहा - हृष्पमासा य सुवण्णमासा य । ते णं अभक्खेया । धन्नमासा तहेव । एगे भवं दुवे भवं अणेगे भवं अक्खए भवं अव्वए भवं अव्वटिए भवं अणेगभूयभावभविए वि भवं ? सुया ! एगे वि अहं जाव अणेगभूयभावभविए वि अहं । से केणटेणं भंते ! एगे वि अहं जाव सुया ! दव्वट्टयाए एगे वि अहं नाणदंसणट्टयाए दुवे वि अहं पएस-ट्टयाए अक्खए वि अहं अव्वए वि अहं अव्वटिए वि अहं उवओग-ट्टयाए अणेगभूयभावभविए वि अहं । एत्थं णं से सुए संवुद्धे थावच्चा-पुत्तं वंदद्व नमंसइ २ एवं वयासी - इच्छामि णं भंते ! तुव्वं अंतिए

केवलिपन्नतं धर्मं निसामित्तेण । धर्मकहा भाग्यवा । तए ण से सुए परिव्वायए थावच्चापुत्तस्स अंतिए धर्मं सोच्चा निसम्म एवं वयासी-हृच्छामि ण भंते । परिव्वायगसहस्सेण सद्द्वि संपरिबुडे देवाणुपियाणं अंतिए मुँडे भवित्ता पव्वहत्तेण । अहासुहं देवाणुपिया जाव उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए तिदंडयं जाव धाउरत्ताओ य एगंते ऐडेह २ सथमेव सिहं उप्पाडेह २ जेणेव थावच्चापुत्ते २ तेणेव उवागच्छइ जाव मुँडे भवित्ता जाव पव्वहए सामाइयमाइयाइ इकारस अंगाइ चोइसपुव्वाइ अहिज्जह । तए ण थावच्चापुत्ते सुयस्स अणगारस्स सहस्सं सीसत्ताए वियरह । तए ण थावच्चापुत्ते सोगंधियाओ नीलासोयाओ पडिनिक्खमइ २ बहिया जणवयविहारं विहरह । तए ण से थावच्चापुत्ते अणगारसहस्सेण सद्द्वि संपरिबुडे जेणेव पुंडरीयपव्वए तेणेव उवागच्छइ २ पुंडरीयं पव्वयं सणियं २ दुरुहइ २ मेघघणसन्निगासं देवसन्निवायं पुढविसिलापट्टयं जाव पाओवगमणं केए । तए ण से थावच्चापुत्ते वहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए सट्टु भत्ताइ अणसणाए छेषह । जाव केवलवरनाणदंसणं समुप्पाडेत्ता तओ पच्छा सिद्धे जाव पहीणे ।

(61) तए ण से सुए अन्नया कयाइ जेणेव सेलगपुरे नगरे जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे समोसरणं परिसा निगया सेलओ निगगच्छइ धर्मं सोच्चा जं नवरं देवाणुपिया ! पंथगपामोक्खाइ पंच मंतिसयाइ आ-पुच्छामि मंडुयं च कुमारं रज्जे ठावेमि तओ पच्छा देवाणुपियाणं अंतिए मुँडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वयामि । अहासुहं । तए ण से सेलए राया सेलगपुरं नगरं अणुप्पविसह २ जेणेव सए गिहे जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ सीहासणे निसणे । तए ण से सेलए राया पंथगपामोक्खा पंच मंतिसया सद्वावेह २ एवं वयासी-एवं खलु देवाणुपिया ! मए सुयस्स अंतिए धर्मे निसंते । से वि य मे धर्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुहए । अहं ण देवाणुपिया ! संसार-भउव्विगगे जाव पव्वयामि । तुझे ण देवाणुपिया किं करेह किं ववसह किं वा भे हियइच्छिए समत्थे ति ? तए ण ते पंथगपामोक्खा सेलगं

रायं एवं वयासी - जइ णं तुझे देवाणुपिया ! संसार जाव पद्धयह  
अम्हाणं देवाणुपिया ! को अन्ने आँधारे वा आलंबे वा ? अम्हे वि य णं  
देवाणुपिया ! संसारभउविगगा जाव पद्धयामो । जहा णं देवाणुपिया !  
अम्हं वहुसु कज्जेसु य जाव तहा णं पद्धयाण वि समाणांणं वहुसु जाव  
चक्खुभूए । तए णं से सेलगे पंथगपामोक्खे पंच मंतिसप्त एवं वयासी -  
जइ णं तुझे देवाणुपिया ! संसार जाव पद्धयह तं गच्छह णं देवाणुपिया !  
सप्तमु २ कुडुंब्रेसु जेट्पुत्ते कुडुंबमज्जे ठावेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीयाओ  
सीयाओ दुरुढा समाणा मम अंतियं पाउव्भवह । ते वि तहेव पाउव्भ-  
वंति । तए णं से सेलए राया पंच मंतिसयाइं पाउव्भवमाणाइं पासइ  
हट्टुट्टे कोडुंबियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी - खिण्पामेव भो देवाणु-  
पिया ! मंडुयस्स कुमारस्स महत्थं जाव रायाभिसेयं उवटुवेह जाव अभि-  
सिंचइ जाव राया जाए विहरइ । त एणं से सेलए मंडुयं रायं आपुच्छइ ।  
तए णं मंडुय राया कोडुंबियुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी - खिण्पामेव  
सेलगपुरं नयरं आसिय जाव गंधवट्टिभूयं करेह कारवेह य २ एवमाणन्तियं  
पद्धपिणह । तए णं से मंडुय दोञ्चं पि कोडुंबियपुरिसे सद्वावेइ २  
एवं वयासी - खिण्पामेव सेलगस्स रन्नो महत्थं जाव निकखमणा-  
भिसेयं जहेव मेहस्स तहेव नवरं पउमार्वईदेवी अग्गकेसे पडिच्छइ सव्वेवि  
पडिग्गहं गहाय सीयं दुरुहंति अवसेसं तहेव जाव समाइयमाइयाइं  
एकारस अंगाइं अहिजइ २ वहुहिं चउत्थ जाव विहरइ । तए णं से सुए  
सेलगस्स अणगारस्स ताइं पंथगपामोक्खाइं पंच अणगारसयाइं  
सीसत्ताए वियरइ । तए णं से सुए अन्नया कयाइ सेलगपुराओ सुभूमि-  
भागाओ उज्जाणाओ पडिनिकखमइ २ वहिया जणवयविहारं विहरइ ।  
तए णं से सुए अणगारे अन्नया कयाइ तेणं अणगारसहस्सेणं सर्द्धिं संपरि-  
वुडे पुद्वाणुपुर्विं चरमाणे गामाणुगामं विहरमाणे जेणेव पुंडरीयपद्धण  
तेणेव उवागच्छइ जाव सिद्धे ।

(62) तए णं तस्स सेलगस्स रायरिसिस्स तेहिं<sup>१</sup> अंतेहि य पंतेहि  
य तुच्छेहि य लृहेहि य अरसेहि य विरसेहि य सीएहि य उण्हेहि य

कालाइकंतेहि य पमाणाइकंतेहि य निचं पाणभोयणेहि य पयद्-  
सुकुमालस्स य सुहोचियस्स सरीरगंसि वेयणा पाउव्भूया उज्जला जाव  
दुरहियासा कंडुदाहपित्तज्जरपरिगयसरीरे यावि विहरइ । तए णं से  
सेलए तेणं रोयायंकेणं सुक्खे जाए यावि होत्था । तए णं से सेलए  
अन्नया कयाइं पुव्वाणुपुर्विं चरमाणे जाव जेणेव सुभूमिभागे जाव  
विहरइ । परिसा निगग्या मंडुओ वि निगओ सेलगं अणगारं वंदइ  
जाव पञ्जुवासइ । तए णं से मंडुए राया सेलगस्स अणगारस्स सरीरगं  
सुकं जाव सद्वावाहं सरोगं पासइ २ एवं वयासी-अहं णं भंते !  
तुव्बं अहापवत्तेहिं तिगिच्छिएहिं अहापवत्तेण ओसहमेसज्जभत्त-  
पाणेण तिगिच्छं आउट्टावेमि । तुव्बेण भंते ! मम ज्ञाणसालासु समो-  
सरह फासुएसणिज्जं पीढफलगसेज्जासंथारगं ओगिण्हत्ताणं विहरह ।  
तए णं से सेलए अणगारे मंडुयस्स रन्नो एयमटुं तहत्ति पडिसुणेइ ।  
तए णं से मंडुए सेलगं वंदइ नमंसइ २ जामेव दिसि पाउव्भूए तामेव  
दिसि पडिगए । तए णं से सेलए कळुं जाव जलंते सभंडमत्तोवगरण-  
मायाए पंथगपामोक्खेहिं पंचहिं अणगारसणेहिं सद्धि सेलगपुरमण्युष-  
विसइ जेणेव मंडुयस्स ज्ञाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ फासुयं पीढ  
जाव विहरइ । तए णं से मंडुए तिगिच्छिए सहावेइ २ एवं वयासी-  
तुव्बेण देवाणुपिया ! सेलगस्स फासुएसणिज्जेणं जाव तिगिच्छं  
आउट्टेह । तए णं तिगिच्छया मंडुएणं रन्ना एवं बुत्ता हट्टुतुटा सेलगस्स  
अहापवत्तेहिं ओसहमेसज्जभत्तपाणेहिं तिगिच्छं आउट्टेति मज्जपाणगं च  
से उवदिसंति<sup>१</sup> । तए णं तस्स सेलगस्स अहापवत्तेहिं जाव मज्जपाणएणं  
से रोगायंके उवसंते जाए यावि होत्था हट्टे बलियसरीरे जाए ववगय-  
रोगायंके । तए णं से सेलए तंसि रोयातंकंसि उवसंतंसि समाणंसि तंसि  
विषुलंसि अखणंसि ४ मज्जपाणए य मुच्छिए गढिए गिद्धे अज्ञातोववश्चे  
ओसन्ने ओसन्नविहारी एवं पासत्थे २ कुसीले २ पमत्ते २ संसत्ते २ उत्तबद्ध-  
पीढफलगसेज्जासंथारए पमत्ते यावि विहरइ नो संचाएइ फासुएसणिज्जं  
पीढं पञ्चपिणित्ता मंडुयं च रायं आपुच्छित्ता वहिया जाव विहरित्तप ।

(63) तए णं तेसि पंथगवज्जाणं पंचणहं अणगारसयाणं अन्नया कयाइ एगयओ सहियाणं जाव पुब्रत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणाणं अयमेयारूपे अज्ञातिथए जाव समुप्पज्जित्था - एवं खलु सेलए रायरिसी चइत्ता रज्जं च ४ जाव पघइए विउले असणे ४ मज्जपाणए मुच्छिए ४ नो संचाएइ चइउं जाव विहरित्तए । नो खलु कप्पइ देवाणुप्पिया ! समणाणं जाव पमत्ताणं विहरित्तए । तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं कलुं सेलगं रायरिसिं आपुच्छित्ता पाडिहारियं पीढफलग-सेज्जासंथारयं पञ्चपिणित्ता सेलगस्स अणगारस्स पंथयं अणगारं वेयावच्चकरं ठावेत्ता वहिया अब्मुज्जपणं जाव विहरित्तए । एवं संपेहेंति २ कलुं जेणेव सेलगरायरिसी आपुच्छित्ता पाडिहारियं पीढफलग जाव पञ्चपिणंति २ पंथयं अणगारं वेयावच्चकरं ठावेंति २ वहिया जाव विहरंति ।

(64) तए णं से पंथए सेलगस्स सेज्जासंथारउच्चारपासवणखेल्ल-सिंघाणमलाओ ओसहमेसज्जभत्तपाणएणं अगिलाए विणएणं वेयावडियं करेइ । तए णं से सेलए अन्नया कयाइ कत्तियचाउम्मासियंसि विउलं असणं ४ आहारमाहारिए सुबहुं च मज्जपाणयं पीए पुवावरण्हकाल-समयंसि सुहप्पसुत्ते । तए णं से पंथए कत्तियचाउम्मासियंसि कय-काउस्सगे देवसियं पडिक्कमणं पडिक्कंते चाउम्मासियं पडिक्कमिउकामे सेलगं रायरिसिं खामणदुयाए सीसेणं पाएसु संघट्टेइ । तए णं से सेलए पंथएणं सीसेणं पाएसु संघट्टिए समाणे आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे उट्टेइ २ एवं वयासी - से केस णं भो एस अपार्थियपत्थिए जाव वज्जिए जे णं ममं सुहप्पसुत्तं पाएसु संघट्टेइ ? तए णं से पंथए सेलएणं एवं बुत्ते समाणे भीए तत्थे तसिए करयल जाव कहु एवं वयासी - अहं णं भंते ! पंथए कयकाउस्सगे देवसियं पडिक्कमणं पडिक्कंते चाउम्मासियं खामेमाणे देवाणुप्पियं वंदमाणे सीसेणं पाएसु संघट्टेमि । तं खामेमि णं तुब्मे देवाणुप्पिया ! खमन्तु मे अवराहं तुमं णं देवाणुप्पिया ! नाइभुज्जो एवं करणयाए त्तिकहु सेलयं अणगारं एयमटुं सम्मं विणएणं भुज्जो २ खामेइ । तए णं तस्स सेलगस्स रायरिसिस्स पंथएणं एवं बुत्तस्स

अयमेयारूपे जाव समुण्डिज्जत्था-एवं खलु अहं रजं च जाव ओसन्नो  
जाव उउबद्धपीढ० विहरामि । तं नो खलु कण्ठ समणाणं २ पास्तथाणं  
जाव विहरित्तए । तं सेयं खलु मे कल्पं मंडुयं रायं आपुच्छित्ता पाडि-  
हारियं पीढफलगसेज्जासंथारगं पच्चिपिणित्ता पंथएणं अणगारेणं सद्दि-  
वहिया अभ्युज्जएणं जाव जणवयविहारेणं विहरित्तए । एवं संपेहेइ २  
कल्पं जाव विहरइ ।

✓ (65) एवामेव समणाउसो ! जाव निगंथो वा २ ओसन्ने जाव  
संथारए पमसे विहरइ से णं इहलोए चेव बहूणं समणाणं ४ हील-  
णिज्जे संसारो भाणियब्बो । तए णं ते पंथगवज्जा पंच अणगारसया इमीसे  
कहाए लद्धट्टा समाणा अन्नमन्नं सद्वावेति २ एवं वयासी- एवं खलु  
सेलए रायरिसी पंथएणं बहिया जाव विहरइ । तं सेयं खलु देवाणु-  
पिया ! अम्हं सेलगं रायरिसिं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । एवं  
संपेहेति २ सेलगं रायरिसिं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति ।

(66) तए णं से सेलए रायरिसी पंथगपामोक्खा पंच अणगारसया  
बहूणि वासाणि सामणणपरियाणं पाउणित्ता जेणेव पुंडरीयपद्मए तेणेव  
उवागच्छंति २ जहेव थावचापुते तहेव सिद्धा ४ । एवामेव समणाउसो !  
जो निगंथो वा २ जाव विहरिस्सइ ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं  
पंचमस्स नायज्ञयणस्स अयम्द्वे पन्नते त्तिवेमि ॥

॥ पंचमं नायज्ञयणं समत्तं ॥

॥ छट्टुं अज्ञयणं ॥

(67) जह णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं पंचमस्स नाय-  
ज्ञयणस्स अयम्द्वे पन्नते छट्टुस्स णं भंते ! नायज्ञयणस्स समणेणं  
जाव संपत्तेणं के अट्टे पन्नते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २  
रायंगिहे समोसरणं परिसा निगया । तेणं कालेणं २ समणस्स जेट्टे

इंदभूई नामं अणगारे अदूरसामते जाव सुकज्ञाणोवगए विहरइ । तए  
णं से इंदभूई जायसहे जाव एवं वयासी - कहं णं भंते ! जीवा गैर-  
यत्तं वा लहुयत्तं वा हृष्मागच्छंति ? गोयमा ! से जहानामए केह  
पुरिसे एगं महं सुक्रतुंवं निच्छिदं निरुवहयं दब्मेहि य कुसेहि य वेढेहै  
२ मट्टियालेवेण लिपद् २ उणहे दलयह २ सुक्रं समाणं दोचंपि दब्मेहि  
य कुसेहि य वेढेहै २ मट्टियालेवेण लिपद् २ उणहे दलयह २ सुक्रं  
समाणे तचंपि दब्मेहि य कुसेहि य वेढेहै मट्टियालेवेण लिपद् । एवं  
खलु एणं उवाएणं सत्तरत्तं वेढेमाणे अंतरा लिपमाणे अंतरा सुक्रा-  
वेमाणे जाव अटुहिं मट्टियालेवेहि आलिपद् २ अत्थाहमतारमपोरिसियंसि  
उदगंसि पक्षिखवेज्जा । से नूणं गोयमा ! से तुंबे तेसि अटुणहं मट्टिया-  
लेवेणं गुरुययाए भारियाए उर्पि सलिलमइवइत्ता अहे धरणियलपद्गटाणे  
भवइ । एवामेव गोयमा ! जीवा वि पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लेण  
अणुपुवेणं अटुकम्मपगडीओ समजिज्ञित्ता तासि गरुययाए भारिययाए  
एवामेव कालमासे कालं किच्चा धरणियलमइवइत्ता अहे नरगतलपद्गटाणा  
भवंति ! एवं खलु गोयमा ! जीवा गरुयत्तं हृष्मागच्छंति । अहे णं  
गोयमा ! से तुंबे तंसि पढमिलुंगंसि मट्टियालेवंसि तिक्कंसि कुहियंसि  
परिसिड्यंसि ईसि धरणियलाओ उप्पइत्ताणं चिटुइ । तयाणंतरं दोचंपि  
मट्टियालेवे जाव उप्पइत्ताणं चिटुइ । एवं खलु एणं उवाएणं तेसु अटुसु  
मट्टियालेवेसु तिक्केसु जाव विसुक्रबंधणे अहे धरणियलमइवइत्ता उर्पि  
सलिलतलपद्गटाणे भवइ । एवामेव गोयमा ! जीवा पाणाइवायवेरमणेणं  
जाव मिच्छादंसणसल्लवेरमणेणं अणुपुवेणं अटुकम्मपगडीओ खवेत्ता  
गगणतलमुप्पइत्ता उर्पि लोयग्गपद्गटाणा भवंति । एवं खलु गोयमा !  
जीवा लहुयत्तं हृष्मागच्छंति ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेण छटुस्स नायज्ञयणस्स  
अयमट्टे पन्नते त्तिवेमि ॥

॥ छटु नायज्ञयणं समत्तं ॥

## ॥ सत्तमं अज्ञायणं ॥

(68) जइ णं भंते ! समगेणं जाव संपत्तेण छटुस्स नायज्ञायणस्स अयमद्देव पन्नते सत्तमस्स णं भंते ! नायज्ञायणस्स के अद्देव पन्नते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ रायगिहे नामं नयरे होत्था । सुभूमिभागे उज्जाणे । तथं णं रायगिहे नयरे धणे नामं सत्थवाहे परिवसइ अहे जाव अपरिभूप । भदा भारिया अहीणपर्चिदियसरीरा जाव सुरुवा । तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स पुत्ता भद्वाए भारियाए अत्था चत्तारि सत्थवाहदारगा होत्था तंजहा-धणपाले धणदेवे धणगोवे धणरक्षितए । तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स चउण्हं पुत्ताणं भारियाओ चत्तारि सुण्हाओ होत्था तंजहा - उज्जित्या भोगवद्या रक्षवद्या रोहिणिया । तए णं तस्स धणस्स सत्थवाहस्स अन्नया कयाइं पुवरत्तावरत्तकालसमयंसि इमेयारुवे अज्ञातिथि४ जाव समुप्पजित्था - एवं खलु अहं रायगिहे नयरे वहणं राईसरतलवर जाव पभिईणं सयस्स य कुडुंवस्स वहसु कजेसु य कारणेसु य कोडुंवेसु य मंतणेसु य गुज्जेसु रहस्सेसु निच्छण्सु ववहारेसु य आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे मेढी पमाणं आहारे आलंबणे चक्खु मेढीपमाणभूप सघकज्जवहावए । तं न नज्जइ णं मए गयंसि वा चुयंसि वा मयंसि वा भग्गंसि वा लुग्गंसि वा सदियंसि वा पडियंसि वा विदेसगयंसि वा विष्वसियंसि वा इमस्स कुडुंवस्स के मने आहारे वा आलंबे वा पडिवंधे वा भविस्सइ । तं सेयं खलु मम कळूं जाव जलंते विपुलं असणं ४ उवक्खडावेत्ता मित्तनाइ० चउण्हं य सुण्हाणं कुलघरवगं आमंतेत्ता तं मित्तनाइनियगसयण० चउण्हं य सुण्हाणं कुलघरवगं विपुलेणं असणेणं ४ धूवपुण्फवत्थगंध जाव सक्कारेत्ता संमाणेत्ता तस्सेव मित्तनाइ जाव चउण्हं सुण्हाणं कुलघरवगस्स य पुरओ चउण्हं सुण्हाणं परिक्खणद्याए पंच २ सालिअक्खए दलइत्ता जाणामि ताव का किह वा सारक्खेइ वा संगोवेइ वा संबहौइ वा । एवं संपेहेइ २ कळूं जाव मित्तनाइ० चउण्हं सुण्हाणं कुलघरं आमंतेइ २ विपुलं असणं ४ उवक्खडावेइ तओ पच्छा एहाए भोयणमंडवंसि

सुहासणवरगणे तं मित्तनाइ० चउण्हं सुण्हाणं कुलघरवग्गेण सद्विं तं  
विपुलं असणं ४ जाव सक्कारेइ२ तस्सेव मित्तनाइ० चउण्हं य सुण्हाणं  
कुलघरवग्गस्स य पुरओ पंच सालिअक्खणे गेण्हइ२ जेदुं सुण्हं उज्ज्ञायं  
सद्वेइ२ एवं वयासी-तुमं णं पुत्ता ! मम हत्थाओ इमे पंच सालि-  
अक्खणे गेण्हाहि२ अणुपुच्छेण सारक्खमाणी संगोवेमाणी विहराहि॑।  
जया णं अहं पुत्ता ! तुमं इमे पंच सालिअक्खणे जाएज्जा तया णं तुमं  
मम इमे पंच सालिअक्खणे पडिनिज्जाएज्जासि त्तिकटु सुण्हाए हत्थे  
दलयइ२ पडिविसज्जेइ॑। तए णं सा उज्ज्ञाया धणस्स तह त्ति एयमटुं  
पडिसुणेइ२ धणस्स सत्थवाहस्स हत्थाओ ते पंच सालिअक्खणे गेण्हइ२  
२ एगंतमवक्कमइ॑ एगंतमवक्कमियाए॑ इमेयारुवे अज्ज्ञायिए॑ ४ जाव  
समुप्पज्जित्था-एवं खलु तायाणं कोट्टागारंसि वहवे पह्ला सालीणं  
पडिपुण्णा चिदुंति॑। तं जया णं मम ताओ इमे पंच सालिअक्खणे  
जाएसइ॑ तया णं अहं पह्लंतराओ अन्ने पंच सालिअक्खणे गहाय  
दाहामि त्तिकटु एवं संपेहेइ२ ते पंच सालिअक्खणे एगसे एडेइ॑  
सकम्मसंजुत्ता जाया यावि होत्था॑। एवं भोगवद्याए वि नवरं  
सा छोल्हइ॒ अणुगिलइ॒ सकम्मसंजुत्ता जाया यावि होत्था॑। एवं  
रक्खिया वि नवरं गेण्हइ॒ इमेयारुवे अज्ज्ञायिए॑ ४-एवं खलु ममं  
ताओ इमस्स मित्तनाइ० चउण्हं य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स य पुरओ  
सद्वेत्ता एवं वयासी-तुमं णं पुत्ता ! मम हत्थाओ जाव पडिनिज्जा-  
एज्जासि त्तिकटु मम हत्थंसि पंच सालिअक्खणे दलयइ॑। तं भवियव्वं  
एत्थ कारणेण तिकटु एवं संपेहेइ॒ ते पंच सालिअक्खणे सुद्धे  
वत्थे बंधइ॒ रयणकरंडियाए पक्खिवइ॒ उसीसामूले ठावेइ॒ तिसंझं  
पडिजागरमाणी॒ विहरइ॑। तए णं से धणे सत्थवाहे तहेव मित्त जाव  
चउत्तिय रोहिणीयं सुण्हं सद्वेइ॒ जाव तं भवियव्वं एत्थ कारणेण  
तिकटु सेयं खलु मम एए पंच सालिअक्खणे सारक्खमाणीए संगोवे-  
माणीए संवह्नेमाणीए त्तिकटु एवं संपेहेइ॒ कुलघरपुरुसिसे सद्वेइ॒ एवं  
वयासी-तुव्वमे णं देवाणुपिया ! एए पंच सालिअक्खणे गेण्हह॒ २ पढम-

पाउसंसि महाबुद्धिकायंसि निवृथयंसि समाणंसि खुड्हां केयारं सुपरिकम्मियं करेह २ इमे पंच सालिअक्खए वावेह २ दोच्चं पि तच्चं पि उक्खयनिहए करेह २ वाडिपक्खेवं करेह २ सारक्खमाणा संगोवेमाणा आणुपुव्वेण संवह्नेह । तए णं ते कोडुंबिया रोहिणीए पयमटुं पडिसुणेति ते पंच सालिअक्खए गेणहंति २ अणुपुव्वेण सारक्खंति संगोविंति । तए णं ते कोडुंबिया पढमपाउसंसि महाबुद्धिकायंसि निवृथयंसि समाणंसि खुड्हां केयारं सुपरिकम्मियं करेति २ ते पंच सालिअक्खए वर्वंति दोच्चं पि तच्चं पि उक्खयनिहए करेति २ वाडिपरिक्खेवं करेति अणुपुव्वेण सारक्खेमाणा संगोवेमाणा संवह्नेमाणा विहरंति । तए णं ते साली अणुपुव्वेण सारक्खिवज्जमाणा संगोविज्जमाणा संवह्निज्जमाणा साली जाया किण्हा किण्होभासा जाव निउरंबभूया पासाईया ४ । तए णं ते साली पत्तिया वत्तिया गव्भिया पसूइया आगयगंधा खीराइया बद्धफला पक्का परियागया सहूईया पत्तईया हरियपव्वंकंडा जाया यावि होत्था । तए णं ते कोडुंबिया ते साली पत्तिए जाव सहूइयपत्तईए जाणित्ता तिक्खेहिं नवपञ्जणएहिं असिएहिं लुणंति २ करयलमलिए करेति २ पुणंति । तथं णं चोक्खाणं सूईयाणं अखंडाणं अफुडियाणं छड़छडापूयाणं सालीणं मागहए पत्थए जाए । तए णं ते कोडुंबिया ते साली नवएसु घडपसु पक्खिवंति उलिंपंति २ लंछियमुहिए करेति २ कोट्टागारस्सएग-देसंसि ठावेंति सारक्खमाणा संगोवेमाणा विहरंति । तए णं ते कोडुंबिया दोच्चंसि वासारत्तंसि पढमपाउसंसि महाबुद्धिकायंसि निवृथयंसि खुड्हां केयारं सुपरिकम्मियं करेति ते साली वंवंति दोच्चं पि उक्खायणिहए जाव लुणंति जाव चलणतलमलिए करेति २ पुणंति । तथं णं सालीणं बहवे कुडवा जाव एगदेसंसि ठावेंति २ सारक्खेमाणा संगोवेमाणा विहरंति । तए णं ते कोडुंबिया तच्चंसि वासारत्तंसि महाबुद्धिकायंसि निवृथयंसि बहवे केयारे सुपरिकम्मिए जाव लुणंति २ संवहंति २ खलयं करेति २ मलेंति जाव बहवे कुंभा जाया । तए णं ते कोडुंबिया साली कोट्टागारंसि पँल्हेवंति जाव विहरंति । चउत्थे वासारत्ते बहवे

कुंभसया जाया । तए णं तस्स धणस्स पंचमयंसि संवच्छरसि परिणममाणंसि पुद्वरत्तावरत्तकालसमयंसि इमेयारूपे अज्ञातिथिए ४ जाव समुप्पज्जितथा - एवं खलु मए इओ अईए पंचमे संवच्छरे चउण्हं सुण्हाणं परिक्खणटुयाए ते पंच २ सालिअक्खया हत्थे दिन्ना । तं सेयं खलु मम कल्हं जाव जलंते पंच सालिअक्खए परिजाइत्तए जाव जाणामि काए किह सारक्खिया वा संगोविया वा संवड्हिया वा । एवं संपेहेइ २ कल्हं जाव जलंते विपुलं असणं ४ मित्तनाइनियग० चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवगं जाव सम्माणित्ता तस्सेव मित्त जाव चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवगस्स पुरओ जेटुं उज्जिययं सहावेइ २ एवं वयासी - एवं खलु अहं पुत्ता ! इओ अईए पंचमंसि संवच्छरंसि इमस्स मित्त जाव चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरस्स य पुरओ तव हत्थंसि पंच सालिअक्खए दलयामि जया णं अहं पुत्ता ! एए पंच सालिअक्खए जाएज्जा तया णं तुमं मम इमे पंच सालिअक्खए पडिनिज्जाएसि त्तिक्कु । से नूणं पुत्ता ! अटु समटु ? हंता अतिथि । तं णं तुमं पुत्ता ! मम ते सालिअक्खए पडिनिज्जाएसि । तए णं सा उज्जिया एयमटुं धणस्स पडिसुणेइ जेणेव कोट्टागारं तेणेव उवागच्छइ २ पल्लाओ पंच सालिअक्खए गेणहइ २ जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ २ एवं वयासी - एए णं ते पंच सालिअक्खए त्तिक्कु धणस्स हत्थंसि ते पंच सालिअक्खए दलयइ । तए णं धणे उज्जियं सवहसावियं करेइ २ एवं वयासी - किं णं पुत्ता ! ते चेव पंच सालिअक्खए उदाहु अन्ने ? तए णं उज्जिया धणं सत्थवाहं एवं वयासी - एवं खलु तुव्हमे ताओ ! इओ अईए पंचमे संवच्छरे इमस्स मित्तनाइ० चउण्ह य जाव विहराहि । तए णं अहं तुव्हमं एयमटुं पडिसुणेमि ते पंच सालिअक्खए गेणहामि एगांतमवक्मामि । तए णं मम इमेयारूपे अज्ञातिथिए ४ जाव समुप्पज्जितथा - एवं खलु तायाणं कोट्टागारंसि जाव सकम्मसंजुत्ता । तं नो खलु ताया ! ते चेव पंच सालिअक्खए एए णं अन्ने । तए णं से धणे उज्जियाए अंतिए एयमटुं सोच्चा निसम्म आ सुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे उज्जियं तस्स मित्तनाइ० चउण्हं

सुण्हाणं कुलघरवगगस्स य पुरओ तस्स कुलघरस्स छारुज्जियं च छाणु-  
ज्जियं च कयवरुज्जियं च संपुच्छियं च सम्मज्जियं च पाउवदाइयं च  
ण्हाणोवदाइयं च बाहिरपेसणकारियं च ठावेइ । एवामेव समणाउसो !  
जो अम्हं निगंथो वा २ जाव पवइए पंच य से महवयाइं उज्जियाइं  
भवंति से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं ४ हीलणिज्जे जाव अणुपरि-  
यट्टहस्सइ जहा सा उज्जिया । एवं भोगवइया वि नवरं तस्स कुलघरस्स  
कंडितियं च कोट्टियं च पीसंतियं च एवं रुचंतियं रंधंतियं परिवेसं-  
तियं च परिभायंतियं च अविंतरियं च पेसणकारिं महाणसिणि ठावेइ ।  
एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं समणो वा पंच य से महवयाइं  
फोडियाइं भवंति से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं ४ जाव हीलणिज्जे  
४ जहाव सा भोगवइया । एवं रक्खिवइयावि नवरं जेणेव वासघरे  
तेणेव उवागच्छइ २ मंजूसं विहाडेइ २ रयणकरंडगाओ ते पंच सालि-  
अक्खए गेणहइ २ जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ २ पंच  
सालिअक्खए धणस्स हृथ्ये दलयइ । तए णं से धणे रक्खिवइयं एवं  
वयासी - किं णं पुत्ता ! ते चेव एए पंच सालिअक्खए उदाहु अन्ने ?  
तए णं रक्खिवइया धणं एवं वयासी - ते चेव ताया ! एए पंच  
सालिअक्खया नो अन्ने । कहं णं पुत्ता ? एवं खलु ताओ ! तुव्वमे  
इओ पंचमंसि जाव भवियव्वं एत्थ कारणेण तिकट्टु ते पंच सालि-  
अक्खए सुद्धे वन्थे जाव तिसंझं पडिजागरमाणी यावि विहरामि ।  
तओ एणां कारणेण ताओ ! ते चेव पंच सालिअक्खए नो अन्ने ।  
तए णं से धणे रक्खिवइयाए अंतियं एयमटुं सोच्चा हट्टुट्टे तस्स  
कुलघरस्स हिरण्णस्स य कंसदूसविपुलधण जाव सावएज्जस्स य भंडा-  
गारिणि ठवेइ । एवामेव समणाउसो ! जाव पंच य से महवयाइं  
रक्खिवयाइं भवंति से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं ४ अच्छणिज्जे जाव  
जहा सा रक्खिवइया । रोहिणीया वि एवं चेव नवरं तुव्वमे ताओ मम  
सुवहुयं सगडीसागडं दलाह जाणं अहं तुव्वमे ते पंच सालिअक्खए  
पडिनिज्जाएमि । तए णं से धणे रोहिणि एवं वयासी - कहं णं तुमं

मम पुत्ता ! ते पंच सालिअक्खए सगडसागडेण निज्ञाएस्ससि ? तए  
णं सा रोहिणी धणं एवं वयासी-एवं खलु ताओ ! इओ तुब्मे  
पंचमे संवच्छरे इमस्स मित्त जाव वहवे कुंभसया जाया तेणेव कमेण ।  
एवं खलु ताओ ! तुब्मे ते पंच सालिअक्खए सगडीसागडेण निज्ञा-  
एमि । तए णं से धणे सत्थवाहे रोहिणीयाए सुबहुयं सगडीसागडं  
दलयैइ । तए णं रोहिणी सुबहुं सगडीसागडं गहाय जेणेव सए कुलघरे  
तेणेव उवागच्छइ कोट्टागरं विहाडेइ २ पले उविंभदइ २ सगडी-  
सागडं भरेइ २ रायगिहं नगरं मज्जंमज्जेण जेणेव सए गिहे जेणेव  
धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ । तए णं रायगिहे नयरे सिंघाडग  
जाव बहुजणो अन्नमन्नं एवमाइक्खइ ४ - धन्ने णं देवाणुपिया ! धणे  
सत्थवाहे जस्स णं रोहिणीया सुण्हा पंच सालिअक्खए सगड-  
सागडेण निज्ञाइए पासए २ हटु जाव पडिच्छइ २ तस्सेव मित्तनाइ०  
चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरपुरओ रोहिणीयं सुण्हं तस्स कुलघरस्स बहुसु  
कज्जेसु य जाव रहस्सेसु य आपुच्छणिज्जं जाव वट्टावियं पमाणभूयं  
ठावेइ । एवामेव समणाउसो ! जाव पंच से महघयाइं संवह्नियाइं  
भवंति से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं जाव वीईवइस्सइ जहा व सा  
रोहिणीया ।

एवं खलु जंवू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं  
सत्तमस्स नायज्ज्ञयणस्स अयमटु पन्नते त्तिव्रेमि ॥

॥ सत्तमं अज्ज्ञयणं समतं ॥ ७ ॥

## ॥ अटुमं अज्ज्ञयणं ॥

(69) जह णं भन्ते ! समगेण जाव संपत्तेण सत्तमस्स नायज्ज्ञयणस्स अयमटु पन्त्ते अटुमस्स णं भन्ते ! के अटु पन्त्ते ? एवं खलु जंबू ! तेण कालेण २ इहेव जंबुदीवे २ महाविदेहे वासे मंदरस्स पव्यस्स पच्चत्थिमेण निसढस्स वासहरपव्यस्स उत्तरेण सीओयाए महानदीए दाहिणेण सुहावहस्स वक्खारपव्यस्स पच्चत्थिमेण पच्चत्थिमलवणसमुद्रस्स पुरत्थिमेण एत्थ णं सलिलावई नामं विजए पन्त्ते । तथ णं सलिलावईविजए वीयसोगा नामं रायहाणी पन्त्ता नवजोयणवित्थिणा जाव पच्चक्खं देवलोगभूया । तीसे णं वीयसोगाए रायहाणीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए इंदकुंभे नामं उज्जाणे । तथ णं वीयसोगाए रायहाणीए बले नामं राया । तस्स धारिणीपामोक्खं देवीसहस्रं आरोहे होत्था । तए णं सा धारिणी देवी अन्नया कयाइ सीहं सुमिगे पासित्ताणं पडियुद्धा जाव महब्बले दारए जाए उम्मुक्क जाव भोगसमत्थे । तए णं तं महब्बलं अम्मापियरो सरिसियाणं कमलसिरिपामोक्खाणं पंचणहं रायवरकन्नासयाणं एगदिवसेण पाणिं गेण्हावेति । पंच पासायसया पंचसओ दाओ जाव विहरइ । थेरागम्मणं इंदकुंभे उज्जाणे समोसढे परिसा निगया बलो वि निगओ धम्मं सोच्चा निसम्म जं नवरं महब्बलं कुमारं रजे ठावेई जाव एक्कारसंगवी बहूणि वासाणि सामणपरियागं पाउणित्ता जेगेव चारुपव्यए मासिएणं भत्तेणं सिद्धे । तए णं सा कमलसिरी अन्नया कयाइ सीहं सुमिगे जाव वलभद्दो कुमारो जाओ जुवराया यावि होत्था । तस्स णं महब्बलस्स रन्नो इमे छपियवालवयंसगा रायाणो होत्था तंजहा-अयले धरणे पूरणे वसू वेसमणे अभिचंदे सहजायया जाव संहित्ताए नित्यरियव्वे त्तिकहु अन्नमन्नस्स एयमटुं पडिसुणेति । तेण कालेण २ इंदकुंभे उज्जाणे थेरा समोसढा । परिसा निगया । महब्बले णं धम्मं सोच्चा जं नवरं छपियवालवयंसए आपुच्छामि वलभदं च कुमारं रजे ठावेमि जाव छपियवालवयंसए आपुच्छइ । तए णं ते छपिय० महब्बलं रायं एवं वयासी - जह णं देवाणु-

पिण्या ! तुव्वेपद्ययह अम्हं के अन्ने आहारे जाव पद्ययामो । तए  
णं से महब्बले राया ते छपिण्य० एवं वयासी - जइ णं तुव्वेमए सर्दिं  
जाव पद्ययह तो णं गच्छह जेट्टे पुत्ते सएहिं २ रजेहिं ठावेह पुरिस-  
सहस्रवाहिणीओ सीयाओ दुरुद्वा जाव पाउव्वभवंति । तए णं से महब्बले  
राया छपिण्यवालवयंसए पाउव्वभूए पासइ २ हट्टु जाव कोडुंबियपुरिसे  
सहावेइ २ वलभद्रस्स रायाभिसेओ जाव आपुच्छइ । तए णं से महब्बले  
जाव महया इहीए पैव्वइए एकारसअंगवी वहूहिं चउत्थ जाव भावेमाणे  
विहरइ । तए णं तेसि महब्बलपामोक्खाणं सत्तणं अणगाराणं अन्नया  
कयाइ एगयओ सहियाणं इमेयारूवे मिहोकहासमुद्घावे समुप्पजिज्ञत्था -  
जं णं अम्हं देवाणुपिण्या एगे तवोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ तं णं  
अम्हेहिं संघेहिं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए त्तिकटु अन्न-  
मन्नस्स एयमटुं पडिसुणेति २ वहूहिं चउत्थ जाव विहरंति । तए णं से  
महब्बले अणगारे इमेणं कारणेणं इत्थिनामगोयं कम्मं निवृत्तिसु -  
जइ णं ते महब्बलवज्जा छ अणगारा चउत्थं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति  
तओ से महब्बले अणगारे छटुं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । जइ णं ते  
महब्बलवज्जा छ अणगारा छटुं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति तओ से  
महब्बले अणगारे अटुमं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । एवं अह अटुमं तो  
दसमं अह दसमं तो दुवालसमं । इमेहि य णं वीसाएहि य कारणेहिं  
आसेवियवहुलीकएहिं तित्थयरनामगोयं कम्मं निवृत्तेसु तंजहा -  
अरहंतसिद्धपवयणगुस्थेरवहुस्सुए तवस्सीसुं । वच्छल्या य तेसि  
अभिक्ख नाणोवओगा य ॥१॥ दंसणविणए आवस्सए य सीलव्वए  
निरइयारो । खणलवतवचियाए वेयावचे समाही य ॥२॥ अपुव्व-  
नाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पहावणया । एपर्हिं कारणेहिं तित्थयरत्तं  
लहइ सो॒ उ ॥३॥ तए णं ते महब्बलपामोक्खा सत्त अणगारा मासियं  
भिक्खुपडिमं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति जाव एगराइयं । तए णं ते मह-  
ब्बलपामोक्खा सत्त अणगारा खुडुगं सीहनिक्कीलियं तवोकम्मं उवसंप-  
ज्जित्ताणं विहरंति तंजहा - चउत्थं करेति २ सव्वकामगुणियं पारेति २

छटुं करेति २ चउत्थं करेति २ अटुमं करेति २ छटुं करेति २ दसमं करेति २ अटुमं करेति २ दुवालसमं करेति २ दसमं करेति २ चोहसमं करेति २ दुवालसमं करेति २ सोलसमं करेति २ चोहसमं करेति २ अटुरसमं करेति २ सोलसमं करेति २ वीसइमं करेति २ अटुरसमं करेति २ वीसइमं करेति २ सोलसमं करेति २ अटुरसमं करेति २ चोहसमं करेति २ सोलसमं करेति २ दुवालसमं करेति २ चोहसमं करेति २ दसमं करेति २ छटुं करेति २ अटुमं करेति २ चउत्थं करेति २ छटुं करेति २ चउत्थं करेति सब्बत्थ सब्बकामगुणिणं पारेति । एवं खलु एसा खुड्गासीहनिकीलियस्स तबोकम्मस्स पढमा परिवाडी छहिं मासेहिं सत्तहि य अहोरत्तेहि य अहासुत्तं जाव आराहिया भवह । तयाणंतरं दोच्चाए परिवाडीए चउत्थं करेति नवरं विगयैवज्जं पारेति । एवं तच्चाए वि परिवाडीए नवरं पारण अलेवाढं पारेति । एवं चउत्था वि परिवाडी नवरं पारणए आयंविलेण पारेति । तए णं ते महब्बलपामोक्खा सत्त अणगारा खुड्गां सीहनिकीलियं तबोकम्मं दोहिं संबच्छरेहिं अटुवीसाए अहोरत्तेहिं अहासुत्तं जाव आणाए आराहेत्ता जेणेव थेरे भगवंते तेणेव उवागच्छंति २ थेरे भगवंते वंदंति नमंसंति २ एवं वयासी-इच्छामो णं भंते । महालयं सीहनिकीलियं तहेव जहा खुड्गां नवरं चोत्तीसइमाओ नियत्तंइ एगाए परिवाडीए कालो एगेणं संबच्छरेणं छहिं मासेहिं अटु-रसहि य अहोरत्तेहिं समप्पेइ । सब्बंपि सीहनिकीलियं छहिं वासेहिं दोहिं मासेहिं वारसहि य अहोरत्तेहिं समप्पेइ । तए णं ते महब्बलपामोक्खा सत्त अणगारा महालयं सीहनिकीलियं अहासुत्तं जाव आराहित्ता जेणेव थेरे भगवंते तेणेव उवागच्छंति २ थेरे भगवंते वंदंति नमंसंति २ बहूणि चउत्थं जाव विहरंति । तए णं ते महब्बलपामोक्खा सत्त अणगारा तेण उरालेण सुक्का भुक्खा जहा खंदओ नवरं थेरे आपुच्छत्ता चारुपद्मयं सणियं दुरुहंति जाव दोमासियाए संलेहणाए सवीसं भत्तसयं चतुरासीइं वास-सयसहस्राइं सामण्णपरियागं पाउणंति २ चुलसीइं पुष्पसयसहस्राइं

सद्बाउयं पालइत्ता जयंते विमाणे देवत्ताए उववन्ना ।

(70) तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं वत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । तत्थ णं महब्बलवज्जाणं छणहं देवाणं देसूणाइं वत्तीसं सागरो-वमाइं ठिई । महब्बलस्स देवस्स पडिपुण्णाइं वत्तीसं सागरोवमाइं ठिई । तए णं ते महब्बलवज्जा छप्पि देवा ताओ देवलोगाओ आउ-क्खएणं जाव अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे विसुद्ध-पिइमाइवंसेसु रायकुलेसु पत्तेयं २ कुमारत्ताए पच्चायाया तंजहा -पडिवुद्दी इक्खागराया, चंदच्छाए अंगराया, संखे कासिराया, रूपी कुणालाहिवई, अदीणसत्तू कुरुराया, जियसत्तू पंचालाहिवई । तए णं से महब्बले देवे तिहिं नाणेहिं समग्गे उच्छ्वाणगणेसु गहेसु सोमासु दिसासु वितिमिरासु विसुद्धासु जइएसु सउणेसु पयाहिणाणुकूलंसि भूमि-सर्पिंसि मारुयंसि पवायंसि निष्फन्नससमेइणीयंसि कालंसि पमुइय-पक्कीलिएसु जणवएसु अद्वरत्तकालसमयंसि अस्सिणीनक्खत्तेणं जोग-मुवागणेणं जे से गिम्हाणं पढमे मासे दोच्चे पक्खे चेत्तसुद्धे तस्स णं चेत्तसुद्धस्स चउत्थिपक्खेणं जयंताओ विमाणाओ वत्तीसं सागरोवम-ट्रिइयाओ अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे मिहिलाए रायहाणीए कुभगस्स रन्नो पभावईए देवीए कुच्छिंसि आहार-वक्कंतीए भववक्कंतीए सरीरवक्कंतीए गव्भत्ताए वक्कंते । तं रथणि च णं चोहस महासुमिणा वणओ । भत्तारकहणं सुमिणपाढगपुच्छा जाव विहरइ । तए णं तीसे पभावईए देवीए तिणहं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं इमेयारूवे डोहले पाउव्यूए - धन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ जाओ णं जलथलयभासुरप्पभूएणं दसद्ववणेणं मह्लेणं अत्युयपच्चत्युयंसि सयणि-ज्जंसि सन्निसण्णाओ संनिवन्नाओ य विहरंति एगं च महं सिरिदाम-गंडं पाडलमल्लियचंपगअसोगपुन्नागनागमरुयगदमणगअणोज्जकोज्जय-पउरपरमसुहदरिसणिज्जं महया गंधद्वैर्णि मुयंतं अग्धायमाणीओ डोहलं विणेति । तए णं तीए पभावईए इमं एयारुवं डोहलं पाउव्यूयं पासित्ता अहासन्निहिया वाणमंतरा देवा ख्लिप्पामेव जलथलय जाव दसद्ववण-

मल्लं कुभगसो य भारगगसो य कुभगसस रन्नो भवणंसि साहरंति एगं च णं महं सिरिदामगंडं जाव मुयंतं उचणेति । तए णं सा पभावई देवी जलथलय जाव मल्लेण दोहलं विणेइ । तए णं सा पभावई देवी पसत्थदोहला जाव विहरइ । तए णं सा पभावई देवी नवणं मासाणं अद्धटुमाण य रायंदियाणं जे से हेमंताणं पढमे मासे दोचे पक्खे मग्गसिरसुद्धे तस्स णं एकारसीए पुव्रत्तावरत्तकाल-समयंसि अस्सीणीनक्खत्तेण उच्छट्टाण जाव पमुइयपक्कीलिएसु जणवएसु आरोगारोगं एगूणवीसइमं तिथ्यरं पयाया ।

(71) तेणं कालेण २ अहेलोगवत्थव्वाओ अटु दिसाकुमारी-मयहरियाओ जहा जंतुदीवपन्नतीए जम्मणं सव्वं नवरं मिहिलाए कुभगसस पभावईए अभिलावो संजोएयव्वो जाव नंदीसरवरदीवे महिमा । तया णं कुभए राया बहूहिं भवणवईहिं ४ तिथ्यरजायकमं जाव नामकरणं - जम्हा णं अम्हं इमीए दारियाए माऊए मल्लसयणीयंसि ढोहले विणीए तं होउ णं नामेणं मल्ली जहा महब्बले जाव परिचह्या । सा बहूहिं भगवई दियलोयचुया अणोवमसिरीया । दासीदासपरिबुडा परिकिणा पीढमदेहि ॥ १ ॥ असियसिरया सुनयणा विवोट्टी धवलदंतपंतीया । वरकमलकोमलंगी फुलुप्पलगंधनीसासा ॥ २ ॥

✓ (72) तए णं सा मल्ली विदेहरायवरकन्ना उमुक्कवालभावा जाव रुवेण य जोवणेण य लावणेण य अईच २ उक्किटा उक्किटुसरीरा जायावि होत्था ॥ तए णं सा मल्ली देसूणवाससयजाया ते छप्पि रायाणो विउलेण ओहिणा आभोएमाणी २ विहरइ तंजहा-पडिवुद्धि जाव जियसत्तुं पंचालाहिवइ । तए णं सा मल्ली कोडुंवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी-गच्छह णं तुव्वमे देवाणुप्पिया ! असोगवणियाए एगं महं मोहणघरं करेह अणेगखंभसयसन्निविडुं । तस्स णं मोहणघरसस बहुमज्ज्वदेसभाए छ गव्यघरए करेह । तेसि णं गव्यघरगाणं बहुमज्ज्वदेसभाए जालघरयं करेह । तस्स णं जालघरयसस बहुमज्ज्वदेसभाए मणिपेटियं करेह जाव पच्चप्पिणंति । तए णं सा मल्ली मणिपेटियाए उवरिं अप्पणो सरिसियं

सरित्तयं सरित्वयं सरिसलावणजोव्यणगुणोववेयं कणगमयं मत्थय-  
च्छिद्दुं पउमप्पलपिहाणं पडिमं करेइ २ जं विउलं असणं ४ आहारेइ  
तओ मणुन्नाओ असणाओ ४ कलाकलिं एगमेगं पिंडे गहाय तीसे कणगा-  
मईए मत्थयच्छिद्दुए जाव पडिमाए मत्थयंसि पक्खवमाणी २ विहरइ ।  
तए णं तीसे कणगामईए जाव मत्थयच्छिद्दुए पडिमाए एगमेगंसि पिंडे  
पक्खप्पमाणे २ तओ गंधे पाउभवइ से जहानामए अहिमडे इ वा  
जाव एत्तो अणिद्वनराए अमणामतराए चेव ।

(73) तेणं कालेणं २ कोसला नामं जणवए । तथं णं सागेए  
नामं नयरे । तस्स णं उत्तरपुरुष्यमे दिसीभाए पत्थं णं महेगे नाग-  
घरए होत्था दिव्वे सच्चे सच्चोवाए संनिहियपडिहेरे ! तथं णं  
सागेए नयरे पडिवुद्धी नामं इक्खागराया परिवसइ पउमावई देवी सु-  
वुद्धी अमच्चे सामदंड० । तए णं पउमावईए देवीए अन्नया कयाइ नाग-  
जन्नए यावि होत्था । तए णं सा पउमावई नागजन्नमुवट्टियं जाणित्ता  
जेणेव पडिवुद्धी करयल जाव एवं वयासी - एवं खलु सामी ! मम  
कलुं नागजन्नए भविस्सइ । तं इच्छामि णं सामी ! तुव्येहिं अव्यभणु-  
न्नाया समाणी नागजन्नयं गमित्तए । तुव्येवि णं सामी ! मम नागजन्न-  
यंसि समोसरह । तए णं पडिवुद्धी पउमावईए एयमटुं पडिसुणेइ ।  
तए णं पउमावई पडिवुद्धिणा रन्ना अव्यभणुन्नाया समाणी हट्टा जाव कोडुं-  
बियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी - एवं खलु देवाणुपिया ! मम कलुं  
नागजन्नं भविस्सइ । तं तुव्येमालागारे सद्वावेह २ एवं वयाह - एवं  
खलु पउमावईए देवीए कलुं नागजन्नए भविस्सइ । तं तुव्येणं देवा-  
णुपिया ! जलथलयदसद्वणं मलुं नागघरयंसि साहरह एगं च णं  
महं सिरिदामगंडं उवणेह । तए णं जलथलयदसद्वणेणं मलेणं  
नाणाविहभत्तिलुविरेयं हंसमियमयूरकोंचसारसचक्कवायमयणसाल-  
कोइलकुलोववेयं ईहामिय जाव भत्तिचित्तं महगंधं महरिहं विउलं पुण्फ-  
मंडवं विरएह । तस्स णं वट्टुमज्ज्ञदेसभाए एगं महं सिरिदामगंडं जाव  
गंधीद्वाणि मुयंतं उल्लोयंसि ओलंवेह २ पउमावई देविं पडिवालेमाणा २

चिट्ठुह । तए णं ते कोडुंबिया जाव चिट्ठुति । तए णं सा पउमावई देवी कलं कोडुंविए एवं वयासी - खिण्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सागेयं नयरं सद्भितरवाहिरियं आसियसम्भज्जओवलित्तं जाव पञ्चपिण्ठंति । तए णं सा पउमावई दोचंपि कोडुंबिय जाव खिण्पामेव लहुकरणजुत्तं जाव जुत्तामेव उवट्टुवेति । तए णं सा पउमावई अंतो अतेउरंसि एहाया जाव धम्मियं जाणं दुरुढा । तए णं सा पउमावई नियगपरियालसंपरि-  
बुडा सागेयं नयरं मज्जंमज्जेणं निज्जाइ २ जेणेव पुक्खरणी तेणेव उवागच्छइ २ पोक्खरणि ओगाहेइ २ जलमज्जं जाव परमसुइभूया उल्लपडसाडया जाइं तथ्य उप्पलाइं जाव गेणहइ २ जेणेव नागधरए तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं पउमावईए दासचेडीओ वहूओ पुफ्फंडलगहत्थगयाओ धूवकडंच्छुयहत्थगयाओ पिट्ठुओ समणुगच्छंति । तए णं पउमावई सद्विहीए जेणेव नागधरए तेणेव उवागच्छइ २ नागधरं अणुप्पिसइ २ लोमहत्थगं जाव धूवं डहइ २ पडिबुद्धि पडिवालेमाणी २ चिट्ठु । तए णं पडिबुद्धी एहाए हथिखंधवरगए स्कोरंट जाव सेयवरचामराहि य हयगयरहमहयाभडचडगरपहकरेहि सागेयं नगरं मज्जंमज्जेणं निगगच्छइ २ जेणेव नागधरए तेणेव उवागच्छइ २ हथिखंधाओ पचोरहइ २ आलोए पणामं करेइ २ पुफ्फमंडवं अणुप्पिसइ २ पासइ तं एगं महं सिरिदामगंडं । तए णं पडिबुद्धी तं सिरिदामगंडं सुचिरं कालं निरिक्खइ २ तंसि सिरिदामगंडसि जायविम्हए सुवुद्धि अमच्चं एवं वयासी - तुमं देवाणुप्पिया ! मम दोचेणं वहूणि गामागर जाव सन्निवेसाइ आहिंडसि वहूण य राईसर जाव गिहाइं अणुप्पिससि । तं अतिथं णं तुमे कहिंचि एटि-सए सिरिदामगंडे दिट्ठुपुव्वे जारिसए णं इमे पउमावईदेवीए सिरिदाम-गंडे ? तए णं सुवुद्धी पडिबुद्धि रायं एवं वयासी - एवं खलु सामी ! अहं अन्नया कयाइं तुम्बं दोचेणं मिहिलं रायहार्णि गए । तथ्य णं मए कुंभगस्स रन्नो धूयाए पभावईए देवीए अन्तयाए मळीए संवच्छरपडि-लेहणगंसि दिव्वे सिरिदामगंडे दिट्ठुपुव्वे । तस्स णं सिरिदामगंडस्स इमे

पउमावईए देवीए सिरिदामगंडे सयसहस्रस्यमंपि कलं न अग्न्यइ । तए णं पडिबुद्धी सुवुद्धिं अमच्चं एवं वयासी - केरिसिया णं देवाणुपिया ! मल्ही २ जस्स णं संवच्छरपिलेहण्यंसि सिरिदामगंडस्स पउमावईए देवीए सिरिदामगंडे सयसहस्रस्यमंपि कलं न अग्न्यइ ? तए णं सुवुद्धी पडिबुद्धिं इक्खागरायं एवं वयासी - मल्ही विदेहरायवरकन्नगा सुपइट्टिय- कुम्मुन्नयचारुचरणा वण्णओ । तए णं पडिबुद्धी सुवुद्धिस्स अमच्चस्स अंतिए एयमद्दुं सोच्चा निसम्म सिरिदामगंडजणियहासे दूयं सहावेइ २ एवं वयासी - गच्छाहि णं तुमं देवाणुपिया ! मिहिलं रायहाणि । तत्थ णं कुंभगस्स रन्नो धूयं पभावईए अत्तियं मल्हि २ मम भारियत्ताए वरेहि जइ वि य णं सा सयं रज्जसुका । तए णं से दूए पडिबुद्धिणा रन्ना एवं बुत्ते समाणे हट्टु जाव पडिसुणेइ २ जेणेव सए गिहे जेणेव चाउग्न्यंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ चाउग्न्यटं आसरहं पडिकप्पावेइ २ दुरुठे जाव हयगयमहयाभडचडगरेणं साएथाओ निष्ठाच्छइ २ जेणेव विदेह- जणवए जेणेव मिहिला रायहाणी तेणेव पहारेत्थ गमणाए (१) ।

(74) तेणं कालेण २ अंगा नाम जणवए होत्था । तत्थ णं चंपा नामं नयरी होत्था । तत्थ णं चंपाए नयरीए चंदच्छाए अंगराया होत्था । तत्थ णं चंपाए नयरीए अरहन्नगपामोक्खा वहवे संज्ञानावावाणियगा परिवसंति अह्वा जाव अपरिभूया । तए णं से अरहन्नगे समणोवासए यावि होत्था अहिगयजीवाजीवे वण्णओ । तए णं तेसि अरहन्नगपामोक्खाणं संज्ञानावावाणियगाणं अन्नया कयाइ एगयओ सहियाणं इमेथारुवे मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्जित्था - सेयं खलु अम्हं गणिमं च धरिमं च मेज्जं च परिच्छेज्जं च भंडगं गहाय लवणसमुद्दं पोयवहणेणं ओगाहित्तए त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमद्दुं पडिसुणेति २ गणिमं च ४ गेणहंति २ सगडीसागडयं सज्जेति २ गणिमस्स ४ भंडगस्स सगडसागडियं भरेति २ सोहणंसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तंसि विउलं असणं ४ उवक्खडावेति मित्तनाइ भोयणवेलाए भुजावेति जाव आपुच्छंति २ सगडीसागडियं जोयंति २ चंपाए नयरीए मज्जामज्जेणं निगच्छंति २ जेणेव गंभीरए

पोयपट्टणे तेणेव उवागच्छंति २ सगडीसागडियं मोयंति २ पोयवहणं सज्जेंति २ गणिमस्स जाव चउविहभंडगस्स भरेति तंदुलाण य समियस्स य तेल्लस्स य घयस्स य गुल्स्स य गोरसस्स य उदगस्स य उदयभायणाण य ओसहाण य भेसज्जाण य तणस्स य कटुस्स य आवरणाण य पहरणाण य अन्नेसिं च बहूणं पोयवहणवाउग्गाणं द्वाणं पोयवहणं भरेति सोहणंसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तंसि विउलं असणं ४ उवक्खडावेति २ मित्तनाइ० आपुच्छंति २ जेणेव पोयट्टाणे तेणेव उवागच्छंति । तए णं तेसिं अरहन्नग जाव वाणियगाणं परियणो जाव ताहिं इट्टाहिं जाव वग्गूहिं अभिनंदंता य अभिसंयुणमाणा य एवं वयासी-अज्ज! ताय! भाय! माउल! भाइणेज्ज! भगवया समुद्रेण अभिरक्षिखज्जमाणा २ चिरं जीवह भद्रं च भे पुणरवि लङ्घट्टे कयकज्जे अणहसमग्गे नियगं घरं हृष्मागए पासामो त्तिकडु ताहिं सोमाहिं निद्वाहिं दीहाहिं सप्पिवासाहिं पर्पुयाहिं दिट्टीहिं निरिक्खमाणा मुहुत्तमेत्तं संनिट्टुंति । तओ समाणिएसु पुफ्फलिकम्मेसु दिन्नेसु सरसरत्तचंदणदहरपंचंगुलितलेसु अणुक्खिखत्तंसि धूवंसि पूइएसु समुद्रवाएसु संसारियासु बलयवाहासु ऊसिएसु सिएसु झयग्गेसु पडुप्पवाइएसु तूरेसु जईएसु सध्वसउणेसु गहिपसु रायवरसासणेसु महया उक्किट्टीहनाय जाव रवेणं पक्कुभियमहासमुहरवभूयं पिव मेइणि करेमाणा एगदिसिं जाव वाणियगा नावाप दुरुढा । तओ पुस्समाणवो वक्कमुद्दाहु-हं भो ! सब्बेसिमवि अथसिद्धी उवट्टियाइं कल्हाणाइं पडिहयाइं सध्वपावाइं जुत्तो पूसो विजओ मुहुत्तो अयं देसकालो । तओ पुस्समाणएणं वक्कमुदाहरिए हट्टुट्टे कुच्छिधारकणधारगभिज्जसंज्ञानावावणियवा वावारिसु तं नावं पुणुच्छंगं पुण्णमुहिं बंधणोहिंतो मुंचंति । तए णं सानावा विमुक्कबंधणा पवणबलसमाहया ऊसियसिया विततपंखा इव गरुल-जुवई गंगासलिलतिक्खसोयवेगोहिं संखुभ्माणी २ उम्मीतरंगमाला-सहस्साइं समझ्छमाणी २ कइवएहिं अहोरत्तेहिं लवणसमुद्रं अणेगाइं जोयणसयाइं ओगाढा । तए णं तेसिं अरहन्नगपामोक्खाणं संज्ञानावावाणियगाणं लदणसमद्रं अणेगाइं जोयणसयाइं ओगाढाणं समाणाणं

बहूद्दृष्ट उप्पाइयसयाईं पाउभूयाईं तंजहा - अकाले गज्जिए अकाले विज्ञु-  
ए अकाले थणियसहे अभिक्खणं २ आगासे देवयाओ नचंति एं च ण  
महं पिसायरुं पासंति तालजंघं दिवंगयाहिं बाहाहिं मसिमूसगमहिस-  
कालं भरियमेहवणं लंबोदुं निगगयगदंतं निल्लालियजमलजुयलजीहं  
आऊँसियवयणंडदेसं चीणचिमिढनासियं विगयभुगगभग्गभुमयं  
खज्जोयगदित्तचक्खुरागं उत्तासणगं विसालवच्छं विसालकुच्छिं पलंब-  
कुच्छिं पहसियपयलियपयडियगत्तं पणच्चमाणं अफोडंतं अभिवीयंतं अ-  
भिगज्जंतं बहुसो २ अद्वृहासे विणिम्मुयंतं नीलुप्पलगवलगुलियअयसि-  
कुसुमप्पगासं खुरधारं अस्ति गहाय अभिमुहमावयमाणं पासंति । तए  
णं ते अरहन्नगवज्जा संज्ञानावावाणियगा एं च ण महं तालपिसायं  
पासित्तातालजंघं दिवंगयाहिं बाहाहिं फुट्टसिरं भमरनिगरवरमासरासि-  
महिसकालं भरियमेहवणं सुप्पणहं फालसरिसजीहं लंबोदुं धवल-  
वट्टअसिलिट्टिक्खथिरपीणकुडिलदाढोवगूढवयणं विकोसियधारासि-  
जुयलसमसरिसतण्यचंचलगलंतरसलोलचवंलफुरुरेतनिल्लालियग-  
जीहं अवथच्छियमहल्लविगयवीभच्छलालपगलंतरतालुयं हिंगुलयस-  
गवभकंदरविलं व अंजणगिरिस्स अग्गजालुगिलंतवयणं आऊँसिय-  
अक्खचम्मउइटुगंडदेसं चीणचिमिढवंकभगगनासं रोसागयधमधमेत-  
मारुयनिदुरखरफरुसद्गुसिरं ओभुगगनासियपुडं घडउभद्दरइयभीसण-  
मुहं उद्धमुहकण्णसकुलियमहंतविगयलोमसंखालगलंवंतचलियकणं  
पिंगलदिप्पंतलोयणं भिउडितडिनिडालं नरसिरमालपरिणद्वच्छिंविचि-  
त्तगोणससुवद्धपरिकरं अवहोलंतपुण्ययायंतसप्पविच्छुयगोधुंदरनउलस-  
रडविरइयविच्छित्तवेयच्छमालियागं भोगकूरकणसप्पधमधमेतलंवंतक-  
णपूरं मज्जारसियाललइयखंधं दित्तघूँधयंतघूयकयकुंतलसिरं घंटारवेण  
भीमं भयंकरं कायरजणहियफोडणं दित्तं अद्वृहासं विणिम्मुयंतं वसार-  
हिरपूयमंसमलमलिणपोच्छडतणुं उत्तासणयं विसालवच्छं पेच्छंतभिन्नन  
हंमुहनयणकण्णवरवग्नविच्छित्तक्तीणियंसंरं सरसरहिरगयचम्मवियंयऊ-  
सवियवाहुजुयलं ताहि य खरफरुसअसिणद्वअणिट्टित्तभसुभअप्पिय-

अकंतवग्गृहि य तज्जयंतं पासंति तं तालपिसायरूवं एज्जमाणं पासंति २  
 भीया संजायभया अन्नमन्नस्स कार्यं समतुरंगेमाणा २ वहूणं इंदाण  
 य खंदाण य रुद्दसिववेसमणनागाणं भूयाण य जक्खाण य अज्जकोडु-  
 किरियाणं य वहूणि उवाइयसयाणि ओवाइयमाणा २ चिदुंति । तए  
 णं से अरहन्नए समणोवासए तं दिव्वं पिसायरूवं एज्जमाणं पासइ २  
 अभीए अतथ्ये अचलिए असंभंते अणाउले अणुविग्गे अभिन्नमुह-  
 रागनयणवणे अदीणविमणमाणसे पोयवहणस्स एगदेसंसि वथंतेणं  
 भूमि पमज्जइ २ ठाणं ठाइ २ करयल जाव एवं वयासी-नमोत्यु णं  
 अरहंताणं जाव संपत्ताणं । जइ णं अहं एत्तो उवसग्गाओ मुंचामि तो मे  
 कण्पइ पारित्तए । अहं णं एत्तो उवसग्गाओ न मुंचामि तो मे तहा  
 पच्चक्खाएयवे तिकडु सागारं भत्तं पच्चक्खाइ । तए णं से पिसाय-  
 रूवे जेगेव अरहन्नगे समणोवासए तेगेव उवागच्छइ २ अरहन्नगं  
 एवं वयासी-हं भो ! अरहन्नगा अपत्ययपत्थिया जाव परिवज्जिया !  
 नो खलु कण्पइ तव सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासाइं  
 चालित्तए वा एवं खोभित्तए वा खांडित्तए वा भंजित्तए वा उज्जित्तए  
 वा परिच्चहत्तए वा । तं जहं णं तुमं सीलव्वयं जाव न परिच्ययसि  
 तो ते अहं एयं पोयवहणं दोहिं अंगुलियाहिं गेण्हामि २ सत्तटूतळं-  
 प्पमाणमेत्ताइं उहुं वेहासं उविर्हामि अंतोजलंसि निच्छोलेमि जा णं  
 तुमं अट्टुहट्टवसट्टे असमाहिपत्ते अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि ।  
 तए णं से अरहन्नगे समणोवासए तं देवं मणसा चेव एवं वयासी-  
 अहं णं देवाणुपिया ! अरहन्नए नामं समणोवासए अहिगयजीवाजीवे ।  
 नो खलु अहं सक्का केणइ देवेण वा जाव निगंथाओ पावयणाओ चालि-  
 त्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए । वा तुमं णं जा सद्धा तं करेहि  
 तिकडु अभीए जाव अभिन्नमुहरागनयणवणे अदीणविमणमाणसे  
 निच्छले निष्फंदे तुसिणीए धम्मज्ञाणोवगए विहरइ । तए णं से दिव्वे  
 पिसायरूवे अरहन्नगं समणोवासगं दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी-हं  
 भो अरहन्नगा ! जाव धम्मज्ञाणोवगए विहरइ । तए णं से दिव्वे

पिसायरुवे अरहन्नगं धम्मज्ञाणोवगयं पासइ २ बलियतरागं आसुरुते  
 तं पोयवहणं दोहिं अंगुलियाहिं गिणहइ २ सत्तटुतलाइं जाव अरहन्नगं  
 एवं वयासी- हं भो अरहन्नगा ! अपतिथयपथिया ! नो खलु कप्पइ  
 तव सीलब्बय तहेव जाव धम्मज्ञाणोवगए विहरइ । तए णं से पिसाय-  
 रुवे अरहन्नगं जाहे नो संचाएइ निगंथाओ चालित्तए वा तहेवं संते  
 जाव निविष्णो तं पोयवहणं सणियं २ उवरिं जलस्स ठवेइ २ तं दिवं  
 पिसायरुवं पडिसाहरेइ २ दिवं देवरुवं विउघइ २ अंतलिक्खपडि-  
 वन्ने सर्खिखिणीयाइं जाव परिहिए अरहन्नगं समणोवासगं एवं वयासी-  
 हं भो अरहन्नगा ! धन्नोसि णं तुमं देवाणुपिया ! जाव जीवियफले  
 जस्स णं तव निगंथे पावयणे इमेयारुवा पटिवत्ती लद्दा पत्ता अभि-  
 समन्नागया । एवं खलु देवाणुपिया ! सक्के देविदे देवराया सोहम्मे  
 कप्पे सोहम्मवडिसए विमाणे सभाए सुहम्माए बहूणं देवाणं मज्जगणं  
 महया २ सहेणं एवं आइकखए ४- एवं खलु जंवुहीवे २ भारहे वासे  
 चंपाए नयरीए अरहन्नए समणोवासए अभिगयजीवाजीवे नो खलु  
 सक्का केणइ देवेण वा ६ निगंथाओ पावयणाओ चालित्तए जाव वि  
 परिणामित्तए वा । तए णं अहं देवाणुपिया ! सक्कस्स नो एयमटुं सह-  
 हामि । तए णं मम इमेयारुवे अज्ञथिए - गच्छामि णं अहं अरहन्नगस्स  
 अंतियं पाउभवामि जाणामि ताव अहं अरहन्नगं किं पियधम्मे नो  
 पियधम्मे, दढधम्मे नो दढधम्मे, सीलब्बयगुणे किं चालेइ जाव  
 परिच्छयइ नो परिच्छयइ त्तिकटु एवं संपेहेमि २ ओहिं पउंजामि २  
 देवाणुपियं ओहिणा आभोएमि २ उत्तरपुरतिथ्यं २ उत्तरवेउवियं०  
 ताए उक्तिटाए जेणेव लवणसमुद्दे जेणेव देवाणुपिया तेणेव उवागच्छामि  
 २ देवाणुपियं५ उवसरगं करेमि नो चेव णं देवाणुपिया भीया वा । तं  
 जं णं सक्के ३ एवं वयइ सञ्चे णं एसमट्टे । तं दिट्टे६ णं देवाणुपियाणं  
 इही जाव परकमे लद्दे पत्ते अभिसमन्नागए । तं खामेमि णं देवाणु-  
 पिया ! खमंतु मरहंतु णं देवाणुपिया ! नाइभुज्जो एवंकरणयाए त्तिकटु  
 पंजलिउडे पायवडिए एयमटुं विणएणं भुज्जो २ खामेइ अरहन्नगस्स य

तुवे कुंडलजुयले दलयइ २ जामेव दिसि पाउभूप तामेव पडिगए ।

(75) तए ण से अरहन्नए निरुवसगगमितिकटु पडिमं पारेइ । तए ण ते अरहन्नगपामोकखा जाव वाणियगा दक्खिणाणुकूलेण वाएण जेणेव गंभीरए पोयटुणे तेणेव उवागच्छंति २ पोयं लंबेति २ सगडि-सागडं सज्जेति तं गणिमं च ४ सगडि० संकामेति २ सगडी० जोर्विति २ जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छंति २ मिहिलाए रायहाणीए बहिया अगगुज्जाणांसि सगडीसागडं मोषंति २ महत्थं विलउं रायारिहं पाहुडं कुंडलजुयलं च गेणहंति २ अणुप्पविसंति २ जेणेव कुंभए तेसि संज्ञत्तगाणं जाव पडिच्छइ २ मल्हि० २ सदावेइ २ तं दिव्वं कुंडलजुयलं मल्हीए २ पिणद्वेइ २ पडिविसज्जेइ । तए ण से कुंभए राया ते अरहन्नगपामोकखे जाव वाणियगे विपुलेण वथगंधमल्हालंकारेण जाव उस्सुकं वियरइ २ रायमगगमोगाढे य आवासे वियरइ २ पडिविसज्जेइ । तए ण अरहन्नगसंज्ञत्तगा जेणेव रायमगगमोगाढे आवासे तेणेव उवा-गच्छंति २ भंडववहरणं करेति पडिभंडे गेणहंति २ सगडी० भरेति जेणेव गंभीरए पोयपटुणे तेणेव उवागच्छंति २ पोयवहणं सज्जेति २ भंडं संका-मेति दक्खिणाणुकूले जेणेव चंपाँ पोयटुणे तेणेव पोयं लंबेति २ सगडी० सज्जेति २ तं गणिमं ४ सगडी० संकामेति जाव महत्थं महगघं पाहुडं दिव्वं च कुंडलजुयलं गेणहंति २ जेणेव चंदच्छाए अंगराया तेणेव उवागच्छंति २ तं महत्थं जाव उवणेति । तए ण चंदच्छाए अंगराया तं दिव्वं महत्थं कुंडलजुयलं पडिच्छइ २ ते अरहन्नगपामोकखे एवं वयासी-तुझे ण देवाणुपिया ! बहुणि गामागर जाव आहिंडह लवणसमुद्रं च अभिक्खयं २ पोयवहणेहिं ओगाहेह । तं अतिथियाइं से केइ कर्हिचि अच्छेरए दिटु-पुव्वे ? तए ण ते अरहन्नगपामोकखा चंदच्छायं अंगरायं एवं वयासी-एवं खलु सामी ! अम्हे इहेव चंपाए नयरीए अरहन्नगपामोकखा वहवे संज्ञत्तगानावावाणियगा परिवसामो । तए ण अम्हे अन्नया कयाइ गणिमं च ४ तहेव अहीणअइरित्तं जाव कुंभगस्स रन्नो उवणेमो । तए ण से

कुंभए मल्हीए २ तं दिव्वं कुंडलजुयलं पिणद्देइ २ पडिविसज्जेइ । तं एस णं सामी ! अम्हेहिं कुंभगरायभवणंसि मल्ही २ अच्छेरए दिहे<sup>१</sup> । तं नो खलु अन्ना कावि तारिसिया देवकन्ना वा जाव जारिसिया णं मल्ही २ । तए णं चंदच्छाए अरहन्नगपामोक्खे सक्कारेइ सम्माणेइ २ उस्सुंकं वियरइ पडिविसज्जेइ । तए णं चंदच्छाए वाणियगजणियहासे दूयं सद्वावेइ जाव जइ वि य णं सा सयं रज्जसुक्का । तए णं से दूए हटु जाव पहारेत्थ गमणाए (२) ।

(76) तेणं कालेणं २ कुणाला नामं जणवए होत्था । तत्थ णं सावथी नामं नयरी होत्था । तत्थ णं रूप्पी कुणालाहिवई नामं राया होत्था । तस्स णं रूप्पिस्स ध्रूया धारिणीए देवीए अन्त्या सुबाहू नामं दारिया होत्था सुकुमाल जाव रूवेण य जोवणेण य लावण्णेण य उक्किट्टा उक्किट्टुसरीरा जाया यावि होत्था । तीसे णं सुबाहूए दारियाए अन्नया चाउम्मासियमज्जणए जाए यावि होत्था । तए णं से रूप्पी कुणालाहिवई सुबाहूए दारियाए चाउम्मासियमज्जणयं उवट्टियं जाणइ २ कोडुंबिय-पुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी - एवं खलु देवाणुपिया ! सुबाहूदारियाए कलुं चाउम्मासियमज्जणए भविस्सइ । तं तुव्वेणं रायमग्गमोगाढंसि मंडवंसि जलथलयदसद्ववणमलुं साहरह जाव सिरिदामगांडं ओलैइति । तए णं से रूप्पी कुणालाहिवई सुवण्णगारसेणि सद्वावेइ २ एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुपिया ! रायमग्गमोगाढंसि पुण्फमंडवंसि नाणा-विहंपंचवण्णेहिं तंदुलेहिं नयरं आलिहह तस्स बहुमज्जदेसभाए पट्टयं रएह जाव पञ्चपिण्णति । तए णं से रूप्पी कुणालाहिवई हत्थिखंधवरगए चाउरंगिणीए सेणाए महया भडचडगर जाव अंतेउरपरियालसंपरित्वुडे सुबाहुं दारियं पुरओ कडु जेणेव रायमग्गे जेणेव पुण्फमंडवे तेणेव उवागच्छइ २ हत्थिखंधाओ पञ्चोरहइ २ पुण्फमंडवे अणुपविसइ २ सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सन्निसण्णे । तए णं ताओ अंतेउरियाओ सुबाहुं दारियं पट्टयंसि दुरूहंति २ सेर्यापीयएहिं कलसेहिं एहाणेति २ सद्वालंकार विभूसियं करेति २ पिउणो पायंवंदियं उवणेति । तए णं सुबाहू

दारिया जेणेव रूपी राया तेणेव उवागच्छइ २ पायगगहणं करेइ । तए णं से रूपी राया सुबाहुं दारियं अंके निवेसेइ २ सुवाहुदारियाए रूबेण य जोव्वणेण य लावणेण य जायविम्बहए वरिसधरं सहावेइ २ एवं वयासी - तुमं णं देवाणुपिया ! मम दोच्चेण वहृणि गामागरनगर-गिहाणि अणुप्पविससि । तं अतिथ्याइं ते कस्सइ रन्नो वा ईसरस्स वा कहिंचि एथारिसंए मज्जणए दिटुपुब्बे जारिसए णं इमीसे सुवाहुदारियाए मज्जणए ? तए णं से वरिसधरे रूपिष्ठ करयल जाव वद्वावेत्ता एवं वयासी - एवं खलु सामी ! अहं अन्नया तुव्वं दोच्चेण मिहिलं गए । तत्थ णं मए कुंभगस्स रन्नो धूयाए पभावईए देवीए अन्तयाए मल्लीए २ मज्जणए दिट्टे । तस्स णं मज्जणगस्स इमीष्ठं सुवाहुदारियाए मज्जणए सयसहस्स-इमंपि कलं न अग्धइ । तए णं से रूपी राया वरिसधरस्स अंतियं पयमटुं सोच्चा निसम्म मज्जणगजणियहासे दूयं सहावेइ जाव जेणेव मिहिला नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए (३) ।

(77) तेणं कालेणं २ कासी नामं जणवए होत्था । तत्थ णं वाणा-रसी नामं नयरी होत्था । तत्थ णं संखे नामं कासीराया होत्था । तए णं तीसे मल्लीए २ अन्नया कयाइ तस्स दिव्वस्स कुंडलजुयलस्स संधी विसंघडिए यावि होत्था । तए णं से कुंभए राया सुवण्णगार-सेणि सहावेइ २ एवं वयासी - तुव्वे णं देवाणुपिया ! इमस्स दिव्वस्स कुंडलजुयलस्स संधीं संघाडेह । तए णं साँ सुवण्णगार-सेणी पयमटुं तहत्ति पडिसुणेइ २ तं दिव्वं कुंडलजुयलं गेण्हइ २ जेणेव सुवण्णगारभिसियाओ तेणेव उवागच्छइ २ सुवण्णगारभिसि-यासु निवेसेइ २ वहृहिं आपहि य जाव परिणामेमाणा इच्छांति तस्स दिव्वस्स कुंडलजुयलस्स संधीं घडित्तए नो चेव णं संचाप्ह घडित्तए । तए णं साँ सुवण्णगारसेणी जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छइ २ करयल जाव वद्वावेत्ता एवं वयासी - एवं खलु सामी ! अज्ज तुम्हे अम्हे सहावेह जाव संधीं संघाडेत्ता एवमार्णत्तियं पञ्चपिणह । तए णं अम्हे तं दिव्वं कुंडलजुयलं गेण्हामो जेणेव सुवण्णगारभिसियाओ जाव नो

संचाएमो संघाडित्तए । तए णं अम्हे सामी ! एयस्स दिवस्स कुंडलस्स अब्रं सरिसयं कुंडलजुयलं घडेमो । तए णं से कुंभए राया तीसे सुवण्णगारसेणीए अंतिए एयमटुं सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते ४ तिबलियं भिउडि निढाले साहटु एवं वयासी - केस णं तुव्वे कलायाणं भवह जे णं तुव्वे इम्स्स दिवस्स कुंडल-जुयलस्स नो संचाएह संधिं संघाडित्तए ? ते सुवण्णगारे निविसए आणवेइ । तए णं ते सुवण्णगारा कुंभगेण रन्ना निविसया आणत्ता समाणा जेणेव साँइ २ गिहाइं तेणेव उवागच्छंति २ सभंडमन्तोव-गरणमायाए मिहिलाए रायहाणीए मञ्ज्ञांमञ्ज्ञेण निकंखमंति २ विदेहस्स जणवयस्स मञ्ज्ञांमञ्ज्ञेण जेणेव कासी जणवए जेणेव वाणारसी नयरी तेणेव उवागच्छंति २ अग्गुज्जाणंसि सगडीसागडं मोणंति २ महत्थं जाव पाहुडं गेणहंति २ वाणारसीए नयरीए मञ्ज्ञांमञ्ज्ञेण जेणेव संखे कासीराया तेणेव उवागच्छंति २ करयल जाव वद्धावेंति एवं वयासी - अम्हे णं सामी ! मिहिलाओ कुंभएण रन्ना निविसया आणत्ता समाणा इह हव्वमागया । तं इच्छामो णं सामी ! तुव्वं वाहुच्छाया-परिग्गहिया निव्भया निश्विगगा सुहंसुहेणं परिवसिउं । तए णं संखे कासीराया ते सुवण्णगारे एवं वयासी - किं णं तुव्वे देवाणुपिया ! कुंभएण रन्ना निविसया आणत्ता ? तए णं ते सुवण्णगारा संखं एवं वयासी - एवं खलु सामी ! कुंभगस्स रन्नो धूया ए पभावईए देवीए अत्तयाए मल्हीए कुंडलजुयलस्स संधी विसंघडिए । तए णं से कुंभए सुवण्णगारसेणि सद्वावेइ जाव निविसया आणत्ता । तं एणं कारणेण सामी ! अम्हे कुंभएण निविसया आणत्ता । तए णं से संखे सुवण्णगारे एवं वयासी - केरिसिया णं देवाणुपिया ! कुंभगस्स रन्नो धूया ए पभावई-देवीए अत्तया मल्ही विदेहरायवरकन्ना ? तए णं से सुवण्णगारा संखं रायं एवं वयासी - नो खलु सामी ! अन्ना कावि तारिसिया देवकन्ना वा गंधबकन्ना वा जाव जारिसिया णं मल्ही २ । तए णं से संखे कुंडल-जणियहासे दूयं सद्वावेइ जाव तहेव पहारेत्थ गमणाए ४ ।

(78) तेण कालेण २ कुरुजणवए होत्था । हत्थिणाउरे नयरे । अदीणसत्तू नामं राया होत्था जाव विहरइ । तत्थ णं मिहिलाए तस्स णं कुंभगस्स पुत्ते पभावईए अत्तए मल्लीए अणुमग्गजायए मल्लदिन्ने नामं कुमारे जाव जुवराया यावि होत्था । तए णं मल्लदिन्ने कुमारे अन्नया कोहुंवियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी - गच्छह णं तुव्वे मम पमंदवणंसि एगं महं चित्तसभं करेह २ अणेग जाव पञ्चपिणंति । तए णं से मल्लदिन्ने चित्तगरसेणि सद्वावेइ २ एवं वयासी - तुव्वे णं देवाणुपिण्या ! चित्तसभं हावभावविलासविब्बोयकलिपहिं रूवेहिं चित्तेह जाव पञ्चपिण्यह । तए णं सा चित्तगरसेणी तहत्ति पडिसुणेइ २ जेणेव सयाइं गिहाइं तेणेव उवागच्छइ २ तूलियाओ वण्णए य गेणहइ २ जेणेव चित्तसभा तेणेव अणुपविसइ २ भूमिभागे विरंयहइ २ भूमिं सज्जेइ २ चित्तसभं हावभाव जाव चित्तेउं पयत्ता यावि होत्था । तए णं एगस्स चित्तगरस्स इमेयारुवा चित्तगरलद्वी लद्वा पत्ता अभिसमन्नागया - जस्स णं दुपयस्स वा चउप्पयस्स वा अपयस्स वा एगदेसमवि पासइ तस्स णं देसाणुसारेणं तयाणुरुवं रुवं निवत्तेइ । तए णं से चित्तगरए मल्लीए जवणियंतरियाए जालंतरेण पायंगुटुं पासइ । तए णं तस्स चित्तगरस्स इमेयारुवे अज्ञात्तिए जाव समुप्पज्जित्था - सेयं खलु ममं मल्लीए २ पायंगुद्गाणुसारेणं सरिसगं जाव गुणोववेयं रुवं निवत्तिए । एवं संपेहेइ २ भूमिभागं सज्जेइ मल्लीए २ पायंगुद्गाणुसारेणं जाव निवत्तेइ । तए णं सा चित्तगरसेणी चित्तसभं जाव हावभावं चित्तेइ २ जेणेव मल्लदिन्ने कुमारे तेणेव उवागच्छइ जाव एर्वमाणन्तियं पञ्चपिण्यह । तए णं मल्लदिन्ने चित्तगरसेणि सक्कारेइ २ विपुलं जीवियारिहं पीइदाणं दलयहइ २ पडिविसज्जेइ । तए णं मल्लदिन्ने अन्नया एहाए अंतेउरपरियालसंपरिबुडे अम्मधाईए सम्भि जेणेव चित्तसभा तेणेव उवागच्छइ २ चित्तसभं अणुपविसइ २ हावभावविलासविब्बोयकलियाइं रुवाइं पासमाणे जेणेव मल्लीए २ तयाणुरुवं निवत्तिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं से मल्लदिन्ने मल्लीए २

तयाणुरुवं निवृत्तियं पासइ २ इमेयारुवे अज्ञातिथए जाव समुण्य-  
ज्ञित्या - एस णं मल्ही २ तिकटु लज्जिए वीडिए विडु<sup>१</sup> सणियं २  
पच्चोसक्कइ । तए णं तं मल्हदिन्नं अम्मधाई सणियं २ पच्चोसक्कंतं  
पासित्ता एवं वयासी - किन्नं तुमं पुत्ता ! लज्जिए वीडिए विडु<sup>२</sup>  
सणियं २ पच्चोसक्कसि ? तए णं से मल्हदिन्ने अम्मधाई एवं वयासी -  
जुत्तं णं अम्मो ! मम जेट्टाए भगिणीए गुरुदेवयभूयाए लज्जणिज्जाए  
मम चित्तगरणिवृत्तियं संभं अणुपविसित्तेऽ ? तए णं अम्मधाई  
मल्हदिन्नं कुमारं एवं वयासी - नो खलु पुत्ता ! एस मल्ही । एस णं  
मल्हीए २ चित्तगरणेण तयाणुरुवे निवृत्तिए । तए णं से मल्हदिन्ने  
अम्मधाईए एयमटुं सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते ४ एवं वयासी - केस णं  
भो से चित्तगरण अपतिथयपतिथए जाव परिवज्जिए जे णं मम  
जेट्टाए भगिणीए गुरुदेवयभूयाए जाव निवृत्तिए त्तिकटु तं चित्तगरं  
वज्ज्ञं आणवेइ । तए णं सा चित्तगरसेणी इमीसे कहाए लद्दट्टा समाणा  
जेणेव मल्हदिन्ने कुमारे तेणेव उवागच्छइ २ करयलपरिगगहियं जाव वद्धा-  
वेत्ता एवं वयासी - एवं खलु सामी ! तस्स चित्तगरस्स इमेयारुवा  
चित्तगरलद्दी लद्दा पत्ता अभिसमन्नागया - जस्स णं दुपयस्स वा जाव  
निवत्तेइ । तं मा णं सामी ! तुब्मे तं चित्तगरं वज्ज्ञं आणवेइ । तं तुब्मे  
णं सामी ! तस्स चित्तगरस्स अन्नं तयाणुरुवं दंडं निवत्तेइ : तए णं  
से मल्हदिन्ने तस्स चित्तगरस्स संडासगं छिँझावेइ २ निविसयं आण-  
वेइ । तए णं से चित्तगरए मल्हदिन्नेण निविसए आणत्ते सभंडमत्तो-  
वगरणमायाए मिहिलाओ नयरीओ निकखमइ २ विदेहं जणवयं मज्ज्ञं-  
मज्ज्ञेणं जेणेव कुरुजणवए जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव उवागच्छइ २  
भंडनिकखेवं करेइ २ चित्तफलगं सज्जेइ २ मल्हीए २ पायंगुट्टाणुसारेण  
रुवं निवत्तेइ २ कक्खवंतरंसि छुञ्चभइ २ महत्थं जाव पाहुडं गेणहइ २  
हत्थिणीउरं नयरं मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं जेणेव अदीणसत् राया तेणेव उवागच्छइ  
२ तं करयल जाव वद्धावेइ २ पाहुडं उवणेइ २ एवं वयासी - एवं खलु  
अहं सामी ! मिहिलाओ रायहाणीओ कुंभगस्स रन्नो पुत्तेण पभावईए

देवीए अत्तरणं मल्लिदिन्नेणं कुमारेणं निविसए आणते समागे इहं हच्च-  
मागए । तं इच्छामि णं सामी ! तुव्हं बाहुच्छायापरिग्नहिए जाव परि-  
वसित्तेऽ । तए णं से अदीणसत्तू राया तं चित्तगरदारयं एवं वयासी -  
किन्न तुमं देवाणुपिया ! मल्लिदिन्नेणं निविसए आणते ? तए णं से  
चित्तगरदारए अदीणसत्तुं रायं एवं वयासी - एवं खलु सामी ! मल्लिदिन्ने  
कुमारे अन्नया कयाइ चित्तगरसेणि सहावेइ २ एवं वयासी - तुव्हे णं  
देवाणुपिया ! मम चित्तसर्भं तं चेव सब्बं भाणियवं जाव मम संडासर्ग  
छिंदिवेइ २ निविसयं आणवेइ । तं एवं खलु अहं सामी ! मल्लिदिन्नेणं  
कुमारेणं निविसए आणते । तए णं अदीणसत्तू राया तं चित्तगरं एवं  
वयासी - से केरिसए णं देवाणुपिया ! तुमे मलीए तहाणुरुवे<sup>१</sup> निवि-  
त्तिए ? तए णं से चित्तगरे कक्खंतराओ चित्तफलगं नीणेइ २ अदीण-  
सत्तुस्स उवणेइ २ एवं वयासी - एस णं सामी ! मलीए २ तयाणु-  
रुवस्स रुवस्स केइ आगारभावपडोयारे निवित्तिए । नो खलु सक्का  
केणइ देवेण वा जाव मलीए २ तयाणुरुवे रुवे निवित्तिए । तए णं से  
अदीणसत्तु पडिरुवजणियहासे दूयं सहावेइ २ एवं वयासी तहेव जाव  
पहारेत्थ गमणाए (५) ।

(79) तेण कालेण २ पंचाले जणवए कंपिलपुरे नयरे । जिय-  
सत्तू नामं राया पंचालाहिवई । तस्स णं जियसत्तुस्स धारिणीपामोक्खं  
देवीसहस्रं ओरोहे होत्था । तत्थ णं मिहिलाए चोकखा नामं परि-  
द्वाइया रिउवेय जाव सुपरिणिट्या यावि होत्था । तए णं सा चोकखा  
परिद्वाइया मिहिलाए बहूणं राईसर जाव सत्थवाहपभिईणं पुरओ दाण-  
धमं च सोयधम्मं च तिथाभिसेयं च आघवेमाणी पञ्चवेमाणी परुवे-  
माणी उर्वदंसेमाणी विहरइ । तए णं सा चोकखा अन्नया कयाइं तिदंडं  
च कुंडियं च जाव धाउरत्ताओ ४ गेण्हइ २ परिद्वाइगावसंहाओ पडि-  
निकखमइ २ पविरलपरिद्वाइयासद्धि संपरिखुडा मिहिलं रायहाणि  
मज्जंमज्जेणं जेणेव कुंभगस्स रान्नो भवणे जेणेव कंभंतेउरे जेणेव मली २  
तेणेव उवागच्छइ २ उद्यपरिफोसिंयाए दव्भोवरि पञ्चत्थुयाए

मिसियाए निसीयइ २ मळीए २ पुरओ दाणधम्मं च जाव विहरइ । तए णं मळी २ चोकखं परिव्वाइयं एवं वयासी-तुव्वेणं चोकखे ! किंमूलए धम्मे पन्नते ? तए णं सा चोकखा परिव्वाइया मळिं २ एवं वयासी-अम्हं णं देवाणुप्पिए ! सोयमूलए धम्मे पन्नते । जं णं अम्हं किंचि असुई भवइ तं णं उदण्ण य मट्टियाए जाव अविग्धेण सग्गं गच्छामो । तए णं मळी २ चोकखं परिव्वाइयं एवं वयासी - चोकखा ! से जहानामए के इ पुरिसे रुहिरकयं वत्थं रुहिरेण चेव धोवेज्ञा अत्यि णं चोकखा ! तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेण धोव्वमाणस्स काइ सोही ? नो ईण्डे समडे । एवामेव चोकखा ! तुव्वेणं पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसण-सल्लेणं नथिय काइ सोही जहा वा तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेण चेव धोव्वमाणस्स । तए णं सा चोकखा परिव्वाइया मळीए २ एवं बुत्ता समाणी संकिया कंखिया विहिगच्छिया भेयसमावन्ना जाया वि होत्था मळीए नो संचाएइ किंचिवि पामोकखमाइकिखत्तए तुसिणीया संचिद्दृइ । तए णं तं चोकखं मळीए २ बहूओ दासचेडीओ हीलेंति निंदंति खिंसंति गरिहंति अप्पेगइयाओ हेरुयालेंति अप्पेगइया मुहमकडियाओ करेंति अप्पेगइया वग्घाडीओ करेंति अप्पेगइया तज्जेमाणीओ तालेमाणीओ निच्छुहंति । तए णं सा चोकखा मळीए २ दासचेडियाहिं हीलिज्जमाणी जाव गरहिज्जमाणी आसुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणी मळीए २ पओसमा-वज्जइ २ भिसियं गेणहइ २ कंधंतेउराओ पडिनिकखमइ २ मिहिलाओ निगच्छइ २ परिव्वाइयासंपुरिबुडा जेणेव पंचालज्जणवए जेणेव कंपिहु-पुरे तेणेव उवागच्छइ २ बहूणं राईसर जाव परुवेमाणी विहरइ । तए णं से जियसत्तू अन्नया कयाइ अंतेउरपरियालसद्दि संपरिवुडे एवं जाव विहरइ । तए णं सा चोकखा परिव्वाइयासंपरिबुडा जेणेव जियसत्तुस्स रक्षो भवणे जेणेव जियसत्तू तेणेव अणुपविसइ २ जियसत्तुं जएणं विजएणं वद्वावेइ । तए णं से जियसत्तू चोकखं परिव्वाइयं एज्जमाणं पासइ २ सीहासणाओ अबुद्दुइ २ चोकखं सक्कारेइ २ आसणेणं उवनिमंतेइ । तए णं सा चोकखा उदगपरिफोसियाए जाव मिसियाए निविसइ

ज्ञियसत्तुं रायं रज्जे य जाव अंतेउरे य कुसलोदंतं पुच्छइ । तए णं सा चोकखा जियसत्तुस्स रन्नो दाणधम्मं च जाव विहरइ । तए णं से जिय-सत्तु अपणो ओरोहंसि जायविम्हए चोकखं एवं वयासी-तुमं णं देवाणुपिया ! बहूणि गामागर जाव आहिंडसि बहूण य राईसरगिहाइ अणुप्पविसंहि । तं अतिथियाइ ते कस्सइ रन्नो वा जाव एरिसए ओरोहे दिट्ठुपुव्वे जारिसए णं इमे मम्म ओरोहे ? तए णं सा चोकखा परिव्वा-इया जियसत्तुं एवं ईसिं अवहसियं करेइ २ एवं वयासी-सरिसए णं तुमं देवाणुपिया ! तस्स अगडदहुरस्स । केसं णं देवाणुपियए ! से अगडदहुरे ? जियसत्तू ! से जहानामए अगडदहुरे सिया । से णं तथ जाए तथ्येव बुढ्हीं अन्नं अगडं वा तलांगं वा दहं वा सरं वा सागरं वा अपासमाणे मन्नइ - अयं चेव अगडे वा जाव सागरे वा । तए णं तं कूवं अन्ने सामुद्दए दहुरे हव्वमागए । तए णं से कूवदहुरे तं समुद्ददहुरं एवं वयासी - से केसं णं तुमं देवाणुपिया ! कत्तो वा इह हव्वमागए ? तए णं से सामुद्दए दहुरे तं कूवदहुरं एवं वयासी - एवं खलु देवाणुपिया ! अहं सामुद्दए दहुरे । तए णं से कूवदहुरे तं सामुद्दयं दहुरं एवं वयासी - केमहालए णं देवाणुपिया ! से समुदे ? तए णं से सामुद्दए दहुरे तं कूवदहुरं एवं वयासी - महालए णं देवाणुपिया ! से समुदे ? नो इणट्टे समट्टे । महालए णं से समुदे । तए णं से कूवदहुरे पुरतिथमिळाओ तीराथो उपिकडित्ताणं पञ्चतिथमिळं तीरं गच्छइ २ एवं वयासी - एमहालए णं देवाणुपिया ! से समुदे ? नो इणट्टे तहेव । एवामेव तुमंपि जियसत्तू अन्नेसि बहूण राईसर जाव सत्थवाहप्पभिईणं भज्जं वा भगिणि वा धूयं वा सुण्हं वा अपासमाणे जाणसि जारिसए मम चेव णं औरोहे तारिसए नो अन्नस्स । तं एवं खलु जियसत्तू ! मिहिलाप नयरीए कुंभगस्स धूया पभावईए अत्तिया मलीनामं २ रूबेण य जाव नो खलु अन्ना काइ देवकन्ना वा जारिसिया मली । विदेहवररायकन्नाए छिन्नस्स वि पायंगुट्टगस्स इमे तव ओरोहे

सयसहस्रसंपि कलं न अग्रद्व त्तिकदु जामेव दिसं पाउभूया तामेव दिसं पडिगया । तए णं से जियसत् परिवाइयाजणियहासे दूयं सहावेइ जाव पहारेत्थ गमणाए ६ ।

(80) तए णं तेसि जियसतुपामोकखाणं छणहं राईणं दूया जेणेव मिहिला तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं छप्पि दूयगा जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छंति २ मिहिलाए अगुज्जाणसि पत्तेयं २ खंधावार-निवेसं करेति २ मिहिलं रायहाणिं अणुप्पविसंति २ जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छंति २ पत्तेयं करयल जाव साणं २ राईणं व्यणाइं निवेदेति । तए णं से कुंभए तेसि दूयाणं एयमदुं सोचा आसुहत्ते जाव तिवलियं भिउड़ि एवं वयासी - न देमि णं अहं तुव्यं मल्हि २ त्तिकदु ते छप्पि दूप असक्कारिय असम्प्राणिय अवदारेणं निच्छुभावेइ । तए णं जियसतु-पामोकखाणं छणहं राईणं दूया कुंभएणं रक्षा असक्कारिया असम्प्राणिया अवदारेणं निच्छुभाविया समाणा जेणेव सगा २ जणवया जेणेव सयाइं २ नगराइं जेणेव सया २ रायाणो तेणेव उवागच्छंति २ करयल जाव एवं वयासी - एवं खलु सामी ! अम्हे जियसतुपामोकखाणं छणहं रायाणं दूया जमगसमगं चेव जेणेव मिहिला जाव अवदारेणं निच्छु-भावेइ । तं न देइ णं सामी ! कुंभए मल्हि २ । साणं २ राईणं एयमदुं निवेदिंति । तए णं ते जियसतुपामोकखा छप्पि रायाणो तेसि दूयाणं अंतिए एयमदुं सोचा आसुहत्ता अन्नमन्नस्स दूयसंपेसणं करेति एवं वयासी - एवं खलु देवाणुपिया ! अम्हं छणहं राईणं दूया जमगसमगं चेव जाव निच्छूढा । तं सेयं खलु देवाणुपिया ! कुंभगस्स जत्तं गेणिह-त्तए त्तिकदु अन्नमन्नस्स एयमदुं पडिसुर्णेति २ एहाया सन्नद्धा हत्थिखंध-वरगया स्कोरिंटमलदामा जाव सेयवरचामराहिं महयाहयगयरहपवर-जोहकलियाए चाउरंणिणीए सेणाए सद्धि संपरिबुडा सव्विहीए जाव रवेणं सएहिंतो २ नगरेहिंतो जाव निगच्छंति २ एगयओ मिलायंति जेणेव मिहिला तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं कुंभए राया इमीसे कहाए लद्धे संमाणे बलवाउयं सहावेइ २ एवं वयासी

- खिपामेव हय जाव सेन्नं सन्नाहेह जाव पञ्चपिणंति । तए णं कुंभए एहाए सन्नद्दे हत्थिलंधवरगण जाव सेयवरचामरए महया मिहिलं मञ्ज्ञांमञ्ज्ञेणं निज्जाइ २ विदेहजनवयं मञ्ज्ञांमञ्ज्ञेणं जेणेव देसंअते तेणेव खंधावारनिवेसं करेइ २ जियसन्तूपामोक्खा छपिय रायाणो पडिवालेमाणे जुज्ज्वसज्जे पडिच्छिद्दइ । तए णं ते जियसन्तूपामोक्खा छपिय रायाणो जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छंति २ कुंभएणं रन्ना सद्द्वं संपलग्गा यावि होतथा । तए णं जियसन्तूपामोक्खा छपिय रायाणो कुंभयं रायं हय-महियपवरवीरघाइयविवेदियचिंधधयछत्तपडांग किछ्छप्याणोवगयं दिसोदिसं पडिसेहंति । तए णं से कुंभए जियसन्तूपामोक्खेहिं छहिं राईहिं हयमहिय जाव पडिसेहिए समाणे अतथामे अबले अवीरिए जाव अधार-गिज्जमितिकट्टु सिरधं तुरियं जाव वेइयं जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छंति २ मिहिलं रायहाँणि निस्संचारं निहश्चारं सववओ समंता ओहुंभित्ताणं चिद्दुंति । तए णं से कुंभए मिहिलं रायहाँणि रुद्धं जाणित्ता अंभितरियाए उवट्टाणसालाप सीहासणवरगण तेसिं जियसन्तूपामोक्खाणं छण्हं राईणं छिहाणि यं विवराणि य मम्माणि य अलभमाणे बहूहिं आपंहि य उवाएहि य उप्पत्तियाहि य ४ बुद्धीहिं परिणामेमाणे २ किंचि आयं वा उवायं वा अलभमाणे ओहयमणसंकप्ये जाव श्नियायइ । इमं च णं मल्ली २ एहाया जाव बहूहिं खुज्जाहिं परिबुडा जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छइ २ कुंभगस्स पायगगहणं करेइ ! तए णं कुंभए मल्लि २ नो आढाइ नो परियाणाइ तुसिणीए संचिद्दइ । तए णं मल्ली २ कुंभगं एवं वयासी - तुब्मे णं ताओ ! अन्नया ममं पज्जमाणं जाव निवेसेह । किञ्चं तुभ्मं अज्ज ओहय जाव श्नियायह ? तए णं कुंभए मल्लि २ एवं वयासी - एवं खलु पुत्ता ! तव कज्जे जियसन्तूपामोक्खेहिं छहिं राईहिं दूया संप्रेसिया । ते णं मण असक्कारिया जाव निच्छुद्दां । तए णं जियसन्तूपामोक्खा तेसिं दूयाणं अंतिए एयमटुं सोचा परिकुविया समाणा मिहिलं

रायहाणि निस्संचारं जाव चिदुंति । तए णं अहं पुत्ता तेसि जियसत्तु-  
पामोक्खाणं छण्हं राईणं अंतराणि अलभमाणे जाव श्लियामि । तए णं सा  
मली॒ २ कुंभगं रायं एवं वयासी॑ - मा॑ णं तुब्मे॑ ताओ॑ ! ओहयमण्लंकप्पा  
जाव श्लियायह । तुब्मे॑ णं ताओ॑ ! तेसि जियसत्तुपामोक्खाणं छण्हं  
राईणं पत्तयं॒ २ रहस्सिए॑ दूयसंयेसे॑ करेह॑ एगमेगं॑ एवं वयह - तब देमि  
मल्लि॒ २ तिकद्दु॑ संझाकालसमयंसि॑ पविरलमणुस्संसि॑ निसंतपडिनिसं-  
तंसि॑ पत्तेयं॒ २ मिहिलं॑ रायहाणि॑ अणुप्पविसेह॑ २ गव्भधरएसु॑ अणुप्प-  
विसेह॑ मिहिलाए॑ रायहाणीए॑ दुवाराइ॑ पिहेह॑ २ रोहसंज्जे॑ चिदुह॑ । तए  
णं कुंभए॑ एवं तं चेव जाव पवेसेह॑ रोहसंज्जे॑ चिदुह॑ । तए णं ते जिय-  
सत्तुपामोक्खा॑ छण्पि॑ रायणो॑ कल्ल॑ जाव जलंते॑ जालंतरेहिं॑ कणगमयं॑  
मत्थयछिद्दु॑ पउमुप्पलपिहाणं॑ पडिमं॑ पासंति॑ एस णं मल्ली॒ २ तिकद्दु॑  
मल्लीए॑ २ रूवे॑ य जोब्बैणे॑ य लावैणे॑ य मुच्छिया॑ गिद्धा॑ जाव अज्ञो-  
ववन्ना॑ अणिमिसाए॑ दिट्टीए॑ पेहमाणा॑ २ चिदुंति॑ । तए णं सा मल्ली॒ २  
णहाया॑ जाव पायच्छित्ता॑ सव्वालंकारविभूसिया॑ बहूहिं॑ खुज्जाहिं॑ जाव  
परिक्खन्ता॑ जेणेव जालघरए॑ जेणेव कणगपडिमा॑ तेणेव उवागच्छह॑ २  
तीसे॑ कणगपडिमाए॑ मत्थयाओ॑ तं पउमं॑ अवणेह॑ ! तए णं गंधे॑ निद्रा-  
वेह॑ से जहानामए॑ अहिमडे॑ इ वा॑ जाव असुभतराए॑ चेव॑ । तए णं ते  
जियसत्तुपामोक्खा॑ तेणं॑ असुभेणं॑ गंधेणं॑ अभिभूया॑ समाणा॑ सपहिं॑ २  
उत्तरिज्जेहिं॑ आसाइ॑ पिहेंति॑ २ परम्मुहा॑ चिदुंति॑ । तए णं सा मल्ली॒ २  
ते जियसत्तुपामोक्खे॑ एवं वयासी॑ - किं॑ णं तुब्मे॑ देवाणुप्पिया॑ ! सपहिं॑ २  
उत्तरिज्जेहिं॑ जाव परम्मुहा॑ चिदुह॑ ? तए णं ते जियसत्तुपामोक्खा॑  
मल्लि॒ २ एवं वयंति॑ - एवं खलु॑ देवाणुप्पिए॑ ! अम्हे॑ इमेणं॑ असुभेणं॑  
गंधेणं॑ अभिभूया॑ समाणा॑ सपहिं॑ २ जाव चिदुमो॑ । तए णं मल्ली॒ २  
ते जियसत्तुपामोक्खे॑ एवं वयासी॑ - जइ॑ ताव॑ देवाणुप्पिया॑ ! इमीसे॑  
कण्ठग जाव पडिमाए॑ कलाकल्लि॑ ताओ॑ मणुन्नाओ॑ असणाओ॑ ४ एगमेगे॑  
पिंडे॑ पक्षिखण्पमाणे॑ २ इमेयारूवे॑ असुभे॑ पोगगले॑ परिणामे॑ इमस्सु॑ पुण  
ओशालियसरीरस्सु॑ खेलासवस्सु॑ वंतासवस्सु॑ पित्तासवस्सु॑ सुक्कासवस्सु॑

सोणियपूयासवस्स दुरुयऊसासनीसासस्स दुरुयमुत्तपूयपुरीसपुण्ण-  
 स्स सडण जाव धम्मस्स केरिसए य परिणामे भविस्सइ? तं मा णं तुब्बे  
 देवाणुपिया! माणुस्सएसु कामभोगेसु सज्जह रज्जह गिज्ज्हैह मुज्ज्हैह  
 अज्जोववज्जह। एवं खलु देवाणुपिया! अँम्हे इमे तच्चे भवगगहणे अवर-  
 विदेहवासे सलिलावईविजए वीयसोगाए रायहाणीए महब्बलपामोकखा  
 सत्त पियवालवयंसया रायाणो होत्था सहजाया जाव पद्धवइया। तए णं  
 अहं देवाणुपिया! इमेण कारणेण इत्थीनामगोयं कम्म निवैत्तेमि -  
 जइ णं तुब्बे चउत्थं उवसंपज्जित्ताणं विहरह तओ णं अहं छटुं उव-  
 संपज्जित्ताणं विहरामि सेसं नहेव सब्बं। तए णं तुब्बे देवाणुपिया! काल-  
 मासे कालं किच्चा जयंते विमाणे उववन्ना। तत्थ णं तुब्बं देसूणाइं  
 बत्तीसाइं सागरोवमाइं ठिड। तए णं तुब्बे ताओ देवलोगाओ अणंतरं  
 चयं चइत्ता इहेव जंवुदीवे २ साइं २ रज्जाइं उवसंपज्जित्ताणं विहरह।  
 तए णं अहं ताओ देवलोगाओ आउक्खणेण जाव दारियत्ताए पच्चायाया।  
 किं च तयं पम्हुटुं जं थै तया भो जयंतपवरंमि। बुत्था समयनिवद्धं  
 देवा तं संभरह जाइं॥१॥ तए णं तेसि जियसन्तुपामोकखाणं छणं  
 राईणं मलीए २ अंतिए एयमटुं सोच्चा २ सुमेण परिणामेण पसथेण  
 अज्जवसाणेण लेसाहिं विसुज्ज्ञमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं  
 खओवसमेण ईहापूह जाव सन्निजाईसरणे समुप्पन्ने एयमटुं सम्म अभि-  
 समागच्छति। तए णं मली अरहा जियसन्तुपामोकखे छप्पि रायाणो  
 समुप्पन्नजाईसरणे जाणिता गब्मघराणं दाराइं विहाडेइ। तए णं जिय-  
 सन्तुपामोकखा जेणेव मली अरहा तेगेव उवागच्छति। तए णं महब्बल-  
 पामोकखा सत्त पियवालवयंसा एगयओ अभिसमन्नागया वि होत्था।  
 तए णं मली अरहा ते जियसन्तुपामोकखे छप्पि रायाणो एवं वयासी -  
 एवं खलु अहं देवाणुपिया! संसारभउविवगा जाव पद्धयामि।  
 तं तुब्बे णं किं करेह किं ववसह किं भे हियसामत्ये? तए णं  
 जियसन्तुपामोकखा मलि अरहं एवं वयासी - जइ णं तुब्बे  
 देवाणुपिया! संसार जाव पद्धयह अम्हाणं देवाणुपिया! के अन्ने

आलंबणे वा आहारे वा पडिवंधे वा ? जह चेव णं देवाणुपिया ! तुव्ये अम्ह इओ तच्चे भवग्गहणे वहसु कज्जेसु य मेर्हा पमाणं जाव धम्मधुरा होत्था तह चेव णं देवाणुपिया ! इण्हि पि जाव भविस्सह। अम्हे वि णं देवाणुपिया ! संसारभउविग्गा जाव भीया जम्मण्मरणाणं देवाणुपियांसद्धि मुँडा भवित्ता जाव पव्वयामो। तए णं मळी अरहा ते जियसत्तुपामोक्खे एवं वयासी - जह णं तुव्ये संसार जाव मए सद्धि पव्वयह तं गच्छह णं तुव्ये देवाणुपिया ! सएहि २ रज्जेहिं जेट्टुपुत्ते रज्जे ठावेह २ पुरिससहस्रवाहिणीओ सीयाओ दुरुहह २ मम अंतियं पाउधभवह। तए णं ते जियसत्तुपामोक्खा मल्लिस्स अरहओ एयमटु पडिसुणेति। तए णं मळी अरहा ते जियसत्तुपामोक्खा गहाय जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छइ २ कुंभगस्स पाएसु पाडेइ। तए णं कुंभए ते जियसत्तुपामोक्खा विउलेण असणेण ४ पुष्कवत्थगंधमल्लालंकारेण सक्कारेइ जाव पडिविसउज्जेइ। तए णं ते जियसत्तुपामोक्खा कुंभएण रन्ना विसज्जिया समाणा जेणेव साइं २ रज्जाइं जेणेव नगराइं तेणेव उवागच्छेति २ सगाइं २ रज्जाइं उवसंपज्जित्ताणं विहूरंति। तए णं मळी अरहा संवच्छरावसाणे निक्खमिस्सामि त्ति मणं पहारेइ।

(81) तेण कालेण २ सक्कस्स आसणं चलइ। तए णं सक्के देविदे देवराया आसणं चलियं पासइ २ ओहिं पउंजइ २ मळिं अरहं ओहिणा आभोएइ २ इमेयारूवे अज्ञतिथए जाव समुप्पज्जित्तथा - एवं खलु जंबुदीवे २ भारहे वासे मिहिलाए कुंभगस्स रन्नो मळी अरहा निक्खमिस्सामित्ति मणं पहारेइ। तं जीयमेयं तीयपञ्चपञ्चमणागयाणं सक्काणं अरहंताणं भगवंताणं निक्खममाणाणं इमेयारूवं अथसंपयाणं दलइत्तेऽतं जहा-तिणेव य कोडिसया अटासीइं च हुंति कोडीओ। अंसिइं च सय-सहस्सा इंदा दलयंति अरहाणं ॥१॥ एवं संपेहेइ २ वेसमणं देवं सहावेइ २ एवं वयासी - एवं खलु देवाणुपिया ! जंबुदीवे २ भारहे वासे जाव अंसीइं च सयसहस्साइं दलइत्तेऽतं गच्छह णं देवाणुपिया ! जंबुदीवे भारहे वासे मिहिलाए कुंभगभवणंसि इमेयारूवं अथसंपयाणं साहराहि

२ खिप्पामेव मम एथमाणत्तियं पञ्चपिणाहि । तए णं से वेसमणे  
देवे सक्रेण देविंदेणं एवं बुत्ते हट्टे करयल जाव पडिसुणेइ २ जंभए देवे  
सद्वावेइ २ एवं वथासी-गच्छह णं तुव्वे देवाणुपिण्या ! जंबुद्धीवं २ भारंहं  
वासं मिहिलं रायहाणिं कुंभगस्स रन्नो भवणंसि तिन्नेव य कोडिसया  
अट्टासीयं च कोडीओ असीयं च सयसहस्राइ अयमेयारुवं अथसंप-  
याणं साहरह २ मम एयमाणत्तियं पञ्चपिणह । तए णं ते जंभगा देवा  
वेसमणेणं जाव सुगेत्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्रमंति जाव उत्तर-  
वेउव्वियाइं रुव्वाइं विउव्वंति २ तए उक्किटाए जाव वीइवयमाणा जेणेव  
जंबुद्धीवे २ भारहे वासे जेणेव मिहिला रायहाणी जेणेव कुंभगस्स रन्नो  
भवणे तेगेव उवागच्छंति २ कुंभगस्स रन्नो भवणंसि तिन्नि कोडिसया  
जाव साहरंति २ जेणेव वेसमणे देवे तेणेव उवागच्छंति २ करयल जाव  
पञ्चपिणंति । तए णं से वेसमणे देवे जेणेव सक्रे ३ तेणेव उवागच्छइ  
२ करयल जाव पञ्चपिणइ । तए णं मळी अरहा कलाकर्णि जाव माग-  
हओ पायरासो च्चि वहूणं सणाहाण य अणाहाण य पहियाण य पंथियाण  
य करोडियाण य कप्पडियाण य एगमेणं हिरण्णकोडिं अटु य अणूणाइं  
सयसहस्राइ इमेयारुवं अथसंपयाणं दलयइ । तए णं कुंभए मिहिलाए  
रायहाणीए तथ २ तहिं २ देसे २ वहूओ महाणससालाओ करेइ ।  
तथ णं वहवे मणुया दिन्नभइभत्तवेयणा विउलं असणं ४ उवक्खडेंति  
जे जहा आगच्छंति तं जहा - पंथिया वा पहिया वा करोडिया वा  
कप्पडिया वा पासंडत्था वा गिहत्था वा तस्स य तहा आसत्थस्स वीस-  
त्थस्स सुहासणवरगयस्स तं विउलं असणं ४ परिभाषमाणा परिवेसे-  
माणा विहरंति । तए णं मिहिलाए सिंघाडग जाव बहुजणो अन्नमध्यस्स एव-  
माइक्खइ - एवं खलु देवाणुपिण्या ! कुंभगस्स रन्नो भवणंसि सघकाम-  
गुणियं किमिच्छियं विपुलं असणं ४ वहूणं समणाण य जाव परिवेसि-  
ज्जइ । वरवरिया घोसिज्जइ किमिच्छियं दिज्जए बहुविहीयं । सुरअसुर-  
देवदानवनर्दिमहियाण निक्खमणे ॥ १ ॥ तए णं मळी अरहा संवच्छ-  
रेण तिन्नि कोडिसया अट्टासीयं च होंति कोडीओ असीयं च सयसहस्राइ

इमेयारूपं अत्थसंपयाणं दलइत्ता निक्खमामित्ति मणं पहारेह ।

(82) तेण कालेण २ लोगंतिया देवा बंभलोए कप्पे रिटु विमाण-पथडे सएहिं २ विमाणेहिं सएहिं २ पामाग्वर्डिसपहिं पत्तेयं २ चउहिं सामाणियसाहस्रीहिं तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणियाहिवईहिं सोलसर्हिं आयरक्खदेवसाहस्रीहिं अन्नेहि य बहूहिं लोगंतिएहिं देवेहिं सर्दि संपरिबुढा महयाहयनदृगीयवाइय जाव रवेण भुजमाणा विहरंति तं जहा—सारस्यमाइच्चा वण्ही वरुणा य गद्दत्तोया य । तुसिया अब्रावाहा अगिगच्छा चेव रिटा य ॥१॥ तए णं तेसि लोगंतियाणं देवाणं पत्तेयं २ आसणाइं चलंति तहेव जाव अरहंताणं निक्खममाणाणं संबोहणं करित्तए त्ति । तं गच्छामोणं अम्हे वि मल्लिस्स अरहओ संबोहणं करेमो त्तिकटु एवं संपेहेति २ उत्तरपुरतिथमं दिसीभागं वेउच्चियसमुग्धाएणं समोहणांति संखेज्जाइं जोयणाइं एवं जहा जंभगा जाव जेणेव मिहिला रायहाणी जेणेव कुंभगस्स रक्षो भवणे जेणेव मल्ली अरहा तेणेव उवागच्छंति २ अंतलिक्खपडिवशा सखिंखिणियाइं जाव वथाइं पवरपरिहिया करयल जाव ताहिं इटाहिं एवं वयासी—वुज्ज्ञाहि भगवं लोगनाहा ! पवत्तेहि धम्मतित्थं जीवाणं हियसुह-निस्सेयसकंरं भविस्सइ त्तिकटु दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयंति मर्ल्लि अरहं वंदंति नमंसंति २ जामेव दिसि पाउभूया तामेव दिसि पडिगया । तए णं मल्ली अरहा तेहिं लोगंतिएहिं देवेहिं संबोहिए समाणे जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ २ करयल जाव एवं वयासी—इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुष्मेहिं अभ्यणुन्नाप मुंडे भवित्ता जाव पव्वइत्तए । अहासुहं देवाणुपिया ! मा पडिवंधं करेह । तए णं कुंभए राया कोडुं-वियपुरिसे सद्वावेह २ एवं वयासी—खिप्पामेव अटुसहस्रं सोवणिण्याणं कलसाणं जाव भोमेज्जाणं अन्नं च महत्थं जाव तित्थयरामिसेयं उवटुवेह जाव उवटुवेति । तेण कालेण २ चमरे असुरिंदे जाव अच्चुय-पञ्जवसाणा आगया । तए णं सक्ते आभिओगिए देवे सद्वावेह २ एवं वयासी—खिप्पामेव अटुसहस्रं सोवणिण्याणं जाव अन्नं च तं विपुलं

उवटुवेह जाव उवटुवेंति । ते वि कलसा ते चेव कलसे अणुपविट्ठा । तए णं से सके देविंदे देवराया कुंभए य राया मल्हि अरहं सीहासणंसि पुरत्थाभिमुहं निवेसेइ अटुसहस्रेण सोवणिणयाणं जाव अभिसिंचंति । तए णं मल्हिस्स भगवओ अभिसेए वट्ठमाणे अप्पेगइया देवा मिहिलं च संविभतरबाहिरं जाव सद्बओ समंता संपरिधावंति । तए णं कुंभए राया दोच्चंपि उत्तरावक्षमणं जाव सद्वालंकारविभूसियं करेइ २ कोहुं-वियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी-खिष्पामेव मणोरमं सीयं उवटु-वेह ते उवटुवेंति । तए णं सके आभियोगिए देवे वयासी-खिष्पा-मेव अणेगखंभ जाव सीयं उवटुवेह जाव सावि सीया तं चेव सीयं अणुपविट्ठा । तए णं मल्ही अरहा सीहासणाओ अबुद्दुइ २ जेणेव मणोरमा सीया तेणेव उवागच्छइ २ मणोरमं सीयं अणुपयाहिणीकरेमाणा मणोरमं सीयं दुरुहइ २ सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सन्निसण्णे । तए णं कुंभए अटुरस सेणिप्पसेणीओ सद्वावेइ २ एवं वयासी-तुञ्चे णं देवाणुपिया ! एहाया जाव सद्वालंकारविभूसिया मल्हिस्स सीयं परिवहह जाव परिवहंति । तए णं सके ३ मणोरमाए सीयाए दक्खिंखणिलुं उवरिलुं बाहं गेणहइ । ईसाणे उत्त-रिलं उवरिलं बाहं गेणहइ । चमरे दाहिणिलं हेट्टिलं बली उत्तरिलं हेट्टिलं अवसेसा देवा जहारिहं मणोरमं सीयं परिवहंति - पुद्धिं उक्खित्ता माणु-सेहिं साँ हट्टरोमकूवेहिं । पच्छा वहंति सीयं असुरिंदसुरिंदनागिंदा ॥१॥ चलचवलकुंडलधरा सच्छंदविउवियाभरणधारी । देविंददाणविंदा वहंति सीयं जिणिंदस्स ॥२॥ तए णं मल्हिस्स अरहओ मणोरमं सीयं दुरुढस्स इमे अटुटुमंगलगा पुरओ अहाणुपुरवेणं एव निगगमो जहा जमालिस्स । तए णं मल्हिस्स अरहओ निक्खममाणस्स अप्पेगइया देवा मिहिलं आसिय जाव अभिभतरवासविहिगाहा जाव परिधावंति । तए णं मल्ही अरहा जेणेव सहस्रंबवणे उज्जाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवा-गच्छइ २ सीयाओ पच्चोरुहइ २ आभरणालंकारं पभावई पडिच्छइ । तए णं मल्ही अरहा सयमेव पंचमुट्ठियं लोयं करेइ । तए णं सके ३

मल्लिस्स केसे पडिच्छइ खीरोदगसमुदे साहरइ । तए णं मल्ली अरहा नमोऽत्थु णं सिद्धाणं तिकट्टु सामाइयचारित्तं पडिवज्जइ । जं समयं च णं मल्ली अरहा चारित्तं पडिवज्जइ तं समयं च णं देवाणं य माणुसाण य निग्योसे तुडियेणाए गीयवाइयनिग्योसे य सक्षवयण-संदेसेण निलुक्के यावि होत्था । जं समयं च णं मल्ली अरहा सामाइयचारित्तं पडिवन्ने तं समयं च मल्लिस्स अरहओ माणुस-धम्माओ उत्तरिए मणपञ्जवनाणे समुप्पन्ने । मल्ली णं अरहा जे से हेमताणं दोचे मासे चउत्थे पक्खे पोमसुद्दे तस्स णं पोससुद्दस्स एका-रसीपक्खेण पुव्वणहकालसमयंसि अटुमेण भत्तेण अपाणणं अस्सिणीहिं नक्खत्तेण जोगमुवागएणं तिर्हि इत्थीसपाहिं अविभतरियाए परिसाए तिर्हि पुरिससपहिं वाहिरियाए परिसाए सर्द्धि मुंडे भवित्ता पव्वइए । मल्ली अरहं इमे अटु नाँयकुमारा अणुपव्वइसु तं जहा-नंदे य नंदिमित्ते सुमित्त-वलमित्तभाणुमित्ते य । अमरवइ अमरसेणे महसेणे चेव अटुमए ॥१॥ तए णं ते भवणवई ४ मल्लिस्स अरहओ निक्खमणमहिमं करेति २ जेणेव नंदीसरे अटुहियं करेति जाव पडिगया । तए णं मल्ली अरहा जं चेव दिवसं पव्वइए तस्सेव दिवसस्स पुव्वाचरणहकालसमयंसि असोग-वरपायवस्स अहे पुढिविसिलापट्टयंसि सुहासणवरगयस्स सुहेणं परिणामेणं पसत्थाहिं लेसाहिं तयावरणकम्मरयविकरणकरं अपुव्वकरणं अणुपविट्टस्स अणंते जाव केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने ।

(83) तेणं कालेणं २ सघ्वदेवाणं आसणाइं चलेति समोसढा सुणेति अटुहियं महानंदीसरं जाव जामेव दिसिं पाउभूया तामेव पडिगया । कुंभए वि निगच्छइ । तए णं ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि य रायाणो जेट्टुपुत्ते रज्जे ठावेत्ता पुरिससहस्रवाहिणीयाओ दुरुढा संघिहीए जेणेव मल्ली अरहा जाव पञ्जुवासंति । तए णं मल्ली अरहा तीसे महइमहा-लियाए कुंभगस्स तेसिं च जियसत्तुपामोक्खाणं धम्मं परिकहेइ । परिसा जामेव दिसिं पाउभूया तामेव दिसिं पडिगया । कुंभए समणोवासए जाए पडिगए पभावई पि । तए णं जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो

धम्मं सोचा आलित्तए णं भर्ते ! जाव पघ्यद्या जाव चोहसपुव्विणो  
 अणंते केवली सिद्धा । तए णं मळी अरहा सहसंबवणाओ पडिनिकखमइ  
 २ बहिया जनवयविहारं बिहरइ । मल्लिस्स णं भिसंगपामोक्खा अटुवीसं  
 गणा अटुवीसं गणहरा होत्था । मल्लिस्स णं अरहओ अटुच्चतालीसं  
 समण्साहस्रीओ उक्षोसिया समणसंपया होत्था । बंधुमझपामोक्खाओ  
 पणपञ्चं अज्जियासाहस्रीओ उक्षोसेण । सुव्वयपामोक्खाओ सावयाणं  
 पगा सयसाहस्री चुलसीइं सहस्सा सुणंदापामोक्खाओ सावयाणं  
 तिणिण सयसाहस्रीओ पणर्दिं च सहस्रा छच्च सया चोहस-  
 पुव्वीणं संपया । वीसं सया ओहिनाणीणं वत्तीसं सया केवलनाणीणं  
 प१० तीसं सया वेउव्वियाणं अटुसया मणपञ्जवनाणीणं चोहससया  
 वाईणं वीसं सया अणुत्तरोववाइयाणं । मल्लिस्स णं अरहओ दुविहा  
 अंतगडभूमी होत्था तं जहा - जुगंतकरभूमी परियायंतकरभूमी य  
 जाव वीसइमाओ पुरिसजुगाओ जुगंतकरभूमी दुवालसपरियाए  
 अंतमकासी । मळी णं अरहा पणवीसं धण् उहुं उच्चतेणं वणेणं  
 पियंगुसामे समचउरंससंठाणे बज्जरिसहनारायसंघयणे मज्जदेसे सुहं-  
 सुहेण विहरित्ता जेणेव सम्मेए पघ्यए तेणेव उवागच्छइ २ संमेयसेल-  
 सिहरे पाओवगमणुवघ्ने । मळी णं अरहा एगं वाससयं अगारवास-  
 मज्जे पृणपञ्चं वाससहस्राइं वाससयउणाइं केवलिपरियागं पाउणित्ता  
 पणपञ्चं वाससहस्राइं सघाउयं पालइत्ता जे से गिम्हाणं पढभे मासे  
 दोच्चे पक्खे चेत्तसुद्धे तस्स णं चेत्तसुद्धस्स चउत्थीए भरणीए नक्खत्तेणं  
 अद्वरत्तकालसमयंसि पंचहिं अज्जियासएहिं अविभतरियाए परिसाए  
 पंचहिं अणगारसपर्हि बाहिरियाए परिसाए मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं  
 वग्धारियपाणी खीणे वेयणिज्जे आउए नामगोए सिद्धे<sup>१७</sup> । एवं परिनिव्वाण-  
 महिमा भाणियवा जहा जंबुद्वपणतीए नंदीसरे अटुहियाओ पडिगयाओ ।

एवं खलु जंबू ! समणेण ३ अटुमस्स नायज्ञयणस्स अयमद्वे  
 पञ्चते त्ति द्वेमि ॥८॥

॥ अटुमं नायज्ञयणं समतं ॥८॥

## ॥ नवमं अज्ञयणं ॥

(84) जह णं भंते । समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेण  
 अद्गमस्स नायज्ञयणस्स अयमट्टे पत्रते नवमस्स णं भंते ! नायज्ञयणस्स  
 समणेणं जाव संपत्तेण के अट्टे पत्रते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेण  
 तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्था । पुण्णभद्रे चेइए । तत्थ णं भाकंदी  
 नामं सत्थवाहे परिवसइ अड्हे जाव अपरिभूए । तस्सं णं भद्रा नामं  
 भारिया होत्था । तीसे णं भद्राए अत्थया दुवे सत्थवाहदारया होत्था  
 तंजहा — जिणपालिए य जिणरकिखए य । तए णं तेसि मागंदियदारगाणं  
 अन्नया कयाइ एगयओ इमेयारूवे मिहोकहासमुङ्गावे समुप्पज्जित्था —  
 एवं खलु अम्हे लवणसमुङ्गं पोयवहणेण एकारस वारा ओगाढा सव्वत्थ  
 वि य णं लछट्टा कथकज्जा अणहसमग्गा पुणरवि नियगघरं हठ्वमागया ।  
 तं सेयं खलु अम्हं देवाणुपिया ! दुवालसमंपि लवणसमुङ्गं पोयवहणेण  
 ओगाहित्तए त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमट्टं पडिसुणेति २ जेणेव अम्मा-  
 पियरो तेणेव उवागच्छंति २ एवं वयासी — एवं खलु अम्हे अम्मयाओ !  
 एकारस वारा तं चेव जाव नियगघरं हठ्वमागया । तं इच्छामो णं अम्म-  
 याओ तुब्मेहिं अब्मणुआया समाणा दुवालसलवणसमुङ्गं पोयवहणेण  
 ओगाहित्तए । तए णं ते मागंदियदारए अम्मापियरो एवं वयासी —  
 इमे भे<sup>१</sup> जाया ! अज्जग जाव परिभाएत्तए । तं अणुहोह ताव जाया !  
 विपुले माणुस्सए इड्डीसक्कारसमुदए । कि भे<sup>२</sup> सपठ्चवाएणं निरालंबणेण  
 लवणसमुदोत्तारेण ? एवं खलु पुत्ता ! दुवालसमी जत्ता सोवसग्गा  
 याबि भवइ । तं मा णं तुब्मे दुवे पुत्ता ! दुवालसमंपि लवण जाव  
 ओगाहेह । मा हु तुब्मं सरीरस्स वावत्ती भविस्सइ । तए णं ते माकंदिय-  
 दारगा अम्मापियरो दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी — एवं खलु अम्हे  
 अम्मयाओ ! एकारस वारा लवण जाव ओगाहित्तए । तए णं ते  
 माकंदियदारए अम्मापियरो जाहे नो संचाएंति बहूहिं आघवणाहिं थ  
 पण्णवणाहिं य ताहे अकामा चेव एयमट्टं अणुमन्नित्था । तए णं  
 ते माकंदियदारगा अम्मापियहिं अब्मणुआया समाणा गणिमं थ

धरिमं च मेज्जं च पारिच्छेज्जं च जहा अरहनगस्त जाव लवणसमुद्रं  
बहूइं जोयणसयाइं ओगाढा ।

(85) तए णं तेसि माकंदियदारगाणं अणेगाइं जोयणसयाइं ओगा-  
दाणं समाणाणं अणेगाइं उप्पाइयसयाइं पाउभूयाइं तंजहा — अकाले  
गज्जियं जाव थणियसदे कालियवाए तथ समुट्टिए । तए णं सा नावा तेणं  
कालियवाएणं आहुणिज्जमाणी २ संचालिज्जमाणी २ संखोभिज्जमाणी  
२ सलिलतिकखवेगेहिं अईवटिज्जमाणी २ कोट्टिमांसि करतलाहए  
विव तिंदूसए तथेव २ ओवयमाणी य उप्पयमाणी य उप्पयमाणी विव  
धरणीयलाओ सिद्धविज्जा विज्जाहरकन्नगा ओवयमाणी विव गगण-  
तलाओ भट्टविज्जा विज्जाहरकन्नगा विपलायमाणी विव महागरुलवेग-  
विच्चासिया भुयगवरकन्नगा धावमाणी विव महाजैरसियसहविच्चतथा  
ठाणभट्टा आसकिसोरी निगुर्जुमाणी विव गुरुजणदिट्टावराहा सुजणकुल-  
कन्नगा घुम्ममाणी विव वीचिपहारसयतालिया गलियर्लंबणा विव गगण-  
तलाओ रोयमाणी विव सलिलभिन्नगंठिविष्पइरमाणथोरंसुवाएहिं नववहू  
उवरयभन्तुया विलवमाणी विव परचक्करायाभिरोहिया परममहृभयाभिदुया  
महापुरवरी झायमाणी विव कवडच्छोमैणपओगजुत्ता जोगपरिव्वाइया  
नीससमाणी विव महाकंतारविणिगगयपरिसंता पारणयवया अस्मया  
सोयमाणी विव तबचरणखीणपरिभोगा चवणकाले देववरवहू संचुणिणय-  
केट्टकवरा भग्गमेडिमोडियसहस्समाला सूलाइयवंकपरिमासा फलहंतर-  
तडतडेतफुट्टंतसंधिवियलंतलोहखीलिया सञ्चंगवियंभिया परिसडियरज्जु-  
विसरंतसञ्चगत्ता आमगमलगभूया अकयपुण्णजणमणोरहो विव चिंति-  
ज्जमाणगुरुई हाहाकयकण्णधारनौवियवाणियगजणकम्मकरंविलविया  
नाणाविहरयणपणियसंपुण्णा बहूहिं पुरिससएहिं रोयमाणेहिं कंदमाणेहिं  
सोयमाणेहिं तिष्पमाणेहिं विलवमाणेहिं एगं महं अंसोजलगयं गिरिसिहर-  
मासाइत्ता संभग्गकूबतोरणा मोडियज्ञयदंडा वलयसयस्वंडिया कडकडैस्स  
तथेव विहवं उवगया । तए णं तीए नावाए भिज्जमाणीए ते बहवे  
पुरिसा विपुलपणियैभंडमायाए अंतोजलंभि निर्भंज्जावि यावि होत्था ।

(86) तए ण ते माकंदियदारगा छेया दक्खिण पत्तट्टा कुसला मेहावी निउणसिप्पोवगया बहुसु पोयवहणसंपराएसु कयकरणा लद्धविजया अमूढा अमूढहत्था एगं महं फलगखंडं आसादेति । जंसि च णं पए-संसि से पोयवहणे विवने तंसि च णं पएसंसि एगे महं रयणदीवे नामं दीवे होत्था अणेगाइं जोयणाइं आयामविक्खंभेणं अणेगाइं जोयणाइं परिक्खेवेणं नाणादुमसंडमंडिउद्देसे सस्सिरीए पासाईए दरिसणिज्जे अभिरूचे पडिरूचे । तस्स णं बहुमज्ज्ञदेसभाए एथं णं महं एगे पासायवडेसए होत्था अब्भुगगयमूसिए जाव सस्सिरीयरूचे पासाईए ४ । तत्थं णं पासायवडेसए रयणदीवदेवया नामं देवया परिवसइ पावा चंडा रुदा खुदा साहसिया । तस्स णं पासायवडेसयस्स चउदिसि चत्तारि वणसंडा पन्नत्ता किण्हा किण्होभासा । तए णं ते माकंदियदारगा तेणं फलयखंडेणं उबु-ज्ञमाणा २ रयणदीवतेणं संवुढी यावि होत्था । तए णं ते माकंदिय-दारगा थाहं लभंति २ मुहुत्तंतरं आसांसंति २ फलगखंडं विसज्जेति २ रयणदीवं उत्तरेति २ फलाणं मगगणगवेसणं करेति २ फलाइं आहोरेति २ नालियराणं मगगणगवेसणं करेति २ नालियराइं फोडेति २ नालियरतेळेणं अन्नमन्नस्स गार्याइं अदिभगोंति २ पोक्खरणीओ ओगाहेति २ जलमज्जंणं करेति २ जाव पञ्चुत्तरंति २ पुढविसिलापट्टयांसि निसीयंति २ आसत्था वीसत्था सुहासणवरगया चंपं नयरि अम्मापिउआपुच्छणं च लवणसमु-द्दोत्तारणं च कालियवायसंमुच्छणं च पोयवहणविवत्ति च फलयखंडयस्स आसायणं च रयणदीवोत्तारं च अणुचितेमाणा २ ओहयमणसंकप्पा जाव श्नियायंति । तए णं सा रयणदीवदेवया ते माकंदियदारए ओहिणा आभोएइ २ असिफलगवगगहत्था सत्तअट्टत्तलप्पमाणं उडूं वेहासं उप्पयइ २ ताए उकिट्टाए जाव देवर्गइए वीईवयमाणी २ जेणेव माकंदियदारए तेणेव उवागच्छइ २ आसुरुत्ता ते माकंदियदारए खरफरुसनिट्टुरवयणेहिए एवं वयासी-हं भो॑ माकंदियदारया ! जइ णं तुझे मए सद्धि विउलाइं भोगभोगाइं भुजमाणा विहरह तो भे अत्थि जीवियं । अहं तुझे मए सद्धि विउलाइं नो विहरह तो भे इमेणं नीलुप्पलगवलगुलिय जाव खुर-

धारेण असिषा रत्नगंडमंसुयाइं माउथ्याहिं उवसोहियाइं तालफलाणिव सीसाइं एगंते ऐडेमि । तए णं ते माकंदियदारगा रयणदीबदेवयाए अंतिए एयमटुं सोच्चचा निसम्म भीया करयल जाव बद्धावेत्ता एवं वयासी— जञ्च देवाणुपिया वइस्सइ तस्स आणाउववायवयणनिदेसे चिद्विस्सामो । तए णं सा रयणदीबदेवया ते माकंदियदारए गेहइ २ जेणेव पासाय- वडेंसए तेणेव उवागच्छइ २ असुभपोगगलावहारं करेइ २ सुभपोगगल- पक्खवेवं करेइ २ तओ पच्छा तेहिं<sup>१</sup> साद्धि विउलाइं भोगभोगाइं भुजमाणी विहरइ कलाकलिं च अमयफलाइं उवणेइ ।

(87) तए णं सा रयणदीबदेवया सक्कवयणसंदेसेणं सुट्टिएणं लवणा- हिवइणा लवणसमुद्रे तिसत्तखुत्तो अणुपरियटेयवेत्ति जं किंचि तत्थ तणं वा पत्तं वा कटुं वा कयवरं वा असुइ पूयं दुरभिगंधमचोक्खं तं सठ्वं आहुणिय २ तिसत्तखुत्तो एगंते ऐडेयव्वं तिकट्टु निउत्ता । तए णं सा रयणदीबदेवया ते माकंदियदारए एवं वयासी— एवं खलु अहं देवाणुपिया ! सक्कवयणसंदेसेणं सुट्टिएण लवणाहिवइणा तं चेव जाव निउत्ता । तं जाव ताव अहं देवाणुपिया ! लवणसमुद्रे जाव एडेमि ताव तुब्मे इहेव पासायवडेंसए सुहंसुहेणं अभिरममाणा चिद्वह । जइ णं तुब्मे एयंसि अंतरंसि उचिवंगा वा उस्सुया वा उप्पुया वा भवेज्जाह तो णं तुब्मे पुरथिमिलं वणसंडं गच्छेज्जाह । तत्थ णं दो उऊं सया साहीणा तंजहा—पाउसे य वासारत्ते यः—तत्थ उ कंदलासिलेंधदंतो निउत्तरपुण्प- पीवरकरो । कुडयज्जुणनीवसुरभिदाँणो पाउसउऊ गयवरो साहीणो ॥१॥ तत्थ यः— सुरगोवमणिविचित्तो दैहुरकुलरसियउज्ज्ञररवो । बरहिण- वंदैपरिणद्वसिहरो वासारत्तउऊपन्वओ साहीणो ॥२॥ तत्थ णं तुब्मे देवाणुपिया ! बहुसु वावीसु य जाव सरसरपंतियासु य बहुसु आली- घरएसु य मालीघरएसु य जाव कुसुमघरएसु य सुहंसुहेणं अभिरम- माणा २ विहरिज्जाह । जइ णं तुब्मे तत्थ वि उचिवंगा वा उस्सुया वा उप्पुया वा भवेज्जाह तो णं तुब्मे उत्तरिलं वणसंडं गच्छेज्जाह । तत्थ णं दो उऊं सया साहीणा तंजहा :— सरदो य हेमंतो य । तत्थ उ

सणसत्तिवर्णणकउहो नीलुप्पलपउमनलिणसिंगो । सारसचकाबरवियघोसो  
सरयउऊ गोवई साहीणो ॥१॥ तथ्य य सियकुंदधवलजोणहो कुसुमिय-  
लोद्धवणसंडमंडलतलो । तुसारदगधारपीबरकरो हेमंतउससी सया  
साहीणो ॥२॥ तथ्य णं तुब्बे देवाणुपिया ! बाबीसु य जाव बिहरे-  
ज्ञाह । जइ णं तुब्बे तथ्य वि उठिबग्गा वा जाव उस्सुया वा भवेज्ञाह  
तो णं तुब्बे अवरिङ्गं बणसंडं गच्छेज्ञाह । तथ्य णं दो उऊ सया  
साहीणा तंजहा :- बसंते य गिम्बे य । तथ्य उ सहकारचारुहारो  
किंसुयकणिणयारासोगमउडो । ऊसियतिलगबकुलायवन्तो बसंतउऊ नरबई  
साहीणो ॥३॥ तथ्य य पाडलसिरीसलिलो मलियावासंतियधवलबेलो<sup>१</sup>  
सीयछसुरभिअनिलमगरैचरिओ गिम्बउऊसागरो साहीणो ॥४॥ तथ्य णं  
बहूसु जाव बिहरेज्ञाह । जइ णं तुब्बे देवाणुपिया ! तथ्य वि उठिबग्गा  
वा उस्सुया वा उप्पुया वा भवेज्ञाह तौओ तुब्बे जेणेव पासायवडेंसए  
तेणेव उवागच्छेज्ञाह ममं पडिबालेमाणा २ चिढेज्ञाह । मा णं तुब्बे  
दक्षिवणिङ्गं बणसंडं गच्छेज्ञाह । तथ्य णं महं एगे उगाविसे चंडविसे  
घोराविसे महाविसे अइकाए महाकाए जहा तेयनिसगो मसिमहिस-  
मूसाकालए नयणविसरोसपुणे अंजणपुंजनियरप्पगासे रत्तच्छे जमल-  
जुयलचंचलचलंतजीहे धरणितलबेणिभूए उकडफुडकुडिलजडिलककखड-  
वियडफडाडोबकरणदच्छे लोहागरधर्ममाणधमधमेतघोसे अणागलिय-  
चंडतिब्बरोसे संमुहं तुरियचबलं धमधमेतदिट्ठीविसे सप्पे परिवसइ ।  
मा णं तुब्बमं सरीरस्स बाबत्ती भविस्सइ । ते माकंदियदारए दोच्चंपि  
तच्चंपि एवं बर्यइ २ वेउठिवयसमुग्घाएणं समोहण्णइ २ ताए उकिट्ठाए  
छबणसमुदं तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्टेउं पयत्ता यावि होत्था ।

(88) तए णं ते माकंदियदारया तओ मुहुत्तंतरस्स पासायवडेंसए  
सैइं वा रँइं वा धिइ<sup>१</sup> वा अलभमाणा अन्नमन्नं एवं बयासी – एवं खलु  
देवाणुपिया ! रयणदीवदेवया अम्हे एवं बयासी – एवं खलु अहं सक्ष-  
बयणसंक्षेपेणं सुढिएपं लबणाहिवइणा जाव बाबत्ती भविस्सइ । तं सेयं  
खलु अम्हं देवाणुपिया ! पुरत्थामिलं बणसंडं गमित्तए । अन्नमन्नस्स

पडिसुर्णेति २ जेणेव पुरत्थिमिले वणसंडे तेणेव उवागच्छंति २ तथ्य ण वावीसु य जाव आलीघरएसु य जाव विहरंति । तए ण ते माकंदियदारगा तत्थ वि सङ्घ वा जाव अलभमाणा जेणेव उत्तरिले वणसंडे तेणेव उवागच्छंति । तत्थ ण वावीसु य जाव आलीघरएसु य विहरंति । तए ण ते माकंदियदारगा तत्थ वि सङ्घ वा जाव अलभमाणा जेणेव पञ्चत्थिमिले वणसंडे तेणेव उवागच्छंति २ जाव विहरंति । तए ण ते माकंदियदारगा तत्थवि सङ्घ वा जाव अलभमाणा अन्नमन्न एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! अम्हे रयणदीवदेवया एवं वयासी – एवं खलु अहं देवाणुपिया ! सक्ववयणसंदेसेणं सुट्टिएणं लवणाहिवइणा जाव मा ण तुब्भं सरीरस्स वावत्ती भविस्सइ । तं भवियन्वं एत्थ कारणेण । तं सेयं खलु अम्हं दक्खिणिलं वणसंडं गमित्तए त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमठं पडिसुर्णेति २ जेणेव दक्खिणिले वणसंडे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तओ ण गंधे निद्धाइ से जहानामए अहिमडे इ वा जाव अणिड्टराए । तए ण ते माकंदियदारगा तेण असुभेण गंधेण अभिभूया समाणा सएहिं २ उत्तरिज्जेहिं आसाइं पिहेति २ जेणेव दक्खिणिले वणसंडे तेणेव उवागया । तत्थ ण महं एं आघयणं पासंति अट्टियरासिसयसंकुलं भीमदरिसिणिजजं एं च तत्थ सूलाइयं पुरिसं कलुणाइं कट्टाइं विस्सराइं कुव्वमाणं पासंति भीया जाव संजायभया जेणेव से सूलाइए पुरिसे तेणेव उवागच्छंति २ तं सूलाइयं पुरिसं एवं वयासी – एस ण देवाणुपिया ! कस्स आध्यये तुमं च ण के कओ वा इहं हन्वमागए केण वा इमेयारूवं आौवयं पाविए ? तए ण से<sup>१</sup> सूलाइए पुरिसे ते माकंदियदारगे एवं वयासी – एस ण देवाणुपिया ! रयणदीवदेवयाए आघयणे । अहं ण देवाणुपिया ! जंबुहीवाओ दीवाओ भारहाओ वासाओ काकंदिए आसवाणियए विपुलं पणियमंडमायाए पोयवहणेण लवणसमुद्रं ओयाए । तए ण अहं पोयवहणविवत्तीए निबुद्धभंडसारे एं फलगखंडं आसाएमि । तए ण अहं उर्मुज्जमाणे २ रयणदीववेणं संवृढे । तए ण सा रयणदीवदेवया मैमं पासइ २ ममं गेण्हइ २ मए

साद्विं विउलाइं भोगभोगाइं मुंजमाणी विहरह । तए णं सा रयण-दीवदेवया अन्रया कयाइ अहाळहुसगंसि अवराहंसि परिकुविया समाणी ममं एयारूवं आवयं पावेइ । तं न नज्जइ णं देवाणुपिया ! तुबं पि इमेसिं सरीरगाणं का मने आवई भविस्सइ । तए णं ते माकंदियदारगा तस्स सूलाइगस्स अंतिए एयमट्टुं सोच्चा निसम्म बलियतरं भीया जाव संजायभया सूलाइयं पुरिसं एवं वयासी – कहं णं देवाणुपिया ! अम्हे रयणदीवदेवयाए हत्थाओ साहात्यि नित्थरिज्जामो ? तए णं से सूलाइए पुरिसे ते माकंदियदारगे एवं वयासी – एस णं देवाणुपिया ! पुरत्थिमिल्ले वणसंडे सेलगस्स जक्खास्स जक्खायणे सेलए नामं आसरूवधारी जक्खे परिवसइ । तए णं से सेलए जक्खे चाउहसट्ट-मुहिड्पुण्णमासिणीसु आगयसमए पत्तसमए महया २ सहेणं एवं वदंइ-कं तारयामि ? कं पालयामि ? तं गच्छह णं तुब्भे देवाणुपिया ! पुरत्थिमिल्ले वणसंडे सेलगस्स जक्खास्स महरिहं पुफ्फच्चाणियं करेह २ जञ्चुपायवडिया पंजलिउडा विणएणं पज्जुवासमाणा विहरह । जाहे णं से सेलए जक्खे आगयसमए पत्तसमए एवं वएज्जा—कं तारयामि ? कं पालयामि ? ताहे तुब्भे एवं वयह – अम्हे तारयाहि अम्हे पालयाहि । सेलए भो जक्खे परं रयणदीवदेवयाए हत्थाओ साहात्यि नित्थरेज्जा । अन्रहा भो न याणामि इमेसिं सरीरगाणं का मने आवई भविस्सइ ।

(89) तए णं ते माकंदियदारगा तस्स सूलाइयस्स अंतिए एयमट्टुं सोच्चा निसम्म सिरघं चंडं चवलं तुरियं वेईयं जेणेव पुरत्थिमिल्ले वणसंडे जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छंति २ पोक्खरिणि ओगाहेति २ जलमज्जणं करेति २ जाइं तथ उप्पलाइं जाव गेणहंति २ जेणेव सेलगस्स जक्खास्स जक्खायणे तेणेव उवागच्छंति २ आलोए पणामं करेति २ महरिहं पुफ्फच्चाणियं करेति २ जञ्चुपायवडिया सुस्सूसमाणा नमंसमाणा पज्जुवासंति । तए णं से सेलए जक्खे आगयसमए पत्तसमए एवं वयासी – कं तारयामि ? कं पालयामि ? तए णं ते माकंदियदारगा उट्टाए उट्टेति करयल जाव बद्धावेत्ता एवं

बयासी — अम्हे तारयाहि अम्हे पालयाहि । तए ण से सेलए जक्खे ते माकंदियदारए एवं बयासी — एवं खलु देवाणुपिया ! तुब्भं मए सैद्धि लवणसमुद्रं मज्जंमज्जेणं वीर्वयमाणाणं सा रयणदीवदेवया पावा चंडा रुदा खुदा साहसिया बहूहिं खरण्याहि य मउएहि य अणु-डोमेहि य पडिलोमेहि य सिंगारेहि य कलुणेहि य उवसगेहि य उव-सगं करेहिइ । तं जइ ण तुब्भे देवाणुपिया ! रयणदीवदेवयाए एयमट्टुं आढाह वा परियाणह वा अवयक्तव्यह वा तो भे अहं पिंडाओ विहू-णामि । अह ण तुब्भे रयणदीवदेवयाए एयमट्टुं नो आढाह नो परिया-णह नो अवयक्तव्यह तो भे रयणदीवदेवयाए हत्थाओ साहत्थि नित्थारेमि । तए ण ते माकंदियदारगा सेलगं जक्खं एवं बयासी — जं ण देवाणुपिया वईसंति तस्स ण उववायवयणनिदेसे चिडिस्सामो । तए ण से सेलए जक्खे उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्तमइ २ वेउठिवयसमु-ग्धाएणं समोहणइ २ संखेज्जाइं जोयणाइं दंडं निस्सरइ दोऽच्चंपि वेउठिवयसमुग्धाएणं समोहणइ २ एगं महं आसरूवं वेउठवइ २ ते माकंदियदारए एवं बयासी — हं भो माकंदियदारया ! आरुह ण देवा-णुपिया ! मम पिंडंसि<sup>१</sup> । तए ण ते माकंदियदारया हट्टा सेलगस्स जक्खस्स पणामं करेति २ सेलगस्स पिंडं दुरुढा । तए ण से सेलए ते माकंदियदारए दुरुढे जाणित्ता सैत्तअहृतालैप्पमाणमेत्ताइं उडुं वेहासं उप्पवइ २ ताए उकिट्टाए तुरियाए चवलाए चंडाए दिव्वाए देवयाए देवगईए लवणसमुद्रं मज्जंमज्जेणं जेणेव जंबुदीवे दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव घंपा नयरी तेषेव पहारेत्थ गमणाए ।

(90) तए ण सा रयणदीवदेवया लवणसमुद्रं तिसत्तखुत्तो अणुपरि-यट्टइ जं तथ्य तणं वा जाव एडेइ जेणेव पासायवडेसए तेषेव उवागच्छ्टइ २ ते माकंदियदारया पासायवडेसए अपासमाणी जेणेव पुरत्थिमिले वर्षसडे जाव सठवओ समंता भगणगवेसणं करेइ २ तेसिं माकंदियदारगाणं कत्थइ खुँई वा ३ अलभमाणी जेणेव उत्तरिले एवं चेव पश्चस्थिमिले वि जाव अपासमाणी ओहिं पउंजइ ते माकंदियदारए सेलणं सैद्धि

लवणसमुद्रं मज्जंमज्ज्ञेणं वीर्ईवयमाणे २ पासइ २ आसुरुत्ता असिखेडेगं  
गेण्हइ २ सत्तडं जाव उपयइ २ ताए उक्किट्टाए जेणेव माकंदियदारया  
तेणेव उवागच्छइ २ एवं बयासी—हं भो माकंदियदारगा अपंत्थियपत्थिया !  
किणं तुब्बे जाणह ममं विप्पजहाय सेलएणं जक्खेणं सद्धि लवण-  
समुद्रं मज्जंमज्ज्ञेणं वीर्ईवयमाणा ? तं एवमवि गए जइ ॣं तुब्बे ममं  
अवयक्खह तो भे अथि जीवियं । अह ॣं नावयक्खह तो भे इमेणं  
नीलुप्पलगबल जाव ईडेमि । तए ॣं ते माकंदियदारगा रयणदीवदेवयाए  
अंतिए एयमटुं सोच्चा निसम्म अभीया अतत्था अणुठिवगा अक्खुभिया  
असंभंता रयणदीवदेवयाए एयमटुं नो आढंति नो परियाणंति नाव-  
यक्खंति अणाढीयमाणा अपरियाणमाणा अणवयक्खमाणा य सेलएणं  
जक्खेणं सद्धि लवणसमुद्रं मज्जंमज्ज्ञेणं वीर्ईवयंति । तए ॣं सा रयण-  
दीवदेवया ते माकंदियदारया जाहे नो संचाएइ बहूहिं पंडिलोमेहि य  
उवसग्गेहि य चालित्तए वा खोमित्तए वा विपरिणामित्तए वा ताहे  
महूरेहिं य सिंगारेहि य कलुणेहि य उवसग्गेहि य उवसग्गेऽपं पयत्ता  
यावि होत्था — हं भो माकंदियदारगा ! जइ ॣं तुब्बेहिं देवाणु-  
पिया ! मए सद्धि हसियाणि य रमियाणि य ललियाणि य  
कीलियाणि य हिंडियाणि य मोहियाणि य ताहे ॣं तुब्बे सब्बाइं  
अगणेमाणा ममं विप्पजहाय सेलएणं सद्धि लवणसमुद्रं मज्जंमज्ज्ञेणं  
वीर्ईवयह । तए ॣं सा रयणदीवदेवया जिणरक्खियस्स मणं ओहिणा  
आभोएइ २ एवं बयासी — निच्चंपि य ॣं अहं जिणपालियस्स  
अणिट्टा ५ । निच्चं ममं जिणपालिए अणिट्टे ५ । निच्चंपि य ॣं अहं  
जिणरक्खियस्स इट्टा ५ । निच्चंपि य ॣं ममं जिणरक्खिए इट्टे ५ । जइ  
ॣं ममं जिणपालिए रोयमाणिं कंदमाणिं सोयमाणिं तिप्पमाणिं विलव-  
माणिं नावयक्खइ किणं तुमंपि जिणरक्खिया ! ममं रोयमाणिं जाव  
नावयक्खसि ? तए ॣं :— सा पवरररयणदीवस्स देवैया ओहिणाँ जिण-  
क्खियस्स मणं । नाऊण धैधनिमित्त उवरि माकंदियदारगाणे दोणहंपि॥१॥  
दोसकलिया सैलिलयं नाणाविहन्णवासमीसियं दिव्वं । घाणमण-

निवृत्तुहकरं सञ्चोडयसुरभिकुसुमबुद्धिं पमुंचमाणी ॥२॥ नायामणि-  
कणगरव्यधंटियखिणिनेउरमेहलभूसणरवेण । दिसाओ विदिसाओ  
पूर्यंती बवणमिणं बेह सा कलुंसा ॥३॥ होल बमुल गोल नाह दइय  
षिय रमण कंत सामिय निरिघण नित्येक । थिर्ण निकिर्व अकयन्त्रुय  
सिठिलभाव निलुज्ज लुक्ख अकलुण जिणरक्षिय मज्जं हियरक्षवग ॥४॥  
न हु जुज्जसि एकियं अणाहं अबंधवं तुज्ज चलणओवायकारियं  
उम्भाउमध्यन्नं । गुणसंकर हं तुमेै विहूणा न समत्था जीवितं खणंपि ॥५॥  
इमस्स उ अणेग्गसमगरविविधेसावयसयाकुँधरस्स । रयणागरस्स  
मज्जे अप्पाणं वहेमि तुज्ज पुरओ एहि नियत्ताहि जइ सि कुविओ  
खम्माहि एकाविराहं मे ॥६॥ तुज्ज य विग्यधणविमलससिमंडलागारै-  
सस्सरीयं सारयनवकमलकुमुदकुवलयविमलदलनिकरसरिसैनिभनयणं ।  
वयणं पिवासागयाए सद्धां मे पेच्छिउं जे अबलोएहि ता इओ  
ममं नाह जाँ ते पेच्छामि वयणकमलं ॥७॥ एवं सप्पणयसरलमहुरौंइं  
मुणो २ कलुणाइं वयणाइं जंपमाणी सा पावा मगगओ समणेइ पाव-  
हियया ॥८॥ तए णं से जिणरक्षिव चलमणे तेणेव भूसणरवेण कण-  
भुहमणोहरेण तेहि य सप्पणयसरलमहुरभणिएहि संजायविउणअणुराए  
रयणदीवस्स देवयाए तसे सुंदरथणजहणवयणकरचरणनयणलावण्णरुव-  
ज्ञोवण्णसिरि च दिव्वं सरभसउवगौहियाइं बिढ्बोयविलसियैंणि य  
विहसियसकडक्खदिट्टिनिस्ससियमलियउवललियथियगमणपणयखिज्ज-  
यपसाइयाणि य सरमाणे रागमोहियमई अवसे कम्मवसगए अवयक्खइ  
मगगओ सविलियं । तए णं जिणरक्षिवयं समुप्पन्नकलुणभावं मच्चुगल-  
त्थैङ्गोलियमइं अवयक्खतं तहेव जक्खे उ सेलए जाणिऊण सणियं २  
उच्चिहइ नियगपिट्टाहिं विग्यसेंद्वे । तए णं सा रयणदीवदेवया निसंसासा  
कलुणं जिणरक्षियं सकलुसा सेलगपिट्टाहिं ओवयतं-दास ! मओसि ति  
जंपमाणी अपत्तं सागरसलिलं गेणिहय बाहाहिं आरैसंतं उडुं उच्चिहइ  
अंवरतले ओवयमाणं च मंडलगेण पडिच्छत्ता नीलुप्पलगवलअयसि-  
प्पगासेणं असिवरेण खंडाखांडिं करेह २ तथ विलवमाणं तस्स य

सरसवेहियस्स घेत्तूण अंगमंगाइं सरुहिराइं उक्खित्तबलि चउहिसिं करइ  
सा पंचली पहँडा ।

(91) एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगंथाण वा निगंथीण वा  
अंतिए पठवइए समाणे पुणरबि माणुस्सए कामभोगे आसायइ पत्थबइ  
पीहेइ अभिलसइ से ण इहभवे चेव बहूण समणाण बहूण समणीण  
बहूण सावयाण बहूण सावियाण जाव संसारं अणुपरियट्रिसइ जहा व  
से जिणरकिखए । छेलिओ अवयकखंतो निरावयर्कखो गओ अविगधेण ।  
तम्हा पवयणसरे निरावयर्कवेण भवियव्वं ॥१॥ भोगे अवयकखंता  
पडंति संसारसागरे घोरे । भोगेहिं य निरवयकखा तरंति संसारकंतारं ॥२॥

(92) तए ण सा रयणदीवदेवया जेणेव जिणपालिए तेणेव उवा-  
गच्छइ बहूहिं अणुलोमेहि य पडिलोमेहि य खरमउयसिंगारेहि य कलुणेहि  
य उवसगेहि य जाहे नो संचाएइ चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणा-  
मित्तए वा ताहे संता तंता परितंता निठिवणा समाणी जामेव दिसि  
पाउब्मूया तामेव दिसि पडिगया । तए ण से सेलए जकखे जिणपालि-  
एण सद्धि लवणसमुद्रं मज्जंमज्जेणं वीईवयइ २ जेणेव चंपा नयरी तेणेव  
उवागच्छइ २ चंपाए नयरीए अगुज्जाणांसि जिणपालियं पट्टाओ ओया-  
रेइ २ एवं वयासी – एस ण देवाणुपिया ! चंपा नयरी दीसइ त्तिकट्टु  
जिणपालियं आपुच्छइ २ जामेव दिसि पाउब्मूए तामेव दिसि पडिगए ।

(93) तए ण जिणपालिए चंपं अणुपविसइ २ जेणेव सए गिहे  
जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ २ अम्मापिऊणं रोयमाणे जाव  
विलवमाणे जिणरकिवयवावात्ति निवेदेइ । तए ण जिणपालिए अम्मापियरो  
मित्तनाइ जाव परियणेणं सद्धि रोयमाणाइं बहूइं लोइयाइं मयकिखाइं  
करेति २ कालेण विगयसाया जाया । तए ण जिणपालियं अन्नया कयाइं  
सुहासणवरगयं अम्मापियरो एवं वयासी – कहणं पुत्ता ! जिणरकिखए  
कालगए १ तए ण से जिणपालिए अम्मापिऊणं लवणसमुद्रोत्तारणं च  
कालियवायसमुच्छेणं च पोयवहणविवत्ति च फलहखंडआसायणं च  
रयणदीवुत्तारं च रयणदीवदेवयागेञ्जिः<sup>२</sup> च भोगेविभूहिं च रयणदीवदेवया-

अप्पाहणं च सूलाइयपुरिसदरिसणं च सेलगजक्खआरुहणं च रयणदीच-  
देवयाउवसगं च जिणरक्खयविवर्त्ति च लवणसमुद्दत्तरणं च चंपागमणं  
च सेलगजक्खआपुच्छणं च जहाभूयमवितहमसांदिद्धं परिकहेइ । तए  
णं जिणपालिए जाव अप्पसोगे जाव विपुलाइ भोगभोगाइं भुंजमाणे  
विहरइ ।

(94) तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महाविरे समोसदे  
जाव धम्मं सोच्चा पब्बहए एगारसंगवी मासिएणं भत्तेणं जाव अत्ताणं  
शूसेत्ता सोहम्मे कप्पे दो सागरोवमाइं ठिई पन्रत्ता । ताँओ आउक्ख-  
एणं ठिइक्खएणं भवक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता जेणेव महाविदेहे  
वासे सिज्जिहाइ जाव अंतं काहिइ । एवामेव समणाउसो ! जाव माणुस्सए  
कामभोगे नो पुणरवि आसाइ से णं जाव वीईवइस्सइ जहा व से  
जिणपालिए ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण  
नवमस्स नायज्ज्ञयणस्स अयमट्टे पन्रत्ते त्तिबोमि ॥

॥ नवमं नायज्ज्ञयणं समतं ॥९॥

---

## ॥ दसमं अज्ञयणं ॥

(95) जइ णं भंते ! समणेण नवमस्स नायज्ञयणस्स अयमट्टे पन्नत्ते दसमस्स के अट्टे पन्नत्ते ? एवं खलु जंबू ! तेण कालेण २ रायगिहे नयेरे सामी समोंसदे गोयमो एवं वयासी — कहणं भंते ! जीवा वड्डुति वा हायंति वा ? गोयमा ! से जहानामए बहुलपक्षवस्स पाडिवयाचंदे पुणिमाचंदं पणिहाय हीणे वणेण हीणे सोमयाए हीणे निद्रयाए हीणे कंतीए एवं दित्तीए जुत्तीए छायाए पभाए ओयाए लेसाए मंडलेण । तयाणंतरं च णं बीयाचंदे पडिवयाचंदं पणिहाय हीणतराए वणेण जाव मंडलेण । तयाणंतरं च णं तइयाचंदे बीयाचंदं पणिहाय हीणतराए वणेण जाव मंडलेण । एवं खलु एणं कमेण परिहायमाणे २ जाव अमावसाचंदे चाउहसिचंदं पणिहाय नट्टे वणेण जाव नट्टे मंडलेण । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगंथो वा निगंथी वा जाव पञ्चइए समाणे हीणे खंतीए एवं मुत्तीए गुत्तीए अज्जवेणं महवेणं लाघवेणं सच्चेणं तवेणं चियाए अकिंचणयाए बंभचेरवासेण । तयाणंतरं च णं हीणे हीणतराए खंतीए जाव हीणतराए बंभचेरवासेण । एवं खलु एणं कमेण परिहायमाणे २ नट्टे खंताए जाव नट्टे बंभचेरवासेण । से जहा वा सुक्षपक्षवस्स पडिवयाचंदे अमावसाचंदं पणिहाय अहिए वणेण जाव अहिए मंडलेण । तयाणंतरं च णं बीयाचंदे पडिवयाचंदं पणिहाय अहियराए वणेण जाव अहियराए मंडलेण । एवं खलु एणं कमेण परिवड्डुमाणे २ जाव पुणिमाचंदे चाउहसिं चंदं पणिहाय पडिपुणेवणेण जाव पडिपुणे मंडलेण । एवामेव समणाउसो ! जाव पञ्चइए समाणे अहिए खंतीए जाव बंभचेरवासेण । तयाणंतरं च णं अहियराए खंतीए जाव बंभचेरवासेण । एवं खलु एणं कमेण परिवड्डुमाणे २ जाव पडिपुणे बंभचेरवासेण । एवं खलु जीवा वड्डुति वा हायंति वा ।

एवं खलु जंबू ! समणेण भगवया महाबीरेण दसमस्स नायज्ञयणस्स अयमट्टे पन्नत्ते त्ति बेमि ॥

॥ एकारसमं अज्ञयणं ॥

(96) जइ णं भंते ! समणेण दसमस्स नायज्ञयणस्स अयमट्टे पन्नते एकारसमस्स के अट्टे पन्नते ? एवं खलु जंबू ! तेण कालेण २ रायगिहे जाव गोयमे एवं वयासी – कैहं णं भंते ! जीवा आराहगा वा विराहगा वा भवंति ? गोयमा ! से जहानामए एगांसि समुद्रकूलंसि दावदवा नामं रुक्खा पन्नता किण्हा जाव निउरंबभूया पत्तिया पुष्पिया कलिया हरियगरेरिज्जमाणा सिरीए अईव उवसोभेमाणा २ चिट्ठंति । जया णं दीविज्ञगा ईसिं पुरेवाया पच्छावाया मंदावाया महावाया वायंति तथा णं बहवे दावदवा रुक्खा पत्तिया जाव चिट्ठंति । अप्पेगइया दावदवा रुक्खा जुण्णा झोडा परिसडियपंडुपत्तपुष्पफला सुकरुक्खओ विव मिलायमाणा २ चिट्ठंति । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगंथो वा २ जाव पठ्वइए समाणे बहूणं समणाणं ४ सम्मं सहइ जाव अहियासेइ बहूणं अन्नउत्थियाणं बहूणं गिहत्थाणं नो सम्मं सहइ जाव नो अहियासेइ एस णं मए पुरिसे देसविराहए पन्नते समणाउसो ! जया णं सामुदगा ईसिं पुरेवाया पच्छावाया मंदावाया महावाया वायंति तथा णं बहवे दावदवा रुक्खा जुण्णा झोडा जाव मिलायमाणा २ चिट्ठंति । अप्पेगइया दावदवा रुक्खा पत्तिया पुष्पिया जाव उवसोभेमाणा २ चिट्ठंति । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगंथो वा २ जाव पठ्वइए समाणे बहूणं अन्नउत्थियगिहत्थाणं सम्मं सहइ बहूणं समणाणं ४ नो सम्मं सहइ एस णं मए पुरिसे देसाराहए पन्नते समणाउसो ! जया णं नो दीविज्ञगा नो सामुदगा ईसिं पच्छावाया जाव महावाया वायंति तथा णं सञ्चे दावदवा रुक्खा जुण्णा झोडा । एवामेव समणाउसो ! जाव पठ्वइए समाणे बहूणं समणाणं ४ बहूणं अन्नउत्थियगिहत्थाणं नो सम्मं सहइ एस णं मए पुरिसे सञ्चविराहए पन्नते समणाउसो । जया णं दीविच्छगा वि सामुदगा वि ईसिं जाव वायंति तथा णं सञ्चे दावदवा पत्तिया जाव चिट्ठंति । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं पठ्वइए समाणे बहूणं समणाणं ४ बहूणं अन्नउत्थियगिहत्थाणं सम्मं सहइ एस णं मए

पुरिसे स्रव्वआराहए पन्नते । एवं खलु गोयमा ! जीवा आराहगा वा  
बिराहगा वा भवंति ।

एवं खलु जंबू ! समणेण भगवया महाबीरेण जाव संपत्तेण  
एकारसमस्स अयमहे पन्नते त्विवेमि ॥११॥

॥ एकारसमं नायज्ञयणं समतं ॥११॥

---

### ॥ बारसमं अज्ञयणं ॥

(97) जह णं भंते ! समणेण जाव संपत्तेण एकारसमस्स नायज्ञय-  
णस्स अयमहे पन्नते बारसमस्स णं के अहे पन्नते ? एवं खलु जंबू !  
तेण कालेण २ चंपा नाम नयरी । पुण्णभद्दे चेइए । जियसत्तु नामं राया ।  
धारिणी देवी । अदीणसत्तु नामं कुमारे जुवराया वि होत्था । सुबुद्धी  
नामं अमच्चे जाव रज्जधुराचितए यावि होत्था जाव सैमणोबासए । तीसे  
णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमेण एगे फरिहोदए यावि होत्था  
मेयवसारहिरमंसपूयपडलपोङ्डे मयगकलेवरसंछन्ने अमणुञ्जे णं वण्णेण  
जाव कासेण से जहानामए अहिमडे इवा गोमडे इवा जाव मयकुहिय-  
विणटुकिमिणवावणदुरभिंगंधे किमिजालाउले संसत्ते अमुइविगयबीभच्छ-  
दरिसणिज्जे । भवेयारूपे सिया ? नो इर्णहे समहे । एत्तो अणिष्टतराए  
चेव जाव गंधेण पन्नते ।

(98) तए णं से जियसत्तु राया अन्नया कयाइ एहाए कयबलि-  
कम्मे जाव अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरे बहूहिं ईसर जाव सत्थवाह —  
पभिईहिं सद्द्वि भोयणमंडवंसि भोयणवेलाए सुहासणवरर्गए विउलं  
असणं ४ जाव विहरइ जिमियमुत्तरागए जाव सुइभूए तंसि विपुलंसि  
असणांसि ४ जाव जायविस्हए ते वहवे ईसर जाव पभिईए एवं वयासी —  
अहो णं देवाणपिया ! इमे मणुञ्जे असणं ४ वण्णेण उववेए जाव फासेण

उववेए अस्सायणिज्जे विसायणिज्जे पीणणिज्जे दीवणिज्जे दप्पणिज्जे मर्य-  
णिज्जे बिंहणिज्जे सठिवदियगायपल्हायणिज्जे । तए णं ते बहवे ईसर  
जाव पभियओ जियसत्तुं एवं वयासी – तहेव णं सामी ! जण्णं तुब्बे  
वयह – अहो णं इमे मणुन्ने असणे ४ वण्णेण उववेए जाव पल्हायणिज्जे ।  
तए णं जियसत्तू सुबुद्धि अमच्च एवं वयासी – अहो णं सुबुद्धी ! इमे  
मणुन्ने असणे ४ जाव पल्हायणिज्जे । तए णं सुबुद्धी जियसत्तुस्स रचो  
एयमट्ठं नो आढाइ जाव तुसिणीए संचिट्ठइ । तए णं जियसत्तू सुबुद्धि  
दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी – अहो णं सुबुद्धी ! इमे मणुन्ने तं चेव जाव  
पल्हायणिज्जे । तए णं से सुबुद्धी अमच्चे दोच्चंपि तच्चंपि एवं त्रुते समाप्ते  
जियसत्तुं रायं एवं वयासी – नो खलु सामी ! अम्हं एयंसि मणुन्नंसि  
असणंसि ४ केइ विम्हए । एवं खलु सामी ! सुरभिसद्वा वि पोगला  
दुरभिसद्वाए परिणमंति दुरभिसद्वा वि पोगला सुरभिसद्वाए परिण-  
मंति । सुरुवा वि पोगला दुरुवत्ताए परिणमंति दुरुवा वि पोगला  
सुरुवत्ताए परिणमंति । सुरभिगंधा वि पोगला दुरभिगंधत्ताए परिणमंति । सुरसा वि पोगला  
दुरसत्ताए परिणमंति दुरसा वि पोगला सुरसत्ताए परिणमंति । सुह-  
फासा वि पोगला दुहपासत्ताए परिणमंति दुहफासा वि पोगला सुह-  
फासत्ताए परिणमंति । धंओगवीससा परिणया वि य णं सामी ! पोगला  
पन्नत्ता । तए णं जियसत्तू सुबुद्धिस्स अमच्चस्स एवमाइक्सवमाणस्स ४  
एयमट्ठं नो आढाइ नो परियाण्इ तुसिणीए संचिट्ठइ । तए णं से जिय-  
सत्तू अन्नया कयाइ ण्हाए आसखंधवरगए महयाभडचडगरआसवाह-  
णियाए निज्जायमाणे तस्स फरिहोदयस्स अदूरसामंतेण वीईवयह । तए  
णं जियसत्तू तस्स फरिहोदगस्स असुभेणं गंधेणं अभिभूए समाणे  
सएणं उत्तरिज्जएणं आसगं पिहेइ एगांतं अवक्कमइ २ बहवे ईसर  
जाव पभिइओ एवं वयासी – अहो णं देवाणुपिया ! इमे फरिहोदए  
अमणुन्ने वण्णेणं ४ से जहानामए अहिमडे इ वा जाव अमणामतराए  
चेव । तए णं ते बहवे राईसर जाव पभियओ एवं वयासी – तहेव णं

तं सामी ! जं णं तुब्बे एवं वयह — अहो णं इमे फरिहोदए अमणुन्ने वण्णेण ४ से जहानामए अहिमडे इ वा जाव अमणामतराए चेव । तए णं से जियसत्तु सुबुद्धि अमच्चं एवं वयासी — अहो णं सुबुद्धी ! इमे फरिहोदए अमणुन्ने वण्णेण ४ से जहानामए अहिमडे इ वा जाव अमणामतराए चेव । तए णं से सुबुद्धी अमच्चे जाव तुसिणीए सांचिठ्ठ । तए णं से जियसत्तु राया सुबुद्धि अमच्चं दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयासी — अहो णं तं चेव । तए णं से सुबुद्धी अमच्चे जियसत्तुणा रन्ना दोच्चंपि तच्चंपि एवं तुते समाणे एवं वयासी— नो खलु सामी ! अम्हं एयंसि फरिहोदगांसि केइ विम्हए । एवं खलु सामी ! सुरभिसद्वा वि पोगला दुष्टिभसदत्ताए परिणमंति तं चेव जाव पओगवीससापरिणया वि य णं सामी ! पोगला पन्नत्ता । तए णं जियसत्तु सुबुद्धि एवं वयासी — मा णं तुमं देवाणुपिया ! अप्पाणं च परं च तदुभयं च बहूहि य असब्भावुब्भावणाहिं मिच्छत्ताभिनिवेसेण य बुगाहेमाणे बुप्पाएमाणे विहराहि । तए णं सुबुद्धिस्स इमेयारूवे अज्ञातिथिए ४ समुप्पज्जितथा — अहो णं जियसत्तु सते तच्चे तहिए अवितहे सब्भूए जिणपन्नते भावे नो उवलभइ । तं सेयं खलु मम जियसत्तुस्स रन्नो संताणं तच्चाणं तहियाणं अवितहाणं सब्भूयाणं जिणपन्नताणं भावाणं अभिगमण्डयाए एयमट्टुं उवायणावेत्ताए । एवं संपेहेइ २ पच्चइएहिं पुरिसेहिं सद्धि अंतरावणाओ नवए घडए य पडए य गेणहइ २ संझाकाल-समयंसि पविरलमणुस्संसि निसंतपडिनिसंतंसि जेणेव फरिहोदए तेणेव उवागच्छइ २ तं फरिहोदगं गेणहावेइ २ नवएसु घडएसु गालावेइ २ नवएसु घडएसु पक्षिखवावेइ २ सज्जखारं पक्षिखवावेइ लंछियमुहिए कारावेइ २ सत्तरत्तं परिवसावेइ २ दोच्चंपि नवएसु घडएसु गालावेइ २ नवएसु घडएसु पक्षिखवावेइ २ सज्जखारं पक्षिखवावेइ २ लंछिय-मुहिए कारावेइ २ सत्तरत्तं परिवसावेइ २ तच्चंपि नवएसु घडएसु जाव संवसावेइ । एवं खलु एणं उवाएणं अंतरा गाँलावेमाणे अंतरा पक्षिखवावेमाणे अंतरा य वैसावेमाणे सत्तसत्त य राइंदियाइं परिवसावेइ ।

तए ण से फरिहोदए सन्तमंसि सन्तयंसि परिणममाणंसि उदगरयणे जाए यावि होतथा अच्छे पत्थे जचे तणुए फालियवण्णामे वण्णेण उवबेए ४ आसायणिजे जाव सठिंवदियगायपल्हायणिजे । तए ण सुबुद्धी जेणेव से उदगरयणे तेणेव उवागच्छइ २ करयलंसि आसादेइ २ तं उदगरयणं वण्णेण उवबेयं ४ आसायणिज्जं जाव सठिंवदियगायपल्हायणिज्जं जाणित्ता हट्टुडे बहूहि उदगसंभारणिज्जोहि दठ्वेहि संभारेइ २ जियसत्तुस्स रओ पाणियघरियं सहावेइ २ एवं वयासी— तुमं णं देवाणुपिया ! इमं उदग-रयणं गेणहाहि २ जियसत्तुस्स रओ भोयणवेलाए उवणोज्जासि । तए ण से पाणियघरिए सुबुद्धिस्स एयमटुं पडिसुगेइ २ तं उदगरयणं गेणहइ २ जियसत्तुस्स रओ भोयणवेलाए उवट्टुवेइ । तए ण से जियसत्तू राया तं विपुलं असणं ४ आसाएमाणे जाव विहरइ जिमियभुत्तुत्तरागए वि य णं जाव परमसुझभूए तंसि उदगरयणंसि जायविम्हए ते बहवे राईसर जाव एवं वयासी— अहो णं देवाणुपिया ! इमे उदगरयणे अच्छे जाव सठिंवदिय-गायपल्हायणिजे । तए ण ते बहवे राईसर जाव एवं वयासी— तहेव णं सामी ! जणणं तुम्हे वयह जाव एवं चेव पल्हायणिजे । तए ण जिय-सत्तू राया पाणियघरियं सहावेइ २ एवं वयासी— एस णं तुमे देवा-णुपिया ! उदगरयणे कओ आसाइए ? तए ण से पाणियघरिए जिय-सत्तुं एवं वयासी— एस णं सामी ! मए उदगरयणे सुबुद्धिस्स अंतियाओ आसाइए । तए ण जियसत्तू सुबुद्धि अमच्छं सहावेइ २ एवं वयासी— अहो णं सुबुद्धी ! केणं कारणेणं अहं तव अणिडु ५ जेणं तुमं मम कलाकळि भोयणवेलाए इमं उदगरयणं न उवट्टुवेसि ? तं एस णं तुमे देवाणुपिया ! उदगरयणे कओ उवलद्धे ? तए णं सुबुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी — एस णं सामी ! से फरिहोदए । तए ण से जियसत्तू सुबुद्धि एवं वयासी — केणं कारणेणं सुबुद्धी ! एस से फरिहोदए ? तए णं सुबुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी — एवं खलु सामी ! तुम्हे तयाँ मम एवमाइक्ष्य-माणस्स ४ एयमटुं नो सहहइ । तए ण मम इमेयारूवे अज्ञातिथए ४— अहो णं जियसत्तू संते जाव भावे नो सहहइ नो पञ्चियइ नो रोएइ । तं

संये खलु मम जियसत्तुस्स रग्नो संताणं जाव संबूँयाणं जिणपञ्चाणं  
भावाणं अभिगमणद्याए एयमटुं उवायणवेत्तए । एवं संपेहेमि २  
तं चेव जाव पाणियघरियं सहावेमि २ एवं वदोमि – तुमं णं देवाणुपिया !  
उदगरयणं जियसत्तुस्स रग्नो भोयणवेलाए उवणेहि । तं एणं कारणेण  
सामी ! एस से फरिहोदए । तए णं जियसत्तू राया सुबुद्धिस्स एवमाइ-  
क्कमाणस्स ४ एयमटुं नो सहइ ३ असहमाणे अपत्तियमाणे अरोए-  
माणे अद्विभतरठाणिज्जे पुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुब्बे  
देवाणुपिया ! अंतरावणाओ नवए घडए पडए य गेणहह जाव उदगसंभार-  
णिज्जेहिं दव्वेहिं संभारेह । तेवि तहेव संभारेति २ जियसत्तुस्स उवणेति ।  
तए णं से जियसत्तू राया तं उदगरयणं करयलंसि आसाएइ आसायणिज्जं  
जाव सठिंवादियगायपलहायणिज्जं जाणित्ता सुबुद्धिं अमञ्चं सहावेइ २ एवं  
वयासी – सुबुद्धी ! एए णं तुमे संता तज्जा जाव सबूया भावा कओ  
उवलद्धा ? तए णं सुबुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी – एए णं सामी ! मए  
संता जाव भावा जिणवयणाओ उवलद्धा । तए णं जियसत्तू सुबुद्धिं एवं  
वयासी – तं इच्छामि णं देवाणुपिया ! तव अंतिए जिणवयणं निसा-  
मित्तए । तए णं सुबुद्धी जियसत्तुस्स विचित्तं केवलिपन्नतं चाउज्जामं  
धम्मं परिकहेइ तमाइख्वइ जहा – जीवा बैज्ञानिं जाव पंचाणुव्वयाइ ।  
तए णं जियसत्तू सुबुद्धिस्स अंतिए धम्मं सोज्जा निसम्म हट्टुहटुं सुबुद्धिं  
अमञ्चं एवं वयासी – सहहामि णं देवाणुपिया ! निगंथं पावयणं ३ जाव  
से जहेयं तुब्बे वयह । तं इच्छामि णं तव अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्त-  
सिक्खावइयं जाव उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । अहासुहं देवाणुपिया !  
मा पडिवंधं । तए णं से जियसत्तू सुबुद्धिस्स अंतिए पंचाणुव्वइयं जाव  
दुवालसविहं सावयधम्मं पडिवज्जइ । तए णं जियसत्तू समणोवासए  
जाए अहिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे विहरइ । तेणं कालेण २  
थेरागमणं । जियसत्तू राया सुबुद्धी य निगर्च्छहइ । सुबुद्धी धम्मं सोज्जा  
जं नवरं जियसत्तुं आपुच्छामि जाव पव्वयामि । अहासुहं देवाणुपिया !  
तए णं से सुबुद्धी जेणेव जियसत्तू तेणेव उवागच्छहइ २ एवं वयासी –

एवं खलु सामी ! मए थेराणं अंतिए धम्मे निसंते । से वि य धम्मे इच्छिए पडिच्छिए ३ । तए णं अहं सामी ! संसारभउचिवेगो भीए जाव इच्छामि णं तुब्मेहिं अब्भणुन्नाए जाव पठ्वइत्तए । तए णं जियसत्तु सुबुद्धि एवं वयासी – अच्छसु ताव देवाणुपिया ! कइवयाइं वासाइं उरालाइं जाव भुंजमाणा । तओ पच्छा एगयंओ थेराणं अंतिए मुंडे भवित्ता जाव पठ्वइस्सामो । तए णं सुबुद्धी जियसत्तुस्स रन्नो एयमटुं पडिसुणेइ । तए णं तस्स जियसत्तुस्स रन्नो सुबुद्धिणा सद्धि विपुलाइं माणुस्सगाइं जाव पञ्चणुब्भवमाणस्स दुवालस वासाइं बीइकंताइं । तेण कालेण २ थेरागमणं । जियसत्तु धम्मं सोशा एवं जं नवरं देवाणुपिया ! सुबुद्धि आमंतेमि जेट्टपुत्तं रज्जे ठावेमि तए णं तुब्मं अंतिए जाव पठ्वयामि । अहासुहं देवाणुपिया । तए णं जियसत्तु राया जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ सुबुद्धि सद्वावेइ २ एवं वयासी – एवं खलु मए थेराणं जाव पठ्वयामि । तुमं णं किं करेसि ? तए णं सुबुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी जाव के अन्ने आधारे वा जाव पठ्वामि । तं जइ णं देवाणुपिया जाव पठ्वाहि । गच्छह णं देवाणुपिया ! जेट्टपुत्तं च कुङुबे ठावेहि २ सीयं दुरुहित्ताणं ममं अंतिए सीया जाव पाउब्भवइ । तए णं जियसत्तु कोङुबियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुब्मे देवाणुपिया ! अदीणसत्तुस्स कुमारस्स रायाभिसेयं उबट्टवेह जाव अभिसिचंति जाव पठ्वइए । तए णं जियसत्तु एकारस अंगाइं अहिज्जइ बहूणि वासाणि परियाओ मासियाए संलेहणाए जाव सिद्धे । तए णं सुबुद्धी एकारस अंगाइं अहिजित्ता बहूणि वासाणि जाव सिद्धे ।

एवं खलु जंबू । समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण बारसमस्स नायज्ञयणस्स अयमटे पन्रत्ते त्ति बेमि ॥

॥ बारसमं नायज्ञयणं समत्तं ॥ १२॥

॥ तेरसमं अज्जयण ॥

(99) जइ णं भंते ! समणेण जाव संपत्तेण बारसमस्स अयमट्टे पन्नते तेरसमस्स के अट्टे पन्नते ? एवं खलु जंबू ! तेण कालेण २ राय-गिहे नयरे गुणसिलए चेइए समोसरणं परिसा निगया । तेण कालेण २ सोहस्मे कप्पे दहुरैवडिसए विमाणे सभाए सुहस्माए दहुरांसि सीहा-सणंसि दहुरे देवे चउहिं सामाणियसाहस्रीहिं चउहिं अगगमहिसीहिं संपरिसाहिं एवं जहा सूरियाभे जाव दिव्वाइं भोगभोगाइं भुजमाणे विहरइ इमं च णं केवलकप्पे जंबुदीवं दीवं विउलेण ओहिणा आभोएमाणे २ जाव नदृविहिं उवदंसित्ता पडिगए जहा सूरियाभे । भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं ३ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – अहो णं भंते ! दहुरे देवे महिड्डिए ६ । दहुरस्स णं भंते ! देवस्स सा दिव्वा देविड्डी ३ कहिं गया ? कहिं पविष्टा ? गोयमा ! सरीरं गया सरीरं अणुपविष्टा कूडागारदिङ्गंतो । दहु-रेणं भंते ! देवेणं सा दिव्वा देविड्डी ३ किन्ना लद्धा जाव अभिसमन्नागया ? एवं खलु गोयमा । इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे रायगिहे गुणसिलए चेइए सेणिए राया । तत्थं णं रायगिहे नंदे नामं मणियारसेढी परिवसइ अट्टे दित्ते० । तेण कालेण २ अहं गोयमा ! समोसट्टे परिसा निगया सेणिए वि निगए । तए णं से नंदे मणियारसेढी इमीसे कहाए लङ्घट्टे समाणे ष्हाए पायचारेण जाव पञ्जुवासइ । नंदे धस्मं सोच्चा समणोवासए जाए । तए णं अहं रायगिहाओ पडिनिक्खंते बहिया जणवयविहारं विहरामि । तए णं से नंदमणियारसेढी अन्नया कयाइ असाहुदंसणेण य अपञ्जुवासणाए य अणणुसासणाए य असुस्सूसणाए य सम्मत्तपञ्जवेहिं परिहायमाणोहिं २ मिच्छत्तपञ्जवेहिं परिवड्डमाणोहिं २ मिच्छत्तं विष्पडिवन्ने जाए यावि होत्था । तए णं नंदे मणियारसेढी अन्नया कयाइ गिम्ह-कालसमयांसि जेट्टामूलंसि मासांसि अट्टमभत्तं परिगेणहइ २ पोसहसालाए जाव विहरइ । तए णं नंदस्स अट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि तण्हाए छुहाए य अभिभूयस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्जतिथए ४ – धन्ना णं ते जाव ईसरपभियओ जेसिं णं रायगिहस्स बहिया बहूओ वावीओ

पोक्खरिणीओ जाव सरसरपंतियाओ जत्थ णं बहुजणो णहाइ य पियइ य पाणियं च संवहइ । तं सेयं खलु मम कळं सेणियं रायं आपुच्छत्ता रायगिहस्स बहिया उत्तरपुरतिथमे दिसीभागे वेडभारपञ्चयस्स अदूर-सामंते वथ्युपाढगरोइयंसि भूमिभागंसि नंदं पोक्खरिणि खणावेत्तए त्तिकट्टु एवं संपेहइ २ कळं जाव पोसहं पारेइ २ णहाए कयबलिकम्मे मित्तनाइ जाव संपरिवुडे महत्थं जाव पाहुडं रायारिहं गेणहइ २ जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ जाव पाहुडं उवट्टवेइ २ एवं वयासी – इच्छामि णं सामी ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए समाणे रायगिहस्स बहिया जाव खणावेत्तए । अहासुहं देवाणुपिया । तए णं से नंदे सेणिएणं रन्ना अब्भणुन्नाए समाणे हट्टुडे रायगिहं नगरं मज्जंमज्जेणं निगगच्छइ २ वथ्युपाढयरोइयंसि भूमिभागंसि नंदं पोक्खरिणि खणावेउं पयत्ते यावि होत्था । तए णं सा नंदा पोक्खरणी अणुपुञ्चेण खम्ममाणा २ पोक्ख-रेणी जाँया यावि होत्था चाउक्कोणा समतीरा अणुपुञ्चं सुजायवप्प-सीयलजला संच्छन्नपत्तभिसमुणाला बहुउप्पलपउमकुमुदनलिणसुभग-सोगंधियपुंडरीयमहापुंडरीयसयपत्तसहस्रपैत्तपुण्फफलकेसरोववेया परि-हत्थभमंतमंत्तछपयअणेगसउणगणमिहृणवियरियसद्वनइयमहुरसरनाइया पासाईया ४ । तए णं से नंदे मणियारसेढी नंदाए पोक्खरिणीए चउदिसिं चत्तारि वणसंडे रोवावेइ । तए णं ते वणसंडा अणुपुञ्चेण सारकिखज्ज-माणा संगोविज्जमाणा संवड्डिज्जमाणा य वणसंडा जाया किण्हा जाव निउरंबभूया पत्तिया पुणिया जाव उवसोभेमाणा २ चिढ्हंति । तए णं नंदे पुर्वतिथमिले वणसंडे एगं महं चित्तसभं करंवेइ २ अणेगखंभसय-संनिविडं पासाइयं ४ । तत्थ णं बहूणि किण्हाणि य जाव सुकिळाणि य कट्टकम्माणि य पोत्थकम्माणि य चित्तलेप्पगंथिमवेदिमपूरिमसंघाइमैंइं उवदंसिज्जमाणाइं २ चिढ्हंति । तत्थ णं बहूणि आसणाणि य सयणाणि य अत्थयपञ्चत्थयाइं चिढ्हंति । तत्थ णं बहवे नडा य नद्वा य जाव दिन्न-भईभन्तवेयणा तालायरकम्मं करेमाणा विहरंति । रायगिहविणिगगओ तत्थ णं बहुजणो तेमु पुञ्चञ्चत्थेसु आसणसयणेसु संनिसणो य संतुयझो

य सुणमाणो य पेच्छमाणो य साहेमाणो य सुहंसुहेणं विहरइ । तए णं नंदे दाहिणिले वणसंडे एगं महं महाणससालं कारीबेइ अणेगखंभ जाव रूवं । तथं णं बहवे पुरिसा दिन्नभइभत्तवेयणा विउलं असणं ४ उचक्खर्डेति बहूणं समणमाहणअतिहिकिवंणवणीमगाणं परिभाएमाणा २ विहरंति ! तए णं नंदे मणियारसेट्टी पञ्चतिथिमिले वणसंडे एगं महं तिगिच्छ्यसालं करेइ अणेगखंभसय जाव पडिरूवं । तथं णं बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य कुसला य कुसलपुत्ता य दिन्नभइभत्तवेयणा बहूणं वाहियाण य गिलाणाण य रोगियाण य दुब्बलाण य तेइच्छकम्मं करेमाणा विहरंति । अन्ने य तत्थं बहवे पुरिसा दिन्नभइ० तेसिं बहूणं वाहियाण य रोगियगिलाणदुब्बलाण य ओसह-भेसज्जभत्तपाणेण पडियारकम्मं करेमाणा विहरंति । तए णं नंदे उत्त-रिले वणसंडे एगं महं अलंकारियसम्मं करेइ अणेगखंभसय जाव पडि-रूवं । तथं णं बहवे अलंकारियमणुस्सा दिन्नभइभत्तपाणा बहूणं समणाण य माहणाण य सनाहाण य अणाहाण य गिलाणाण य रोगियाण य दुब्बलाण य अलंकारियकम्मं करेमाणा २ विहरंति । तए णं तीए नंदाए पोक्खरिणीए बहवे सणाहा य अणाहा य पंथिया य पहिया य करोडिर्यार्थं तणहारा पत्तहारा कट्ठहारा अप्पेगइया एहायंति अप्पेगइया पाणियं पियंति अप्पेगइया पाणियं संवहंति अप्पेगइया विसज्जियसेय-जलम्मलपरिस्समनिहखुपिवासा सुहंसुहेणं विहरंति । रायगिहनिगओ वि-एथं बहुजणो किं ते जलरमणाविविहमज्जणकयलिलयाहरयकुसुमंसत्थरय-अणेगसउणगणकयरिभियसंकुलेसु सुहंसुहेणं अभिरममाणो २ विहरइ । तए णं नंदाए पोक्खरिणीए बहुजणो एहायमाणो य पायमाणो य पाणियं च संवहमाणो य अन्नमन्नं एवं वयासी – धन्ने णं देवाणुपिया ! नंदे मणियारसेट्टी कयत्थे जाव जम्मजीवियफले जस्स णं इमेयारूवा नंदा पोक्खरिणी चाउक्कोणा जाव पडिरूवा जस्स णं पुरतिथिमिले तं चैव सबं चउसु वि वणसंडेसु जाव रायगिहविणिगओ जत्थं बहुजणो आसणेसु य सबणेसु य सभिसण्णो य संतुयटो य पेच्छमाणो य साहेमाणो य

सुहंसुहेण विहरइ । तं धन्ने कयत्थे कयलक्खणे कयपुण्णे कया णं लोया सुलद्वे माणुस्सए जम्मजीवियफले नंदस्स मणियारस्स । तए णं रायगिहे सिंघाडग जाव बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ ४ – धन्ने णं देवाणुपिया ! नंदे मणियारे सो चेव गमओ जाव सुहंसुहेण विहरइ । तए णं से नंदे मणियारे बहुजणस्स अंतिए एयमटुं सोच्चा निसम्म हट्टुठे धाराहयक्यंबकं पिव समूसविथरोमकूवे परं सायासोक्खमणु-भवेमाणे विहरइ ।

(100) तए णं तस्स नंदस्स मणियारसेट्टिस्स अन्नया कयाइ सरीर-गंसि सोलस रोयायंका पाउब्भूया तंजहा – सासे कासे जेर दाहे कुच्छि-सूले भगंदरे । अरिसा अजीरए दिढ्ठीमुद्धमूले अकारए ॥१॥ अच्छि-वेयणा कण्णवेयणा कंडू दृउदरे कोढे ॥ तए णं से नंदे मणियारसेढी सोलसहि रोयायंकेहि अभिभूए समाणे कोडुंवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुझ्मे देवाणुपिया ! रायगिहे नयरे सिंघाडग जाव पहेसु महया २ सहेणं उग्घोसेमाणा २ एवं वयह – एवं खलु देवाणुपिया ! नंदस्स मणियारस्स सरीरगंसि सोलस रोयायंका पाउब्भूया तंजहा – सासे जाव कोढे । तं जो णं इच्छइ देवाणुपिया ! विज्ञो वा विज्ञ-पुत्तो वा जाणुओ वा २ कुसलो वा २ नंदस्स मणियारस्स तेसिं च णं सोलसण्हं रोयायंकाणं एगमवि रोयायंकं उवसामित्तए तस्स णं नंदे मणियारे विउलं अत्थसंपयाणं दलयइ त्तिकट्टु दोञ्चपि तञ्चपि घोसणं घोसेह २ एयमाणत्तियं पञ्चपिणह तेवि तहेव पञ्चपिणंति । तए णं राय-गिहे इमेयारूवं घोसणं सोच्चा निसम्म बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाव कुसलपुत्ता य सत्थकोसहत्थगया य सिलियाहत्थगया य गुलियाहत्थ-गया य औसहभेसज्जहत्थगया य सएहिं २ गिहेहिंतो निक्खमंति २ रायगिहं मञ्ज्ञमञ्ज्ञेणं जेणेव नंदस्स मणियारसेट्टिस्स गिहे तेणेव उवा-गच्छंति २ नंदस्स मणियारस्स सरीरगं पासंति २ तेसिं रोयायंकाणं नियाणं पुच्छंति २ नंदस्स मणियारस्स बहूहिं उञ्चलणेहि य उञ्चलणेहि य सिणेहपाणेहि य बमणेहि य विरेयणेहि य सेयणेहि य अवद्दणेहि य

अवण्हावणेहि य अणुवासणाहि य बत्थिकम्मेहि य निर्झहेहि य सिरा-  
वेहेहि य तच्छणाहि य पच्छणाहि य सिरावत्थीहि य तप्पणाहि य पूँड-  
वाएहि य छल्लीहि य वल्लीहि य मूलेहि य कंदेहि य पत्तेहि य पुष्फेहि  
य फलेहि य बीएहि य सिलियाहि य गुलियाहि य ओसहेहि य भेस-  
ज्जेहि यै इच्छंति तेसि सोलसण्हं रोयायंकाणं एगमवि रोयायंकं उवसामि-  
त्तए नो चेव णं संचाएंति उवसामेत्तए । तए णं ते वहवे विज्ञा य ६  
जाहे नो संचाएंति तेसि सोलसण्हं रोयायंकाणं एगमवि रोयायंकं उव-  
सामित्तए ताहे संता तंता जाव पडिगया । तए णं नंदे मणियारे तेहि  
सोलसेहिं रोयायंकेहिं अभिभूए समाणे नंदाए पुक्खरिणीए मुच्छिए ४  
तिरिक्खजोणियाहिं निबद्धाउए बद्धपएसिए अद्दुहद्वसटे कालमासे कालं  
किज्ञा नंदाए पोक्खरिणीए दहुरीए कुच्छिसि दहुरत्ताए उववन्ने । तए  
णं नंदे दृहुरे गब्भाओ विर्प्पमुक्ते समाणे उमुक्कबालभावे विनायपरि-  
णयमित्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते नंदाए पोक्खरिणीए अभिरममाणे २ विह-  
रइ । तए णं नंदाए पोक्खरिणीए बहुजणो ण्हायमाणो य पियइ यै  
पाणियं च संवहमाणो अन्नमन्नं एवमाइक्खइ ४—धन्ने णं देवाणु-  
प्पिया ! नंदे मणियारे जस्स णं इमेयारूवा नंदा पुक्खरिणी चाउक्कोणा  
जाव पडिरूवा जस्स णं पुरत्थिमिल्ले वणसंडे चित्तसभा अणेगखंभ तहेव  
चत्तारि समाओ जाव जस्मजीवियफले । तए णं तस्स दहुरस्स तं  
आभिक्खणं २ बहुजणस्स अंतिए एयमटुं सोज्ञा निसम्म इमेयारूवे  
अज्ञात्थिए ४ समुप्पजित्था — से कहिं मन्ने मए इमेयारूवे सहे निसंत-  
पुव्वे त्तिकट्टु सुभेणं परिणामेणं जाव जाईसरणे समुप्पन्ने पुव्वजाइं  
सम्मं समागच्छइ । तए णं तस्स दहुरस्स इमेयारूवे अज्ञात्थिए ४—एवं  
खलु अहं इहेव रायगिहे नयरे नंदे नामं मणियारे अहु० । तेण कालेण  
२ समणे भगवं महावीरे इह समोसटे । तए णं मए समणस्स ३  
अंतिए पंचाणुव्वइए सत्तसिक्खावइए जाव पडिवन्ने । तए णं अहं  
अन्नया कयाइ असाहुदंसणेणं य जाव मिच्छत्तं विप्पडिवन्ने । तए णं  
अहं अन्नया कयाइ गिम्हकालसमयांसि जाव उवसंपञ्जित्ताणं विहरामि—

एवं जहेव चिता आपुच्छणा नंदापुक्तरिणी वणसंडा सहाओ तं चेव सबं जाव नंदाए दहुरत्ताए उववन्ने । तं अहो णं अहं अहन्ने अपुण्णे अक्यपुण्णे निगंथाओ पावयणाओ नटे भटे परिभटे । तं सेयं खलु ममं सयमेव पुव्वपडिवन्नाइं पंचाणुव्वयाइं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । एवं संपेहेइ २ पुव्वपडिवन्नाइं पंचाणुव्वयाइं जाव आरुहइ २ इमेयारूवं अभिगाहं अभिगिणहइ – कप्पइ मे जावज्जीवं छटुंछटेण अणिकिखत्तेण अप्पाणं भावेमाणस्स विहरित्तए । छटुस्स वि य णं पारणगांसि कप्पइ मे नंदाए पोक्खरिणीए परिपेरंतेसु फासुएणं ण्हाणोदएणं उम्महैणालोलियाहि य वित्ति कप्पेमाणस्स विहरित्तए । इमेयारूवं अभिगाहं अभिगेणहइ जाव-ज्जीवाए छटुंछटेण जाव विहरइ । तेणं कालेणं २ अहं गोयमा ! गुण-सिलए समोसडै परिसा निगया । तए णं नंदाए पोक्खरिणीए बहुजणो ण्हाइ ३ अन्नमन्नं जाव समणे ३ इहेव गुणसिलए चेइए समोसडै । तं गच्छामो णं देवाणुपिया ! समणं ३ वंदामो जाव पज्जुवासामो । एयं णे इहभवे परभवे य हियाए जाव आणुगामियत्ताए भविस्सइ । तए णं तस्स दहुरस्स बहुजणस्स अंतिए एयमटुं सोझा निसम्म अयमेयारूवे अज्ञातिथए ४ समुपज्जित्था – एवं खलु समणे ३ समोसडे । तं गच्छामि णं वंदामि । एवं संपेहेइ २ नंदाओ पुक्खरिणीओ साणियं २ उत्तरेइ जेणेव रायमग्गे तेणेव उवागच्छइ २ ताए उकिड्हाए ५ दहुरगाईए वीईवयमाणे जेणेव ममं अंतिए तेणेव पैहारेत्थ गमणाए । इमं च णं सेणिए राया भिभसारे ण्हाए कयकोउय जाव सब्बालंकारविभूसिए हतिथिखंधवरगए सकोरेटमळदामेणं छत्तेण धरिज्जमाणेणं सेयवरचामरेहि य उद्धव्वमाणेहिं हयगयरह० मह्या भड्ढडगरचाउरंगिणीए सेणाए साद्धि संपारिवुडे मम पायवंदए हव्वमागच्छइ । तए णं से दहुरे सेणियस्स रजो एगेणं आसकिसोरणं वामपाएणं अक्कते समाणे अंतनिगधाइए कए यावि होत्था । तए णं से दहुरे अथामे अबले अवीरिए अपुरिसक्कारपरक्कमे अधारणिज्ज-मित्तिकट्टु एगंतमवक्कमइ करयैल जाव एवं बयासी – नमोत्थु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं । नमोत्थु णं मम धम्मायरियस्स जाव संपाविडकामस्स ।

पुठिंवपि य णं मए समणस्स ३ अंतिए थूलए पाणाइवाए पञ्चक्खाए  
जाव थूलए परिगग्हे पञ्चक्खाए । तं इयाणिपि तस्सेव अंतिए सब्बं  
पाणाइवायं पञ्चक्खामि जाव सब्बं परिगग्हं पञ्चक्खामि जावजीवं  
सब्बं असणं ४ पञ्चक्खामि जावजीवं जंपि य इमं सरीरं इट्टं कंतं जाव  
मा फुसंतु एयंपि य णं चरिमेहिं ऊसासेहिं वोसिरामि त्तिकट्टु । तए णं  
से दहुरे कालमासे कालं किञ्चा जाव सोहम्मे कप्पे दहुरवडिसए उव-  
वायसभाए दहुरदेवत्ताए उववन्ने । एवं खलु गोयमा ! दहुरेण सा दिव्वा  
देविङ्गी लद्धा ३ । दहुरस्स णं भंते ! देवस्स केवइयं कालं ठिई पन्नत्ता ?  
गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता । दहुरे णं भंते ! देवे ताओ  
देवलोगाओ आउक्खएणं ठिइक्खएणं कहिं गच्छिहिइ कहिं उववज्जिहिइ ?  
गोयमा ! से णं दहुरे देवे महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ बुज्जिहिइ मुच्चि-  
हिइ जाव अंतं करेहिइ ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं  
तेरसमस्स नायज्ञयणस्स अयमट्टे पन्नत्ते त्ति वेमि ॥

॥ तेरसमं नायज्ञयणं संमत्तं ॥१३॥

### ॥ चोहसमं अज्ञयणं ॥

(101) जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं तेरसमस्स  
नायज्ञयणस्स अयमट्टे पन्नत्ते चोहसमस्स के अट्टे पन्नत्ते ? एवं  
खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ तेयलिपुरं नाम नैयरं । पमयवणे उज्जाणे ।  
कणगरहे रायी । तस्स णं कणगरहस्स पउमावई देवी । तस्स णं कणग-  
रहस्स रन्नो तेयलिपुत्ते नामं अमच्चे सामदंडभेयनिउणे । तत्थ णं तेयलिपुरे  
कलादे नामं मूसियारदारए होत्था अट्टु जाव अपरिभूए । तस्स णं भदा  
नामं भासिया । तस्स णं कलायासंस मूसियारदारगस्स धूया भद्दाए अंत्तया  
पोटिलां नामं दारिया होत्था रूवेण य उक्किट्टा जाव उक्किट्टुसरीरा । तए  
णं सा पोटिला दारिया अन्नया कयाइ ण्हाया सब्बालंकारविभूसिया

चेदियाचक्कवालसंपरिवुडा उपि पासायवरगया आगासतलगांसि कणगतिंदू-  
सएणं कीलमाणी २ विहरइ । इमं च णं तेयलिपुते अमच्चे एहाए आस-  
खंधवरगए महया भडचडगर० आसवाहणियाए निजायमाणे कलायेस्स  
मूसियारदारंगस्स गिहस्स अदूरसामंतेण वीईवयइ । तए णं से तेयलिपुते  
अमच्चे मूसियारदारंगगिहस्स अदूरसामंतेण वीईवयमाणे २ पोट्टिलं दारियं  
उपि आगासतलगांसि कणगतिंदूसएणं कीलमाणीं पासइ २ पोट्टिलाए दारि-  
याए रूबे य जाव अज्ञोववन्ने कोडुंबियपुरिसे सदावेइ २ एवं वयासी-  
एस णं देवाणुपिया ! कस्स दारिया किंनामधेज्जा वा ? तए णं कोडुं-  
बियपुरिसा तेयलिपुत्तं एवं वयासी – एस णं सामी ! कलायस्स मूसियार-  
दारयस्स धूया भद्दाए अत्तया पोट्टिला नामं दारिया रूबेण य जाव उकिट्ट-  
सरीरा । तए णं से तेयलिपुत्ते आसवाहणियाओ पडिनियत्ते ममाणे  
अंभितरठाणिज्जे पुरिसे सदावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुव्वे देवा-  
णुपिया ! कलायस्स २ धूयं भद्दाए अत्तयं पोट्टिलं दारियं मम भारि-  
यत्ताए वरेह । तए णं ते अंभितरठाणिज्जा पुरिसा तेयलिणा एवं तुत्ता  
हट्टा करयल० तहत्ति जेणेव कलायस्स २ गिहे तेणेव उवागया । तए णं से  
कलाए २ ते पुरिसे एज्जमाणे पासइ २ हट्टुडे आसणाओ अब्मुड्डेइ २  
संत्तदृपयाइं अणुगच्छइ २ आसणेणं उवणिमंतेइ २ आसथ्ये बीसत्थे  
सुहासणवरगए एवं वयासी – संदिसंतु णं देवाणुपिया ! किमागमण-  
पओयणं । तए णं ते अंभितरठाणिज्जा कलायं २ एवं वयासी-अम्हे णं  
देवाणुपिया ! तव धूयं भद्दाए अत्तयं पोट्टिलं दारियं तेयलिपुत्तस्स भारि-  
यत्ताए वरेमो । तं जह णं जाणसि देवाणुपिया ! जुत्तं वा पत्तं वा सला-  
हणिज्जं वा सरिसो वा संजोगो तौ दिज्जउ णं पोट्टिला दारिया तेयलिपुत्तस्स ।  
तो भण देवाणुपिया ! किं दलामो सुँकं । तए णं कलाए २ ते अंभितर-  
ठाणिज्जे पुरिसे एवं वयासी – एस चेव णं देवाणुपिया ! मम सुँकं जन्नं  
तेयलिपुत्ते मम दारियानिमित्तेण अणुगमाहं करेइ । ते ठाणिज्जे पुरिसे  
विपुलेणं असणेणं ४ पुष्पकवथ्य जाव मलालंकारेणं सक्कारेइ सम्माणेइ  
पडिविसज्जेइ । तए णं ते पुरिसा कलायस्स २ गिहाओ पडिनियत्तंति २

जेणेव तेयलिपुत्ते अमच्चे तेणेव उवागच्छंति २ तेयलिपुत्तं एयमट्टं निवेद्यंति । तए णं कलाए २ अन्नया कयाइं सोहणांसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तंसि पोट्टिलं दारियं ष्हायं सव्वालंकारविभूसियं सीयं दुरुहेत्ता मित्तणाइ-संपरिवुडे सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमइ २ सव्विबड्डीए ४ तेयलिपुरं नयरं मज्जंमज्जेणं जेणेव तेयलिस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ पोट्टिलं दारियं तेयलिपुत्तस्स सयमेव भारियत्ताए दलयइ । तए णं तेयलिपुत्ते पोट्टिलं दारियं भारियत्ताए उवणीयं पासइ २ पोट्टिलाए माद्दं पट्टयं दुरुहइ २ सेयापीएहिं कलसेहिं अप्पाणं मज्जावेइ २ अग्निहोमं करेइ २ पाणिग-हणं करेइ २ पोट्टिलाए भारियाए मित्तनाइ जाव परियणं वित्तलेणं असण-पाणखाइमसाइमेणं पुष्फवत्थ जाव पडिविभज्जेइ । तए णं से तेयलिपुत्ते पोट्टिलाए भारियाए अणुरत्ते अविरत्ते उगालाइं जाव विहरइ ।

(102) तए णं से कणगरहे रज्जं य रट्टे य बले य वाहणं य कोसे य कोट्टागारे य अंतेउरे य मुच्छिए ४ जाए २ पुत्ते वियंगेइ । अप्पेगइयाणं हैत्थंगुलियाओ छिंदइ अप्पेगइयाणं हैत्थंगुट्टए छिंदइ । एवं पायंगुलियाओ पायंगुट्टए वि कणसंकुलीयाओ वि नासापुडाइं फालेइ अंगोबंगाइं वियंगेइ । तए णं तीसे पउमावईए देवीए अन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि अयमेयारुवे अज्ञाथिए ४ समुप्पज्जित्था — एवं खलु कणगरहे राया रज्जे य जाव पुत्ते वियंगेइ जाव अंगमंगाइं वियंगेइ । तं जइ णं अहं दारयं पर्यामि सेयं खलु मम तं दारगं कणगरहस्स रहस्सिययं चेव सारक्खमाणीए संगोवेमाणीए विहरित्तए त्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ तेयलिपुत्तं अमच्चं सहावेइ २ एवं वयासी—एवं खलु देवाणुपिया ! कणगरहे राया रज्जे य जाव वियंगेइ । तं जइ णं अहं देवाणुपिया ! दारगं पयायामि तए णं तुमं कणगरहस्स रहस्सिययं चेव अणुपुव्वेण सारक्खमाणे संगोवेमाणे संबड्डेहि । तए णं से दारए उमुक्कबालभावे जाव जोव्वणगमणुप्पत्ते तव य मम य भिक्खार्भायणे भविस्सइ । तए णं से तेयलिपुत्ते पउमावईए एयमट्टं पडिसुणेइ २ पडिगए । तए णं पउमावई देवी पोट्टिला य अमच्ची सम्मेव गव्बं गेणहइ सम्मेव परिवैहंति । तए णं सा

पउमावई नवण्हं मासाणं जाव पियदंसणं सुरुवं दारगं पयाया । जं रयणि च णं पउमावई दारयं पयाया तं रयणि च णं पोट्टिला वि अमच्छी नवण्हं मासाणं विणिधायमावन्नं दारियं पयाया । तए णं सा पउमावई देवी अम्मधाइं सहावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुमं अर्म्मो ! तेयलि- पुत्तं रहस्सिययं चेव सहावेहि । तए णं सा अम्मधाई तहति पडि- सुणेइ २ अंतेउरस्स अवदारेणं निगच्छइ २ जेणेव तेयलिस्स गिहे जेणेव तेयलिपुत्ते तेणेव उवागच्छइ २ करयल जाव एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! पउमावई देवी सहावेइ । तए णं तेयलिपुत्ते अम्म- धाईए अंतिए एयमटुं सोज्ञा हट्टुटे अम्मधाईए साढ्हं सयाओ गिहाओ निगच्छइ २ अंतेउरस्स अवदारेणं रहस्सिययं चेव अणुपविसइ २ जेणेव पउमावई तेणेव उवागच्छइ करयल जाव एवं वयासी – संदिसंतु णं देवाणुपिया ! जं मए कायवं । तए णं पउमावई तेयलिपुत्तं एवं वयासी – एवं खलु कणगरहे राया जाव वियंगेइ । अहं च णं देवाणु- पिया ! दारगं पयाया । तं तुब्बे णं देवाणुपिया ! एयं दारगं गेणहाहि जाव तव मम य भिक्खाभायणे भविस्सइ त्तिकट्टु तेयलिपुत्तस्स हृथ्ये दलयइ । तए णं तेयलिपुत्ते पउमावईए हृथ्याओ दारगं गेणहइ उत्तरि- ज्ञेणं पिहेइ २ अंतेउरस्स रहस्सिययं अवदारेणं निगच्छइ २ जेणेव सए गिहे जेणेव पोट्टिला भारिया तेणेव उवागच्छइ २ पोट्टिलं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिए ! कणगरहे राया रज्जे य जाव वियं- गेइ । अयं च णं दारए कणगरहस्स पुत्ते पउमावईए अत्तए । तं अं तुमं देवाणुपिए ! इमं दारगं कणगरहस्स रहस्सिययं चेव अणुपुञ्चेण सारक्खाहि य संगोवेहि य संबङ्गेहि य । तए णं एस दारए उमुक्क- बालभावे तव य मम य पउमावईए य आहारे भविस्सइ त्तिकट्टु पोट्टिलाए पासे निकिखवैइ २ पोट्टिलाएं पासाओ तं विणिहायमावन्नियं दारियं गेणहइ २ उत्तरिज्ञेणं पिहेइ २ अंतेउरस्स अवदारेणं अणुप- विसइ २ जेणेव पउमावई देवी तेणेव उवागच्छइ २ पउमावईए देवीए पासे ठावेइ जाव पट्टिनिग्गाए । तए णं तीसे पउमावईए अंगपडि-

यारियाओ पउमावइं देविं विणिहायमावनियं दारियं पयायं पासंति २  
जेणेव कणगरहे राया तेणेव उवागच्छंति २ करयल जाव एवं वयासी –  
एवं खलु सामी ! पउमावई देवी मंएलियं दारियं पयाया । तए णं कणगरहे  
राया तीसे मएलियाए दारियाए महया नीहरणं करेइ बहूइं लोगिथाइं  
मयकिञ्चाइं करेइ २ कालेणं विगयसोए जाएँ । तए णं से तेयलिपुत्ते कलं  
कोडुंबियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव चारगसोहणं जाव  
ठिइपडियं जम्हा णं अम्हं एस दारए कणगरहस्स रज्जे जाए तं होउ णं  
दारए नामेण कणगज्जाए जाव अलंभोगसमत्थे जाए ।

(103) तए णं सा पोट्टिला अन्रया कयाइ तेयलिपुत्तस्स अणिढ्डा  
५ जाया यावि होत्था नेच्छाइ णं तेयलिपुत्ते पोट्टिलाए नामंगोयमवि  
सवणयाए किंपुण दंसंणं वा परिभोगं वा । तए णं तीसे पोट्टिलाए  
अन्रया कयाइं पुञ्चरत्तावरत्तकालसमयंसि इमेयारूवे अज्जात्थिए ४ जाव  
समुप्पजित्था – एवं खलु अहं तेयलिपुत्ते पुञ्चिं इड्डा ५ आसि इयाणि  
अणिढ्डा ५ जाया । नेच्छाइ णं तेयलिपुत्ते मम नामं जाव परिभोगं वा  
ओहयमणसंकप्पा जाव झियायइ । तए णं तेयलिपुत्ते पोट्टिलं ओहय-  
मणसंकप्पं जाव झियायमाणं पासइ २ एवं वयासी – मा णं तुमं  
देवाणुपिण्ठे ! ओहयमणसंकप्पा जाव झियाहि । तुमं णं मम महाणसंसि  
विपुलं असणं ४ उवकखडावेहि २ बहूणं समणमाहण जाव वणीमगाणं  
देयमाणी य दवावेमाणी य विहराहि । तए णं सा पोट्टिला तेयलिपुत्तेणं  
अमच्छेणं एवं तुत्ता समाणी हड्डा तेयलिपुत्तस्स एयमट्टं पडिसुणेइ २  
कलांकिं महाणसंसि विपुलं असणं ४ जाव दवावेमाणी विहरह ।

(104) तेणं कालेणं २ सुव्वयाओ नामं अज्जाओ इरियासमियाओ  
जाव गुत्तबंभचारिणीओ बहुसुयाओ बहुपरिवाराओ पुञ्चाणुपुञ्चिं चर-  
माणीओ जेणामेव तेयलिपुरे नयरे तेणेव उवागच्छंति २ अहापडिरुवं  
उगगहं ओगिण्ठंति २ संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणीओ विहरंति ।  
तए णं तासि सुव्वयाणं अज्जाणं एगे संघाडए पढमाए पोरिसीए सज्जायं  
करेइ जाव अडमाणीओ तेयलिपुत्ते गिहं अणुपविड्डाओ । तए णं सा

पोट्टिला ताओ अज्जाओ एज्जमाणीओ पासइ २ हड्डुड्डा आसणाथो अब्बुड्डेइ वंदइ नमंसइ २ विपुलेण असणेण ४ पडिलाभेइ २ एवं वयासी – एवं खलु अहं अज्जाओ ! तेयलिपुत्तस्स पुनिंव इट्टा ५ आसि इयाणि अणिट्टा ५ जाव दंसणं वा परिभोगं वा । तं तुब्बे णं अज्जाओ बहुनायाओ बहुसिक्षियाओ बहुपढियाओ बहूणि गामागर जाव आहिं-डह बहूणं राईसर जाव गिहाइं अणुपविसह । तं अतिथ्याइं भे अज्जाओ ! केइ कहिचि चुण्णजोए वा मंतजोगे वा कम्मणजोए वा हियंउड्डावणे वा काउड्डावणे वा आभिओगिए वा वसीकरणे वा कोउयकम्मे वा भूइ-कम्मे वा मूळे वा कंदे वा छळी वळी सिलिया वा गुळिया वा ओसहे वा भेसज्जे वा उवलद्धुव्वे जेणाहं तेयलिपुत्तस्स पुणरवि इट्टा ५ भवेज्जामि ? तए णं ताओ अज्जाओ पोट्टिलाए एवं बुत्ताओ समाणीओ दोवि कंणे अंगुलियं ठंवेति २ पोट्टिलं एवं वयासी – अम्हे णं देवाणुपिए ! समणीओ निगंथीओ जाव गुत्तबंभचारिणीओ । नो खलु कप्पइ अम्हं एयप्पर्गारं कण्णोहिं वि निसामित्तए किमंग पुण उंवदंसित्तए वा आयरित्तए वा । अम्हे णं तव देवाणुपिया ! विचित्तं केवलिपन्नतं धम्मं परिकहि-ज्जामो । तए णं सा पोट्टिला ताओ अज्जाओ एवं वयासी – इच्छामि णं अज्जाओ ! तुब्बं अंतिए केवलिपन्नतं धम्मं निसामित्तए । तए णं ताओ अज्जाओ पोट्टिलाए विचित्तं धम्मं परिकहेति । तए णं सा पोट्टिला धम्मं सोचा निसम्म हट्टा एवं वयासी – सहहामि णं अज्जाओ ! निगंथं पावयणं जाव से जहेयं तुब्बे वयह । इच्छामि णं अहं तुब्बं अंतिए पंचाणुव्वइयं जाव धम्मं पडिवज्जित्तए । अहासुहं देवाणुपिया । तए णं सा पोट्टिला तासि अज्जाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं जाव धम्मं पडिवज्जइ ताओ अज्जाओ वंदइ नमंसइ २ पडिविसज्जेइ । तए णं सा पोट्टिला समणोवासिया जाया जाव पडिलाभेमाणी विहरइ ।

(105) तए णं तीसे पोट्टिलाए अन्रया कयाइ पुञ्चरत्तावरत्त-कालसमयंसि कुंडुंबजागरियं जागरमाणीए अयमेयारूवे अज्जतिथए ४-एवं खलु अहं तेयलिपुत्तस्स पुनिंव इट्टा ५ आसि इयाणि अणिट्टा ५ जाव

परिभोगं वा । तं सेयं खलु ममं सुव्वयाणं अज्ञाणं अंतिए पञ्चइत्तए । एवं संपेहेइ २ कलं जेणेव तेयलिपुते तेणेव उवागच्छइ २ करयल जाव एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! मए सुव्वयाणं अज्ञाणं अंतिए धम्मे निसंते जाव अब्बणुन्नाया पञ्चइत्तए ! तए णं तेयलिपुते पोट्टिलं एवं वयासी – एवं खलु तुमं देवाणुपिये ! मुँडा पञ्चइया समाणी कालमासे कालं किञ्चा अणंतरेसु देवलोपसु देवत्ताए उववाज्जिह्विसि । तं जइ णं तुमं देवाणुपिये ! ममं ताओ देवलोगाओ आगम्म केवलिपन्नते धम्मे बोहेहि<sup>१</sup> तो हं विसज्जेमि । अह णं तुमं ममं न संबोहेसि तो ते न विसज्जेमि । तए णं सा पोट्टिला तेयलिपुत्तस्स एयमट्टं पडिसुणेइ । तए णं तेयलिपुते विउलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ मित्तनाइ जाव आमंतेइ जाव सम्माणेइ २ पोट्टिलं ष्ठायं जाव पुरिससहस्रवाहिणीयं सीयं दुरुहित्ता मित्तनाइ जाव संपरिकुडे सांविड्डीए जाव रवेणं तेयलिपुरं मज्जंमज्जेणं जेणेव सुव्वयाणं उवस्सए तेणेव उवागच्छइ २ सीयाओ पञ्चोरुहइ २ पोट्टिलं पुरओकट्टु जेणेव सुव्वया अज्ञा तेणेव उवागच्छइ २ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! मम पोट्टिला भारिया इडा ५ । एस णं संसारभउविगगा जाव पञ्चइत्तए । पडिच्छंतु णं देवाणुपिया ! सिसिणिभिक्खं । अहासुहं मा पडिबंधं । तए णं सा पोट्टिला सुव्वयाहिं अज्ञाहिं एवं बुत्ता समाणी हडा उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्कमइ २ सयमेव आभरणमझालंकारं ओमुयइ २ सयमेव पंचमुट्टियं लोयं करेइ २ जेणेव सुव्वयाओ अज्ञाओ तेणेव उवागच्छइ २ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – आलित्ते णं भंते ! लोए एवं जहा देवाणंदा जाव एकारस अंगाइं बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ २ मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झोसेत्ता सट्टिं भत्ताइं अणसणेणं छेएत्ता आलोइयपडिकंता समाहिपत्ता कालमासे कालं किञ्चा अन्नयरेसु देवलोपसु देवत्ताए उववश्चा ।

(106) तए णं से कणगरहे राया अन्नया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते यावि होत्था । तए णं ते राईसर जाव नीहरणं करेति २

अन्नमनं एवं वयासी — एवं खलु देवाणुपिया ! कणगरहे राया रज्जे  
य जाव पुत्ते वियंगित्था॑ । अम्हे णं देवाणुपिया ! रायाहीणा रायाहिड्विया  
रायाहीणकज्जा । अयं च णं तेयली अमच्चे कणगरहस्स रन्नो सब्बट्टाणेसु  
सब्बभूमियासु लङ्घपच्छए दिनवियारे सब्बकज्जवड्डौवए यावि होत्था ।  
तं सेयं खलु अम्हं तेयलिपुत्तं अमच्चं कुमारं जाइत्तए त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स  
एयमहुं पडिसुणेति २ जेणेव तेयलिपुत्ते अमच्चे तेणेव उवागच्छंति २  
तेयलिपुत्तं एवं वयासी — एवं खलु देवाणुपिया ! कणगरहे राया रज्जे य  
रड्डे य जाव वियंगेइ । अम्हे णं देवाणुपिया ! रायाहीणा जाव रायाहीण-  
कज्जा । तुमं च णं देवाणुपिया ! कणगरहस्स रन्नो सब्बटाणेसु जाव  
रज्जधुरार्चितए होत्था । तं जइ णं देवाणुपिया ! अतिथ केइ कुमारे  
रायलक्षणसंपच्चे अभिसेयारिहे तण्णं तुमं अम्हं दलाहि जैण्ण अम्हे  
महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचामो । तए णं तेयलिपुत्ते तेसिं ईसर  
जाव एयमहुं पडिसुणेइ २ कणगज्जयं कुमारं ष्ट्रायं जाव सस्सीरीयं करेइ २  
तेसिं ईसर जाव उज्जेइ २ एवं वयासी — एस णं देवाणुपिया ! कणग-  
रहस्स रन्नो पुत्ते पउमावर्द्दए देवीए अत्तए कणगज्जए नामं कुमारे  
अभिसेर्यारिहे रायलक्षणसंपच्चे भए कणगरहस्स रन्नो रहस्सिययं  
संवड्डिए । पयं णं तुम्भे महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचह । सब्बं च  
तेसिं उद्वाणपरियावणियं पसिकहेइ । तए णं ते ईसर जाव कणगज्जयं  
कुमारं भहया रायाभिसेएणं अभिसिंचंति । तए णं से कणगज्जए कुमारे  
राया आए अहथाहिमक्तं वण्णओ जाव रज्जं पसाहेमाणे विहरइ । तए णं  
सा पउमावर्द्द देवी कणगज्जयं रैयं सदावेइ २ एवं वयासी — एस णं  
पुक्ता ! तव रज्जे जाव अतेउरे थ तुमं च तेयलिपुत्तस्स अमच्चस्स  
पभावेण । तं तुमं णं तेयलिपुत्तं अमच्चं अहड्डहि वरिज्जामाहि यसकारेहि  
सम्मानिहि इंतं अम्हुड्डहि ठियं पउलुवासाहि वचंतं पडिसंसहेहि  
अद्वासणेण उवणिमंतेहि भोगं च से अणुवड्डहि । तए णं से क्षमताम्भए  
सब्बमर्द्दए तहत्ति वयमं पडिसुणेइ जाव भोगं च से संवड्डै ।

(107) तए णं से योट्टुले देवे तेयलिपुत्तं अभिक्षणं २ न्नेवलि-

पश्चते धर्मे संबोहेइ नो चेब णं से तेयलिपुते संबुज्ज्ञाइ । तए णं तस्स पोट्टिलदेवस्स इमेयारूवे अज्ञात्थिए ४—एवं खलु कणगज्ञाए राया तेयलिपुत्तं आढाइ जाव भोगं च संबंधेइ । तए णं से तेयलिपुते अभिक्खणः २ संबोहिज्जमाणे वि धर्मे नो संबुज्ज्ञाइ । तं सेयं खलु कणगज्ञायं तेयलिपुत्ताओ विष्परिणामेइ । तए णं तेयलिपुते कलं एहाए जाव पायच्छ्वचे आसखंधवरगए बहूहिं पुरिसेहिं साद्धि संपरिवुडे सयाओ गिहाओ निगगच्छाइ २ जेणेव कणगज्ञाए राया तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं तेयलिपुत्तं अमवं जे जहा बहवे राईसरतलवर जाव पभियओ पासंति ते तहेव आढायंति परियाणंति अब्मुद्देंति २ अंजलिपरिगगं करेति इट्टाहिं कंताहिं जाव वगूहिं आलवमाणा य संलवमाणा य पुरओ य पिट्टओ य पासओ य मग्गओ य समणुगच्छंति । तए णं से तेयलिपुते जेणेव कणगज्ञाए तेणेव उवागच्छाइ । तए णं से कणगज्ञाए तेयलिपुत्तं एज्जमाणं पासइ २ नो आढाइ नो परियाणाइ नो अब्मुद्देइ अणाढायमाणे ३ परम्मुहे संचिट्टाइ । तए णं से तेयलिपुते कणगज्ञायस्स रओ अंजालिं करेइ । तए णं से कणगज्ञाए राया अणाढायमाणे तुसिणीए परम्मुहे संचिट्टाइ । तए णं तेयलिपुते कणगज्ञायं रायं विष्परिणयं जाणिच्चा भीए जाव संजायभए एवं वयासी—रुहे णं मम कणगज्ञाए राया । हीणे णं मम कणगज्ञाए राया । अबज्ञाए णं कणगज्ञाए । तं न नज्जाइ णं मम केणइ कुमारेण मारेहिइ त्तिकट्टु भीए तत्थे जाव साणियं २ पञ्चोसक्कइ २ तमेव आसखंधं दुरुहहइ २ तेयलिपुरं मज्जामज्जेणं जेणेव सप गिहे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं तेयलिपुत्तं जे जहा ईसर जाव पासंति ते तहा नो आढायंति नो परियाणंति नो अब्मुद्देंति नो अंजालिं० इट्टाइं जाव नो संलवंति नो पुरओ य पिट्टओ य पासओ समणुगच्छंति । तए णं तेयलिपुते जेणेव सप गिहे तेणेव उवागए । जा वि य से तत्थ बाहिरिया परिसा भवह तंजहा—दासे इ वा पेसे इ वा भाइल्लए इ वा सा वि य णं नो आढाइ ३ । जा वि य से अचिभतरिया परिसा भवह तंजहा—पिया इ वा माया इ वा जाव सुण्हा इ

वा सा वि य णं नो आढाइ ३ । तए णं से तेयलिपुत्ते जेणेव वासधरे जेणेव सैयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ २ सयणिजंसि निसीयइ २ एवं वयासी – एवं खलु अहं सयाओ गिहाओ निगगच्छामि तं चेव जाव अद्विभतरिया परिसा नो आढाइ नो परियाणाइ नो अबमुद्देइ । तं सेयं खलु मम अप्पाणं जीवियाओ बवरोवित्तए त्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ तालउडं विसं आसगंसि पक्षिखवइ । से नो संकमइ । तए णं से तेयलिपुत्ते अम्बे नीलुप्पल जाव असि खंधंसि ओहरइ । तथ वि य से धारा ओपङ्गा । तए णं से वेयलिपुत्ते जेणेव असोगवणिया तेणेव उवागच्छइ २ पासगं गीवाए बंधइ २ रुक्खं दुरुहइ २ पासगं रुक्खे बंधइ २ अप्पाणं मुयइ । तथ वि य से रज्जू छिन्ना । तए णं से तेयलिपुत्ते महइमहालियं सिलं गीवाए बंधइ २ अत्थाहमतारमपोरिसीर्यंसि उदगंसि अप्पाणं मुयइ । तथ वि से थाहे जाए । तए णं से तेयलिपुत्ते सुक्कंसि तणकूडंसि अगणिकायं पक्षिखवइ २ अप्पाणं मुयइ । तथ वि य से अगणिकाए विज्ञाए । तए णं से तेयलिपुत्ते एवं वयासी – सद्देयं खलु भो समणा वयंति । स्त्रेयं खलु भो माहणा वयंति । सद्देयं खलु भो समणा माहणा वयंति । अहं एगो असद्देयं वयामि । एवं खलु अहं सह पुत्तेहिं अपुत्ते । को मेदं सहहिस्सइ ? सह मित्तेहिं अमित्ते । को मेदं सहहिस्सइ ? एवं अत्थेणं दारेणं दासेहिं पेसेहिं परिजणेण । एवं खलु तेयलिपुत्तेण अम्बेणं कणगज्ञाएणं रज्ञा अवज्ञाएणं समाणेणं तालपुडगे विसे आसगंसि पक्षिखत्ते । से वि य नो कमइ । को मेयं सहहिस्सइ ? तेयलिपुत्ते नीलुप्पल जाव खंधंसि ओहरिए । तथ वि य से धारा ओपङ्गा । को मेदं सहहिस्सइ ? तेयलिपुत्ते पासगं गीवाए बंधित्ता जाव रज्जू छिन्ना । को मेयं सहहिस्सइ ? तेयलिपुत्ते महालियं जाव बंधित्ता अत्थाह जाव उदगंसि अप्पाणं मुक्ते । तथ वि य णं थाहे जाए । को मेयं सहहिस्सइ ? तेयलिपुत्ते सुक्कंसि तणकूडे अगगी विज्ञाए । को मेयं सहहिस्सइ ? – ओहयमण-संकप्पे जाव शियायइ । तए णं से पोट्टिले देवे पोट्टिलारूबं विडब्बइ २ तेयलिपुत्तस्स अदूरसामंते ठिष्ठा एवं वयासी – हं भो तेयलिपुत्ता !

पुरओ पवाए पिट्ठुओ हत्थिभयं दुहओ अचक्कुफासे मज्जे सराणि  
पैतंति । गामे पलित्ते रैन्ने झियाइ रैन्ने पलित्ते गामे झियाइ । आउसो  
तेयलिपुत्ता ! कओ वयामो ? तए ण से तेयलिपुत्ते पोट्टिलं एवं वयासी –  
भीयस्स खलु भो ! पठ्वज्ञा संरणं । उङ्क्कियस्स सदेसगमणं छुहियस्स  
अब्बं तिसियस्स पाणं आउरस्स भेसज्जं माहयस्स रहस्स अभिजुत्तस्स  
पञ्चयकरणं अद्वाणपरिसंतस्स वाहणगमणं तरिँडकामस्स पवहँणकिञ्चं परं  
अभिओजिउकामस्स सहायकिञ्चं । खंतस्स दंतस्स जिइंदियस्स एत्तो  
एगमवि न भवइ । तए ण से पोट्टिले देवे तेयलिपुत्तं अमञ्चं एवं वयासी –  
सुट्ठु ण तुमं तेयलिपुत्ता ! एयमटुं आयाणिहि त्तिकट्टु दोञ्चंपि तञ्चंपि  
एवं वयई २ जामेव दिसिं पाउब्बूए तामेव दिसिं पडिगए ।

(108) तए ण तस्स तेयलिपुत्तस्स सुभेणं परिणामेणं जाईसरणे  
समुप्पन्ने । तए ण तेयलिपुत्तस्स अयमेयारूपे अज्जतिथए ४ समुप्पन्ने –  
एवं खलु अहं इहेव जंबुहीवे २ महाविंदेहे वासे पोक्खलावर्डविजए पौंड-  
रिगिणीए रायहाणीए महापउमे नामं राया होतथा । तए ण हं थेराणं अंतिए  
मुँडे भवित्ता जाव चोइसपुव्वाइं बहूणि वासाणि सामण्णपरियांगं पाउणित्ता  
मासियाए संलेहणाए महासुक्के कप्पे देवे । तए ण हं ताओ देवलोगाओ  
आउक्खवएणं भवक्खवएणं ठिइक्खवएणं अणंतरं चयं चइत्ता इहेव तेयलि-  
पुरे तेयलिस्स अमञ्चस्स भद्वाए भारियाए दारगत्ताए पञ्चायाए । तं सेयं  
खलु मम पुव्वदिट्टाइं महव्वयाइं सयमेव उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए ।  
एवं संपेहेइ २ सयमेव महंव्वयाइं आरुहेइ २ जेणेव पमयवणे उज्जाणे  
तेणेव उवागच्छइ २ असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलापैट्ट्यांसि सुह-  
निसण्णस्स अणुचिंतेमाणस्स पुव्वाहीयाइं सामाहयमाहयाइं चोइसपुव्वाइं  
सयमेव अभिसमन्नागयाइं । तए ण तस्स तेयलिपुत्तस्स अणगारस्स  
सुभेणं परिणामेणं जाव तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेणं कम्मरय-  
विकरणकरं अपुठ्वकरणं पविट्ठस्स केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने ।

(109) तए ण तेयलिपुरे नयरे अहासन्निहिएहिं वाणमंतरेरहिं  
देवेहिं देवीहि य देवदुंदुहीओ समाहयाओ दसद्ववणे कुसुमे निवाइए

दिव्यो नीयगंधच्छनिन्नाएः करु यावि होत्था । तए णं से कणगज्ञाएः राया  
इमीसे कहाए लद्धुः समाणेः एवं वयासी — एवं खलु तेयलिपुत्ते माएः  
अवज्ञाए मुंडे भवित्ता पञ्चइए । तं गच्छामि णं तेयलिपुत्तं अणगारं वंद्वामि  
नमंसामि २ एयमद्वं विणएणं भुज्ज्वे २ खामेमि । एवं संपेहेइ २ एहाए  
चाउरंगिणीए सेणाए जेणेबः पमयवषे उद्वाणे जेणेब तेयलिपुत्ते अणगारे  
तेणेब उवागच्छइ २ तेयलिपुत्तं वंदह नमंसइ २ पयमद्वं च णं विणएणं  
भुज्ज्वो २ खामेइ २ नज्ञासने जाव पञ्जुवासइ । तए णं से तेयलिपुत्ते  
अणगारे कणगज्ञाए रत्नो तीसे य महाइमहालियाए परिसाए धम्मं  
परिकहेइ । तए णं से कणगज्ञाए राया तेयलिपुत्तस्स केवलिस्स अंतिए  
धम्मं सोच्चा निसम्म पंचाणुव्वहयं सत्त्वसिक्षावहयं सावगधम्मं  
पडिवज्ज्वइ २ समणोवासए जाए जाव अभिगयजीवाजीवे । तए णं तेयलि-  
पुत्ते केवली बहूणि वासाणि केवलि परियागं पाउणित्ता जाव सिद्धे ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महाबीरेणं जाव संपत्तेणं  
चोहसमस्स नायज्ञयणस्स अयमद्वे पञ्चते चिबोमि ।

॥ चोहसमं नायज्ञयणं समतं ॥ १४॥

॥ पञ्चसमं अज्ञयणं ॥

(110) जहाए भंके ! चोहसमस्स नायज्ञयणस्स अयमद्वे पञ्चते  
पञ्चसमस्स णं के अद्वे पञ्चते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ चंपा  
नाम नयरी होत्था पुण्णभद्वे चेहए जियसत्तु राया । तत्थ णं चंपाए  
नयरीए धैणे नामं सत्थवाहे होत्था अद्वे जाव अपरिभूए । तीसे णं  
चंपाए नयरीए उत्तरपुरथिमे दिसीभाए अहिच्छत्ता नामं नयरी होत्था

रिद्वित्थमियसमिद्वा वणओ । तथ्यं अहिच्छत्ताए नयरीए कणगकेऊ  
 नामं राया होत्था वणओ । तए णं तस्स धणस्स सत्थवाहस्स  
 अज्ञया कयाइ पुब्वरत्तावरत्तकालसमयांसि इमेयारूवे अज्ञत्थिए  
 चिंतिए पथिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था – सेयं खलु मम विपुलं  
 पणियभंडमायाए अहिच्छत्तं नयरिं वाणिज्जाए गमित्तए । एवं संपेहेइ २  
 गणिमं च ४ चउविवहं भंडं गेणहइ सगडीसागडं सज्जेइ २ सगडी-  
 सागडं भरेइ २ कोङुवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं  
 तुम्बे देवाणुपिया ! चंपाए नयरीए सिंधाडग जाव पहेसु एवं वयहै –  
 एवं खलु देवाणुपिया ! धणे सत्थवाहे विपुलं पणियं आदाय इच्छहइ  
 अहिच्छत्तं नयरिं वाणिज्जाए गमित्तए । तं जो णं देवाणुपिया ! चरए  
 वा चीरिए वा चम्मखंडिए वा मिच्छुंडे वा पंडरगे वा गोयमे वा  
 गोवच्चिए वा गिहिधंमचित्तए वा अविरुद्धविरुद्धवुद्गुसावगरत्तपडनिगंथ-  
 प्यभिइपासंडत्थे वा गिहत्थे वा धणेणं साद्वं अहिच्छत्तं नयरिं गच्छह  
 तस्स णं धणे अच्छत्तगस्स छत्तगं दलाइ अणुवाहणस्स ओवाहणाओ  
 दलयह अकुंडियस्स कुंडियं दलयह अपत्थयणस्स पत्थयणं दलयह  
 अपक्लेषगस्स पक्लेवं दलयह अंतरा वि य से पडियस्स वा भग्नलुगस्स  
 साहेजं दलयह सुहंसुहेण य अहिच्छत्तं संपावेइ चिकट्टु दोषंपि तज्जंपि  
 घोसणं घोसेह २ मम एयमाणासियं पञ्चपिणह । तए णं ते कोङुवियपुरिसा  
 जाव एवं वयासी – हंदि सुणंतु भगवंतो चंपानयरीवस्थवा बहवे  
 चरणा जाव पञ्चपिणंति । तए णं तेसि कोङुवियपुरिसाणं अंतिए  
 एयमहं सोवा चंपाए नयरीए बहवे चरणा य जाव गिहस्था य जेणेव  
 धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छंति । तए णं धणे सत्थवाहे तेसि चरणाण  
 य जाव गिहस्था य अच्छत्तगस्स छत्तं दलयह जाव वस्थयणं दलाइ –  
 गच्छह णं तुम्बे देवाणुपिया ! चंपाए नवरीए बहिया अगुज्जाणांसि मम  
 पडिक्लेमाणा चिह्नह । तए णं से चरणा य० धणेणं सत्थवाहेणं एवं  
 तुम्बा समाप्ता जाव चिह्नंति । तए णं धणे सत्थवाहे सोहर्षंसि तिहिकरण-  
 ममसत्थांसि चिह्नलं असणं ४ उवक्लेहावेइ २ मित्ताइ आमंतेइ २ भेषणं

भोयावेइ २ आपुच्छइ २ सगडीसागडं जोयावेइ २ चंपाओ नयरीओ निगच्छइ नाइविष्पिगट्टेहिं अद्वाणेहिं वसमाणे २ सुहेहिं वसहिपायरासेहिं अंगं जणवयं मज्जांमज्जेणं जेणेव देसंगं तेणेव उवागच्छइ २ सगडीसागडं मोयावेइ सत्थनिवेसं करेइ २ कोहुंवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – तुब्भेणं देवाणुपिया ! मम सत्थनिवेसंसि महया २ सहेणं उग्घोसेमाणा २ एवं वयह – एवं खलु देवाणुपिया ! इमीसे आगामियाए छिन्नावायाए दीहमद्वाए अडवीए बहुमज्जादेसभाए एत्थं बहवे नंदिफला नामं रुक्खा पञ्चत्ता किण्हा जाव पत्तिया पुष्पिया फलिया हरिया रेरिज्जमाणा सिरीई अईव २ उवसोभेमाणा चिद्वन्ति मणुन्ना वण्णेणं ४ जाव मणुन्ना फासेणं मणुन्ना छायाए । तं जो णं देवाणुपिया ! तेसिं नंदिफलाणं रुक्खाणं मूलाणि वा कंदतयपत्तपुष्पफलबीयाणि वा हरियाणि वा आहारेइ छायाए वा वीसमझ तस्स णं आवाए भद्रए भवइ तओ पच्छा परिणम-माणा २ अकाले चेव जीवियाओ ववरोवेइ । तं मा णं देवाणुपिया ! केहैं तेसिं नंदिफलाणं मूलाणि वा जाव छायाए वा वीसमउ मा णं से वि अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जिस्सइ । तुब्भेणं देवाणुपिया ! अन्नेसिं रुक्खाणं मूलाणि य जाव हरियाणि य आहारेह छायासु वीसमह त्ति घोसणं घोसेह जाव पञ्चपिणंति । तए णं धणे सत्थवाहे सगडीसागडं जोएइ २ जेणेव नंदिफला रुक्खा तेणेव उवागच्छइ २ तेसिं नंदिफलाणं अदूर्सामंते सत्थनिवेसं करेइ २ दोञ्चंपि तञ्चंपि कोहुंविय-पुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – तुब्भेणं देवाणुपिया ! मम सत्थनिवेसंसि महया २ सहेणं उग्घोसेमाणा २ एवं वयह – एए णं देवाणुपिया ! ते नंदिफला रुक्खा किण्हा जाव मणुन्ना छायाए । तं जो णं देवाणुपिया । एसिं नंदिफलाणं रुक्खाणं मूलाणि वा कंदपुष्पतयापत्तफलाणि जाव अकाले चेव जीवियाओ ववरोवेइ । तं मा णं तुब्भे जाव वीसमह मा णं अकाले चेव जीवियाओ ववरोविस्संति अन्नेसिं रुक्खाणं मूलाणि य जाव वीसमह त्तिकट्टु घोसणं जाव पञ्चपिणंति । तथं णं अत्थेगङ्ग्या पुरिसा धणस्स सत्थवाहस्स एयमद्दुं सहहंति जाव रोयंति एयमद्दुं सहहमाणा

तेसि नंदिफलाणं दूरंदूरेण परिहरमाणा २ अन्नोसि रुक्खाणं मूलाणि य  
जाव वीसमंति । तेसि णं आवाए नो भद्रए भवइ तओ पच्छा परिणम-  
माणा २ सुभरूवत्ताए ५ भुजो २ परिणमंति । एवामेव समणाउसो !  
जो अम्हं निगंथो वा २ जाव पंचसु कामगुणेसु नो सज्जइ से णं इह-  
भवे चेव बहूणं समणाणं ४ अच्छणिज्जे परलोए नो आगच्छइ जाव वीई-  
वइस्सइ । तथं णं अप्पेगइया पुरिसा धणस्स एयमटुं नो सद्दहंति ३  
धणस्स एयमटुं असद्दहमाणा ३ जेणेव ते नंदिफला तेणेव उवागच्छंति २  
तेसि नंदिफलाणं मूलाणि य जाव वीसमंति तोसि णं आवाए भद्रए भवइ  
तओ पच्छा परिणममाणा जाव ववरोवेति । एवामेव समणाउसो ! जो  
अम्हं निगंथो वा २ पव्वइए पंचसु कामगुणेसु सज्जइ जाव अणुपरि-  
यहिस्सइ जहा व ते पुरिसा । तए णं से धणे सगडीसागडं जोयावेइ २  
जेणेव अहिच्छत्ता नयरी तेणेव उवागच्छइ २ अहिच्छत्ताए नयरीए  
बहिया अगुज्जाणे सत्थनिवेसं करेइ २ सगडीसागडं मोयावेइ । तए णं  
से धणे सत्थवाहे महत्थं ३ रायारिहं पाहुडं गेणहइ २ बहुपुरिसेहिं साद्धिं  
संपरिवुडे अहिच्छत्तं नयरिं मज्जंमज्जेणं अणुपविसइ २ जेणेव कणग-  
केऊ राया तेणेव उवागच्छइ २ करयल जाव बद्धावेइ २ तं महत्थं ३  
पाहुडं उवणेइ । तए णं से कणगकेऊ राया हटुतुडे धणस्स सत्थवाहस्स  
तं महत्थं जाव पडिच्छइ २ धणं सत्थवाहं सकारेइ सम्माणेइ २ उसुकं  
वियरइ २ पडिविसज्जेइ २ भंडविणिमयं करेइ २ पडिभंडं गेणहइ २  
सुहंसुहेणं जेणेव चंपा नयरी तेणेव उवागच्छइ २ मित्तनाइअभिसम-  
आगए विपुलाइं माणुस्सगाइं जाव विहरइ । तेणं कालेणं २ थेरागमणं धणे  
सत्थवाहे धम्मं सोचा जेट्टुपुत्तं कुहुंबे ठावेत्ता जाव पव्वइए सामाइय-  
माइयाइं एकारस अंगाइं बहूणि वासाणि जाव मासियाए जाव अन्नयरेसु  
देवलोएसु देवत्ताए उवबन्ने महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ जाव अंतं करेहिइ ।

एवं खलु जंबु ! समणेणं जाव संपत्तेणं पञ्चरसमस्स नायज्ञयणस्स  
अयमट्टे पञ्चते त्तिबेमि ।

॥ पञ्चरसमे नायज्ञयणी समत्ते ॥१५॥

## ॥ सोलसमं अज्जयण ॥

(111) जइ णं भंते ! समणेण ३ जाव संपत्तेण पन्नरसमस्स नाय-  
ज्जयणस्स अयमट्टे पन्नते सोलसमस्स णं भंते ! नायज्जयणस्स के  
अट्टे पन्नते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेण २ चंपा नामं नयरी होत्था ।  
तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सुभूमिभागे नामं  
उज्जाणे होत्था । तत्थ णं चंपाए नयरीए तओ माहणा भायरो परिवसंति  
तंजहा — सोमे सोमदत्ते सोमभूई अड्डा जाव अपरिभूया रिउव्वेयजउव्वेय-  
सामेव्यअथव्वणव्येय जाव सुपरिनिट्ठिया । तेसि माहणाणं तओ भारियाओ  
होत्था तंजहा — नागसिरी भूयसिरी जक्खसिरी सुकुमाला जाव तेसि णं  
माहणाणं इट्टाओ विउले माणुस्सए कामभोए भुंजमाणा विहरंति । तए  
णं तेसि माहणाणं अन्नया कयाइ एगयओ समुवागयाणं जाव इमेयारूवे  
मिहोकहासमुलावे समुप्पज्जित्था — एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं इमे  
विउले धणे जाव सावएज्जे अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं  
दाउं पकामं भोत्तुं पकामं परिभाएउं । तं सेयं खलु अम्हं देवाणुप्पिया !  
अन्नमन्नस्स गिहेसु कलाकळिं विपुलं असणपाणखाइमसाइमं उवक्खडेउं  
परिभुंजेमाणाणं विहरित्तए । अन्नमन्नस्स एयमट्टं पडिसुणेति कलाकळिं  
अन्नमन्नस्स गिहेसु विपुलं असणं ४ उवक्खडावेति २ परिभुंजेमाणा  
विहरंति । तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए अन्नया कयाइ भोयण-  
वारंए जाए यावि होत्था । तए णं सा नागसिरी माहणी विपुलं असणं  
४ उवक्खडावेइ २ एगं महं सालइयं तिच्छलाउयं बहुसंभारसंजुत्तं नेहाव-  
गाढं उवक्खडावेइ एगं विंदुयं करयलंसि आसाएइ २ तं खारं कडुयं  
अर्खज्जं विसभूयं जाणित्ता एवं वयासी — धिरत्यु णं मम नागसिरीए  
अर्धंन्नाए अपुण्णाए दूभगाए दूभगसत्ताए दूभग्निबोलियाए जाए णं मए  
सालइए बहुसंभारसंभिए नेहावगढे उवक्खडिए सुबहुदृव्वक्खए नेह-  
क्खए य कए । तं जइ णं ममं जाउयाओ जाणिस्संति तो णं मम खिसि-  
स्संति । तं जावतीव ममं जाउयाओ न जाणंति ताव मम सेयं एयं  
सालइयं तिच्छलाउयं बहुसंभारनेहक्यं एगंते गोवित्तए अन्नं सालइयं

महुरलाउयं जाव नेहावगाढं उवक्खडित्तए। एवं संपेहेइ २ तं सालइयं जाव गोवेइ २ अन्नं सालइयं महुरलाउयं उवक्खडेइ २ तेसिं माहणाणं प्हायाणं जाव सुहासणवरगयाणं तं विपुलं असणं ४ परिवेसेइ। तए णं ते माहणा जिमियभुत्तुत्तरागया समाणा आयंता चोक्खा परम-सुझभूया सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्था। तए णं ताओ माहणीओ प्हायाओ जाव विभूसियाओ तं विपुलं असणं ४ आहारेति २ जेणेव सयाइं २ गिहाइं तेणेव उवागच्छंति २ सकम्मसंपउत्ताओ जायाओ।

(112) तेणं कालेणं २ धम्मघोसा नामं थेरा जाव बहुपरिवारी जेणेव चंपा नयरी जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे तेणेव उवागच्छंति २ अहापडिरुवं जाव विहरंति। परिसा निगया धम्मो कहिओ परिसा पडिगया। तए णं तेसिं धम्मघोसाणं थेराणं अंतेवासी धम्मरुई नामं अणगारे उराले जाव तेयलेसे मासंमासेणं खममाणे विहरइ। तए णं से धम्मरुई अणगारे मासखमणपारणगांसि पढमाए पोरिसीए सज्जायं करेइ २ बीयाए पोरिसीए एवं जहा गोयमसामी तहेव डंगाहेइ २ तहेव धम्मघोसं थेरं आपुच्छइ जाव चंपाए नयरीए उच्चनीयमज्ज्ञमकुलाइं जाव अडमाणे जेणेव नागसिरीए माहणीए गिहे तेणेव अणुपविट्ठे। तए णं सा नागसिरी माहणी धम्मरुई एज्जमाणं पासइ २ तस्स सालइयस्स तित्त-कडुयस्स बहुनेहावगाढस्स ईडणट्टयाए हट्टुट्टा उट्टाए उट्टेइ २ जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ २ तं सालइयं तित्तकडुयं च बहुनेहावगाढं धम्मरुईस्स अणगारस्स पडिंगहांसि सब्बमेव निस्सिरइ। तए णं से धम्म-रुई अणगारे अहापज्जत्तमित्तिकट्टु नागसिरीए माहणीए गिहाओ पडिनि-क्खमइ २ चंपाए नयरीए मज्ज्ञमज्ज्ञेणं पडिनिक्खमइ २ जेणेव सुभूमि-भागे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २ जेणेव धम्मघोसा थेरा तेणेव उवा-गच्छइ २ धम्मघोसस्स अदूरसामंते अन्रपाणं पडिलेहेइ २ अन्रपाणं करयलंसि पडिदंसेइ। तए णं धम्मघोसा थेरा तस्स सालइयस्स नेहा-वगाढस्स गंधेणं अभिभूया समाणा ताओ सालइयाओ नेहावगाढाओ एं बिंदुयं गहाय करयलंसि आसादिंति तित्तं खारं कडुयं अख्यजं

अभोजं विसभूयं जाणित्ता धम्मरुद्दं अणगारं एवं वयासी—जइ णं  
 तुमं देवाणुपिया ! एयं सालइयं जाव नेहावगाढं आहारेसि तो णं तुमं  
 अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि । तं मा णं तुमं देवाणुपिया !  
 ईमं सालइयं जाव आहारेसि मा णं तुमं अकाले चेव जीवियाओ वव-  
 रोविज्जसि । तं गच्छह णं तुमं देवाणुपिया ! ईमं सालइयं एगंतमणा-  
 वाए औचित्ते थंडिल्लै परिट्टवेहि २ अनं कौसुयं एसणिज्जं असणं ४ पडि-  
 गाहेत्ता आहारं आहारेहि । तए णं से धम्मरुद्दं अणगारे धम्मघोसेण  
 थेरेण एवं तुते समाणे धम्मघोसस्स थेरस्स अंतियाओ पडिनिकख-  
 मइ २ सुभूमिभागाओ उज्जाणाओ अदूरसामंते थंडिल्लै पडिल्लेहेहि २  
 ताओ सालइयाओ एगं बिंदुगं गहाय २ थंडिल्लंसि निसिरइ ।  
 तए णं तस्स सालइयस्स तित्तकडुयस्स बहुनेहावगाढस्स गंधेण बहूणि  
 पिपीलिगासहस्राणि पाउब्भूया जा जहा य णं पिपीलिगा आहारेइ सा  
 णं तहा अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जइ । तए णं तस्स धम्मरुद्दस्स  
 अणगारस्स ईमेयारुवे अज्ञतिथिए ४— जइ ताव ईमस्स सालइयस्स जाव  
 एगंमि बिंदुयंमि पक्षित्तांमि अणेगाइं पिपीलिगासहस्राइं ववरोविज्जंति  
 तं जइ णं अहं एयं सालइयं थंडिल्लंसि सव्वं निसिरामि तो णं बहूणं  
 पाणाणं ४ बहकरणं भविस्सइ । तं सेयं खलु भूम ईयं सालइयं जाव नेहाव-  
 गाढं सयमेव आहरित्तेए भम चेव एएणं सरीरएणं निज्जाउ त्तिकट्टु  
 एवं संपेहेहि २ मुहोत्तियं २ पडिलेहेहि २ ससीसोवरियं कायं पमज्जेहि २  
 तं सालइयं तित्तकडुयं बहुनेहावगाढं विलमिव पञ्चगभूएणं अप्पाणएणं  
 सव्वं सरीरकोट्टगंसि पक्षिववइ । तए णं तस्स धम्मरुद्दयस्स तं सालइयं  
 जाव नेहावगाढं आहरियस्स समाणस्स मुहुत्तंतरेणं परिणममाणांसि  
 सरीरगांसि वेयणा पाउब्भूया उज्जला जाव दुरहियासा । तए णं से धम्मरुद्दं  
 अणगारे अथामे अबले अवीरिए अपुरिसकारपरकमे अधारणिज्जमिति-  
 कट्टु आयारभंडगं एगंते ठावेहि २ थंडिल्लै पडिलेहेहि २ दब्भसंथारगं  
 संथारेहि २ दब्भसंथारगं दुरुहइ २ पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसणे कर-  
 यलपरिगाहियं एवं वयासी—नमोत्थु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं नमोत्थु

णं धम्मघोसाणं थेराणं मम धम्मायरियाणं मम धम्मोवैएसगाणं पुर्विंव पि  
णं मए धम्मघोसाणं थेराणं अंतिए सब्बे पाणाइवाए पञ्चक्खाए जाव-  
जीवाए जाव परिगहे इयाणि पि णं अहं तेसिं चेव भगवंताणं अंतिए  
सब्बं पाणाइवायं पञ्चक्खामि जाव परिगहं पञ्चक्खामि जावजीवाए जहा  
खंदओ जाव चरिमेहिं उस्सासेहिं वोसिरामि त्तिकट्टु आलोइयपडिकंते  
समाहिपत्ते कालगए । तए णं ते धम्मघोसा थेरा धम्मरुइं अणगारं  
चिरगयं जाणित्ता समणे निगंथे सहावेति २ एवं वयासी – एवं खलु  
देवाणुपिया ! धम्मरुइस्स अणगारस्स मासक्खमणपारणगांसि सालइयस्स  
जाव नेहावगाढस्स निसिरणट्टयाए बहिया निगए चिरावेह । तं गच्छह णं  
तुब्बे देवाणुपिया ! धम्मरुइस्स अणगारस्स सब्बओ समंता मग्गणगवेसणं  
करेह । तए णं ते समणा निगंथा जाव पडिमुणेति २ धम्मघोसाणं थेराणं  
अंतियाओ पडिनिक्खमांति २ धम्मरुइस्स अणगारस्स सब्बओ समंता  
मग्गणगवेसणं करेमाणा जेणेव थंडिलुं तेणेव उवागच्छंति २ धम्मरुइ-  
यस्स अणगारस्स सरीरगं निष्पाणं निच्छेट्टं जीवविप्पजदं पासंति २ हा  
हा ! अहो ! अकज्जमितिकट्टु धम्मरुइस्स अणगारस्स परिनिव्वाणवत्तियं  
काउस्सगं करेति धम्मरुइस्स आयारभंडगं गेणहंति २ जेणेव धम्मघोसा  
थेरा तेणेव उवागच्छंति २ गमणागमणं पडिक्कमांति २ एवं वयासी –  
एवं खलु अम्हे तुब्बं अंतियाओ पडिनिक्खमामो २ सुभूमिभागस्स  
उज्जाणस्स परिपेरंतेणं धम्मरुइस्स अणगारस्स सब्बं जाव करेमाणा जेणेव  
थंडिलु तेणेव उवागच्छामो जाव इहं हव्वमागया । तं कालगए णं  
भंते ! धम्मरुई अणगारे इमे से आयारभंडए । तए णं धम्मघोसा थेरा  
पुर्ववगए उवओगं गच्छंति॑ २ समणे निगंथे निगंथीओ य सहावेति॒ २  
एवं वयासी – एवं खलु अज्जो ! मम अंतेवासी धम्मरुई नामं अणगारे  
पगइभदए जाव विणीए मासंमासेणं अणिक्खत्तेणं तवोकम्मेणं जाव  
नागसिरीए माहणीए गिहं अणुपविसंइ । तए णं सा नागसिरी माहणी  
जाव निसिरइ । तए णं से धम्मरुई अणगारे अहापज्जत्तमित्तिकट्टु जाव  
कालं अणवकंखमाणे विहरइ । से णं धम्मरुई अणगारे बहूणि वासाणि

सामण्णपरियागं पाउणित्ता आलोइयपडिकंते समाहिपत्ते कालमासे कालं  
किञ्चा उडुं सोहम्मे जाव सव्वदुसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववन्ने । तथ  
णं अथेगइयाणं जहन्ममणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । तथ  
णं धम्मरुइस्स वि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । से णं  
धम्मरुइ देवे ताओ देवलोगाओ जाव महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ ।

(113) तं धिरत्थु णं अज्जो ! नागसिरीए माहणीए अधन्नाए  
अपुण्णाए जाव निंबोलियाए जाए णं तहारूवे साहू साहुरूवे धम्मरुइ  
अणगरे मासक्खमणपारणगंसि सालइएणं जाव गाढेणं अकाले चेव  
जीवियाओ ववरोविए । तए णं ते समणा निगंथा धम्मघोसाणं थेराणं  
अंतिए एयमटुं सोज्ञा निसम्म चंपाए सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणस्स  
एवमाइक्खंति ४— धिरत्थु णं देवाणुपिया ! नागसिराए जाव निंबोलि-  
याए जाए णं तहारूवे साहू साहुरूवे सालइएणं जीवियाओ ववरोविए ।  
तए णं तेसि समणाणं अंतिए एयमटुं सोज्ञा निसम्म बहुजणो अन्नमन्नस्स  
एवमाइक्खइ एवं भासइ—धिरत्थु णं नागसिरीए माहणीए जाव जीवियाओ  
ववरोविए । तए णं ते माहणा चंपाए नयरीए बहुजणस्स अंतिए एयमटुं  
सोज्ञा निसम्म आसुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणा जेणेव नागसिरी माहणी  
तेणेव उवागच्छंति २ नागसिरिं माहणिं एवं वयासी—हं भो नागसिरी !  
अपत्थियपत्थिए ! दुरंतपंतलक्खणे ! हीणपुण्णचाउहसे ! धिरत्थु णं तव  
अधन्नाए अपुण्णाए निंबोलियाए जाए णं तुमे तहारूवे साहू साहुरूवे  
मासक्खमणपारणगंसि सालइएणं जाव ववरोविए उच्चावयाहिं अक्कोसणाहिं  
अक्कोसंति उच्चावयाहिं उद्घंसणाहिं उद्घंसेति उच्चावयाहिं निब्भच्छणाहिं  
निब्भच्छेति उच्चावयाहिं निच्छोडणाहिं निच्छोडेति तज्जेति तालेति  
तज्जित्ता तालित्ता सयाओ गिहाओ निच्छुभंति । तए णं सा नागसिरी  
सयाओ गिहाओ निच्छुढा समाणी चंपाए नयरीए सिंघाडगतिय-  
चउक्कचउरचउम्महापहपहेसु बहुजणेणं हीलिज्जमाणी खिसिज्ज-  
माणी निदिज्जमाणी गरहिज्जमाणी तिज्जिज्जमाणी धैववहिज्जमाणी  
धिक्कारिज्जमाणी शुक्कारिज्जमाणी कथइ ठाणं वा निलयं वा अलभ-

माणी २ दंडीखंडनिवसणा खंडमल्यखंडघडगहत्थगया फुट्हडाहडसीसा  
मच्छियाचडगरेण अन्निज्जमाणमग्गा गिहंगिहेण देहंबंलियाए वित्ति  
कप्पेमाणा विहरइ । तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए तवभवांसि  
चेव सोलस रोयायंका पाउभूया तंजहा— सासे कासे जोणिसूले जाव  
कोढे । तए णं सा नागसिरी माहणी सोलसहिं रोगायंकेहिं अभिभूया समाणी  
अद्गुहहवसद्वा कालमासे कालं किञ्चा छट्टीए पुढवीए उकोसं बावीस-  
सागरोवमठिईएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववन्ना । सा णं तओ अणंतरं  
उव्वटित्ता मच्छेसु उववन्ना । तथ्य णं सत्थवज्ज्ञा दाहवकंतीए कालमासे  
कालं किञ्चा अहेसत्तमाए पुढवीए उकोसंसागरोवमठिईएसु नरएसु नेर-  
इएसु उववन्ना । सा णं तओणंतरं उव्वटित्ता दोञ्चंपि मच्छेसु उववज्ज्ञइ ।  
तथ्य वि य णं सत्थवज्ज्ञा दाहवकंतीए दोञ्चंपि अहे सत्तमाए पुढवीए  
उकोसंसागरोवमठिईएसु नेरइएसु उववज्ज्ञइ । सा णं तओहिंतो जाव उव्व-  
टित्ता तञ्चंपि मच्छेसु उववन्ना । तथ्य वि य णं सत्थवज्ज्ञा जाव कालमासे  
कालं किञ्चा दोञ्चंपि छट्टीए पुढवीए उकोसेण । तओणंतरं उव्वटित्ता उरएसु  
एवं जहा गोसाले तहा नेयछं जाव रयणपेभाओ पुंढवीओ उव्वटित्ता सन्नीर्सु  
उववन्ना । तओ उव्वटित्ता जाइं इमाइं खह्यरविहाणांइ जाव अदुत्तरं च  
णं खरबायरपुढविकाइयत्ताए तेसु अणेगसयसहस्रस्तुतो ।

(114) सा णं तओणंतरं उव्वटित्ता इहेव जंबुद्धिवे दीवे भारहे  
वासे चंपाए नयरीए सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स भद्वाए भारियाए कुच्छिसि  
दारियत्ताए पच्चायाँया । तए णं सा भद्वा सत्थवाही नवण्हं मासाणं  
दारियं पयाया सुकुमालकोमालियं गयतालुयसमाणं । तीसे णं दारियाए  
निव्वत्तबासाहियाए अम्मापियरो इमं एयारूबं गोणणं गुणनिष्फत्रं नाम-  
धेज्जं करेति— जम्हा णं अम्हं एसा दारिया सुकुमाला गयतालुयसमाणा  
तं होउ णं अम्हं इमीसे दारियाए नामधेज्जं सुकुमालिया २ । तए णं  
तीसे दारियाए अम्मापियरो नामधेज्जं करेति सूमाँलियत्ति । तए णं सा  
सूमाँलिया दारिया पंचधाईपरिगहिया तंजहा— खीरधाईए जाव गिरि-  
कंदरमल्लीणा इव चंपगल्या निवायनिव्वाघायांसि जाव परिवड्हइ । तए

णं सा सूमालिया दारिया उमुक्कबाळभावा जाव रूवेण य जोव्वपेण य लावण्णेण य उकिंट्टा उकिंट्टसरीरा जाया यावि होत्था ।

(115) तत्थ णं चंपाए नयरीए जिणदत्ते नामं सत्थवाहे अड्डे । तस्स णं जिणदत्तस्स भद्दा भारिया सूमाला इट्टा माणुस्सए कामभोगे पञ्चुनुब्बवमाणा विहरइ । तस्स णं जिणदत्तस्स पुत्ते भद्दाए भारियाए अत्तए सागरए नामं दारए सुकुमाले जाव सुरूवे । तए णं से जिणदत्ते सत्थवाहे अन्नया कयाइ सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमइ २ सागरदत्तस्स सत्थवाँहस्स अदूरसामंतेण वीईव्ययइ । इमं च णं सूमालिया दारिया एहाया चेडियासंघपरिवुटा उप्पि आगासतलगंसि कणगातिंदूसएणं कील-माणी विहरइ । तए णं से जिणदत्ते सत्थवाहे सूमालियं दारियं पासइ २ सूमालियाए दारियाए रूवे य ३ जायविम्हए कोङुवियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी – एस णं देवाणुप्पिया ! कस्स दारिया किं वा नामधेझं से ? तए णं ते कोङुवियपुरिसा जिणदत्तेणं सत्थवाहेणं एवं त्रुत्ता समाणा हट्टुट्टा करयल जाव एवं वयासी – एस णं सागरदत्तस्स २ धूया भद्दाए अन्त्या सूमालिया नामं दारिया सुकुमालपाणिपाया जाव उकिंट्टा । तए णं जिणदत्ते सत्थवाहे तेसिं कोङुवियाणं अंतिए एयमट्टं सोज्ञा जेणेव लए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ एहाए मित्तनाइपरिवुडे चंपाए नयरीए मञ्ज्ञमञ्ज्ञेणं जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवागए । तए णं से सागरदत्ते २ जिणदत्तं २ एज्जमाणं पासइ २ आसणाओ अब्मुड्डे� २ आसणेणं उवनिमंत्रेइ २ आसत्थं वीसत्थं सुहासणवरगयं एवं वयासी – भण देवाणुप्पिया ! किमागमणपओयणं । तए णं से जिणदत्ते सागरदत्तं एवं वयासी – एवं खलु अहं देवाणुप्पिया ! तव धूयं भद्दाए अन्तियं सूमालियं सागरस्स भारियत्ताए वरेमि । जइ णं जाणह देवाणुप्पिया ! जुत्ते वा पत्तं वा सलाहणिझं वा सरिसो वा संजोगो ता दिज्जउ णं सूमालिया सागरदारगस्स । तए णं देवाणुप्पियाँ ! किं दलयामो सुकं च सूमालियाए ? तए णं से सागरदत्ते २ जिणदत्तं २ एवं वयासी – एवं खलु देवाणुप्पिया ! सूमालिया दारियाँ एगा एगजाया

इट्टा ५ जाव किमंग पुण पासणयाए । तं नो खलु अहं इच्छामि सूमा-  
लियाए दारियाए खणमवि विष्पओगं । तं जइ णं देवाणुप्पिया ! सागरए  
दारए मम घरजामाऊए भवइ तो णं अहं सागरदारगस्स सूमालियं दल-  
यामि । तए णं से जिणदत्ते २ सागरदत्तेणं २ एवं बुत्ते समाणे जेणेव  
सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ सागरदारगं सहावेइ २ एवं वयासी—  
एवं खलु पुत्ता ! सागरदत्ते २ ममं एवं वयासी— एवं खलु देवाणु-  
प्पिया ! सूमालिया दारिया इट्टा तं चेव । तं जइ णं सागरदारए मम  
घरजामाऊए भवइ ताँवं दलयामि । तए णं से सागरए दारए जिण-  
दत्तेणं २ एवं बुत्ते समाणे तुसिणीए । तए णं जिणदत्ते २ अब्रया  
कयाइ सोहणांसि तिहिकरणे विपुलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ मित्तनाइ  
आमंतेइ जाव सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता सागरं दारगं णहायं जाव सव्वा-  
लंकारविभूसियं करेइ २ पुरिससहस्रवाहिणीयं सीयं दुरुहावेइ २ मित्त-  
नाइ जाव संपरितुडे सञ्चिवडीए सयाओ गिहाओ निगच्छइ २ चंपं  
नयरिं मज्जंमज्जेणं जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ २  
सीयाओ पचोरहइ २ सागरं दारगं सागरदत्तस्स २ उवणेइ । तए णं  
से सागरदत्ते २ विपुलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ जाव सम्माणेत्ता  
सागरं दारगं सूमालियाए दारियाए साढ्ठे पैदृयांसि दुरुहावेइ २ सेँथा-  
पीएहिं कलसेहिं मज्जावेइ २ अग्निग्होमं करावेइ २ सागरं दारयं  
सूमालियाए दारियाए पाणि गेण्हावेइ ।

(116) तए णं सागरए सूमालियाए दारियाए इमं एयाखं पणिफासं  
‘संवेदेइ से जहानामए असिपत्ते इ वा जाव मुम्मुरे इ वा एत्तो अणिडुतराए  
चेव पाणिफासं संवेदेइ । तए णं से सागरए अकामए अवसवसे मुहुत्त-  
मेत्तं संचिड्हइ । तए णं सागरदत्ते २ सागरस्स अम्मापियरो मित्तनाइ विपुलं  
असणं ४ पुष्फवत्थ जाव सम्माणेत्ता पडिविसज्जेइ । तए णं सागरए सूमा-  
लियाए साढ्ठे जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ २ सूमालियाए दारियाए  
साढ्ठे तंलिमांसि निवज्जइ । तए णं से सागरए दारए सूमालियाए दारियाए  
इमं एयाखं अंगफासं पडिसंवेदेइ से जहानामए असिपत्ते इ वा जाव

अमणामतरागं चेव अंगफासं पच्चणुब्भवमाणे विहरइ । तए णं से सागरए दारए सूमालियाए दारियाए अंगफासं असहमाणे अवसवसे मुहुत्तमेत्तं संचिह्नइ । तए णं से सागरदारए सूमालियं सुहपसुत्तं जाणित्ता सूमालियाए दारियाए पासाओ उड्हेइ २ जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ २ सर्यणीयंसि निवज्जइ । तए णं सूमालिया दारिया तओ महुत्तंतरस्स पछिबुद्धा समाणी पइवया पइमणुरत्ता पइं पासे अपस्समाणी तैलिमाओ उड्हेइ २ जेणेव से सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ २ सागरस्स पासे औवज्जइ । तए णं से सागरदारए सूमालियाए दारियाए दोञ्चंपि इमं एयारूबं अंगफासं पछिसंवेदेइ जाव अकामए अवसवसे मुहुत्तमेत्तं संचिह्नइ । तए णं सागरदारए सूमालियं दारियं सुहपसुत्तं जाणित्ता सयणिज्जाओ उड्हेइ २ वासघरस्स दारं विहाड्हेइ २ मारामुके विव काए जामेव दिसिं पाउभूए तामेव दिसिं पछिगए ।

(117) तए णं सूमालिया दारिया तओ मुहुत्तंतरस्स पछिबुद्धा परिवया जाव अपासमाणी सयणिज्जाओ उड्हेइ सागरस्स दारगस्स सञ्चओ समंता मगणगवेसणं करेमाणी २ वासघरस्स दारं विहाड्हियं पासइ २ एवं वयासी – गए णं से सागरए त्तिकट्टु ओहयमणसंकप्पा जाव शियायाइ । तए णं सा भद्रा सत्थवाही कलं पाउप्पभायाए दास-चेड़ि सहावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुमं देवाणुपिए ! बहूवरस्स मुहधोवणियं उवणेहि । तए णं सा दासचेडी भद्राए एवं तुत्ता समाणी एयमहुं तहति पछिसुणेइ २ मुहधोवणियं गेणहइ २ जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ सूमालियं दारियं जाव शियायमाणिं पासइ २ एवं वयासी – किन्नं तुझ्मे देवाणुपिया ! ओहयमणसंकप्पा जाव शियाहि ? तए णं सा सूमालिया दारिया तं दासचेडियं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! सागरए दारए ममं सुहपसुत्तं जाणित्ता मम पासाओ उड्हेइ २ वासघरदुवारं अवर्गुणेइ जाव पछिगए । तए णं हं तओ मुहुत्तंतरस्स जाव विहाड्हियं पासामि २ गए णं से सागरए त्तिकट्टु ओहयमणसंकप्पा जाव शियायामि । तए णं सा दासचेडी

सूमालियाए दारियाए एयमटुं सोऽवा जेणेव सागरदत्ते २ तेणेव उबा-  
गच्छइ २ सागरदत्तस्स एयमटुं निवेदेइ । तए णं से सागरदत्ते दास-  
चेडीए अंतिए एयमटुं सोऽवा निसम्म आसुहत्ते ४ जाव मिसिमिसेमाणे  
जेणेव जिणदत्तस्स २ गिहे तेणेव उबागच्छइ २ जिणदत्तं २ एवं  
वयासी – किञ्च देवाणुपिया ! एयं जुत्तं वा पत्तं वा कुलाणुरुवं वा  
कुलसरिसं वा जण्णं सागरए दारए सूमालियं दारियं अदिहुदोसवडियं  
पइवयं विष्पजहाय इहमागए ? बहूहिं खिज्जणियाहि य रुटणियाहि य  
उबालंभइ । तए णं जिणदत्ते सागरदत्तस्स २ एयमटुं सोऽवा जेणेव  
सागरए तेणेव उबागच्छइ २ सागरं दारयं एवं वयासी – दुट्ठु णं  
पुत्ता ! तुमे कयं सागरदत्तस्स गिहाओ इहं हृवमागच्छंतेणं । तं  
गच्छह णं तुमं पुत्ता ! एवमवि गए सागरदत्तस्स गिहे । तए णं से  
सागरए जिणदत्तं एवं वयासी – अवियाहं अहं ताओ ! गिरिपटणं वा  
तरुपटणं वा मरुपर्ववायं वा जलप्यवायं वा जलणप्पवेसं वा विस-  
भक्तवणं वा सत्थोवाडणं वा विहाणसं वा गिद्धपटुं वा पञ्चजं वा विदेस-  
गमणं वा अब्युवगच्छेज्जा नो खलु अहं सागरदत्तस्स गिहं गच्छेज्जा ।  
तए णं से सागरदत्ते २ कुङ्कुंतरियाए सागरस्स एयमटुं निसामेइ २  
लज्जिए विलीए विश्वे जिणदत्तस्स २ गिहाओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव  
सए गिहे तेणेव उबागच्छइ २ सुकुमालियं दारियं सहावेइ २ अंके  
निवेसेइ २ एवं वयासी – किञ्च तव पुत्ता ! सागरएणं दारएणं ? अहं  
णं तुमं तस्स दाहाभि जस्स णं तुमं इड्डा मणाँमा भविस्ससि ति सूमा-  
लियं दारियं ताहिं इहाहिं जाव वग्रौहिं समासासेइ २ पडिविसज्जेइ ।  
तए णं से सागरदत्ते २ अन्नया उपि आगासतलगांसि सुहनिसणे राय-  
मग्गं ओलोएमाणे २ चिट्ठइ । तए णं से सागरदत्ते एगं महं दमगपुरिसं  
पासइ दंडिखंडनिवसणं खंडमल्हगखंडघडगहत्थगयं मच्छियासहस्रेहि  
जाव अन्निज्जमाणमग्गं । तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे कोडुंवियपुरिसे  
सहावेइ २ एवं वयासी – तुब्मे णं देवाणुपिया ! एयं दमगपुरिसं  
विपुलेणं असणेणं ४ पडिलाभेह गिहं अणुपविसेह २ खंडमल्हगं खंड-

घडगं च से एगंते एडेह २ अलंकारियकम्मं कोरेह २ एहायं कयबलि-  
कम्मं जाव सव्वालंकारविभूसियं करेह २ मणुज्ञं असणं ४ भोयावेह  
मम अंतियं उवणेह । तए णं ते कोडुंबियपुरिसा जाव प्रडिसुणेति २  
जेणेव से दमगपुरिसे तेणेव उवागच्छंति २ तं दमगपुरिसं असणेणं ४  
उवैप्पलोभंति २ सयं गिहं अणुप्पवेसिति २ तं खंडमळगं खंडघडगं च  
तस्स दमगपुरिसस्स एगंते एडेति । तए णं से दमगपुरिसे तंसि खंड-  
मळगंसि खंडघडगंसि य एडिज्जमाणंसि महया २ सदेणं आरसइ ।  
तए णं से सागरदत्ते तस्स दमगपुरिसस्स तं महया २ आरसियसइ  
सोशा निसम्म कोडुंबियपुरिसे एवं वयासी – किन्न देवाणुपिया ! एस  
दमगपुरिसे महया २ सदेणं आरसइ ? तए णं ते कोडुंबियपुरिसा एवं  
वयासी – एस णं सामी ! तंसि खंडमळगंसि खंडघडगंसि य एडिज्ज-  
माणंसि महया २ सदेणं आरसइ । तए णं से सागरदत्ते २ ते कोडुं-  
बियपुरिसे एवं वयासी – मा णं तुझ्मे देवाणुपिया ! एयस्स दमगस्स  
तं खंडगं जाव एडेह पासे से ठवेह जहा णं पत्तियं भवइ । ते तहेव  
ठाबेति २ तस्स दमगस्स अलंकारियकम्मं करेति २ सयपागसहस्स-  
पागेहिं तेहेहिं अब्भिर्गेति अब्भिर्गिए समाणे सुरभिणा गंधैवट्टएणं गायं  
उव्हावेति २ उसिणोदगेणं गंधोदगेणं एहाणेति सीओदगेणं एहाणेति  
पम्हलसुकुमालगंधकासाइए गायाइं ल्हहेति २ हंसलक्खणं पडगसाडगं  
परिहेति २ सव्वालंकारविभूसियं करेति २ विपुलं असणं ४ भोयावेति २  
सागरदत्तस्स समीवे उवणेति । तए णं से सागरदत्ते २ सूमालियं दारियं  
एहायं जाव सव्वालंकारविभूसियं करेत्ता तं दमगपुरिसं एवं वयासी –  
एस णं देवाणुपिया ! मम धूया इट्टा । एयं णं अहं तव भारियत्ताए  
दलयामि भहियाए भहओ भवेज्जासि । तए णं से दमगपुरिसे सागर-  
दत्तस्स एयमडं पडिसुणेइ २ सूमालियाए दारियाए सद्दिं वासघरं  
अणुपविसइ सूमालियाए दारियाए सद्दिं तंलिमंसि निवज्जइ । तए णं से  
दमगपुरिसे सूमालियाए इमं एयारूवं अंगफासं पडिसंवेदेइ सें जहा  
सागरस्स जाव सयणिज्जाओ अब्मुद्देइ २ वासघराओ निगच्छइ २ खंड-

मल्लगं खंडघडगं च गहाय मारामुके विव काए जामेव दिसि पाडब्बूष  
तामेव दिसि पडिगए । तए णं सा सूमालिया जाव गए णं से दमग-  
पुरिसे चिकट्टु ओहयमणसंकप्पा जाव शियायइ ।

(118) तए णं सा भद्धा कलं पाडप्पभायाए दासचेडिं सद्धावेइ  
जाव सागरदत्तस्स एयमट्टु निवेदेइ । तए णं से सागरदत्ते तहेव संभंते  
समाणे जेणेव वासधरे तेणेव उवागच्छइ २ सूमालियं दारियं अंके  
निवेसेइ २ एवं वयासी-अहो णं तुमं पुत्ता ! पुरापोराणाणं कम्माणं जाव  
पच्छणुब्बवमाणी विहरसि । तं मा णं तुमं पुत्ता ! ओहयमणसंकप्पा जाव  
शियाहि । तुमं णं पुत्ता ! मम महाणसंसि विपुलं असणं ४ जहा पोट्टिला  
जाव परिभाएमाणी विहराहि । तए णं सा सूमालिया दारिया एयमट्टु  
पडिसुणेइ २ महाणसंसि विपुलं असणं ४ जाव दलमाणी विहरइ ।  
तेणं क्रालेणं २ गोवालियाओ अज्जाओ बहुरसुयाओ एवं जहेव तेयलिणाए  
सुखव्याओ तहेव समोसढाओ तहेव संघाउओ जाव अणुपविट्टे तहेव जाव  
सूमालिया पडिलाभेत्ता एवं वयासी – एवं खलु अज्जाओ ! अहं  
सागरस्स अणिट्टा जाव अमणामा । नेच्छइ णं सागरए दारए मम नामं वा  
जाव परिभोगं वा । जस्स जस्स वि य णं देज्जामि तस्स तस्स वि य णं  
अणिट्टा जाव अमणामा भवामि । तुझ्मे य णं अज्जाओ ! बहुनायाओ  
एवं जहा पोट्टिला जाव उवलद्वे णं जेणं अहं सागरस्स दारगस्स इट्टा कंता  
जाव भवेज्जामि । अज्जाओ तहेव भणंति तहेव साविया जाया तहेव  
चिता तहेव सागरदत्तस्स आपुच्छइ जाव गोवालियाणं अंतियं पञ्चइया ।  
तए णं सा सूमालिया अज्जा जाया इरियासमिया जाव गुत्तवंभयारिणी  
बहूहिं चउथ्थछट्टुम जाव विहरइ । तए णं सा सूमालिया अज्जा अञ्जया  
कयाइ जेणेव गोवालियाओ अज्जाओ तेणेव उवागच्छइ २ बंदइ नमंसइ  
२ एवं वयासी – इच्छामि णं अज्जाओ ! तुझ्मेहिं अब्मणुन्नाया समाणी  
चंपाए बाहिं सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स अदूरसामंते छट्टुच्छट्टेणं अणिक्ख-  
तेणं तबोकम्मेणं सूराभिमुही आयावेमाणी विहरित्तए । तए णं ताओ  
गोवालियाओ अज्जाओ समालियं एवं वयासी – अम्हे णं अज्जो !

समणीओ निगंथीओ इरियासभियाओ जाव गुप्तबंभचारिणीओ । नो  
खलु अम्हं कप्पइ वहिया गामस्स वा जाव सभिवेसस्स वा छटुँछटेण  
जाव विहरित्तए । कप्पइ णं अम्हं अंतोउवस्सयस्स वहैपरिक्षिखस्स  
संघाडिवद्वियाए णं समतलपैयाए आयावेच्चए । तप्प णं सा सूमालिया  
गोवालियाए एयमडुं नो सहहइ नो पत्तियहु नो रोएइ एयमडुं असहह-  
माणी ३ सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स अदूरसामंवे छटुँछटेण जाव विहरह ।

(119) तथ्य णं चंपाए ललिया नाम गोट्टी परिवसह नरवहदिश-  
पैयारा अम्मापिइनिययनिपिवासा वेसविहारकयनिकेया नाणाविह-  
अविणयपहाणा अहु जाव अपरिभूया । तथ्य णं चंपाए देवदत्ता नामं  
गणिया होत्था सूमाला जहा अंडनाए । तप्प णं तीसे ललियाए गोट्टीए  
अन्नया कयाइ पंच गोट्टिलगपुरिसा देवदत्ताए गणियाए सहिं सुभूमि-  
भागस्स उज्जाणसिरि पश्चणुबभवमाणा विहरंति । तथ्य णं एगे  
गोट्टिलगपुरिसे देवदत्तं गणियं उच्छुंगे धरेइ एगे पिछओ आयवत्तं धरेइ  
एगे पुफ्फपूरगं रएइ एगे पाए रएइ एगे चामरुकखेवं करेइ । तप्प णं सा  
सूमालिया अज्जा देवदत्तं गणियं तेहिं पंचहिं गोट्टिलपुरिसेहिं सहिं  
उरालाइं माणुस्सगाइं भोगभोगाइं भुंजमाणीं पासह २ इमेयारूवे संकप्पे  
समुप्पज्जित्था — अहो णं इमा इथिया पुरापोराणां कम्माणं जाव  
विहरह । तं जह णं केइ इमस्स सुचरियस्स तवनियमबंभचेरवासस्स  
कळाणे फलविचिविसेसे अत्थ तो णं अहमवि आगमिस्सेण भवगगहणेण  
इमेयारूवाइं उरालाइं जाव विहरिज्जामि त्तिकट्टु नियाणं करेइ २  
आयावणभूमीएं पञ्चोरुभैइ ।

(120) तप्प णं सा सूमालिया अज्जा सरीरबाऊंसा जाया यावि  
होत्था अभिक्खणं २ हृत्ये धोवेइ अभिक्खणं २ पाए धोवेइ सीसं  
धोवेइ मुहं धोवेइ थणंतराइं धोवेइ कक्खंतराइं धोवेइ गुज्जंतराइं धोवेइ  
जथ्य २ णं ठाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा चेएइ तथ्य वि य णं पुञ्चामेव  
उदैर्णं अब्मुकखेच्चा तओ पञ्चा ठाणं वा ३ चेएइ । तप्प णं ताओ  
गोवालियाओ अज्जाओ सूमालियं अज्जं एवं वयासी-एवं खलु अज्जे ! अम्हे

समणीओ निगंथीओ इरियासमियाओ जाव बंभचेरधारिणीओ । नो खलु कप्पइ अन्हं सरीरबाउसियाए होत्तए । तुमं च णं अज्जे ! सरीर-बाउसिया अभिक्खणं २ हत्ये धोवेसि जाव चेएसि । तं तुमं णं देवाणु-पिए ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पडिवज्जाहि । तए णं सूमालिया गोवालियाणं अज्जाणं एयमट्टु नो आढाइ नो परियाणाइ अणाढायमाणी अपरियाणमाणी विहरइ । तए णं ताओ अज्जाओ सूमालियं अज्जं अभिक्खणं २ हीलेंति जाव परिभवंति अभिक्खणं २ एयमट्टु निवारेंति । तए णं तीसे सूमालियाए समणीहिं निगंथीहिं हीलिज्जमाणीए जाव वारिज्जमाणीए इमेयारूबे अज्जस्थिए जाव समुप्पज्जित्था – जया णं अहं अगारबासमज्जे वसामि तया णं अहं अप्पवसा । जया णं अहं मुंडा भवित्ता पञ्चइया तया णं अहं परवसा । पुञ्चिं च णं ममं समणीओ आढायंति इयाणि नो आढायंति । तं सेयं खलु मम कलं पाउप्पभायाए गोवालियाणं अंतियाओ पडिनिक्खमित्ता पाडिएकं उवस्सयं उवसंप-ज्जित्ताणं विहरित्तए त्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ कलं गोवालियाणं अंतियाओ पाडिनिक्खमइ २ पाडिएकं उवस्सयं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । तए णं सा सूमालिया अज्जा अणोहट्टिया अनिवारिया सच्छंदमई अभिक्खणं २ हत्ये धोवेइ जाव चेप्पइ तत्थ वि य णं पासस्था पासस्थविहारिणी ओसआ ओसन्नविहारी कुसीला कुसीलविहारी संसत्ता संसत्तविहारी बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ २ अद्धमासियाए संलेहणाए तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंता कालमासे कालं किञ्चा ईसाणे कप्पे अन्नयरंसि विमाणंसि देवगणियत्ताए उवबन्ना । तत्येगइयाणं देवीणं नवपलिओवमाइ ठिई पन्नत्ता । तत्थ णं सूमालियाए देवीए नवपलिओवमाइ ठिई पन्नत्ता ।

(121) तेणं कालेणं २ इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे पंचालेसु जणवप्सु कंपिलपुरे नामं नयरे होत्था वण्णओ । तत्थ णं दुंबए नामं राया होत्था वण्णओ । तस्स णं चुल्णी देवी घट्टञ्जुणे कुमारे जुवराया । तए णं सा सूमालिया देवी ताओ देवलोगाओ आउक्खणं जाव चहत्ता इहेव जंबुदीवे २ भारहे वासे पंचालेसु जणवप्सु कंपिलपुरे नयरे

दुवयस्स रन्नो चुलणीए देवीए कुचिंछसि दारियत्ताए पञ्चायाया । तए णं सा चुलणी देवी नवण्हं मासाणं जाव दारियं पयाया । तए णं तीसे दारियाए निव्वत्तबारसाहियाए इमं एयारूवं नामं – जम्हा णं एसा दारिया दुपयस्स रन्नो धूया चुलणीए देवीए अत्तया तं होऊं णं अम्हं इमीसे दारियाए नामधेज्जं दोवई । तए णं तीसे अम्मापियरो इमं एयारूवं गोणं गुणनिप्फन्नं नामधेज्जं करेति दोवई । तए णं सा दोवई दारिया पंचधाईपरिगगहिया जाव गिरिकंदरमङ्गीणा इव चंपगलया निवायनिव्वाघायांसि सुहंसुहेणं परिवट्टह । तए णं सा दोवई देवी रायवरकन्ना उम्मुक्क-बालभावा जाव उकिट्टसरीरा जाया यावि होतथा । तए णं तं दोवई रायवरकन्नं अत्रया कयाइ अंतेउरियाओ ष्हायं जाव विभूसियं करेति २ दुवयस्स रन्नो पायवंदियं पेसेंति । तए णं सा दोवई २ जेणेव दुवए राया तेणेव उवागच्छइ २ दुवयस्स रन्नो पायगहणं करेइ । तए णं से दुवए राया दोवई दारियं अंके निवेसेइ २ दोवईए २ रूवे<sup>१</sup> य जोर्बंणे य लावंणे य जायविम्हए दोवई २ एवं वयासी – जस्स णं अहं तुमं पुत्ता ! रायस्स वा जुवरायस्स वा भारियत्ताए सयमेव दलइस्सामि तत्थ णं तुमं सुहिया वा दुहिया वा भवेज्जासि । तए णं मम जावज्जीवाए हिययदाहे भविस्सइ । तं णं अहं तव पुत्ता ! अज्जर्याए सयंवरं वियरामि । अज्जर्याए णं तुमं दिन्नं सयंवरा । जं णं तुमं सयमेव रायं वा जुवरायं वा वरेहिसि से णं तव भत्तारे भविस्सइ त्तिकट्टु ताहिं इट्टाहिं जाव आसासेइ २ पडिविसज्जेइ ।

(122) तए णं से दुवए राया दूयं सदावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुमं देवाणुपिया ! बारवई नयरिं । तत्थ णं तुमं कण्हं वासुदेवं समुद्विजयपामोक्खे दस दसारे बलदेवपामोक्खे पंच महावीरे उग्गसेणपामोक्खे सोलस रायसहस्से पञ्जुन्नपामोक्खाओ अद्धुट्टाओ कुमारकोडीओ संबपामोक्खाओ सहिं दुईतसाहस्सीओ वीरसेणपामोक्खाओ एकवीसं रायवीरपुरिससाहस्सीओ महीसेणपामोक्खाओ छपन्नं बलवगसाहस्सीओ अज्जे य बहवे राईसरतलवरमाण्डियकोडुंवियइन्म-

सेद्विसेणावद्विसत्थवाहपभिइओ करयलपरिगद्वियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजालिं कट्टु जएणं विजएणं बद्वावेहि २ एवं वयाहि— एवं खलु देवाणुपिया ! कंपिल्पुरे नयरे दुवयस्स रन्नो धूयाए चुलणीए अत्तयाए धट्टजुणकुमारस्स भइणीए दोवईए २ सयंवरे भविससइ । तए णं तुब्मे दुवयं रायं अणुगिणहेमाणा अकालपरिहीणं चेव कंपिल्पुरे नयरे समोसरह । तए णं से दूए करयल जाव कट्टु दुवयस्स रन्नो एयमट्टु पडि-सुणेइ २ जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ कोङुवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी — खिप्पामेव भो देवाणुपिया ! चाउग्घंटं आसरहं जुत्तामेव उवट्टवेह जाव उवट्टवेति । तए णं से दूए ण्हाए जाव सरीरे चाउग्घंटं आसरहं दुरुहइ २ बहूहिं पुरिसेहिं सन्नद्ध जाव गहियाउह-पहरणेहिं सद्धि संपारिकुडे कंपिल्पुरं नयरं मज्जंमज्ज्ञेणं निगच्छइ पंचाल-जणवयस्स मज्जंमज्ज्ञेणं जेणेव देसप्पंते तेणेव उवागच्छइ २ सुरट्टा-जणवयस्स मज्जंमज्ज्ञेणं जेणेव बारवई नयरी तेणेव उवागच्छइ २ बारवई नयरिं मज्जंमज्ज्ञेणं अणुप्पविसइ २ जेणेव कण्हस्स वासुदेवस्स वाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ चाउग्घंटं आसरहं ठावेइ २ रहाओ पचोरुहइ २ मणुस्सवगुरापरिकिखत्ते पायचारविहारेणं जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ २ कण्हं वासुदेवं समुद्विजयपामोक्खे य दस दसारे जाव बलवगसाहस्रीओ करयल तं चेव जाव समोसरह । तए णं से कण्हे वासुदेवे तस्स दूयस्स अंतिए एयमट्टु सोऽचा निसम्म हट्टतुडे जाव हियए तं दूयं सकारेइ सम्माणेइ २ पडिविसउज्जेइ । तए णं से कण्हे वासुदेवे कोङुवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी — गच्छह णं तुमं देवाणुपिया ! सभाए सुहम्माए सामुदाइयं भेरिं तालेहि । तए णं से कोङुवियपुरिसे करयल जाव कण्हस्स वासुदेवस्स एयमट्टु पडि-सुणेइ २ जेणेव सभाए सुहम्माए सामुदाइया भेरी तेणेव उवागच्छइ २ सामुदाइयं भेरिं महया २ सदेणं तालेइ । तए णं ताए सामुदाइयाए भेरीए तालियाए समाणीए समुद्विजयपामोक्खा दस दसारा जाव महासेणपामोक्खाओ छप्पन्नं बलवगसाहस्रीओ ण्हाया जाव विभूसिया

जहाविभवइडुसक्कारसमुदएणं अप्पेगइया हयगया जाव अप्पेगइया पाय-  
चारविहारेणं जेणेव कण्हे बासुदेवे तेणेव उवागच्छंति २ करयल जाव  
कण्हं बासुदेवं जएणं विजएणं वद्वावेंति । तए णं से कण्हे बासुदेवे  
कोहुवियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी - खिप्पामेव भो देवाणुपिष्ठा !  
अभिसेकं हत्थिरयणं पष्टिकप्पेह हयगय जाव पञ्चपिणंति । तए णं से  
कण्हे बासुदेवे जेणेव मज्जणधरे तेणेव उवागच्छइ २ समुत्तजालाकुला-  
भिरामे जाव अंजणगिरिकूडसभिभं गयबइं नरवई दुरुढे । तए णं से  
कण्हे बासुदेवे समुहविजयपामोक्खेहिं दसहिं दसारेहिं जाव अणंगसेणा-  
पामोक्खेहिं अणेगाहिं गणियासाहस्सीहिं सञ्चिं संपरिवुडे सञ्चिबड्डीए जाव  
रवेणं बारवइं नयरिं मज्जंमज्जेणं निगच्छइ २ सुरद्वाजप्रवयस्स मज्जं-  
मज्जेणं जेणेव देसप्पते तेणेव उवागच्छइ २ पंचालजप्पवयस्स मज्जं-  
मज्जेणं जेणेव कंपिलपुरे नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं से हुवए  
राया दोऽं पि दूयं सहावेइ २ एवं वयासी - गच्छहै 'णं तुमं देवाणु-  
पिष्ठा ! हत्थिणाउरं नयरं । तत्थं णं तुमं पंडुरायं सपुत्रयं जुहिडिलं  
भीमसेणं अज्जुणं नउलं सहदेवं दुजोहणं भाइसयसमगं गंगेयं विदुरं  
दोऽं जघइं सउणीं कीवं आसत्थामं करयल जाव कट्टु तहेव जाव  
समोसरह । तए णं से दूए एवं जहा बासुदेवे नवरं भेरी नत्थि जाव जेणेव  
कंपिलपुरे नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । एणेव कमेणं तचं दूयं चंपं  
नयरिं । तत्थं णं तुमं कण्हं अंगरायं सैलं नंदिरायं करयल तहेव जाव समो-  
सरह । चष्टथं दूयं सुस्तिमहं नयरिं । तत्थं णं तुमं सिसुपालं दमघोस्तसुयं  
पंचभाइसयसंपरिबुडं करयल तहेव जाव समोसरह । पंचमगं दूयं हत्थि-  
सीसं नवरिं । तत्थं णं तुमं दमवंतं रायं करयल जाव समोसरह । छडुं  
दूयं महुरं नवरिं । तत्थं णं तुमं धरं रायं करयल जाव समोसरह । सप्तमं  
दूयं रायमिहं नयरं । तत्थं णं तुमं सहदेवं ऊर्मसंधसुयं करयल जाव  
समोसरह । अटुडं दूयं कोडिणं नयरं । तत्थं णं तुमं रायिमेस्त्रासुयं करयल  
तहेव जाव समोसरह । नवमं दूयं विराटं नयरिं । तत्थं णं तुमं कीर्मं  
भाइसयसमगं करयल जाव समोसरह । दसमं दूयं अक्षसेस्तु

गामागरनगरेसु अणेगाइं रायसहस्राइं जाव समोसरह । तए णं से दूष तहेव निगच्छइ जेणेव गामागर तहेव जाव समोसरह । तए णं ताइ अणेगाइं रायसहस्राइं तस्स दूयस्स अंतिए एयमहुं सोऽवा निसन्म हहा तं दूयं सक्करेति सम्माणेति २ पडिविसज्जेति । तए णं ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्रा पत्तेयं २ ष्हाया सम्भद्धत्थिखंधवरगया महया हयगयरहभडचडगरपहकर सएहिं २ नगरेहिंतो अभिनिगच्छेति २ जेणेव पंचाले जणेव तेणेव पहारेत्य गमणाए ।

(123) तए णं से दुवए राया कोङुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुमं देवाणुपिया ! कंपिल्लपुरे नये बहिवा गंगाए महानर्हए अदूरसामते एगं महं सयंवरमंडवं करेह अणेगवंभसयसञ्चिविठुं लीलाद्वियसालिभंजियागं जाव पञ्चपिणंति । तए णं से दुवए राया दोऽपि कोङुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवाणुपिया ! वासुदेवपामोक्खाणं बहूणं रायसहस्राणं आवासे करेह । ते वि करेत्ता पञ्चपिणंति । तए णं से दुवए राया वासुदेवपामोक्खाणं बहूणं रायसहस्राणं आगमेण जाणेत्ता पत्तेयं २ हत्थिखंध जाव परिवुडे अगं च पज्जं च गहाय सविवड्हीए कंपिल्लपुराभो निगच्छइ २ जेणेव ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्रा तेणेव उवागच्छइ २ ताइं वासुदेवपामोक्खाइं अग्वेण य पज्जेण य सक्करेइ सम्माणेइ २ तोसिं वासुदेवपामोक्खाणं पत्तेयं २ आवासे वियरइ । तए णं ते वासुदेवपामोक्खा जेणेव सया २ आवासा तेणेव उवागच्छेति २ हत्थिखंधेहिंतो पञ्चोहहंति २ पत्तेयं २ खंधावारनिवेसं करेति २ सएसुं २ आवासेसुं अणुप्पविसंति २ सएसु आवासेसु य आसणेसु य सयणेसु य सञ्चिसण्णा य संतुर्यैहा य बहूहिं गंधव्वेहि य नाडएहि य उवगिज्जमाणा य उवनविज्जमाणा य विहरंति । तए णं से दुवए राया कंपिल्लपुरं नयरं अणुप्पविसइ २ विपुलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ कोङुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुझ्मे देवाणुपिया ! विपुलं असणं ४ सुरं च मज्जं च मंसं च सीधुं च पसङ्गं च सुबहुपुप्फवत्थगंधमङ्गालंकारं च

वासुदेवपामोक्खाणं रायसहस्राणं आवासेसु साहरह । ते वि साहरंति । तए णं ते वासुदेवपामोक्खा तं विपुलं असणपाणखाइमसाइमं जाव पसञ्चं च आसाएमाणा ४ विहरंति जिमियभुत्तरागया वि य णं समाणा आयंता चोक्खा जाव सुहासणवरगया बहूहिं गंधव्वेहि जाव विहरंति । तए णं से दुवए राया पुव्वीवरण्हकालसमयांसि कोडुंबिय-पुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी—गच्छह णं तुब्भे देवाणुपिया ! कंपिल्लपुरे सिंघाडग जाव पहेसु वासुदेवपामोक्खाणं य रायसहस्राणं आवासेसु हत्थिखंधवरगया महया २ सहेण जाव उग्घोसेमाणा २ एवं वयह—एवं खलु देवाणुपिया ! कलं पाऽप्पभायाए दुवयस्स रन्नो धूयाए चुलणीए देवीए अत्तियाए धट्टंजुणस्स भगिणीए दोवईए २ संयवरे भविस्सइ । तं तुब्भे णं देवाणुपिया ! दुवयं रायाणं अणुगिण्हेमाणा ण्हाया जाव विभूसिया हत्थिखंधवरगया सकोरेंट० सेयवरचामरा हयगयरह० महया भडचडगरेणं जाव परिक्खित्ता जेणेव संयवरामंडवे तेणेव उवा-गच्छह २ पत्तेयं नामंकेसु आसणेसु निसीयह २ दोवईं २ पडिवालेमाणा २ चिढ्हह घोसणं घोसेह २ मम एयमाणत्तियं पञ्चपिणह । तए णं ते कोडुंबिया तहेव जाव पञ्चपिणंति । तए णं से दुवए राया कोडुंबिय-पुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी—गच्छह णं तुब्भे देवाणुपिया ! संयवर-मंडवं आसियसंमज्जिओवलित्तं सुगंधवरगंधियं पंचवण्णपुष्कोवयारकलियं कालागरुपवरकुंदुरुक्तुरुक्त जाव गंधवट्टिभूयं मंचाइमंचकलियं करेह कारवेह करेत्ता कारवेत्ता वासुदेवपामोक्खाणं बहूणं रायसहस्राणं पत्तेयं २ नामंकाइं आसणाइं अत्थुयपञ्चत्युयाइं रएह २ एयमाणत्तियं पञ्चपिणह जाव पञ्चपिणंति । तए णं ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्रा कलं ण्हाया जाव विभूसिया हत्थिखंधवरगया सकोरेंटमल्लछत्तेणं धरिज्ज-माणेहिं सेयवरचामराहिं महया हयगय जाव परिबुडा सञ्चिवड्हीए जाव रवेणं जेणेव संयवरामंडवे तेणेव उवागच्छंति २ अणुप्पविसंति २ पत्तेयं २ नामंकाईं निसीयंति दोवईं २ पडिवालेमाणा चिढ्हंति । तए णं से दुवए राया कलं ण्हाए जाव विभूसिए हत्थिखंधवरगए सकोरेंट०

हयगय० कंपिल्लपुरं मज्जांमज्जोणं निगगच्छइ जेणेव सयंवरामंडवे जेणेव  
वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा तेणेव उवागच्छइ २ तेसि वासुदेव-  
पामोक्खाणं करयल जाव वद्वावेत्ता कण्हस्स वासुदेवस्स सेयवरचामरं  
गहाय उवबीयमाणे चिट्ठइ ।

(124) तए णं सा दोवई २ कळुं जाव जेणेव मज्जणघरे तेणेव  
उवागच्छइ २ मज्जणघरं अणुपविसइ २ णहाया कयबलिकम्मा कयकोउय-  
मंगलपायच्छत्ता सुद्धपावेसाइं मंगलाइं वत्थाइं पवरपरिहिया मज्जण-  
घराओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव जिणघरे तेणेव उवागच्छइ २ जिणघरं  
अणुपविसइ २ जिणपडिमाणं आलोए पणामं करेइ २ लोमहृथयं  
परामुसइ एवं जहा सूरियाभो जिणपडिमाओ अच्छेइ तहेव भाणियब्बं जाव  
धूंवं डहइ २ वामं जाणुं अचेइ दाहिणं जाणुं धरणितलंसि निहंटु  
तिक्खुत्तो मुद्धाणं धरणितलंसि नंमेइ २ ईसिं पच्चुत्रमइ २ करयल जाव  
कट्टु एवं वयासी – नमोत्थु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं वंदइ नमंसइ २  
जिणघराओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव अंतेउरे तेणेव उवागच्छइ ।

(125) तए णं तं दोवई २ अंतेउरियाओ सब्बालंकारविभूसियं  
करेति । किं ते ? वरपायपत्तनेउरा जाव चेडियाचक्कवालमहंयरगविंद-  
परिक्खित्ता अंतेउराओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव बाहिरिया उवटाणसाला  
जेणेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ किङ्गुवियाए लेहियाए  
सद्धिं चाउग्घंटं आसरहं दुरुहइ । तए णं से धट्टजुणे कुमारे दोवईए  
कन्नाए सारत्थं करेइ । तए णं सा दोवई २ कंपिल्लपुरं मज्जांमज्जोणं  
जेणेव सयंवरामंडवे तेणेव उवागच्छइ २ रहं ठावेइ रहाओ पञ्चोरुभैइ २  
किङ्गुवियाए लेहियाए सद्धिं सयंवरमंडवं अणुपविसइ करयल जाव तोसि  
वासुदेवपामोक्खाणं बहूणं रायवरसहस्साणं पणामं करेइ । तए णं सा  
दोवई २ एणं महं सिरिदामगंडं० किं ते ? पाडलमल्लियचंपय जाव सत्त-  
च्छयाईहिं गंधद्धार्णि मुयंतं परमसुहफासं दंरिसणिज्जं गेणहइ । तए णं सा  
किङ्गुविया सुरुवा जाव बामहृथयेण चिल्लं दप्पणं गहेऊण सललियं  
दप्पणसंकंतविंबसंदंसिए य से दाहिणेणं हृथयेणं दरिसए पवररायसीहे फुड-

विसयविसुद्धरिभियगंभीरमहुरभणिया सा तेसि सब्वेसिं पतिथवाणं अम्मा-  
पिडबंससस्तसौमत्थगोत्तविक्षंतिकंतिबहुविह्वागममाहपर्वजोव्वणगुण-  
लावण्णकुलसीलज्ञाणिया कित्तणं करेइ । पठमं ताव वणिहपुंगवाणं  
दसैदसारवरवीरपुरिसेतिलोकवलवगाणं सनुसयसहस्रमाणावमहगाणं  
भवसिद्धिपवरपुंडरीयाणं चिन्हगाणं वलवीरियरूवजोव्वणगुणलावण्ण-  
कित्तिया कित्तणं करेइ । तथो पुर्णं उगगसेणमाईं जायवाणं भणइ—  
सोहगरूवकलिए वरेहि वरपुरिसगंधहत्थीणं । जो हु ते लोई होइ  
हिययदइओ ॥ तए णं सा दोवई रायवरकन्नगा बहूणं रायवरसहस्राणं  
मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं समइच्छमाणी २ पुञ्वकयनियाणेणं चोइज्जमाणी २ जेणेव  
पंच पंडवा तेणेव उवागच्छइ २ ते पंच पंडवे तेणं दसद्ववणेणं कुसुम-  
दामेणं आवेदियपरिवेदिए करेइ २ एवं वयासी—एए णं मए पंच  
पंडवा वरिया । तए णं ताइं वासुदेवपामोक्खाइं बहूणि रायसहस्राणि  
महया २ सहेणं उग्घेसेमाणाइं २ एवं वयंति—सुवरियं खलु भो !  
दोवईए रायवरकन्नाए त्तिकट्टु सयंवरमंडवाओ पडिनिक्खमंति २  
जेणेव सया २ अवासा तेणेव उवागच्छंति । तए णं धट्टज्जुणकुमारे पंच  
पंडवे दोवई च रायवरकन्नगं चाउग्धंटं आसरहं दुर्लेहेइ २ कंपिलपुरं  
मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं जाव सयं भवणं अणुपविसइ । तए णं दुवए राया पंच-  
पंडवे दोवई २ पट्टयं दुर्लेहेइ २ सेयापयिएहिं कलसेहिं मज्जावेइ २  
अग्गिहोमं करैवेइ पंचणहं पंडवाणं दोवईए य पाणिगहणं करैवेइ । तए  
णं से दुवए राया दोवईए २ इमं एयारूवं पीइदाणं दलयइ तंजहा—अट्ट  
हिरण्णकोडीओ जाव पेसणकारीओ दासचेडीओ अन्नं च विपुलं धणकणग  
जाव दलयइ । तए णं से दुवए राया ताइं वासुदेवपामोक्खाइं विपुलेणं  
असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थगंध जाव पडिविसज्जेइ ।

(126) तए णं से पंडु राया वेसि वासुदेवपामोक्खाणं बहूणं राय-  
सहस्राणं करयल जाव एवं वयासी—एवं खलु देवाणुपिया ! हस्तिथारे  
नयरे पंचणहं पंडवाणं दोवईए य देवीए कल्पाणकरे भविस्सइ । तं तुबमे  
णं देवाणुपिया ! ममं अणुगिण्हमाणा अकालपरिहीणं समोसरह । तए णं

ते वासुदेवपामोक्त्वा पत्तेयं २ जाव पहारेत्थ गमणाए । तए णं से पंडू राया कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी — गच्छह णं तुब्भे देवाणुपिया ! हत्थिणाउरे पंचज्ञं पंडवाणं पंच पासायवडिंसए कारेहि अभ्युग्यमूसिय वण्णओ जाव पडिल्लवे । तए णं ते कोडुंबियपुरिसा पडिसुर्णेति जाव कारवेति । तए णं से पंडू राया पंचहिं पंडवेहिं दोवर्ईए देवीए साद्धि ह्यगयसंपरिखुडे कंपिल्लपुराओ पडिनिक्तमइ २ जेषेव हत्थिणाउरे तेणेव उवागए । तए णं से पंडुराया तेसिं वासुदेवपामोक्त्वाणं आगमणं जाणित्ता कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी — गच्छह णं तुब्भे देवाणुपिया ! हत्थिणाउरस्स नयरस्स बहिया वासुदेवपामोक्त्वाणं बहूणं रायसहस्राणं आवासे कारेह अणेगथंभैसय तहेव जाव पञ्चपिणंति । तए णं ते वासुदेवपामोक्त्वा बहवे रायसहस्रा जेषेव हत्थिणाउरे तेणेव उवागच्छंति । तए णं पंडुराया ते वासुदेवपामोक्त्वे जाव आगए जाणित्ता हट्टुडे ष्हाए क्यबलिकम्मे जहा दुव्रए जाव जहारिहं आवासे दलयइ । तए णं ते वासुदेवपामोक्त्वा बहवे रायसहस्रा जेषेव सर्याँ २ आवासी तेणेव उवागच्छंति तहेव जाव विहरंति । तए णं से पंडुराया हत्थिणाउरं नयरं अणुपविसइ २ कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी—तुब्भे णं देवाणुपिया ! विपुळं असणं ४ तहेव जाव उवणेंति । तए णं ते वासुदेवपामोक्त्वा बहवे रायसहस्रा ष्हाया क्यबलिकम्मा क्यक्कोउम्मंगलपायच्छित्तीं तं विपुळं असणं ४ तहेव जाव विहरंति । तए णं से पंडुराया ते पंचपंडवे दोवर्ईच देविं पट्टयं दुरुहेइ २ सीर्यापीषहिं कलसेहिं ष्हावेइ २ कल्लाणकर्णं करेइ २ ते वासुदेवपामोक्त्वे बहवे रायसहस्रे विपुलेणं असणेणं ४ पुष्कवत्त्येणं सक्कारेइ सम्माणेइ जाव पडिविसज्जेइ । तए णं ताइं वासुदेवपामोक्त्वाइं बहूं जाव पडिगयाइं ।

(127) तए णं ते पंच पंडवा दोवर्ईए देवीए साद्धि कल्लाकल्लिं वारंबारेणं उराल्लाइं भोगभोगाइं जाव विहरंति । तए णं से पंडू राया अच्छया क्याइं पंचहिं पंडवेहिं कोंतीए देवीए दोवर्ईए य साद्धि अंतो-अंतेष्ठरपरिचालसर्णि संपरिखुडे सीहासणवरगए जावि विहरइ । इमं च णं

कच्छुल्लनारए दंसणेण अइभइए विणीए अंतो य कलुसहियए मज्जात्थ-  
उवतिथिए य अल्लीणसोमपियदंसणे सुरूवे अमइलसगलपरिहिए काल-  
मियचम्मउत्तरासंगरइयवच्छे दण्डकैमण्डलुहत्थे जडामउडदित्तसिरए  
जओवइयगणेत्तियमुंजमेहलावागलधरे हत्थकयकच्छभीए पियगंधवे  
धरणिगोयरप्पहाणे संवरणावरणओवयणुप्पयणिलेसंणीसु य संकामणि-  
आभिओगपन्नतिगमणीथंभिणीसु य बहूसु विजाहरीसु विजासु विस्सुय-  
जसे इटे रामस्स य केसवस्स य पञ्जुन्रपईवसंबअनिरुद्धनिसठउम्मुय-  
सारणगयसुमुहदुम्मुहाईर्ण जायवाणं अदुट्टाण य कुमारकोडीणं हियय-  
दहए संथवए कलहुद्धकोलाह्लपिए भंडणाभिलासी बहूसु य समरसय-  
संपराएसु दंसणरए समंदओ कलहं सदक्षिणं अणुगवेसमाणे असमाहि-  
करे दसारवरवीरपुरिसतेलोकबलवगाणं आमंतेऊण तं भगवईं पैकमणि  
गगणगमणदच्छं उप्पहओ गगैंमभिलंघयंतो गामागरनगरखेडकबड-  
मधंबदेणमुहपट्टासंबाहसहस्समंडियं थिमियमेइणीतलं बसुहं ओलोइते<sup>१२</sup>  
रम्मं हत्थिणाउरं उवागए पंडुरायभवणांसि अइवेगेण सैमोवइए । तए  
णं से पंडूराया कच्छुल्लनारयं एजमाणं पासइ २ पंचहिं पंडवेहिं कुंतीए  
य देवीए सद्धि आसणाओ अब्मुट्टेइ २ कच्छुल्लनारयं सत्तट्टपयाईं  
पच्चुगच्छइ २ तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ वंदह नमंसइ २  
महरिहेणं आसणेण उवनिमंतेइ । तए णं से कच्छुल्लनारए उदगपरि-  
फोसियाए दब्मोवरिपच्चुत्थयाए भिसियाए निसीयइ २ पंडुरायं रजे  
य जाव अंतेउरे य कुसलोदंतं पुच्छइ । तए णं से पंडुराया कोंती य देवी  
पंच य पंडवा कच्छुल्लनारयं आढंति जाव पञ्जुवासंति । तए णं सा  
दोवई देवी कच्छुल्लनारयं अस्संजयअविरयअप्पडिह्यअपच्चक्खायपावकम्मं  
तिकट्टु नो आढाइ नो परियाणइ नो अब्मुट्टेइ नो पञ्जुवासइ ।

(128) तए णं तस्स कच्छुल्लनारयस्स इमेयारूवे अज्जात्थिए  
चिंतिए पतिथिए मणोगए संकपे समुप्पज्जित्था — अहो णं दोवई देवी  
रुवेण य जावलावण्णेण य पंचहिं पंडवेहिं अवत्थद्वा समाणी ममं नो  
आढाइ जाव नो पञ्जुवासइ । तं सेयं खलु मम दोवईए देवीए विपियं

करेत्तए त्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ पंडुरायं आपुच्छइ २ उपयणि विज्ञं  
आवाहेइ २ ताए उकिट्टाए जाव विज्ञाहरगईए लवणसमुद्रं मज्जांमज्जेणं  
पुरत्थाभिमुहे वीईत्रहिं पयत्ते यावि होत्था । तेण कालेण २ धायइसंडे  
दीवे पुरत्थिमद्धदाहिणडुभरवासे अवरकंका नामं रायहाणी होत्था ।  
तथं णं अवरकंकाए रायहाणीए पउमनाभेनामं राया होत्था महया  
हिमवंत वणओ । तस्स णं पउमनाभस्स रन्नो सत्त देवीसयाइं ओरोहे  
होत्था । तस्स णं पउमनाभस्स रन्नो सुनाभेनामं पुत्ते जुवरायावि होत्था ।  
तए णं से पउमनाभेनामं राया अंतोअंतेउरंसि ओरोहसंपरिकुडे सीहासण-  
वरगए विहरइ । तए णं से कच्छुल्लनारए जेणेव अवरकंका रायहाणी  
जेणेव पउमनाभस्स भवणे तेणेव उवागच्छइ २ पउमनाभस्स रन्नो  
भवणांसि ज्ञति बेगेण समोवइए । तए णं से पउमनाभेनेकच्छुल्लनारयं  
एज्जमाणं पासइ २ आसणाओ अब्मुट्टेइ २ अग्धेणं जाव आसणेण  
उवनिमत्तेइ । तए णं से कच्छुल्लनारए उदयपरिफोसियाए दब्मोवरि-  
पञ्चत्थयाए भिसियाए निसीयइ जाव कुसलोदंतं आपुच्छइ । तए णं से  
पउमनाभेनामं राया नियगओरोहे जायविम्हए कच्छुल्लनारयं एवं वयासी—  
तुमं देवाणुपिया ! बहूणि गामाणि जाव गिहाइ अणुपविससि । तं  
अतिथयाइं ते कहिंचि देवाणुपिया ! एरिसए ओरोहे दिढ्पुव्वे जारिसए  
णं मम ओरोहे ? तए णं से कच्छुल्लनारए पउमनाभेणं एवं बुत्ते समाणे  
ईसिं विहसियं करेइ २ एवं वयासी—सरिसे णं तुमं पउमनाभा !  
तस्स अगडदहुरस्स । के णं देवाणुपिया ! से अगडदहुरे ? एवं जहा  
मळिणाए । एवं खलु देवाणुपिया ! जंबुदीवे २ भारहे वासे हत्थिणाऊरे  
नयरे दुपयस्स रन्नो धूया चुलणीए देवीए अत्तया पंडुस्स सुण्हा पंचणहं  
पंडवाणं भारिया दोवई देवी रूवेण य जाव उकिट्टसरीरा । दोवईए  
णं देवीए छिन्नस्सवि पायंगुट्टस्स अयं तव ओरोहे संयंपि कलं न  
अग्धइ त्तिकट्टु पउमनाभं आपुच्छइ जाव पाडिगए । तए णं से  
पउमनाभेनामं राया कच्छुल्लनारयस्स अंतिए एयमठं सोऽना निसम्म दोवईए  
देवीए रूवे य ३ मुच्छिए ४ जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ २

पोसहसालं जाव पुञ्चसंगग्रह्यं देवं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया !  
 जंवुहीवे २ भारहे वासे हत्थिणाउरे जाव उकिट्टुसरीरा । तं इच्छामि  
 णं देवाणुपिया ! दोवइं देवीं इहमाणीयं । तए णं पुञ्चसंगग्रहे देवे  
 पउमनाभं एवं वयासी – नो खलु देवाणुपिया ! एवं भूयं वा  
 भञ्चं वा भविस्सं वी जन्मं दोवई देवी पंचपंडवे मोत्तूणं अन्नेण  
 पुरिसेणं सद्धि उरालाइं जाव विहरिस्सइ । तहावि य णं अहं तव पियट्टै-  
 याए दोवइं देविं इहं हव्वमाणेमि त्तिकट्टु पउमनाभं आपुच्छइ २ ताए  
 उकिट्टाए जाव लवणसमुद्रं मज्जांमज्जेणं जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव  
 पहारेत्थ गमणाए । तेणं कालेणं २ हत्थिणाउरे नयरे जुहिट्टिले राया  
 दोवईए देवीए सद्धि उटिं आगासतलगांसि सुहाप्पसुत्ते यावि होत्था ।  
 तए णं से पुञ्चसंगग्रहे देवे जेणेव जुहिट्टिले राया जेणेव दोवई देवी  
 तेणेव उवागच्छइ २ दोवईए देवीए ओसोर्वाणियं दलयइ २ दोवइं देविं  
 गिणहइ २ ताए उकिट्टाए जाव जेणेव अवरकंका जेणेव पउमनाभस्स  
 भवणे तेणेव उवागच्छइ २ पउमनाभस्स भवणांसि असोगवणियाए  
 दोवइं देविं ठावेइ २ ओसोर्वाणिं अवहरइ २ जेणेव पउमनाभे तेणेव  
 उवागच्छइ २ एवं वयासी – एस णं देवाणुपिया ! मए हत्थिणाउराओ  
 दोवई देवी इहं हव्वमाणीया तव असोगवणियाए चिट्टइ । अओ परं  
 तुमं जाणासि त्तिकट्टु जामेव दिसें पाउब्बूए तामेव दिसें पडिगए ।  
 तए णं सा दोवई देवी तओ मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा समाणी तं भवणं  
 असोगवणियं च अपञ्चभिजाणमाणी एवं वयासी – नो खलु अम्हं ऐसे  
 संए भैवणे नो खलु एसा अम्हं सया असोगवणिया । तं न नज्जइ णं  
 अहं केणइ देवेण वा दाणवेण वा किंपुरिसेण वा किन्नरेण वा महो-  
 रगेण वा गंधवेण वा अन्नस्स रन्नो असोगवणियं साहरिय त्तिकट्टु  
 ओहयमणसंकप्पा जाव श्चियायइ । तए णं से पउमनाभे राया ण्हाए  
 जाव सठवालंकारविभूसिए अंतेउरपरियालसंपरिकुडे जेणेव असोगवणिया  
 जेणेव दोवई देवी तेणेव उवागच्छइ २ दोवइं देविं ओहय जाव श्चियाय-  
 माणि पासइ २ एवं वयासी – किन्नं तुमं देवाणुपिए ! ओहय जाव

शियाहि ? एवं खलु तुमं देवाणुप्पिए ! मम पुब्वसंगइएण देवेण जंबु-  
दीवाओ २ भारहाओ वासाओ हत्थिणाउराओ नयराओ जुहिंडिलस्स  
रन्नो भवणाओ साहरिया । तं मा णं तुमं देवाणुप्पिया । ओहय जाव  
शियाहि । तुमं णं मए सङ्क्षि विपुलाइ भोगभोगाइ जाव विहराहि । तए  
णं सा दोवई पउमनाभं एवं वयासी — एवं खलु देवाणुप्पिया ! जंबुदीवे २  
भारहे वासे बारवईए नयरीए कण्हे नामं वासुदेवे मम पियभाउए परि-  
वसइ । तं जहं णं से छण्हं मासाणं मम कूवं नो हन्वमागच्छइ तए  
णं अहं देवाणुप्पिया ! जं तुमं वदासि तस्स आणाओवायवयणनिदेसे  
चिडिस्सामि । तए णं से पउमनाभे दोवईए एयमटुं पडिसुणेइ २ दोवईं  
देविं कज्जंतेउरे ठबेइ । तए णं सा दोवई देवी छुंछटेणं अणिक्खत्तेणं  
आयंचिलपरिगगहिएणं तबोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणी विहरइ ।

(129) तए णं से जुहिंडिले राया तओ मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धे  
समाणे दोवईं देविं पासे अपासमाणे सयणिज्ञाओ उट्टेइ २ दोवईए  
देवीए सव्वओ समंता मग्गणगवेसणं करेइ २ दोवईए देवीए कथइ  
सुइं वा खुइं वा पवत्ति वा अलभमाणे जेणेव पंडूराया तेणेव उवा-  
गच्छइ २ पंडूरायं एवं वयासी — एवं खलु ताओ ! मम आगासतल-  
गांसि सुहपसुत्तस्स पासाओ दोवई देवी न नज्जइ केणइ देवेण वा  
दाणवेण वा किंपुरिसेण वा किन्नरेण वा महोरगेण वा गंधवेण वा  
हिया वा निया वा अक्खत्ता वा । तं इच्छामि णं ताओ ! दोवईए  
देवीए सव्वओ समंता मग्गणगवेसणं करित्तेए । तए णं से पंडूराया  
कोङ्गंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी — गच्छह णं तुव्वे देवाणुप्पिया !  
हत्थिणाउरे नयरे सिंघाडगतिगचउक्कच्चरमहापहपहेसु महया २ सहेण  
उग्घोसेमाणा २ एवं वयह — एवं खलु देवाणुप्पिया ! जुहिंडिलस्स रन्नो  
आगासतलगांसि सुहपसुत्तस्स पासाओ दोवई देवी न नज्जइ केणइ  
देवेण वा दाणवेण वा किन्नरेण वा किंपुरिसेण वा महोरगेण वा गंध-  
वेण वा हियां वा निया वा अंक्खत्ता वा । तं जो णं देवाणुप्पिया !  
दोवईए देवीए सुइं वा खुइं वा पवित्ति वा परिकहेइ तस्स णं पंडूराया

विउलं अत्थसंपयाणं दलयइ त्तिकट्टु घोसणं घोसावेह २ ऐयमाणत्तिं पञ्चपिणह । तए णं ते कोङ्गबियपुरिसा जाव पञ्चपिणंति । तए णं से पंडूराया दोवईए देवीए कत्थइ सुइं वा जाव अलभमाणे कोंतीं देवीं सहावेह २ एवं वयासी—गच्छह णं तुमं देवाणुपिया ! बारवइं नयरिं कणहस्स वासुदेवस्स एयमट्टु निवेदेहि । कणहे णं परं वासुदेवे दोवईए मग्गणगवेसणं करेज्जा अन्नहा न नज्जइ दोवईए देवीए सुइं वा खुइं वा पवत्ति वा उवलभेज्जा । तए णं सा कोंती देवी पंडुणा एवं तुत्ता समाणी जाव पडिसुणेह २ ष्णाया कयबलिकम्मा हत्थिखंधवरगया हत्थिणपुरं नयरं मज्जंमज्जेण निगच्छइ २ कुरुजणवयं मज्जंमज्जेण जेणेव सुरट्टाजणवए जेणेव बारवई नयरी जेणेव अगुज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २ हत्थिखंधाओ पञ्चोरुहइ २ कोङ्गबियपुरिसे सहावेह २ एवं वयासी — गच्छह णं तुब्भे देवाणुपिया ! जेणेवं बारवइं नयरिं अणुपविसह २ कणहं वासुदेवं करयल० एवं वयह— एवं खलु सामी ! तुब्भं पिउच्छा कोंती देवी हत्थिणाउराओ नयराओ इहं हव्वमागया तुब्भं दंसणं कंखइ । तए णं ते कोङ्गबियपुरिसा जाव कहेति । तए णं कणहे वासुदेवे कोङ्गबियपुरिसाणं अंतिए एयमट्टु सोशा निसम्म हट्टुहुडे हत्थिखंधवरगए हयगय० बारवईए नयरीए मज्जंमज्जेण जेणेव कोंती देवी तेणेव उवागच्छइ २ हत्थिखंधाओ पञ्चोरुहइ २ कोंतीए देवीए पायगहणं करेह २ कोंतीए देवीए सद्धि हत्थिखंधं दुरुहइ २ बारवइं नयरीं मज्जंमज्जेण जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ सयं गिहं अणुपविसइ । तए णं से कणहे वासुदेवे कोंति देवि ष्णायं कयबलिकम्मं जिमियभुत्तरागयं जाव सुहासणवरगयं एवं वयासी — संदेसउ णं पिउच्छा ! किमागमणपओयणं । तए णं सा कोंती देवी कणहं वासुदेवं एवं वयासी — एवं खलु पुत्ता ! हत्थिणाउरे नयरे जुहि-ट्टिलस्स रन्नो आगासतलए सुहप्पसुत्तरस्स पासाओ दोवई देवी न नज्जइ केणइ अवहिया जाव अैवकिखत्ता वा । तं इच्छामि णं पुत्ता ! दोवईए देवीए मग्गणगवेसणं कैयं । तए णं से कणहे वासुदेवे कोंतीपिउच्छि एवं वयासी— जं नघरं पिउच्छा दोवईए देवीए कत्थइ सुइं वा जाव

लभामि तो णं अहं पायालाओ वा भवणाओ वा अद्भुतरहाओ वा समंतओ दोवइं देविं साहस्थि उवणेमि चिकट्ठु कोंतीपिताच्छि सक्कोरेइ सम्माणेइ जाव पडिविसज्जेइ । तए णं सा कोंती देवी कण्हेण वासुदेवेण पडिविसज्जिया समाणी जामेव दिसिं पाउबूभया तामेव दिसिं पडिगया । तए णं से कण्हे वासुदेवे कोङुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी—गच्छह णं तुब्बे देवाणुपिया ! बारवइं नयरिं एवं जहा पंद्र तहा घोसणं घोसावेइ जाव पञ्चपिणंति पंडुस्स जहा । तए णं से कण्हे वासुदेवे अन्नया अंतोअंतेउरगए ओरोहे जाव विहरइ । इमं च णं कच्छुल्लए नारए जाव समोवइए जाव निसीइत्ता कण्हं वासुदेवं कुसलोदंतं पुच्छइ । तए णं से कण्हे वासुदेवे कच्छुल्लं नारयं एवं वयासी—तुमं णं देवाणुपिया ! बहूणि गामागर जाव अणुपाविससि । तं अतिथियाइं ते कहिंचि दोवईए देवीए सुई वा जाव उवलद्धा ? तए णं से कच्छुल्लए कण्हं वासुदेवं एवं वयासी—एवं खलु देवाणुपिया ! अन्नया कयाइं धायईसंडे दीवे पुरत्थिमद्वं दाहिणद्वुभरह-वासं अवरकंकारायहाणि गए । तथं णं मए पउमनाभस्स रन्नो भवणंसि दोवई देवी जारिसिया दिडुपृच्चा यावि होत्था । तए णं कण्हे वासुदेवे कच्छुल्लं एवं वयासी—तुब्बं चेव णं देवाणुपिया ! ऐयं पुच्च-कम्मं । तए णं से कच्छुल्लनारए कण्हेण वासुदेवेण एवं तुत्ते समाणे उप्पयणिं विज्जं आवाहेइ २ जामेव दिसिं पाउबूए तामेव दिसिं पडिगए । तए णं से कण्हे वासुदेवे दूयं सहावेइ २ एवं वयासी—गच्छह णं तुमं देवाणुपिया ! हत्थिणाउरं पंडुस्स रन्नो एयमहुं निवेएहि—एवं खलु देवाणुपिया ! दोवई देवी धायईसंडदीवे पुरत्थिमद्वे अवरकंकाए रायहाणीए पउमनाभभवणंसि साहिँया दोवईए देवीए पउत्ती उवलद्धा । तं गच्छंतु पंच पंडवा चाउरंगिणीए सेणाए सद्विं संपरिवुडा पुरत्थिम-वेयालीए ममं पडिवालेमाणा चिट्ठंतु । तए णं से दूए जाव भणइ जाव पडिवालेमाणा चिट्ठह तेवि जाव चिट्ठंति । तए णं से कण्हे वासुदेवे कोङुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी—गच्छह णं तुब्बे देवाणुपिया !

सन्नाहियं भेरि तालेह तेवि तालेति । तए णं तीए सन्नाहियाए भेरीए सहं सोचा समुद्रविजयपामोक्त्वा दस दसारा जाव छप्पन्न बलवगसाहस्रीओ सन्नद्धबद्ध जाव गहियाउहपहरणा अप्पेगइया हयगया अप्पेगइया गयगया जाव मणुस्सबग्गुरापरिक्खत्ता जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छांते २ करथल जाव वद्वावेति । तए णं से कण्हे वासुदेवे हत्थिखंधवरगए सकोरेटमलुदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण सेयवर० हयगय महया भडचडगरपहकरेण बारवईए नयरीए मज्जंमज्जेण निगगच्छह जेणेव पुरत्थिमबेयाली तेणेव उवागच्छइ २ पंचहिं पंडवेहिं संद्विं एगयओ मिलाइ २ खंधावारनिवेसं करेइ २ पोसहसालं करेइ २ पोसहसालं अनुप्पविसइ २ सुट्ठियं देवं मणसीकरेमाणे २ चिढ्हइ । तए णं कण्हस्स वासुदेवस्स अट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि सुट्ठिओ जाव आगओ [एवं वयइ—]° भण देवाणुप्पिया ! जं मए कायवं । तए णं से कण्हे वासुदेवे सुट्ठियं एवं वयासी — एवं खलु देवाणुप्पिया ! दोवई देवी जाव पउमनाभस्स भवणांसि साहिया । तण्णं तुमं देवाणुप्पिया ! मैम पंचहिं पंडवेहिं संद्विं अप्पछट्टस्स छण्हं रहाणं लवणसंमुदे मग्गं वियराहि जां णं° अहं अवरकंकारायहाणं दोवईए कूवं गच्छामि । तए णं से सुट्ठिए देवे कण्हं वासुदेवं एवं वयासी — किणं देवाणुप्पिया ! जहा चेव पउमनाभस्स रओ पुञ्चसंगइएण देवेणं दोवई जाव साहिया तहा चेव दोवईं देविं धायईसंडाओ दीवाओ भारहाओ जाव हत्थिणाउरं साहरामि उदाहु पउमनाभं रयं सपुरबलवाहणं लवणसमुदे पक्खिवामि ? तए णं से कण्हे वासुदेवे सुट्ठियं देवं एवं वयासी — मा णं तुमं देवाणुप्पिया ! जाव साहराहि । तुमं णं देवाणुप्पिया ! मम लवणसमुदे पंचहिं पंडवेहिं संद्विं अप्पछट्टस्स छण्हं रहाणं मग्गं वियराहि । सयमेव णं अहं दोवईए कूवं गच्छामि । तए णं से सुट्ठिए देवे कण्हं वासुदेवं एवं वयासी — एवं होउ णं । पंचहिं पंडवेहिं संद्विं अप्पछट्टस्स छण्हं रहाणं लवणसमुदे मग्गं वियरहि । तए णं से कण्हे वासुदेवे चाउरंगिणि सेणं पडिविसज्जेइ २ पंचहिं पंडवेहिं संद्विं अप्पछट्टे छाहिं रहेहिं लवणसमुदं मज्जंमज्जेण

वीर्हवयद् २ जेणेव अवरकंका रायहाणी जेणेव अवरकंका ए रायहाणी ए  
अगुज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २ रहं ठावेइ २ दारुयं सारहिं सदावेइ २  
एवं वयासी — गच्छह णं तुमं देवाणुपिया ! अवरकंकारायहाणि अणु-  
प्पविसाहि २ पउमनाभस्स रब्बो वामेणं पाएणं पायपीढं औवकमित्ता  
कुंतगोणं लेहं पणामेहि तिवलियं भिउडिं निडाले साहट्टु आसुरुत्ते रुट्टे  
कुद्धे कुविए चंडिकिए एवं वयासी — हं भो पउमनाभा ! अपत्थिय-  
पत्थिया दुरंतपंतलक्खणा हीणपुण्णचाउदसा सिरिहिरिधिइंपरिवज्जिया !  
अज्ज न भवसि ! किन्तु तुमं न याणासि कण्हस्स वासुदेवस्स भागीणि  
दोबाइं देविं इहं हव्वमाणेमाणं ? तं एयमवि गए पञ्चपिणाहि णं तुमं  
दोबाइं देविं कण्हस्स वासुदेवस्स अहव णं जुद्धसज्जे निगच्छाहि । एस  
णं कण्हे वासुदेवे पंचहिं पंडवोहिं सद्धि अप्पछट्टे दोवर्ईए देवीए कूबं  
हव्वमागए । तए णं से दारुए सारही कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वुत्ते समाणे  
हट्टतुट्टे पडिसुणोइ २ अवरकंकं रायहाणि अणुपविसइ २ जेणेव पउमनाभे  
तेणेव उवागच्छइ २ करयल जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी — एस णं  
सामी ! मम विणयपडिवत्ती इमा अन्ना मम सामिस्स समुद्दाणति  
त्तिकट्टु आसुरुत्ते वामपाएणं पायपीढं अवकर्महि २ कुंतगोणं लेहं  
पणामेइ जाव कूबं हव्वमागए । तए णं से पउमनाभे दारुएणं सारहिणा  
एवं वुत्ते समाणे आसुरुत्ते तिवलिं भिउडिं निडाले साहट्टु एवं  
वयासी — न अपिणामि णं अहं देवाणुपिया ! कण्हस्स वासुदेवस्स  
दोबाइं । एस णं अहं सयमेव जुज्जसज्जे निगच्छामि त्तिकट्टु दारुयं  
सारहिं एवं वयासी — केबलं भो ! रायसत्येसु दूए अवज्ज्ञे त्तिकट्टु  
असक्कारियं असम्माणियं अवदारेणं निच्छुभावेइ । तए णं से दारुए  
सारही पउमनाभेणं असक्कारियं जाव निच्छुट्टु देवाणे जेणेव कण्हे वासुदेवे  
तेणेव उवागच्छइ २ करयल जाव कण्हं एवं वयासी — एवं खलु अहं  
सामी ! तुठभं वयणेणं जाव निच्छुभावेइ । तए णं से पउमनाभे बलवाउयं  
सदावेइ २ एवं वयासी — खिप्पामेव भो देवाणुपिया ! आभिसेकं  
हत्थिरखणं पडिकप्पेह । तयापंतरं च णं छेयायरियउवैसमइचिकप्पणीहि

जाव उवर्णेति । तए णं से पउमनाहे सन्नद्ध० अभिसेयं दुरुहह २ हयगय जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं से कण्हे वासुदेवे पउमनाभं रायाणं एज्जमाणं पासह २ ते पंच पंडवे एवं वयासी – हं भो दारगा ! किन्तु तुब्बे पउमनाभेणं सद्धिं जुज्ज्ञाहह उयाहु पिच्छहह ? तए णं ते पंचपंडवा कण्हं वासुदेवं एवं वयासी – अम्हे णं सामी ! जुज्ज्ञामो तुब्बे पेच्छह । तए णं पंचपंडवा सन्नद्ध जाव पहरणा रहे दुरुहंति २ जेणेव पउमनाभे राया तेणेव उवागच्छंति २ एवं वयासी – अम्हे वा पउमनाभे वा राय त्तिकट्टु पउमनाभेणं सद्धिं संपलग्गा यावि होतथा । तए णं से पउमनाभे राया ते पंचपंडवे खिप्पामेव हयमहियपवरविवडियचिंधधैय-पडागे जाव दिसोदिसिं पडिसेहह । तए णं ते पंचपंडवा पउमनाभेणं रन्ना हयमहियपवरविवडिय जाव पडिसेहिया समाणा अत्थामा जाव अधार-णिज्जमित्तिकट्टु जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छंति । तए णं से कण्हे वासुदेवे ते पंचपंडवे एवं वयासी – कहणं तुब्बे देवाणुपिया ! पउमनाभेणं रन्ना सद्धिं संपलग्गा ? तए णं ते पंचपंडवा कण्हं वासुदेवं एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! अम्हे तुब्बेहिं अब्मणुनाया समाणा सन्नद्धा० रहे दुरुहामो २ जेणेव पउमनाभे जाव पडिसेहेह । तए णं से कण्हे वासुदेवे ते पंचपंडवे एवं वयासी – जइ णं तुब्बे देवाणुपिया ! एवं वयंता – अम्हे नो पउमनाभे रायत्तिकट्टु पउमनाभेणं सद्धिं संपलग्गंता तो णं तुब्बे नो पउमनाभे हयमहियपवर जाव पडिसेहित्था । तं पेच्छह णं तुब्बे देवाणुपिया ! अहं नो पउमनाभे राय-त्तिकट्टु पउमनाभेणं रन्ना सद्धिं जुज्ज्ञामि रहं दुरुहह २ जेणेव पउमनाभे राया तेणेव उवागच्छह २ सेयं गोखीरहारधवलं तर्णसोळियसिंदुवार-कुदेंदुसन्निगासं निययस्स बलस्स हरिसजणणं रिउसेन्नविणासकरं पंच-जैनं संखं परामुसह २ मुहवायपूरियं करेह । तए णं तस्स पउमनाभस्स तेणं संखसहेणं बलतिभाए हए जाव पडिसेहिए । तए णं से कण्हे वासु-देवे धणुं परामुसह बेढो धणुं पूरेह २ धणुसहं करेह । तए णं तस्स पउमनाभस्स दोषे बलतिभाए तेणं धणुसहेणं हयमहिय जाव पडिसेहिए ।

तए ण से पउमनाभे राया तिभागबलावसेसे अत्थामे अबले अवीरिए  
अपुरिसकारपरकमे अधारणिज्जमित्तिकट्टु सिग्धं तुरियं जेणेब  
अवरकंका तेणेब उवागच्छइ २ अवरकंकारायहाणि अणुपविसइ २  
बाराइं पिहेइ २ रोहसज्जे चिढ्हइ । तए ण से कण्हे वासुदेवे जेणेब  
अवरकंका तेणेब उवागच्छइ २ रहं ठावेइ २ रहाओ पचोरुहइ २  
वेउठिवयसमुग्धाएणं समोहण्णइ एगं महं नरसीहरूवं विउव्वइ २  
महया २ सहेणं पायदहरियं करेइ । तए ण कण्हेण वासुदेवेण महया २  
सहेणं पायदहरएणं कैएणं समाणेण अवरकंका रायहाणी संभगपागार-  
गोउराट्टालयचरियतोरणपल्हतिथयपवरभवणसिरिधरा सरसरस्स धरणि-  
यले सन्निवइया । तए ण से पउमनाभे राया अवरकंकं रायहाणि संभगं  
जाव पासित्ता भीए दोवइं देविं सरणं उवेइ । तए ण सा दोवईं  
देवी पउमनाभं रायं एवं वयासी – किन्त्रु तुमं देवाणुपिया ! जाणसि  
कण्हस्स वासुदेवस्स उत्तमपुरिसस्स विपियं करेमाणे ? तं एवमवि  
गए गच्छह णं तुमं देवाणुपिया ! एहाए कयबलिकम्मे उल्पडसाडए  
ओचूलगवत्थनियत्थे अंतेउरपरियालसंपरिकुडे अगगाइं वराइं रयणाइं  
गहाय ममं पुरओकाउं कण्हं वासुदेवं करयल जाव पायबडिए  
सरणं उवेहि । पणिवइयवच्छला णं देवाणुपिया ! उत्तमपुरिसा । तए  
णं से पउमनाभे दोवईए देवीए एयमटुं पडिसुणेइ २ एहाए जाव सरणं  
उवेइ २ करयल जाव एवं वयासी – दिट्टा णं देवाणुपिर्वयाणं इड्डी जाव  
परकमे । तं खामेमि णं देवाणुपिया ! जाव खमंतु “णं जाव नाहं भुज्जो २  
एषंकरणयाए त्तिकट्टु पंजलिउडे पायबडिए कण्हस्स वासुदेवस्स दोवइं  
देविं साहात्यं उवणेइ । तए णं से कण्हे वासुदेवे पउमनाभं एवं वयासी—  
हं भो पउमनाभा ! अपत्थियपत्थिया ४ किन्त्रु तुमं जाणसि मम भगिणि  
दोवइं देविं इह हृवर्वमाणमाणे ? तं एवमवि गए नतिथ ते ममाहिंतो  
इयाणि भयमतिथ त्तिकट्टु पउमनाभं पडिविसज्जेइ दोवइं देविं गेणहइ २  
रहं दुरुहेइ २ जेणेब पंच पंडवा तेणेब उवागच्छइ २ पंचणहं पंडवाणं  
दोवइं देविं साहात्यं उवणेइ । तए णं से कण्हे पंचहिं पंडवेहिं सद्दिं

अप्पछडे छहिं रहेहिं लबणसमुदं मज्जांमज्ज्ञेणं जेणेव जंबुदीवे २ जेणेव  
भारहे वासे तेणेव पहारेत्थ गमणाए ।

(130) तेणं कालेणं २ धायइसंडे दीवे पुरतिथमद्वे भारहे वासे  
चंपा नामं नयरी होत्था । पुण्णभद्वे चेइए । तथं णं चंपाए नयरीए  
कविले नामं वासुदेवे राया होत्था वणओ । तेणं कालेणं २ मुणिसुव्वबए  
अरहा चंपाए पुण्णभद्वे समोसठे । कविले वासुदेवे धम्मं सुणेइ । तए णं  
से कविले वासुदेवे मुणिसुव्वबयस्स अरहओ अंतिए धम्मं सुणेमाणे  
कण्हस्स वासुदेवस्स संखसहं सुणेइ । तए णं तस्स कविलस्स वासुदेवस्स  
इमेयारूवे अज्ञातिथए ४ समुपपज्जित्था – किं मणे धायइसंडे दीवे भारहे  
वासे दोच्चे वासुदेवे समुपन्ने जस्स णं अयं संखसहे ममं पिव मुहवायपूरिए  
वियंभइ ? कविले वासुदेवा भद्वाँ इ मुणिसुव्वबए अरहा कविलं वासुदेवं  
एवं वयासी – से नूणं कविला वासुदेवा ! ममं अंतिए धम्मं निसामेमाणस्स  
संखसहं आकिणित्ता इमेयारूवे अज्ञातिथए – किं मंने जाव वियंभइ । से  
नूणं कविला वासुदेवा ! अटे समटे ? हंता ! अत्थि । तं नो खलु कविला !  
एवं भूयं वा भव्वं वा भविसं वा जन्मं एगखेत्ते एगजुगे एगसमए णं  
दुवे अरहंता वा चक्रवटी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा उप्पज्जिसु वा  
उप्पज्जिति वा उप्पज्जिसंति वा । एवं खलु वासुदेवा ! जंबुदीवाओ २  
भारहाओ वासाओ हथिणाउराओ नयराओ पंडुस्स रन्नो सुण्हा पंचणहं  
पंडवाणं भारिया दोवई देवी तव पउमनाभस्स रन्नो पुव्वसंगइएणं देवेणं  
अबरकंकं नयरिं साहरिया । तए णं से कण्हे वासुदेवे पंचहिं पंडवेहिं  
सद्धिं अप्पछडे छहिं रहेहिं अबरकंकं रायहाणि दोवईए देवीए कूवं  
हव्वमागए । तए णं तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स पउमनाभेणं रन्ना सद्धिं  
संगामं संगामेमाणस्स अयं संखसहे तव मुहवाया० इटे इव वियंभइ ।  
तए णं से कविले वासुदेवे मुणिसुव्वयं बद्व नमंसइ २ एवं वयासी –  
गच्छामि णं अहं भत्ते ! कण्हं वासुदेवं उत्तमपुरिसं मम सरिसपुरिसं  
पासामि । तए णं मुणिसुव्वए अरहा कविलं वासुदेवं एवं वयासी – नो  
खलु देवाणुपिया ! एवं भूयं वा ३ जणणं अरहंता वा अरहंतं पासंति

चक्रवटी वा चक्रवट्टि पासंति बलदेवा वा बलदेवं पासंति वासुदेवा वा वासुदेवं पासंति । तहवि य णं तुमं कण्हस्स वासुदेवस्स लबणसमुहं मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं वीर्वयमाणस्स सेयापीयाइं धयगगाइं पासिहिसि । तए णं से कविले वासुदेवे मुणिसुव्वयं वंदइ नमंसइ २ हत्थिखंधं दुरुहइ २ सिगघं तुरियं जेणेव वेलाकूले तेणेव उवागच्छइ २ कण्हस्स वासुदेवस्स लबणसमुहं मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं वीर्वयमाणस्स सेयापीयाइं धयगगाइं पासइ २ एवं वयइ – एस णं मम सरिसपुरिसे उत्तमपुरिसे कण्हे वासुदेवे लबण-समुहं मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं वीर्वयइ त्तिकट्टु पंचयन्नं संखं परामुसइ २ मुह-वायपूरियं करेइ । तए णं से कण्हे वासुदेवे कविलस्स वासुदेवस्स संखसहं आयणेइ २ पंचयन्नं जाव पूरियं करेइ । तए णं दोवि वासु-देवा संखसहसमायारि करेति । तए णं से कविले वासुदेवे जेणेव अवरकंका तेणेव उवागच्छइ २ अवरकंकं रायहाणि संभगगतोरणं जाव पासइ २ पउमनाभं एवं वयासी – किन्ने देवाणुपिया ! एसा अवरकंका संभगग जाव सन्निवइया ? तए णं से पउमनाभे कविलं वासुदेवं एवं वयासी – एवं खलु सामी ! जंबुदीवाओ २ भारहाओ वासाओ इहं हव्वमागम्म कण्हेणं वासुदेवेण तुब्भे परिभूय अवरकंका जाव सन्निवडिया । तए णं से कविले वासुदेवे पउमनाभस्स अंतिए एयमझं सोज्जा पउम-नाभं एवं वयासी – हं भो पउमनाभा ! अपत्थियपत्थिया ५ ! किन्ने तुमं जाँणसि मम सरिसपुरिसस्स कण्हस्स वासुदेवस्स विपियं करेमाणे ? – आसुरुत्ते जाव पउमनाभं चिन्विसयं आणवेइ पउमनाभस्स पुत्तं अवर-कंकाए रायहाणीए महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचइ जाव पडिगए ।

(131) तए णं से कण्हे वासुदेवे लबणसमुहं मज्ज्ञंमज्ज्ञेणं वीर्वयइ ते पंचपंडवे एवं वयासी – गच्छह णं तुब्भे देवाणुपिया ! गंगं महानइं उत्तरह जाव ताव अहं सुष्टुयं लबणाहिवइं पासामि । तए णं ते पंच पंडवा कण्हेण २ एवं बुत्ता समाणा जेणेव गंगा महानदी तेणेव उवा-गच्छति २ एगाहियाए नावाए मग्गणगवेसणं करेति २ एगाहियाए नावाए गंगं महानइं उत्तरति २ अन्नमन्नं एवं वयंति – पहू णं देवाणुपिया !

कण्हे वासुदेवे गंगं महानईं बाहाहिं उत्तरित्तए उदाहु नो पहू उत्तरित्तए  
त्तिकट्टु एगट्टियाओ णूमैति २ कण्हं वासुदेवं पडिवालेमाणा २ चिट्ठंति ।  
तए णं से कण्हे वासुदेवे सुट्टियं लवणाहिवइं पासइ २ जेणेव गंगा  
महानईं तेणेव उवागच्छइ २ एगट्टियाए सव्ववाओ समंता मग्गणगवेसणं  
करेइ २ एगट्टियं अपासमाणे एगाए बाहाए रहं सतुरगं ससारहिं गेणहइ  
एगाए बाहाए गंगं महानईं बासट्टुं जोयणाईं अद्भजोयणं च वित्थिणं  
उत्तरित्तं पयत्ते यावि होत्था । तए णं से कण्हे वासुदेवे गंगाए महा-  
नईं बहुमज्ज्ञदेसभाईं संपत्ते समाणे संते तंते परितंते बद्धसेए जाए  
यावि होत्था । तए णं तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स इमेयारूवे अज्ज्ञतिथिए-  
अहो णं पंच पंडवा महाबलवगा जेहिं गंगामहानईं बावट्टुं जोयणाईं  
अद्भजोयणं च वित्थिणा बाहाहिं उत्तिणा । इच्छंतएहिं णं पंचहिं  
पंडवेहिं पउमनाभे हयमहिय जाव नो पडिसेहिए । तए णं गंगादेवी  
कण्हस्स वासुदेवस्स इमं एयारूवं अज्ज्ञतिथियं जाव जाणित्ता थाहं वियरइ ।  
तए णं से कण्हे वासुदेवे मुहुत्तंतरं समासासेइ २ गंगं महानदि बावट्टुं जाव  
उत्तरइ २ जेणेव पंचपंडवा तेणेव उवागच्छइ पंच पंडवे एवं वयासी—  
अहो णं तुब्मे देवाणुपिया ! महाबलवगा जेहिं णं तुब्मेहिं गंगामहानईं  
बावट्टुं जाव उत्तिणा । इच्छंतएहिं णं तुब्मेहिं पउमनाहे जाव नो  
पडिसेहिए । तए णं ते पंच पंडवा कण्हेणं वासुदेवेणं एवं बुत्ता समाणा  
कण्हं वासुदेवं एवं वयासी—एवं खलु देवाणुपिया ! अम्हे तुब्मेहिं  
विसज्जिया समाणा जेणेव गंगा गहानईं तेणेव उवागच्छामो २ एगट्टियाए  
मग्गणगवेसणं तं चेव जाव णूमेमो तुब्मे पडिवालेमाणा चिट्टामो । तए  
णं से कण्हे वासुदेवे तेसि पंचपंडवाणं अंतिए एयमट्टुं सोच्चा निसम्म  
आसुरुत्ते जाव तिवलियं एवं वयासी—अहो णं जया मए लवणसमुइं  
दुवे जोयणसयसहस्सवित्थिणं वीईवइत्ता पउमनाभं हयमहियं जाव  
पडिसेहित्ता अवरकंका संभग्गा दोवर्ई साहत्यि उवणिया तया णं तुब्मेहिं  
मग्ग माहप्पं न विज्ञायं इयाणि जाणिस्सह त्तिकट्टु लोहदंडं परामुसइ  
पंचण्हं पंडवाणं रहे सूसूरेइ २ निविसए आणवेइ २ तथं रहमहणे

नामं कोडे निविडे । तए णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव सए खंधावारे तेणेव उवागच्छइ २ सएणं खंधावारेणं सद्दिं अभिसमज्ञागए यावि होत्था । तए णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव बारवई नयरी तेणेव उवागच्छइ २ अणुप्पविसइ ।

(132) तए णं ते पंचपंडवा जेणेव हत्थिणाउरे तेणेव उवागच्छंति २ जेणेव पंडु राया तेणेव उवागच्छंति २ करयल जाव एवं वयासी— एवं खलु ताओ ! अम्हे कण्हेण निविसया आणत्ता । तए णं पंडुराया ते पंचपंडवे एवं वयासी— कहण्णं पुत्ता ! तुम्भे कण्हेण वासुदेवेण निविसया आणत्ता ? तए णं ते पंचपंडवा पंडुं रायं एवं वयासी— एवं खलु ताओ ! अम्हे अवरकंकाओ पडिनियत्ता लवणसमुद्रं दोन्नि जोयण-सयसहस्साइं वीईवइत्थाँ । तए णं से कण्हे वासुदेवे अम्हे एवं वयइ— गच्छह णं तुम्भे देवाणुपिया ! गंगं महानइं उत्तरह जाव ताव अहं एवं तहेव जाव चिद्धामो । तए णं से कण्हे वासुदेवे सुट्टियं लवणाहिवइं दट्टूण तं चेव सब्बं नवरं कण्हस्स चित्ता न बैज्ञाइ जाव निविसए आणवेइ । तए णं से पंडुराया ते पंचपंडवे एवं वयासी— दुट्ठुं णं तुमं पुत्ता ! कयं कण्हस्स वासुदेवस्स विपियं करेमाणेहिं । तए णं से पंडुराया कोंति देविं सदावेइ २ एवं वयासी— गच्छह णं तुमं देवाणुपिया ! बारवईं कण्हस्स वासुदेवस्स निवेएहि— एवं खलु देवाणुपिया ! तुमे पंचपंडवा निविसया आणत्ता । तुमं च णं देवाणुपिया ! दाहिणडुभरहस्स सामी । तं संदिसंतु णं देवाणुपिया ! ते पंचपंडवा कयरं देसं वा दिसिं वा गच्छंतु ? तए णं सा कोंती पंडुणा एवं तुत्ता समाणी हत्थिखंधं दुरुहइ जहा हेणा जाव संदिसंतु णं पिउच्छा ! किमागमणपओयणं । तए णं सा कोंती कण्हं वासुदेवं एवं वयासी— एवं खलु तुमे पुत्ता ! पंचपंडवा निविसया आणत्ता तुमं च णं दाहिणडुभरहस्स जाव दिसं वा गच्छंतु । तए णं से कण्हे वासुदेवे कोंति देविं एवं वयासी— औपूयवयणा णं पिउच्छा ! उत्तमपुरिसा वासुदेवा बलदेवा चक्रवटी । तं गच्छंतु णं पंचपंडवा दाहिणिल्लबेयालिं तथं पंडमहुरं निवेसंतु मम अदिङ्गेवगा भवंतु त्तिकट्टु कोंति देविं

सक्कारेइ सम्माणेइ जाव पडिविसज्जेइ । तए णं सा कोंती जाव पंडुस्स  
एयमटुं निवेएइ । तए णं पंडु राया पंच पंडवे सहावेइ २ एवं वयासी –  
गच्छह णं तुब्बे पुत्ता ! दाहिणिलं वेयालिं । तथं णं तुब्बे पंडुमहुरं  
निवेसेह । तए णं ते पंचपंडवा पंडुस्स रन्नो जाव तहति पडिसुर्णेति २  
सबलवाहणा हयगया हिथिणाउराओ पडिनिक्खमंति २ जेणेव  
दक्षिणिल्ले वेयाली तेणेव उवागच्छंति २ पंडुमहुरं नाम नगरं निवेसंति ।  
तथवि णं ते विपुलभोगसमिइसमन्नागया यावि होत्था ।

(133) तए णं सा दोवई देवी अन्नया कयाइ आवन्नसत्ता  
जायावि होत्था । तए णं सा दोवई देवी नवण्हं मासाणं जाव सुरुवं  
दारगं पयाया सूमालं निव्वत्तबारसाहस्स इमं एयारुवं – जम्हा णं अम्हं  
एस दारए पंचण्हं पंडवाणं पुत्ते दोवईए देवीए अत्तए तं होऊ णं  
इमस्स दारगस्स नामधेज्जं पंडुसेणे त्ति । तए णं तस्स दारगस्स अम्मा-  
पियरो नामधेज्जं करेति पंडुसेणत्ति । वावत्तरि कलाओ जाव अलंभोग-  
समत्थे जाए जुवराया जाव विहरइ । थेरा समोसढा परिसा निगया ।  
पंडवा निगया धम्मं सोज्जा एवं वयासी – जं नवरं देवाणुपिया ! दोवई  
देविं आपुच्छामो पंडुसेणं च कुमारं रजे ठावेमो तओ पच्छा देवाणु-  
पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता जाव पञ्चयामो । अहासुहं देवाणुपिया !  
तए णं ते पंचपंडवा जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंति २ दोवईं  
देविं सहावेति २ एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिए ! अम्हेहिं थेराणं  
अंतिए धम्मे निसंते जाव पञ्चयामो । तुमं णं देवाणुपिए । किं करेसि ?  
तए णं सा दोवई ते पंचपंडवे एवं वयासी – जइ णं तुब्बे देवाणुपिया !  
संसारभउचिवगा जाव पञ्चयह मम के अन्ने आलंबे वा जाव भविस्सह ?  
अहं पि य णं संसारभउचिवगा देवाणुपिएहिं साद्धि पञ्चइस्सामि । तए  
णं ते पंचपंडवा पंडुसेणस्स अभिसेओ जाव राया जाए जाव रज्जं  
पसाहेमाणे विहरइ । तए णं ते पंचपंडवा दोवई य देवी अन्नया कयाइ  
पंडुसेणं रायाणं आपुच्छंति । तए णं से पंडुसेणे राया कोडुंवियपुरिसे  
सहावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो ! देवाणुपिया ! निक्खमणा-

भिसेयं जाव उवट्टुवेह पुरिससहस्रवाहिणीओ सिवियाओ उवट्टुवेह जाव पचोरुहंति जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छंति जाव आलित्ते णं जाव समणा जाया चोहस्स पुन्वाइं अहिज्जंति २ बहूणि वासाणि छट्टट्टम-दसमदुवालसेहिं मासद्वमासखमणेहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ।

(134) तए णं सा दोवई देवी सीयाओ पचोरुहइ जाव पञ्चवद्या सुञ्चयाए अज्ञाए सिस्सिणियत्ताए दलयइ एकारस अंगाइं अहिज्जाइ बहूणि वासाणि छट्टट्टमदसमदुवालसेहिं जाव विहरइ ।

(135) तए णं थेरा भगवंतो अन्नया कयाइ पंडुमहुराओ नयरीओ सहसंबवणाओ उज्जाणाओ पडिनिक्खमंति २ बहिया जणवयविहारं विहरंति । तेण कालेण २ अरहा अरिड्डुनेमी जेणेव सुरद्वाजणवए तेणेव उवागच्छइ २ सुरद्वाजणवयंसि संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ ४ – एवं खलु देवाणुपिया ! अरहा अरिड्डुनेमी सुरद्वाजणवए जाव विहरइ । तए णं ते जुहिड्डिल्लपामोक्खा पंच अणगारा बहुजणस्स अंतिए एयमट्टुं सोच्चा अन्नमन्नं सद्वावेति २ एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! अरहा अरिड्डुनेमी पुञ्चाणुपुञ्चिव जाव विहरइ । तं सेयं खलु अम्हं थेरा आपुच्छित्ता अरहं अरिड्डुनेमिं बंदीणाए गमित्तए अन्नमन्नस्स एयमट्टुं पडिसुणेति २ जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छंति २ थेरे भगवंते बंदंति नमंसंति २ एवं वयासी – इच्छामो णं तुब्मेहिं अब्भणुन्नाया समाणा अरहं अरिड्डुनेमिं जाव गमित्तए । अहासुहं देवाणुपिया ! तए णं ते जुहिड्डिल्लपामोक्खा पंच अणगारा थेरेहिं अब्भणुन्नाया समाणा थेरे भगवंते बंदंति नमंसंति २ थेराणं अंतियाओ पडिनिक्खमंति मासंमासेणं अणिक्खित्तेणं तबोक्खमेणं गामाणुगामं दूइज्जमाणा जाव जेणेव हृत्थकप्पे तेणेव उवागच्छंति हृत्थ-कप्पस्स बहिया सहसंबवणे उज्जाणे जाव विहरंति । तए णं ते जुहि-ड्डिल्लवज्जा चत्तारि अणगारा मासक्खमणपारणए पढमाए पोरिसीए सज्ज्ञायं करेति बीयाए एवं जहा गोथमसामी नवरं जुहिड्डिलं आपुच्छंति जाव अडमाणा बहुजणसहं निसामेति । एवं खलु देवाणुपिया ! अरहा

अरिहुनेमी उज्जंतसेलसिहरे मासिएण भत्तेण अपाणएण पंचाहिं  
छत्तीसेहिं अणगारसएहिं सद्धि कालगए जाव पहीणे । तए णं ते जुहिडिल्ल-  
बज्जा चत्तारि अणगारा बहुजणस्स अंतिए सोज्जा हत्थकप्पाओ पडि-  
निक्खमंति २ जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे जेणेव जुहिडिले अणगारे  
तेणेव उवागच्छंति २ भत्तपाणं पञ्चक्खंति २ गमणागमणस्स पडिक्कमंति २  
एसणमणेसणं आलोएंति २ भत्तपाणं पडिदंसेंति २ एवं वयासी –  
एवं खलु देवाणुपिया जाव कालगए । तं सेयं खलु अम्हं देवाणुपिया !  
इमं पुञ्चगहियं भत्तपाणं परिहुवेत्ता सेत्तुञ्जं पञ्चवयं सणियं २ दुरुहित्तए  
संलेहणाशूसणाझोसियाणं कालं अणवेक्खमाणाणं विहरित्तए त्तिकट्टु  
अन्नमन्नस्स एयमटुं पडिसुणेति २ तं पुञ्चगहियं भत्तपाणं एगंते परि-  
द्धवेंति २ जेणेव सेत्तुञ्जे पञ्चए तेणेव उवागच्छंति २ सेत्तुञ्जं पञ्चवयं  
सणियं २ दुरुहंति जाव कालं अणवक्खमाणा विहरंति । तए णं ते  
जुहिडिल्लपामोक्ष्वा पंच अणगारा सामाइयमाइयाइं चोहसपुञ्चाइं  
अहिज्जंति बहूणि वासाणि दोमासियाए संलेहणाए अत्ताणं झोसेत्ता  
जस्सट्टाए कीरइ नगगभावे जाव तमट्टमाराहेति २ अणंते जाव  
केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने जाव सिद्धा ।

(136) तए णं सा दोवई अज्जा सुञ्चयाणं अज्जियाणं अंतिए  
सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाइं अहिज्जइ २ बहूणि वासाणि मासियाए  
संलेहणाए आलोइयपडिक्कता कालमासे कालं किञ्चा बंभलोए उववन्ना ।  
तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं दस सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । तत्थ णं  
दुवयैस्स वि देवस्स दससागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । से णं भंते ! दुवए  
देवे ताओ जाव महाविदेहे वासे जाव अंतं काहिइ ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं  
सोलसमस्स नायज्ज्ययणस्स अयमट्टे पन्नते त्तिवेमि ।

## ॥ सत्तरसमं अज्ज्ञयणं ॥

(137) जइ णं भते ! समणेण० सोलसमस्स नायज्ज्ञयणस्स अय-  
मटे पन्ते सत्तरसमस्स नायज्ज्ञयणस्स के अटे पन्ते ? एवं खलु जंबू !  
तेणं कालेणं २ हत्थिसीसे नामं नयरे होत्था वण्णओ । तत्थ णं कणगकेऊ  
नामं राया होत्था वण्णओ । तत्थ णं हत्थिसीसे नयरे बहवे संजुत्ता-  
नावावाणियगा परिवसंति अड्डा जाव बहुजणस्स अपरिभूया यावि होत्था !  
तए णं तेसि संजुत्तानावावाणियगाणं अन्नया कयाइ एगयओ जहा अरह-  
चए जाव लवणसमुहं अणेगाइं जोयणसयाइं ओगाढा यावि होत्था । तए  
णं तेसि जाव बहूणि उप्पाँयसयाइं जहा माकंदियदारगाणं जाव कालियबाए  
य तत्थ संमुच्छिए । तए णं सा नावा तेणं कालियबाएणं आधुणिज्ज-  
माणी २ संचालिज्जमाणी २ संखोहिज्जमाणी २ तत्थेव परिभमइ । तए  
णं से निज्जामए नद्धमईए नद्धसुईए नद्धसन्ने मूढदिसाभाए जाए यावि  
होत्था न जाणइ कयरं दिसं वा विदिसं वा पोयवहणे अवहिए त्तिकट्टु  
ओहयमणसंकप्पे जाव झियायइ । तए णं ते बहवे कुच्छिधारा य कण-  
धारा य गड्भेल्लंगा य संजुत्तानावावाणियगा य जेणेव से निज्जामए  
तेणेव उवागच्छंति २ एवं वयासी – किन्नं तुमं देवाणुपिया ! ओहय  
मणसंकप्पे झियायसि ? तए णं से निज्जामए ते बहवे कुच्छिधारा य ४  
एवं वयासी – एवं खलु अहं देवाणुपिया ! नद्धमईए जाव अवहिए-  
त्तिकट्टु तओ ओहयमणसंकप्पे । तए णं ते कणणधारा य ४ तस्स  
निज्जामयसंतिए एयमटं सोचा निसम्म भीया ४ ष्हाया कयबलिकम्मा  
करयल जाव बहूणं इंदाण य खंधाण य जहा मल्लिनाए जाव उवायमाणा २  
चिट्ठंति । तए णं से निज्जामए तओ मुँहुत्तंतरस्स लद्धमईए ३ अमूढ-  
दिसाभाए जाए यावि होत्था । तए णं से निज्जामए ते बहवे कुच्छिधारा य ४ तस्स  
निज्जामगस्स अंतिए एयमटं सोचा हट्टुढा पथकिखणाणुकूलेणं बाएणं

जेणेव कालियदीवे तेणेव उवागच्छंति २ पोयवहणं लंबेति २ एगट्टियाहिं कालियदीवं उत्तरंति । तत्थं णं बहवे हिरण्णागरे य सुवण्णागरे य रथणागरे य वइरागरे य बहवे तत्थं आसे पासंति किं ते ? हरिरेणुसोणिसुत्तग आइणवेढो । तए णं ते आसाओ वाणियए पासंति तेसि गंधं आधायंति भीया तत्था उठिवगगा उठिवगगमणा तओ अणेगाइं जोयणाइं उद्भमंति । तेऽणं तत्थं पउरगोयरा पउरतणपाणिया निवभया निरुठिवगगा सुहंसुहेणं विहरंति । तए णं ते संजुत्तानावावाणियगा अन्नमन्नं एवं वयासी – किन्नं अम्हं देवाणुपिया ! आसेहिं ? इमे णं बहवे हिरण्णांगरा य सुवण्णांगरा य रथणागरा य वयरागरा य । तं सेयं खलु अम्हं हिरण्णस्स य सुवण्णस्स य रथणस्स य वयरस्स य पोयवहणं भरित्तए त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयम्हं पडिसुणेति २ हिरण्णस्स य सुवण्णस्स य रथणस्स य वयरस्स य तणस्स य कट्टस्स य अन्नस्स य पाणियस्स य पोयवहणं भरेति २ दक्षिखणाणुकूलेणं वाएणं जेणेव गंभीरपोयपट्टणे तेणेव उवागच्छंति २ पोयवहणं लंबेति २ सगडीसागडं सज्जेति २ तं हिरण्णं जाव वइरं च एगट्टियाहिं पोयवहणाओ संचारेति २ सगडीसागडं संजोएंति जेणेव हत्थिसीसे नयरे तेणेव उवागच्छंति २ हत्थिसीसयस्स नयरस्स बहिया अगगुज्जाणे सत्थनिवेसं करेति २ सगडीसागडं मोएंति २ महत्थं जाव पाहुडं गेण्हंति २ हत्थिसीसं च नयरं अणुप्पविसंति २ जेणेव से कणगकेऊ तेणेव उवागच्छंति २ जाव उवणेंति । तए णं से कणगकेऊ तेसि संजुत्तावाणियगाणं तं महत्थं जाव पडिच्छ्लइ २ ते संजुत्तावाणियगा एवं वयासी – तुब्भे णं देवाणुपिया ! गामागर जाव आहिंडह लवणसमुहं च अभिक्खणं २ पोयवहणेणं ओगाहेह । तं अतिथियाइ त्थं केइ भे<sup>१</sup> कहिंचि<sup>२</sup> अच्छेरए दिट्टपुंवे ? तए णं ते संजुत्तावाणियगा कणगकेऊ एवं वयासी – एवं खलु अम्हे देवाणुपिया ! इहेव हत्थिसीसे नयरे परिवसामो तं चेव जाव कालियदीवंतेणं संझैँढा । तत्थं णं बहवे हिरण्णांगरा य जाव बहवे तत्थं आसे । किं ते ? हरिरेणु जाव अणेगाइं जोयणाइं उद्भमंति । तए णं सामी ! अम्हेहिं कालियदीवे

ते आसा अच्छेरए दिट्ठपुञ्चे । तए णं से कणगकेऊ तेसि संजुत्ताणं अंतिए एयमडुं सोऽवा ते संजुत्तए एवं वयासी – गच्छह णं तुब्बे देवाणुपिया ! मम कोडुंवियपुरिसेहिं साद्विं कालियदीवाओ ते आसे आणेह । तए णं ते संजुत्तावाणियगा कणगकेउं एवं वयासी – एवं सामि त्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेंति । तए णं से कणगकेऊ कोडुंवियपुरिसे सद्वावेइ २ एवं वयासी – गच्छह णं तुब्बे देवाणुपिया ! संजुत्तएहिं नावावाणियएहिं सद्विं कालियदीवाओ मम आसे आणेह । तेवि पडिसुणेंति । तए णं ते कोडुंविया सगडीसागडं सज्जेंति २ तत्थ णं वहूणं वीणाण य वल्कीण य भामरीण य कच्छभीण य भंभाण य छव्भामरीण य विचित्तवीणाण य अन्नेसिं च वहूणं सोयंदियपाउगगाणं दव्वाणं सगडी-सागडं भरेंति २ वहूणं किण्हाण य जाव सुक्षिलाण य कट्टकम्माण य ४ गंथिमाण य ४ जाव संघाइमाण य अन्नेसिं च वहूणं चक्खिदियपाउगगाणं दव्वाणं सगडीसागडं भरेंति २ वहूणं कोट्ठपुडाण य केयझपुडाण य जैव अन्नेसिं च वहूणं घाणिदियपाउगगाणं दव्वाणं सगडीसागडं भरेंति २ वहुस्स खंडस्स य गुलस्स य सक्कराए य मच्छंडियाए य पुफुत्तरपउमुत्तर० अन्नेसिं च जिविभिदियपाउगगाणं दव्वाणं सगडीसागडं भरेंति २ अन्नेसिं च वहूणं कोयवाण य कंबलाण य पावाराण य नवतयाण य मलयाण य मसूराण य सिलावट्टाण य जाव हंसगव्भाण य अन्नेसिं च फासिंदिय-पाउगगाणं दव्वाणं सगडीसागडं भरेंति २ सगडीसागडं जोयंति २ जेणेव गंभीरए पोयट्टाणे तेणेव उवागच्छंति सगडीसागडं मोयंति २ पोयवहूणं सज्जेंति २ तेसि उक्किट्टाणं सहफरिसरसरूवगंधाणं कट्टस्स य तणस्स य पाणियस्स य तंदुलाण य समियस्स य गोरसस्स य जाव अन्नेसिं च वहूणं पोयवहूणपाउगगाणं पोयवहूणं भरेंति २ दक्खिणाणुकूलेणं वाएगं जेणेव कालियदीवे तेणेव उवागच्छंति २ पोयवहूणं लंबेंति २ ताइं उक्किट्टाइं सहफरिसरसरूवगंधाइं एगट्टियाहिं कालियदीवं उत्तारेंति २ जहिं जहिं च णं ते आसा आसयंति वा सयंति वा चिद्वंति वा तुर्यट्टंति वा तहिं तहिं च णं ते कोडुंवियपुरिसा ताओ वीणाओ य जाव चित्तवीणाओ य

अन्नाणि बहूणि सोयंदियपाउगगाणि य दव्वाणि समुदीरेमाणा ठबेंति तेसि च परिपेरंतेण पासे ठबेंति निश्छला निष्फंदा तुसिणीया चिढ़न्ति । जस्थ जस्थ ते आसा आसयंति वा जाव तुयदृष्टि वा तस्थ तस्थ णं ते कोहुंबिया बहूणि किण्हाणि य कट्टकम्माणि य जाव संघाइमाणि य अन्नाणि य बहूणि चकिंखदियपाउगगाणि य दव्वाणि ठबेंति तेसि परिपेरंतेण पासए ठबेंति २ निश्छला निष्फंदा तुसिणीया चिढ़न्ति । जस्थ जस्थ ते आसा आसयंति तस्थ तस्थ ते णं तेसि बहूणं कोहुपुडाण य अन्नोसि च घाणिंदियपाउगगाणं दव्वाणं पुंजे य नियरे य करेति २ तेसि परिपेरते तस्थ तस्थ चिढ़न्ति । जस्थ जस्थ णं ते आसा आसयंति ४ तस्थ तस्थ गुलस्स जाव अन्नोसि च बहूणं जिडिभदियपाउगगाणं दव्वाणं पुंजे य नियरे य करेति २ वियरए खणंति २ गुलपाणगस्स खंडपाणगस्स पौरपाणगस्स अन्नोसि च बहूणं पाणगाणं वियरए भरेति २ तेसि परिपेरंतेण पासए ठबेंति जाव चिढ़न्ति । जहिं जहिं च णं ते आसा तहिं तहिं च ते बहवे कोयवया जाव सिलावदृया अन्नाणि य फासिंदियपाउगगाइं अत्थुयपष्ठथुयाइं ठबेंति २ तेसि परिपेरंतेण जाव चिढ़न्ति । तए णं ते आसा जेणेव ते उकिट्टा सहफरिसरसरूवगंधा तेणेव उवागच्छन्ति । तस्थ णं अत्थेगइया आसा अपुञ्चा णं इमे सहफरिसरसरूवगंधा तिकट्टु तेसु उकिट्टेसु सहफरिसरसरूवगंधेसु अमुच्छिया ४ तेसि उकिट्टाणं सह जाव गंधाणं दूरंदूरेण अवक्कमंति २ ते णं तस्थ पउरगोर्यैरा पउरतणपाणिया निब्भया निरुविवग्गा सुहंसुहेणं विहरन्ति । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगंथो वा निगंथी वा सहफरिस जाव नो सज्जइ से णं इहलोए चेव बहूणं समणाणं ४ अज्ञाणिज्जे जाव वीईवइस्सइ ।

(188) तस्थ णं अत्थेगइया आसा जेणेव उकिट्टा सहफरिसरसरूवगंधा तेणेव उवागच्छन्ति २ तेसु उकिट्टेसु सहेसु ५ मुच्छिया जाव अज्ञोबवज्ञा आसेविउं पयत्ता यावि होतथा । तए णं ते आसा ते उकिट्टे सहे ५ आसेवमाणा लेहिं बहूहिं कूडेहि य पासेहि य गलएसु य पाएसु य बज्जन्ति । तए णं ते कोहुंबिया ते आसे गिण्हन्ति २ एगद्वियाहिं

पोयवहणे संचारेति २ तणस्स य कटुस्स य जाव भरेति । तए णं ते संजुत्ता दक्षिणाणुकूलेण वाएणं जेणेव गंभीरए पोयपैट्टणे तेणेव उवागच्छंति २ पोयवहणं लंबेति २ ते आसे उत्तारेति २ जेणेव हत्थिसीसे नयरे जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव उवागच्छंति २ करयल जाव बङ्गावेति ते आसे उवणेति । तए णं से कणगकेऊ तेसि संजुत्तावाणियगाणं उसुकं वियरइ २ सक्कारेइ संमाणेइ २ पडिविसज्जेइ । तए णं से कणगकेऊ कोंडुवियपुरिसे सद्वावेइ २ सक्कारेइ संमाणेइ २ पडिविसज्जेइ । तए णं से कणगकेऊ राया आसमदए सद्वावेइ २ एवं वयासी – तुबमे णं देवाणुप्पिया ! मम आसे विणएह । तए णं ते आसमदगा तहत्ति पडिसुणेति २ ते आसे बहूहिं मुहबंधेहि य कण्णबंधेहि य नासाबंधेहि य वालबंधेहि य खुरबंधेहि य कडगबंधेहि य खलिणबंधेहि य अहिलाणवंधेहि य पडियाणेहि य अंकणाहि य विर्त्तप्पहारेहि य ल्यप्पहारेहि य कसप्पहारेहि य छिवप्पहारेहि य विणयंति कणगकेऊस्स रओ उवणेति । तए णं से कणगकेऊ ते आसमदए सक्कारेइ २ पडिविसज्जेइ । तए णं ते आसा बहूहिं मुहबंधेहि य जाव छिवाप्पहारेहि य बहूणि सारीरमाणसाइं दुक्खाइं पावेति । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगगंथो वा निगगंधी वा पव्वइए समाणे इट्टेसु सहफरिसरसरूवगंधेसु सज्जइ रज्जइ गिज्जइ मुज्जइ अज्जोषववज्जइ से णं इहलोए चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं जाव सावियाणं हीलणिज्जे जाव अणुपरियैट्टइ ।

(गाहा):— कलरिभियमहुरतंतीतलतालवंसकउँहाभिरामेसु । सहेसु रज्जमाणा रमंति सोइंदियवसद्वा ॥१॥ सोइंदियदुहंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । दीविगरुयमसहंतो वहबंधं तित्तिरो पत्तो ॥२॥ थणजहणवयणकरचरणनयणगवियविलासियगएसु । रुवेसु रज्जमाणा रमंति चक्षिदियवसद्वा ॥३॥ चक्षिदियदुहंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । जं जलणामि जलंते पडइ पयंगो अबुद्धीओ ॥४॥ अगरुवरपवररधूवणउँयमलाणुलेवणविहीसु । गंधेसु रज्जमाणा रमंति घाणिदियवसद्वा ॥५॥ घाणिदियदुहंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । जं ओसहि-

गंधेण विलाओ निद्वावई उरगो ॥६॥ तित्तकडुयं कसायं अंविरं महुरं  
बहुखज्जपेज्जलेज्जेसु । आसायंमि उ गिद्वा रमंति जिडिभदियवसट्टा ॥७॥  
जिडिभदियदुहंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । जं गल्लगुकिखत्तो  
फुरइ थलविरेलिअो मच्छो ॥८॥ उउभयमाणसुहेहि<sup>४</sup> य सविभवहियय-  
मणनिच्चुइकरेहि<sup>५</sup> । फासेसु रज्जमाणा रमंति फासिंदियवसट्टा ॥९॥  
फासिंदियदुहंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । जं खणइ भत्थयं  
कुंजरस्स लोहंकुसो तिक्खो ॥१०॥ कलरिभियमहुरतंतीतलतालवंस-  
कउहाभिरामेसु । सदेसु जे न गिद्वा वसट्टमरणं न ते मरए ॥११॥  
थणजहणवयणकरचरणनयणगविवयविलासियगईसु । रुवेसु जे न रत्ता  
वसट्टमरणं न ते मरए ॥१२॥ अगरुवरपवरधूवणउउयमलाणुलेवण-  
विहीसु । गंधेसु जे न गिद्वा वसट्टमरणं न ते मरए ॥१३॥ तित्तकडुयं  
कसायं महुरंबहुखज्जपेज्जलेज्जेसु । आसायंमि न गिद्वा वसट्टमरणं न  
ते मरए ॥१४॥ उउभयमाणसुहेसु य सविभवहिययमणनिच्चुइकरेसु ।  
फासेसु जे न गिद्वा वसट्टमरणं न ते मरए ॥१५॥ सदेसु य भद्रय-  
पावएसु सोयविसयं उवागएसु । तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न  
होयव्वं ॥१६॥ रुवेसु य भद्रयपावएसु चकखुविसयं उवगएसु । तुट्टेण  
व रुट्टेण व समणेण सया न होयव्वं ॥१७॥ गंधेसु य भद्रयपावएसु  
घाणविसयमुवगएसु । तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयव्वं ॥१८॥  
रसेसु य भद्रयपावएसु जिभविसयमुवगएसु । तुट्टेण व रुट्टेण  
व समणेण सया न होयव्वं ॥१९॥ फासेसु य भद्रयपावएसु काय-  
विसयमुवगएसु । तुट्टेण व रुट्टेण व समणेण सया न होयव्वं ॥२०॥

एवं खलु जंबू ! समणेण भगवया महावीरेण जाव संपत्तेण  
सत्तरसमस्स नायज्जयणस्स अयमट्टे पन्नते त्तिवेमि ।

॥ सत्तरसमं नायज्जयणं समतं ॥१७॥

## ॥ अद्वारसमं अज्ञयण ॥

(139) जइ णं भंते ! समणेण० सत्तरसमस्स अयमडे पन्नते अद्वारसमस्स के अडे पन्नते ? एवं खलु जंबू ! तेण कालेण २ राय-गिहे नामं नयरे होत्था बणओ । तथ णं धणे नामं सत्थवाहे होत्था भद्वा भारिया । तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स पुत्ता भद्वाए अत्तया पंच सत्थवाहदारगा होत्था तंजहा — धणे धणपाले धणदेवे धणगोवे धण-रक्षिवए । तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स धूया भद्वाए अत्तया पंचण्हं पुत्ताणं अणुमगजाइया सुंसुमा नामं दारिया होत्था सूमालपाणिपाया । तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स चिलाए नामं दासचेडे होत्था अहीणपंचिदियसरीरे मंसोवच्चिए बालकीलावणकुसले यावि होत्था । तए णं से दासचेडे सुंसुमाए दारियाए बालग्गाहे जाए यावि होत्था सुंसुमं दारियं कडीए गिणहइ २ वहूहिं दारएहि य दारियाहि य डिंभएहि य डिंभियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य साद्धिं अभिरममाणे २ विहरइ । तए णं से चिलाए दासचेडे तेसिं बहूणं दारगाण य ६ अपेगइयाणं खुल्लए अवहरइ एवं वट्टए आँडोलियओ तिदूसए पोत्तुल्लए साँडोल्लए । अपेगइयाणं आभरणमलालंकारं अवहरइ अपेगइए आउसइ एवं अवहसइ निच्छोडेइ निब्भच्छेइ तज्जेइ अपेगइए तालेइ । तए णं ते बहवे दारगा य ६ रोयमाणा य ५ साणं साणं अम्मापिऊणं निवेदेति । तए णं तेसिं बहूणं दारगाण य ६ अम्मापियरो जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छंति २ धणं २ वहूहिं खिज्जार्थियाहि य रुटणाहि य उपालंभैणाहि य खिज्जमाणा य रुटमाणा य उवालंभमाणा य धणस्स २ एयमटुं निवेदेति । तए णं से धणे २ चिलायं दासचेडं एयमटुं भुज्जो भुज्जो निवारेइ नो चेव णं चिलाए दासचेडे उव-रमइ । तए णं से चिलाए दासचेडे तेसिं बहूणं दारगाण य ६ अपेगइयाणं खुल्लए अवहरइ जाव तालेइ । तए णं ते बहवे दारगा य ६ रोयमाणा य जाव अम्मापिऊणं निवेदेति । तए णं ते आसुरुत्ता ५ जेणेव धणे २ (तेणेव उवागच्छंति)<sup>२</sup> २ वहूहिं खिज्जणाहि जाव एयमटुं निवेदेति । तए णं से धणे २ बहूणं दारगाणं ६ अम्मापिऊणं अंतिए एयमटुं सोष्वा

आसुरुत्ते चिलायं दासचेडं उच्चावयाहिं आउसणाहिं आउसइ उद्धंसइ  
निन्बिंभठ्ठेइ निच्छोडेइ तज्जेइ उच्चावयाहिं तालणाहिं तालेइ साओ गिहाओ  
निच्छुभइ ।

(140) तए ण से चिलाए दासचेडे साओ गिहाओ निच्छूदे  
समाणे रायगिहे नयरे सिंघाडग जाव पहेसु देवकुलेसु य सभासु य  
पवासु य जूयखलएसु य वेसाघरएसु य पाणघरएसु य सुहंसुहेण  
परिवद्वैइ । तए ण से चिलाए दासचेडे अँणोहट्टिए अणिवारिए  
सच्छंदमई सझरप्पयारी मज्जप्पसंगी चोज्जप्पसंगी जूयप्पसंगी  
वेसप्पसंगी परदारप्पसंगी जाए यावि होत्था । तए ण रायगिहस्स  
नयरस्स अदूरसामंते दाहिणपुरत्थिमे दिसीभाए सीहगुहा नामं चोर-  
पली होत्था विसमगिरिकडगकोलंब्बसन्निविट्टा वंसीकलंकपागारपरि-  
क्रिखत्ता छिन्नसेलविसमप्पर्वायफरिहोवगूढा एगदुवारा अणेगखंडी  
विदितजणनिगमप्पवेसा अधिभतरपाणिया सुदुलभजलपेरंता सुबहुससवि  
कूवियबल्स्स आगयस्स दुप्पहंसा यावि होत्था । तथ ण सीहगुहाए  
चोरपलीए विजए नामं चोरसेणावई परिवसइ अहम्मिए जाव अहम्म-  
केऊ समुट्टिए बहुनगरनिगयजसे सूरे २ दढप्पहारी साहसिए सहवेही ।  
से ण तथ सीहगुहाए चोरपलीए पंचणहं चोरसयाणं आहेवङ्गं जाव  
विहरइ । तए ण से विजए तकरे सेणावई बहूणं चोराण य पारदारियाण  
य गंठिभेयगाण य संधिच्छेयगाण य खत्तखणगाण य रायाबगारीण  
य अणधारगाण य बालधायगाण य वीसंभधायगाण य जूयकाराण  
य खंडरकखाण य अन्नेसिं च बहूणं छिन्नभिन्नवाहिराहयाणं कुंडंगे यावि  
होत्था । तए ण से विजए चोरसेणावई रायगिहस्स दाहिणपुरत्थिमं  
जणवयं बहूहिं गामधाएहि य नगरधाएहि य गोगहणेहि य बंदिगगहणेहि  
य पंथकुट्टणेहि य खत्तखणेहि य उवीलेमाणे २ विद्धंसेमाणे २  
नित्याणं निद्धणं केरमाणे विहरइ । तए ण से चिलाए दासचेडए राय-  
गिहे बहूहिं अत्थाभिसंकीहि य चोज्जाभिसंकीहि य दाराभिसंकीहि य  
धणएहि य जूयकरेहि य परब्भवेमाणे २ रायगिहाओ नगराओ

निगच्छइ २ जेणेव सीहगुहा चोरपली तेणेव उवागच्छइ २ विजयं  
 चोरसेणावई उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । तए णं से चिलाए दासचेडे  
 विजयस्स चोरसेणावइस्स अग्गे असिलटिंगगाहे जाए यावि होतथा ।  
 जाहे वि य णं से विजए चोरसेणावई गामघायं वा जाव पंथकोट्टि वा  
 काउं वच्छइ ताहे वि य णं से चिलाए दासचेडे सुवहुंपि<sup>१</sup> कूवियबलं हय-  
 महिय जाव पडिसेहेइ २ पुणरवि लङ्घटे कथकज्जे अणहसमग्गे सीह-  
 गुहं चोरपलि हठ्बमागच्छइ । तए णं से विजए चोरसेणावई चिलायं  
 तकरं बहूओ चोरविज्जाओ य चोरमंते य चोरमायाओ य चोरनिगडीओ  
 य सिक्खावेइ । तए णं से विजए चोरसेणावई अन्नया कयाइ काल-  
 धम्मुणा संजुते यावि होतथा । तए णं ताइं पंचचोरसयाइं विजयस्स  
 चोरसेणावइस्स महया २ इड्डीसक्कारसमुदएणं नीहरणं करेति २ बहूइं  
 लोइयाइं मयकिच्चाइं करेति २ जाव विगयसोया जाया यावि होतथा । तए  
 णं ताइं पंचचोरसयाइं अन्नमन्नं सदावेति २ एवं वयासी – एवं खलु  
 अम्हं देवाणुपिया ! विजए चोरसेणावई कालधम्मुणा संजुते । अयं च  
 णं चिलाए तकरे विजएणं चोरसेणावइणा बहूओ चोरविज्जाओ य जाव  
 सिक्खाविए । तं सेयं खलु अम्हं देवाणुपिया ! चिलायं तकरं सीहगुहाए  
 चोरपलीए चोरसेणावइत्ताए अभिसिंचित्तए तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमट्टं  
 पडिसुणेति २ चिलायं सीहगुहाए चोरपलीए चोरसेणावइत्ताए अभि-  
 सिंचंति । तए णं से चिलाए चोरसेणावई जाए अहम्मिए जाव विहरइ ।  
 तए णं से चिलाए चोरसेणावई चोरनायगे जाव कुडंगे यावि होतथा ।  
 से णं तत्थं सीहगुहाए चोरपलीए पंचण्हं चोरसयाण य एवं जहा विजओ  
 तहेव सब्बं जाव रायगिहस्स नयरस्स दाहिणपुरस्थिभिलं जणवयं जाव  
 नित्थाणं निद्वणं करेमाणे विहरइ ।

(141) तए णं से चिलाए चोरसेणावई अन्नया कयाइ विपुलं  
 असणं ४ उवक्खडावेइ २ ते पंच चोरसए आमंतेइ तओ पच्छा ण्हाए  
 कथबलिकम्मे भोयणमंडवंसि तेहिं पंचहिं चोरसएहिं सैद्धि विपुलं  
 असणं ४ सुरं च जाव पसन्नं च आसाएमाणे ४ विहरइ जिमियभुत्तरागए

ते पंच चोरसए विपुलेण धूवपुण्ठगंधमङ्गलालंकारेण सक्कारेइ सम्माणेइ २  
 एवं वयासी – एवं खलु देवाणुप्तिया ! रायगिहे नयरे धणे नामं सत्थवाहे  
 अड्हू० । तस्स णं धूया भद्राए अत्तया पंचण्हं पुत्ताणं अणुमग्गजाइया  
 सुंसुमा नामं दारिया होत्था अहीणा जाव सुरूवा । तं गच्छामो ॣं  
 देवाणुप्तिया ! धणस्स सत्थवाहस्स गिहं विलुंपामो । तुब्बं विपुले धण-  
 कणग जाव सिलप्पवाले ममं सुंसुमा दारिया । तए ॣं ते पंच चोरसया  
 चिलायस्स पडिसुर्णेति । तए ॣं से चिलाए चोरसेणावर्ई तेहिं पंचहिं  
 चोरसएहिं सद्धिं अल्लचम्म दुरुहइ २ पञ्चावरणहकालसमयांसि पंचहिं  
 चोरसएहिं सद्धिं सन्नद्ध जाव गहियाउहपहरणा माइयगोमुहिफलएहिं  
 निकिट्टाहिं असिलट्टीहिं अंसंगएहिं तोणेहिं सज्जीवेहिं धणूहिं समुक्तिवत्तेहिं  
 सरेहिं समुल्लालियाहिं दीहाहिं ओसारियाहिं उरुघंटियाहिं छिप्प-  
 तूरेहिं वज्जमाणेहिं महया २ उकिट्टसीहनाय जाव समुद्रवभूयं पिव  
 करेमाणां सीहगुहाओ चोरपझीओ पडिनिक्खमंति २ जेणेव रायगिहे  
 नयरे तेणेव उवागच्छंति २ रायगिहस्स अदूरसामंते एगं महं गैहणं  
 अणुप्पविसंति २ दिवभं ख्येमाणा चिट्टंति । तए ॣं से चिलाए चोर-  
 सेणावर्ई अद्वरत्तकालसमयांसि निसंतपडिनिसंतंसि पंचहिं चोरसएहिं  
 सद्धिं माइयगोमुहिएहिं फलएहिं जाव भौद्रियाहिं उरुघंटियाहिं जेणेव  
 रायगिहे नयरे पुरत्थिमिले दुवरे तेणेव उवागच्छइ उदगवत्थिं परामुसइ  
 आयंते चोकखे परमसुइभू तालुर्गैधाडिणिविज्ञं आवाहेइ २ रायगिहस्स  
 दुवारकवाडे उदएणं अच्छोडेइ २ कवाडं विहाडेइ २ रायगिहं अणु-  
 प्पविसइ २ महया २ सहेणं उग्घोसेमाणे २ एवं वयासी – एवं खलु अहं  
 देवाणुप्तिया ! चिलाए नामं चोरसेणावर्ई पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं सीह-  
 गुहाओ चोरपझीओ इहं हव्वमागए धणस्स सत्थवाहस्स गिहं घाउकामे ।  
 तं <sup>३</sup>जे ॣं नवियाए माउयाए दुद्धं पाउकामे से ॣं निगच्छउ त्तिकट्टु जेणेव  
 धणस्स सत्थवाहस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ २ धणस्स गिहं विहाडेइ ।  
 तए ॣं से धणे चिलाएणं चोरसेणावइणा पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं गिहं  
 घाद्यज्ञमाणं पासइ २ भीए तत्थे ४ पंचहिं पुत्तेहिं सद्धिं एगंतं अवक्षमइ ।

तएणं से चिलाए चोरसेणावई धणस्स सत्थवाहस्स गिहं घाएइ २ सुबहुं धणकणगं जाव सावएज्जं सुंसुमं च दारियं गेणहइ २ रायगिहाओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव सीहगुहा तेणेव पहारेत्थ गमणाए ।

(142) तए णं से धणे सत्थवाहे जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ सुबहुं धणकणगं सुंसुमं च दारियं अवहारियं जाणित्ता महत्थं ३ पाहुडं गहाय जेणेव नगरगुत्तिया तेणेव उवागच्छइ २ तं महत्थं पाहुडं उवणेइ २ एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! चिलाए चोरसेणावई सीहगुहाओ चोरपलीओ इहं हव्वमागम्म पंचहिं चोरसएहि सद्धिं मम गिहं घाएत्ता सुबहुं धणकणगं सुंसुमं च दारियं गहाय जाव पडिगए । तं इच्छामि णं देवाणुपिया ! सुंसुमाए दारियाए कूवं गमित्तए । तुव्वभं णं देवाणुपिया ! से विपुले धणकणगे ममं सुंसुमा दारिया । तए णं ते नगरगुत्तिया धणस्स एयमटुं पडिसुणेति २ सन्नद्ध जाव गहियाउहपहरणा महया २ उक्किटु जाव समुद्रवभूयं पिव करेमाणा रायगिहाओ निगगच्छंति २ जेणेव चिलाए चोर तेणेव उवागच्छंति २ चिलाएणं चोरसेणावइणा सद्धिं संपलग्गा यावि होत्था । तए णं ते नगरगुत्तिया चिलायं चोरसेणावइ हयमहिय जाव पडिसेहेति । तए णं ते पंचचोरसया नगरगुत्तिएहिं हयमहिय जाव पडिसेहिया समाणा तं विपुलं धणकणगं विच्छडुमाणा य विष्पकिरमाणा य सव्वओ समंता विष्पलाइत्था । तए णं ते नगरगुत्तिया तं विपुलं धणकणगं गेणहंति २ जेणेव रायगिहे तेणेव उवागच्छंति । तए णं से चिलाए तं चोरसेन्न लेहिं नगरगुत्तिएहिं हयमहिय० पवरभीए जाव तत्थे सुंसुमं दारियं गहाय एगं महं आगमियं दीहमद्ध अडविं अणुप्पविडे । तए णं धणे सत्थवाहे सुंसुमं दारियं चिलाएणं अडवी-मुहं अवहीरमाणिं पासित्ताणं पंचहिं पुत्तेहिं सद्धिं अप्पछडे सन्नद्धवद्ध० चिलायस्स पयमगविहि अणुगच्छमाणे अभिगज्जंते हक्करेमाणे पुक्करेमाणे अभितज्जेमाणे अभित्तासेमाणे पिड्डओ अणुगच्छइ । तए णं से चिलाए तं धणं सत्थवाहं पंचहिं पुत्तेहिं सद्धिं अप्पछडे सन्नद्धवद्धं समणगच्छमाणं पासइ २ अत्थामे ४ जाहे नो संचाएइ सुंसुमं दारियं

निव्वाहित्तए ताहे संते तंते परितंते नीलुप्पलगवलं आसि परामुसइ २ सुंसुमाए दारियाए उत्तमंगं छिंदइ २ तं गहाय तं आगामियं अडविं अणुप्पविट्ठे । तए णं से चिलाए तीसे आगामियाए अडवीए तण्हाए छुहाए अभिभूए समाणे पर्महट्टदिसाभाए सीहगुहं चोरपालि असंपत्ते अंतरा चेव काळगए । एवामेव समणाउसो ! जाव पव्वइए समाणे इमस्स ओरालियसरीरस्स वंतासवस्स जाव विद्धंसणधम्मस्स वण्णहेऊं वा जाव आहारं आहारेइ से णं इहलोए चेव बहूं समणाणं ४ हीलणिज्जे जाव अणुपरियट्रिसइ जहा व से चिलाए तक्कोरे । तए णं से धणे सत्थवाहे पंचहिं पुत्तेहिं अप्पछट्टे चिलायं तीसे आगामियाए सब्बओ समंता परिधाडेमाणे २ संते तंते परितंते नो संचाएइ चिलायं चोरसेणावइं साहर्त्थ गिण्हित्तए । से णं तओ पडिनियत्तइ २ जेणेव सा सुंसुमा बालिया चिलाएं जीवियाओ ववरोवियं पासइ २ पैरसुनियत्तेव चंपगपायवेऽ । तए णं से धणे सत्थवाहे<sup>५</sup> अप्पछट्टे आसत्थे कूवमाणे कंदमाणे विलवमाणे महया २ सदेणं कुहुकुहुसं परुन्ने सुचिरकालं बाहप्पमोक्खं करेइ । तए णं से धणे सत्थवाहे पंचहिं पुत्तेहिं अप्पछट्टे चिलायं तीसे आगामियाए सब्बओ समंता परिधाडेमाणे तण्हाए छुहाए य परंभंते समाणे तीसे आगामियाए अडवीए सब्बओ समंता उदगस्स मग्गणगवेसणं करेइ २ संते तंते परितंते निव्विणे समाणे तीसे आगामियाए उदगं अणासाएमाणे जेणेव सुंसुमा जीवियाओ ववरोविया तेणेव उवागच्छइ २ जेढं पुत्तं धणे सहावेइ २ एवं वयासी – एवं खलु पुत्ता ! सुंसुमाए दारियाए अट्टाए चिलायं तक्करं सब्बओ समंता परिधाडेमाणा तण्हाए छुहाए य अभिभूया समाणा इमीसे आगामियाए अडवीए उदगस्स मग्गणगवेसणं करेमाणा नो चेव णं उदगं आसादेमो । तए णं उदगं अणासाएमाणा नो संचाएमो रायगिहं संपावित्तए । तीणं तुझ्मे ममं देवाणुपिया ! जीवियाओ ववरोवेह मम मंसं च सोणियं च आहारेह तेणं आहारेण अवथंद्वा समाणा तओ पच्छा इमं आगामियं अडविं नित्थरिहिह

रायगिहं च संपादिहृह मित्तनाइ० अभिसमागच्छिहह अत्थस्स य धम्मस्स य पुण्णस्स य आभागी भविस्सह । तए णं से जेडे पुत्ते धणेण सत्थवाहेण एवं तुत्ते समाणे धणं २ एवं वयासी—तुब्बे णं ताओ ! अम्हं पिया गुरुजनयदेवयभूया ठावका पइट्टवका संरक्खगा संगोवगा । तं कहणं अम्हे ताओ । तुब्बे जीवियाओ ववरोवेमो तुब्बं णं मंसं च सोणियं च आहारेमो ? तं तुब्बे णं ताओ ! ममं जीवियाओ ववरोवेह मंसं च सोणियं च आहारेह आगामियं अडाविं नित्थरहह तं चेव सब्बं भणइ जाव अत्थस्स जाव आभागी भविस्सह । तए णं धणं सत्थवाहं दोचे पुत्ते एवं वयासी—मा णं ताओ ! अम्हे जेडुं भायरं गुरुदेवयं जीवियाओ ववरोवेमो । तुब्बे णं ताओ ! ममं जीवियाओ ववरोवेह जाव आभागी भविस्सह एवं जाव पंचमे पुत्ते । तए णं से धणे सत्थवाहे पंचपुत्ताणं हिय-इच्छियं जाणित्ता ते पंचपुत्ते एवं वयासी—मा णं अम्हे पुत्ता ! एगमवि जीवियाओ ववरोवेमो । एस णं सुंसुमाए दारियाए सरीरे निष्पाणे जाव जीविप्पजडे । तं सेयं खलु पुत्ता ! अम्हं सुंसुमाए दारियाए मंसं च सोणियं च आहारेत्तए । तए णं अम्हे तेणं आहारेण अवर्थद्वा समाणा रायगिहं संपाउगिस्सामो । तए णं ते पंचपुत्ता धणेण सत्थवाहेण एवं तुत्ता समाणा एयमठुं पडिसुणेति । तए णं धणे सत्थवाहे पंचहिं पुत्तेहिं सद्दिं अरणिं करेइ २ सरणं करेइ २ सरएणं अरणिं महेइ २ आगिं पाडेइ २ आगिं संधुक्खेइ २ दारुयाइं पकिखवइ २ अगिं पज्जालेइ २ सुंसुमाए दारियाए मंसं च सोणियं च आहारेइ । तेणं आहारेण अवर्थद्वा समाणा रायगिहं नयरं संपत्ता मित्तनाइनियग० अभिसमन्नागया तस्स य विउलस्स धणकणगरयण जाव आभागी जाया । तए णं से धणे सत्थवाहे सुंसुमाए दारियाए बहूइं लोइयाइं मयकिच्चाइं जाव विगयसोए जाए यावि होत्था ।

(143) तेणं कालेण २ समणे भगवं महावीरे गुणसिलए चेइए समोसढे । तए णं धणे सत्थवाहे सपुत्ते धम्मं सोच्चा पञ्चइए एकारसंगवी मासियाए संलेहणाए सोहम्मे उववन्ने महाविदेहे वासे सिज्जिहाइ ।

जहा वि य णं जंबू ! धणेणं सत्थवाहेणं नो वण्हेडं वा नो रुवहेडं वा नो बलहेडं वा नो विसयहेडं वा सुंसुमाए दारियाए मंससोणिए आहारिए नन्रत्थ एगाए रायगिहं सपांवणद्वयाए एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निगंथो वा निगंथी वा इमस्स ओरालियसरीरस्स वंतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कासवस्स सोणियासवस्स जाव अवस्सविप्पजहियव्वस्स नो वण्हेडं वा नो रुवहेडं वा नो बलहेडं वा नो विसयहेडं वा आहारं आहारेइ नन्रत्थ एगाए सिद्धिगमणसंपात्तणद्वयाए से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं सावियाणं अच्छणिज्जे जाव वीईवइस्सइ ।

एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेण अट्टारसमस्स अयमट्टे पन्रत्ते त्ति वेमि ।

॥ अट्टारसमं नायज्ञयणं समत्तं ॥१८॥

---

॥ एगूणवीसइमं अज्जयर्ण ॥

(144) जइ णं भते । समणेण० अट्टारसमस्स नायज्जयणस्स अयमठे पन्ते एगूणवीसइमस्स के अट्टे पन्ते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ इहेव जंबुहीवे २ पुच्चविदेहे<sup>१</sup> सीयाए महानईए उत्तरिल्लै कूले नीलवंतस्स दाहिणेणं उत्तरिल्लस्स सीयामुहवणसंडस्स पञ्चतिथमेणं एगसेलगस्स वक्खार-पञ्चयस्स पुरतिथमेणं एत्थं पुक्खलावई नामं विजए पन्ते । तत्थं णं पुंडरिगिणी नामं रायहाणी पन्त्ता नवजोयणवित्थिणा दुवालसजोयण-यामा जाव पञ्चक्खं देवलोगभूया पासाईया द्रसणीया अभिरुवा पडिरुवा । तीसे णं पुंडरिगिणीए नयरीऐ उत्तरपुरतिथमे दिसीभाए नलिणिवणे नामं उज्जाणे होत्था । तत्थं णं पुंडरिगिणीए रायहाणीए महापउमे नामं राया होत्था । तस्स णं पउमावई नामं देवी होत्था । तस्स णं महापउमस्स रन्नो पुत्ता पउमावईए देवीए अत्तया दुवे कुमारा होत्था तं जहा – पुंडरीए य कंडरीए य सुकुमालपाणिपाया० । पुंडरीए जुवराया । तेणं कालेणं २ थेराँगमणं महापउमे राया निगगए धम्मं सोच्चा पुंडरीयं रज्जे ठवेत्ता पञ्चइए पुंडरीए राया जाए कंडरीए जुवराया । महापउमे अणगरे चोद्दसपुन्वाइं अहिज्जइ । तए णं थेरा बहिया जणवयविहारं विहरंति । तए णं से महापउमे बहूणि वासाणि जाव सिद्धे ।

(145) तए णं थेरा अन्नया कयाइ पुणरवि. पुंडरिगिणीए राय-हाणीए नलिणवणे उज्जाणे समोसढा । पुंडरीए राया निगगए । कंडरीए महाजणसइं सोच्चा जहा महाबलो जाव पञ्जुवासइ । थेरा धम्मं परिकहेंति पुंडरीए समणोवासए जाए जाव पडिगए । तए णं कंडरीए उट्टाए उट्टेह २ जाव से जहेयं तुब्भे बयह जं नवरं पुंडरीयं रायं आपुच्छामि तए णं जाव पञ्चयामि । अहासुहं देवाणुपिया ! तए णं से कंडरीए जाव थेरे वंदइ नमंसइ २ थेराणं अंतियाओ पडिनिक्खमइ २ तमेव चाउगधंटं आसरहं दुरुहइ जाव पञ्चोरुहइ जेणेव पुंडरीए राया तेणेव उवागच्छइ करयल जाव पुंडरीयं रायं एवं वयासी – एवं खलु मए थेराणं अंतिए धम्मे निसंते से धम्मे अभिरुहइए । तए णं जाव पञ्चइत्तए । तए णं से

पुंडरीए कंडरीयं एवं वयासी – मा णं तुमं भाजया ! इयाणि मुँडे जाव पञ्चयाहि । अहं णं तुमं महारायाभिसेषणं अभिसिंचामि । तए णं से कंडरीए पुंडरीयस्स रन्नो एयमटुं नो आढाइ जाव तुसिणीए संचिद्गुइ । तए णं पुंडरीए राया कंडरीयं दोचंपि तचंपि एवं वयासी जाव तुसिणीए संचिद्गुइ । तए णं पुंडरीए कंडरीयं कुमारं जाहे नो संचाएइ बहूहिं आधवणाहि य पञ्चवणाहि य ४ ताहे अकामए चेव एयमटुं अणु-मन्त्रित्था जाव निक्खमणाभिसेषणं अभिसिंचइ जाव थेराणं सीसभिक्खं दलयह पञ्चइए अणगारे जाए एकारसंगवी । तए णं थेरा भगवंतो अन्नया कयाइ पुंडरिगिणीओ नयरीओ नलिणिवणाओ उज्जाणाओ पडिनिक्खमंति २ बहिया जणवयविहारं विहरंति ।

(146) तए णं तस्स कंडरीयस्स अणगारस्स तेहिं अंतेहि य पंतेहि य जहा सेलगस्स जाव दाहवक्कंतीए यावि विहरइ । तए णं थेरा अन्नया कयाइ जेणेव पोंडरिगिणी तेणेव उवागच्छंति २ नलिणीवणे समोसदा । पुंडरीए निगणए धम्मं सुणेइ । तए णं पुंडरीए राया धम्मं सोचा जेणेव कंडरीए अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ कंडरीयं वंदइ नमंसइ २ कंडरीयस्स अणगास्स सरीरगं सञ्चावाहं सैरोगं पासइ २ जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ २ थेरे भगवंते वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी—अहणणं भंते ! कंडरीयस्स अणगारस्स अहापवत्तेहिं ओसहभेसज्जेहिं जाव तिगिच्छं आउटामि । तं तुब्भे णं भंते ! मम जाणसालासु समोसरह । तए णं थेरा भगवंतो पुंडरीयस्स पडिसुणेति जाव उवसंपज्जित्ताणं विहरंति । तए णं पुंडरीए जहा मंडुए सेलगस्स जाव बलियसरीरे जाए । तए णं थेरा भगवंतो पुंडरीयं रायं आपुच्छंति २ बहिया जणवयविहारं विहरंति । तए णं से कंडरीए ताओ रोर्यायंकाओ विष्पमुके समाणे तंसि मणुज्ञंसि असणपाणखाइमसाइमांसि मुक्षिष्ठए गिद्धे गढिए अज्जोववन्ने नो संचाएइ पुंडरीयं आपुच्छित्ता बहिया अबमुज्जेणं जाव विहरित्तए तत्थेव ओसन्ने जाए । तए णं से पुंडरीए इमसि कहाए लद्धडे समाणे णहाए अंतेउर-परियालसंपरिवुडे जेणेव कंडरीए अणगारे तेणेव उवागच्छइ २

कंडरीयं तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेह २ वंदह नमंसह २ एवं  
वयासी — धन्नेसि णं तुमं देवाणुपिया ! कयत्थे कयपुणे कयलक्खणे ।  
सुलझे णं देवाणुपिया ! तव माणुस्सए जम्मजीवियफले जे णं तुमं रज्जं  
च जाव अंतेउरं च विछुड्हेत्ता विगोवैइत्ता जाव पञ्चइए । अहणं अहन्ने  
अपुणे अकयपुणे रज्जे य जाव अंतेउरे य माणुस्सएसु य कामभोगेसु  
मुच्छिए जाव अज्ञोववन्ने नो संचाएमि जाव पठ्वइत्तए । तं धन्नेसि णं  
तुमं देवाणुपिया जाव जीवियफले । तए णं से कंडरीए अणगारे पुंडरीयस्स  
एयमटुं नो आढाइ जाव संचिट्हइ । तए णं से कंडरीए पौंडरीएणं  
दोऽपि तश्चपि एवं त्रुते समाणे अकामए अवसवसे लज्जाए गारवेण  
य पुंडरीयं आपुच्छइ २ थेरोहि सद्धि वहिया जणवयविहारं विहरइ ।  
तए णं से कंडरीए थेरोहि सद्धि कंचि कालं उगांउगरोणं विहरित्ता  
तओ पच्छा समणत्तणपरितंते समणत्तणनिविषे समणत्तणनिब्मच्छिए  
समणगुणमुकजोगी थेराणं अंतियाओ सणियं २ पच्चोसकइ २ जेणेव  
पुंडरिगिणी नयरी जेणेव पुंडरीयस्स भवणे तेणेव उवागच्छइ २  
असोगवणियाए असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलापट्टगंसि निसीयह २  
ओहयमणसंकप्पे जाव झियायमाणे संचिट्हइ । तए णं तस्स पौंडरीयस्स  
अंवैधाई जेणेव असोगवणिया तेणेव उवागच्छइ २ कंडरीयं अणगारं  
असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलापट्टगंसि ओहयमणसंकप्पं जाव  
झियायमाणं पासह २ जेणेव पुंडरीए राया तेणेव उवागच्छइ २ पुंडरीयं  
रायं एवं वयासी — एवं खलु देवाणुपिया ! तव पियभाउए कंडरीए  
अणगारे असोगवणियाए असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलापट्टे ओहय-  
मणसंकप्पे जाव झियायह । तए णं से पुंडरीए अम्मधाईए एयमटुं सोष्ठा  
निसम्म तहेव संभंते समाणे उट्ठाए उट्ठेह २ अंतेउरपरियालसंपरिबुडे  
जेणेव असोगवणिया जाव कंडरीयं तिक्खुत्तो एवं वयासी — धन्नेसि णं  
तुमं देवाणुपिया जाव पञ्चइए । अहं णं अधन्ने ३ जाव अपञ्चइत्तए ।  
तं धन्नेसि णं तुमं देवाणुपिया जाव जीवियफले । तए णं कंडरीए  
पुंडरीएणं एवं त्रुते समाणे तुसिणीए संचिट्हइ दोऽपि तश्चपि अव-

चिछइ । तए णं पुँडरीए कंडरीयं एवं वयासी – अट्ठो भंते ! भोगेहिं ? हंता ! अट्ठो । तए णं से पुँडरीए राया कोङुंबियपुरिसे सहावेइ २ एवं वयासी – खिप्पामेव भो देवाणुपिप्या ! कंडरीयस्स महत्यं जाव रायाभिसेयं उवट्टवेह जाव रायाभिसेएणं अभिसिचइ ।

(147) तए णं से पुँडरीए सयमेव पंचमुष्टियं लोयं करेइ सयमेव चाउज्जामं धम्मं पडिवज्जइ २ कंडरीयस्स संतियं आयारभंडगं गेणहइ २ इमं एयारूबं अभिगगहं अभिगिणहइ – कप्पइ मे थेरे वंदित्ता नमंसित्ता थेराणं अंतिए चाउज्जामं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं तओ पच्छा आहारं आहारित्तए त्तिकट्टु इमं एयारूबं अभिगगहं अभिगिणहित्ताणं पुँडरिगिणीओ पडिनिक्खमइ २ पुव्वाणुपुर्विव चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव पहारेत्थ गमणाए ।

(148) तए णं तस्स कंडरीयस्स रत्रो तं पणीयं पाणभोयणं आहारियस्स समाणस्स अइजागरएण य अइभोयणप्पसंगेण य से आहरे नो सम्मं परिणए । तए णं तस्स कंडरीयस्स रत्रो तंसि आहारंसि अपरिणममाणंसि पुव्वरत्तावरत्तकालसमयांसि सरिरगंसि वेयणा पाउव्भूया उज्जला विज्जला पगाढा जाव दुरहियासा पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवकंतीए यावि विहरइ । तए णं से कंडरीए राया रज्जे य रड्डे य अंतेजे य जाव अज्जोववन्ने अट्टुहट्टवसट्टे अकामए अवसवसे कालमासे कालं किञ्चा अहे सत्तमाए पुढवीए उक्कोसकालट्टिहयांसि नरयंसि नेरहयत्ताए उववन्ने । एवामेव समणाउसो ! जाव पव्वहइए समाणे पुणरवि माणुस्सए कामभोए आसाएइ जाव अणुपरियट्टिस्सइ जहा व से कंडरीए राया ।

(149) तए णं से पुँडरीए अणगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ २ थेरे भगवंते वंदइ नमंसइ २ थेराणं अंतिए दोळंपि चाउज्जामं धम्मं पडिवज्जइ छट्टुक्खमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्जायं करेइ २ जाव अडमाणे सीयलुक्खं पाणभोयणं पडिगाहेइ २ अहापज्जत्तमित्तिकट्टु पडिनियत्तेइ जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ २ भत्तपाणं पडिदंसेइ २ थेरेहिं भगवंतेहिं अब्भण्णाए समाणे

अमुच्छिए ४ बिलमिव पन्नगभूएणं अप्पाणेणं तं फासुएसणिज्जं असणं ४ सरीरकोट्टांसि पक्षिववइ । तए णं तस्स पुंडरीयस्स अणगारस्स तं कालाइकंतं अरसं विरसं सीयलुकखं पाणभोयणं आहारियस्स समाणस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स से आहरे नो सम्म परिणमइ । तए णं तस्स पुंडरीयस्स अणगारस्स सरीरगंसि वेयणा पाउव्भूया उज्जला जाव दुराहियासा पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवकंतीए विहरइ । तए णं से पुंडरीए अणगारे अतथामे अबले अवीरिए अपुरिसक्कारपरक्कमे करयल जाव एवं वयासी – नमोत्थु णं अरहंताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं । नमोत्थु णं थेराणं भगवंताणं मम धम्मायरियाणं धम्मोवएसयाणं । पुञ्चिंषि य णं मए थेराणं अंतिए सब्बे पाणाइवाए पञ्चक्खाए जाव मिच्छादंसणसळे पञ्चक्खाए जाव आलोइयपडिकंते कालमासे कालं किञ्चा सन्वद्धुसिद्धे उववन्ने । तओ अणंतरं उव्वट्टित्ता महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ जाव सठवदुक्खाणमंतं काहिइ । एवामेव समणाउसो ! जाव पठवइए समाणे माणुस्सएहिं कामभोगेहिं नो सज्जइ नो रज्जइ जाव नो विठ्ठिघायमावज्जइ से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावगाणं बहूणं सावियाणं अच्छणिज्जे वंदणिज्जे पूयणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्पाणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासणिज्जे त्तिकट्टु परलोए वि य णं नो आगच्छइ बहूणि दंडणाणि य मुंडणाणि य तज्जणाणि य तालणाणि य जाव चाउरंतं संसारकंतारं जाव वीईवइस्सइ जहा व से पुंडरीए अणगारे । एवं खलु जंबू ! समणेण आइगरेणं तित्थगरेणं सयंसंवुद्धेणं जाव निद्विगइनामधेज्जं ठाणं संपत्तेण एगौणवीसइमस्स नायज्जश्यणस्स अयमट्टे पन्नते । एवं खलु जंबू ! समणेण भगवया महावीरेणं जाव सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं संपत्तेण छट्टस्स अंगस्स पठमस्स सुयक्खंधस्स अयमट्टे पन्नते त्ति बेमि !

(150) तस्स णं सुयक्खंधस्स एगौणवीसं अज्जश्यणाणि एगौसरगाणि एगौणवीसाए दिवसेसु समप्पंति ।

॥ एगौणवीसइमं अज्जश्यणं समत्तं ॥

॥ नायाधम्मकहाणं पठमो सुयक्खंधो समत्तो ॥

॥ दोचे सुयक्खंधे ॥

॥ पढमं अज्ञयण ॥

(151) तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नामं नयरे होतथा वणओ । तस्स णं रायगिहस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए तत्थ णं गुणसिलए नामं चेइए होतथा वणओ । तेण कालेण २ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी अज्जसुहम्मा नामं थेरा भगवंतो जाइसंपन्ना कुलसंपन्ना जाव चोहसपुञ्ची चउनाणोवगया पंचहिं अणगारसएहिं सद्धि संपरिदुडा पुव्वाणुपुञ्चिंव चरमाणा गामाणुगामं दूइज्जमाणा सुहंसुहेण विहरमाणा जेणेव रायगिहे नयरे जेणेव गुणसिलए चेइए जाव संजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरंति । परिसा निगगया धम्मो कहिओ परिसा जामेव दिसिं पाउब्मूया तामेव दिसिं पडिगया । तेण कालेण २ अज्जसुहम्मस्स अंतेवासी अज्जजंबू नामं अणगारे जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी — जइ णं भंते ! समणेण जाव संपत्तेण छट्टस्स अंगस्स पढमस्स सुयक्खंधस्स नायाणं अयमटे पन्रत्ते दोच्चस्स णं भंते ! सुयक्खंधस्स धम्मकहाणं समणेण० के अटे पन्रत्ते ? एवं खलु जंबू ! समणेण० धम्मकहाणं दस वग्गा पन्रत्ता तंजहा :—चमरस्स अगगमहिसीणं पढमे वग्गे । बलिस्स बहरोयणिंदस्स बइरोयणरन्नो अगगमहिसीणं बीए वग्गे । असुरिंद-वज्जियाणं दाहिणिल्लाणं इंदाणं अगगमहिसीणं तईए वग्गे । उत्तरिल्लाणं असुरिंदवज्जियाणं भवणवासिंदाणं अगगमहिसीणं चउत्थे वग्गे । दाहिणिल्लाणं वाणमंतराणं इंदाणं अगगमहिसीणं पंचमे वग्गे । उत्तरिल्लाणं वाणमंतराणं इंदाणं अगगमहिसीणं छट्टे वग्गे । चंदस्स अगगमहिसीणं सत्तमे वग्गे । सूरस्स अगगमहिसीणं अट्टमे वग्गे । सक्कस्स अगगमहिसीणं नवमे वग्गे । ईसाणस्स य अगगमहिसीणं दसमे वग्गे । जइ णं भंते ! समणेण० धम्मकहाणं दस वग्गा पन्रत्ता पढमस्स णं भंते ! वग्गस्स समणेण० के अटे पन्रत्ते ? एवं खलु जंबू ! समणेण० पढमस्स वग्गस्स पंच अज्ञयणा पन्रत्ता तंजहा — काली राई रयणी विज्जू मेहा । जइ णं भंते ! समणेण० पढमस्स वग्गस्स पंच अज्ञयणा पन्रत्ता पढमस्स णं

मंते ! अज्ञयणस्स समणेण० के अडे पन्ते १ एवं खलु जंबू ! तेण  
 कालेण० २ रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए सेणिए राया चेह्णणा देवी  
 सामी समोसढे परिसा निगया जाव परिसा पञ्जुवासइ । तेण कालेण० २  
 काली देवी चमरचंचाए रायहाणीए कालवडेसर्गभवणे कालेंसि सीहा-  
 सणंसि चउहिं समाणियसाहस्रीहिं चउहिं मयहरियाहिं सपरिवाराहिं  
 तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणियाहिवईहिं सोलसहिं  
 आयरक्खदेवसाहस्रीहिं अन्नेहि य बहूहिं कालवडिंसयभवणवासीहिं  
 असुरकुमारोहिं देवेहि देवीहिं य साद्वं संपरिवुडा महयाहय जाव विहरइ  
 इमं च णं केवलकप्पं जंबुहीवं २ विउलेणं ओहिणा आभोएमाणी० २  
 पासइ ऐत्थ समणं भगवं महावीरं जंबुहीवे दीवे भारहे वासे रायगिहे  
 नयरे गुणसिलए चेइए अहापटिरुवं उगाहं ओगिण्हत्ता संजमेणं तवसा  
 अप्पाणं भावेमाणं पासइ २ हठुतुड्चित्तमाणंदिया पीइमणा जाव हियया  
 सीहासणाओ अब्मुड्हेइ २ पायपीढाओ पचोरुहइ २ पाउया ओमुयइ २  
 तित्थगराभिमुही सत्तटु पयाइं अणुगच्छइ २ वामं जाणुं अंचेइ २ दाहिणं  
 जाणुं धरणियलंसि निहट्टु तिकखुत्तो मुद्धाणं धरणियलंसि निवेसेई ईसिं  
 पच्चुन्नमझइ २ कडगतुडियथंभियाओ मुयाओ साहरइ २ करयल जाव कट्टु  
 एवं वयासी – नमोत्थु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं । नमोत्थु णं समणस्स  
 भगवओ महावीरस्स जाव संपाविउकामस्स । वंदामि णं भगवंतं तत्थगयं  
 इहगया पासउ मे समणे ३ तत्थगए इहगयं तिकट्टु वंदइ नमंसइ २  
 सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहा । निसण्णा । तए णं तीसे कालीए देवीए  
 इमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था तंजहा – सेयं खलु मे समणं ३ वंदित्ता  
 जाव पञ्जुवासित्तए तिकट्टु एवं संपेहेइ २ आभिंओगिया देवा सहावेइ २  
 एवं वयासी – एवं खलु देवाणुपिया ! समणे ३ एवं जहा दुरियाभो तहेव  
 आणत्तियं देइ जाव दिव्वं सुरवराभिगमणजोगं करेह २ जाव पञ्चपिणह ।  
 तेवि तहेव करेत्ता जाव पञ्चपिणंति नवरं जोयणसहस्रवित्थिणं जाणं  
 सेचं तहेव । तहेव नामगोयं साहेइ तहेव नटृविहिं उवदंसेइ जाव पडिगया ।  
 भंते त्ति भगवं गोयमे समणं ३ वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – कालीए

णं भंते ! देवीए सा दिव्वा देविङ्गी ३ कहिं गया ? कूडागारसालादिहुंतो ।  
 अहो णं भंते ! काली देवी महिङ्गीया ३ । कालीए णं भंते ! देवीए सा  
 दिव्वा देविङ्गी ३ किन्ना लद्धा किन्ना पत्ता किन्ना अभिसमन्नागया ?  
 एवं जहा सूरियाभस्त जाव एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं २ इहेव जंबु-  
 हीवे २ भारहे वासे आमलकप्पा नामं नयरी होत्था वण्णओ । अंब-  
 सालवणे चेइए । जियसत् राया । तत्थं णं आमलकप्पा ए नयरीए काले  
 नामं गाहावई होत्था अड्हु जाव अपरिभूए । तस्स णं कालस्स गाहावइस्स  
 कालसिरी नामं भारिया होत्था सुकुमाल जाव सुरुवा । तस्स णं कालस्स  
 गाहावइस्स धूया कालसिरीए भारियाए अत्तया काली नामं दारिया होत्था  
 वड्हा वड्हुकुमारी जुण्णा जुण्णकुमारी पडियपुयत्थणी निठिवण्णवरा वर-  
 परिवज्जिया वि होत्था । तेणं कालेणं २ पासे अरहा पुरिसादाणीए आइगरे  
 जहा वद्धमाणसामी नवरं नवहत्थुस्सेहे सोलसहिं समणसाहस्रीहिं अट्ठ-  
 त्तीसाए अज्जियासाहस्रीहिं सद्धिं संपरिकुडे जाव अंबसालवणे समोसढे ।  
 परिसा निगगया जाव पञ्जुवासइ । तए णं सा काली दारिया इमीसे  
 कहाए लद्धट्टा समाणा हट्ट जाव हियया जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवा-  
 गच्छइ २ करयल जाव एवं वयासी – एवं खलु अम्मयाओ ! पासे  
 अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जाव विहरइ । तं इच्छामि णं अम्मयाओ !  
 तुब्बेहिं अब्भणुन्नाया समाणी पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स  
 पायवंदियाँ गमित्तए । अहासुहं देवाणुपिया ! मा पडिवंधं करेहि । तए  
 णं सा काली दारिया अम्मापिईहिं अब्भणुन्नाया समाणी हट्ट जाव हियया  
 एहाया कयबलिकम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगलाइं  
 वत्थाइं पवपरिहिया अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरा चेडियाच्छवालपरि-  
 किण्णां साओ गिहाओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव बाहिरिया उवटाणसाला  
 जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छइ २ धम्मियं जाणप्पवरं  
 दुरुढा । तए णं सा काली दारिया धम्मियं जाणप्पवरं एवं जहा दोवई  
 तहा पञ्जुवासइ । तए णं पासे अरहा पुरिसादाणीए कालीए दारियाए  
 तीसे य महइमहालियाए परिसाए धम्मकहेइ । तए णं सा काली दारिया

पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स अंतिए धम्म सोज्जा निसम्म हट्ट जाव हियया पासं अरहं पुरिसादाणीयं तिक्खुत्तो वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी— सहामि णं भंते ! निगंयं पावयणं जाव से जहेयं तुब्मे वयह जं नवरं देवाणुपिया ! अम्मापियरो आपुच्छामि तए णं अहं देवाणुपियाणं अंतिए जाव पव्वयामि । अहासुहं देवाणुपिए । तए णं सा काली दारिया पासेणं अरहया पुरिसादाणीएणं एवं बुत्ता समाणी हट्ट जाव हियया पासं अरहं वंदइ नमंसइ २ तमेव धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहइ २ पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स अंतियाओ अंबसालवणाओ चेइयाओ पडिनिक्खमइ २ जेणेव आमलकप्पा नयरी तेणेव उवागच्छइ २ आमलकप्पं नयरिं मज्जंमज्जेणं जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ धम्मियं जाणप्पवरं ठवेइ २ धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरुहइ २ जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ २ करयलपरिगगहियं जाव एवं वयासी — एवं खलु अम्मयाओ ! मए पासस्स अरहओ अंतिए धम्मे निसंते । से वि य धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुहइ । तए णं अहं अम्मयाओ ! संसारभउठिवगा भीया जम्मणंमरणाणं इच्छामि णं तुब्मेहिं अब्भणुन्नाया समाणी पासस्स अरहओ अंतिए मुंडा भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वहत्तए । अहासुहं देवाणुपिए ! मा पडिबंधं करेहि । तए णं से काले गाहावई विउलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणं आमंतेइ २ तओ पच्छा ण्हाए जाव विपुलेणं पुण्फवत्थगंधमङ्गलालंकारेणं सक्कारेइ सम्माणेइ २ तस्सेव मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणस्स पुरओ कालियं दारियं सेयापीएहिं कलसेहिं ण्हावेइ २ सब्बालंकारविभूसियं करेइ २ पुरिससहस्सवाहिणिं सीयं दुरुहेइ २ मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणेणं सद्दिं संपरिवुडे सन्विड्हीए जाव रवेणं आमलकप्पं नयरिं मज्जंमज्जेणं निगगच्छइ २ जेणेव अंबसालवणे चेइए तेणेव उवागच्छइ २ छेत्ताइए तित्थगराईए पासइ २ सीयं ठावेइ २ कालियं दारियं सीयाओ पच्चोरुहइ । तए णं तं कालियं रियं अम्मापियरो पुरओ काउं जेणेव पासे अरहा पुरिसादाणीए

तेणेव उवागच्छंति २ वंदंति नमंसंति २ एवं वयासी – एवं खलु  
देवाणुपिया ! काली दारिया अम्हं धूया इट्टा कंता जाव किमंग  
पुण पासणयाए ? एस णं देवाणुपिया ! संसारभउठिवग्गा इच्छइ  
देवाणुपियाणं अंतिए मुङ्डा भवित्ता जाव पच्चवइत्तए। तं एयं णं देवाणु-  
पियाणं सिस्सिणिभिक्खं दलयामो । पडिच्छंतु णं देवाणुपिया !  
सिस्सिणिभिक्खं । अहासुहं देवाणुपिया ! मा पडिबंधं । तए णं सा काली  
कुमारी पासं अरहं वंदइ नमंसइ २ उत्तरपुरतिथमं दिसीभागं अवकमइ २  
सयमेव आभरणमळालंकारं ओमुयइ २ सयमेव लोयं करेइ २ जेणेव  
पासे अरहा पुरिसादाणीए तेणेव उवागच्छइ २ पासं अरहं तिक्खुत्तो  
वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी – आलित्ते णं भंते ! लोए एवं जहा  
देवाणंदा जाव सयमेव पच्चावेडं । तए णं पासे अरहा पुरिसादाणीए  
कालियं सयमेव पुफ्फचूलाए अज्ञाए सिस्सिणियत्ताए दलयइ । तए णं  
सा पुफ्फचूला अज्ञा कालि कुमारिं सयमेव पच्चावेइ जाव उव-  
संपज्जित्ताणं विहरइ । तए णं सा काली अज्ञा जाया इरियासमिया  
जाव गुत्तबंभयारिणी । तए णं काली अज्ञा पुफ्फचूलाए अज्ञाए अंतिए  
सामाइयमाइयाइं एकारस अंगाइं अहिज्जइ बहूहिं चउत्थ जाव विहरइ ।  
तए णं सा काली अज्ञा अन्नया कयाइ सरीरबाऊसिया जायावि होत्था ।  
अभिक्खणं २ हृथे धोवेइ पाए धोवेइ सीसं धोवेइ मुहं धोवेइ थणं-  
तराणि धोवेइ कक्खंतराणि धोवेइ गुज्जंतराणि धोवेइ जत्थ जत्थ वि य णं  
ठाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा चेएइ तं पुच्चामेव अब्मुक्षित्ता तओ  
पच्छा आसयइ वा सयइ वा । तए णं सा पुफ्फचूला अज्ञा कालियं  
औज्जं एवं वयासी – नो खलु कप्पइ देवाणुपिए ! समणीणं निगंगथीणं  
सरीरबाऊसियाणं होत्तए । तुमं च णं देवाणुपिए ! सरीरबाऊसिया जाया  
अभिक्खणं २ हृथे धोवसि जाव आसयाहि वा सयाहि वा । तं तुमं  
देवाणुपिए ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पायच्छित्तं पडिवज्जाहि ।  
तए णं सा काली अज्ञा पुफ्फचूलाए अज्ञाए एयमडं नो आढाइ जाव  
तुसिणीया संचिह्नइ । तए णं ताओ पुफ्फचूलाओ अज्ञाओ कालि अज्जं

अभिक्खणं २ हीलेति निंदंति खिसेंति गरहंति अवभन्नंति अभिक्खणं २  
एयमठु निवारेति । तए णं तीसे कालीए अज्ञाए समणीहिं निगंथीहिं  
अभिक्खणं २ हीलिज्जमाणीए जाव वारिज्जमाणीए इमेयारूबे अज्ञतिथिए  
जाव समुपज्जित्था । जया णं अहं अगारवासमज्जे बसित्था तया णं अहं  
सयंवसा । जप्पभिइं च णं अहं मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं  
पव्वइया तप्पभिइं च णं अहं परवसा जाया । तं सेयं खलु मम कल्लं  
पाउप्पभायाए रयणीए जाव जलंते पाडिक्यं उवस्सयं उवसंपज्जित्ताणं  
बिहरित्तेए त्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ कल्लं जाव जलंते पौडिक्कं उवस्सयं  
गेणहइ तत्थ णं अणिवारिया अणोहट्टिया सच्छंदमई अभिक्खणं २ हत्थे  
धोवेइ जाव आसयइ वा सयइ वा । तए णं सा काली अज्ञा पासत्था  
पासत्थविहारी ओसन्ना ओसन्नाविहारी कुसीला कुसीलविहारी अहाछंदा  
अहाछंदविहारी संसत्ता संसत्तविहारी बदूणि वासाणि सामण्णपरियां  
पाउणइ २ अद्वमासियाए संलेहणाए अप्पाणि द्वूसेइ २ तीसं भत्ताइं  
अणसणाए छेईइ २ तस्स ठाणस्स अणालोइयअपडिक्कंता कालमासे  
कालं किच्चा चमरचंचाए रायहाणीए कालवडिसए भवणे उववायसभाए  
देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिया अंगुलस्स असंख्यभागमेत्ताए ओगाह-  
णाए कालीदेवित्ताए उववन्ना । तए णं सा काली देवी अहुणोववन्ना  
समाणी पंचविहाए पञ्जत्तीए जहा सूरियामो जाव भासामणपञ्जत्तीए ।  
तए णं सा काली देवी चउणं सामाणियसाहस्रीणं जाव अन्नेसि च  
वहूणं कालवडेसगभवणत्रासीणं अमुरकुमाराणं देवाण य देवीण य आहेवचं  
जाव विहरइ । एवं खलु गोयमा ! कालीए देवीए सा दिव्वा देविही ३  
लङ्घा पत्ता अभिसमन्नागया । कालीए णं भंते ! देवीए केवइयं कालं  
ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! अद्वाइज्जाइं पलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता । काली  
णं भंते ! देवी ताओ देवलोगाओ अणंतरं उवटित्ता कहिं गच्छहिइ कहिं  
उववज्जिहिइ ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ जाव अंतं काहिइ ।  
एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं पढमस्स वगगस्स पढमज्जयणस्स  
अयमडु पन्नत्ते त्तिवेमि ।

(152) (i) जइ ण भंते ! समणेण० धम्मकहाण० पढमस्स वगस्स पढमज्जयणस्स अयमट्टे पन्त्रत्ते बिहयस्स ण भंते ! अज्जयणस्स समणेण० जाव संपत्तेण० के अट्टे पन्त्रत्ते ? एवं खलु जंबू ! तेण० कालेण० २ रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए सामी समोसढे परिसा निगया जाव पञ्जुवासइ । तेण० कालेण० २ राई देवी चमरचंचाए रायहाणीए एवं जहा काली तहेव आगया नट्टविहिं उवदंसित्ता पडिगया । भंतेति भगवं गोयमे पुध्वभवपुच्छा । एवं खलु गोयमा ! तेण० कालेण० २ आमलकप्पा नयरी अंबसालवणे चेइए जियसत्तू राया राई गाहावई राइसिरी भारिया राई दारिया पासस्स समोसरण० राई दारिया जहेव काली तहेव निकखंता तहेव सरीरवाउसिया तं चेव सब्बं जाव अंतं काहिइ । एवं खलु जंबू ! विह्यज्जयणस्स निकखेवओ ॥ जइ ण भंते तह्यज्जयणस्स उकखेवओ । एवं खलु जंबू ! रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए एवं जहेव राई तहेव रयणी वि नवरं आमलकप्पा नयरी रयणे गाहावई रयणसिरी भारिया रयणी दारिया सेसं तहेव जाव अंतं काहिइ । एवं विज्जू वि आमलकप्पा नयरी विज्जू गाहावई विज्जुसिरी भारिया विज्जू दारिया सेसं तहेव । एवं मेहा वि आमलकप्पा ए नयरीए मेहे गाहावई मेहसिरी भारिया मेहा दारिया सेसं तहेव । एवं खलु जंबू समणेण० जाव संपत्तेण० धम्मकहाण० पढमस्स वगस्स अयमट्टे पन्त्रत्ते ।

(153) (ii) जइ ण भंते ! समणेण० दोच्चस्स वगस्स उकखेवओ । एवं खलु जंबू ! समणेण० दोच्चस्स वगस्स पंच अज्जयणा पन्त्रत्ता तंजहा—सुंभा निसुंभा रंभा निरंभा मयणा । जइ ण भंते ! समणेण० धम्मकहाण० दोच्चस्स वगस्स पंच अज्जयणा पन्त्रत्ता दोच्चस्स ण भंते ! वगस्स पढमज्जयणस्स के अट्टे पन्त्रत्ते ? एवं खलु जंबू ! तेण० कालेण० २ रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए सामी समोसढे परिसा निगया जाव पञ्जुवासइ । तेण० कालेण० २ सुंभा देवी बलिचंचाए रायहाणीए सुंभ-बडेझए भंवणे सुंभंसि सीहासणंसि कालीगमएण० जाव नट्टविहिं उवदंसेत्ता जाव पडिगया । पुध्वभवपुच्छा । सावत्थी नयरी कोट्टए चेइए जियसत्तू

राया सुंभे गाहावई सुंभसिरी भारिया सुंभा दारिया सेसं जहा कालीए नवरं अद्धुडाइं पलिओवमाइं ठिईं । एवं खलु जंबू ! निक्खेवओ अज्ञयणस्स । एवं सेसावि चत्तारि अज्ञयणा सावत्थीए नवरं । माया पिया सरिसनामया । एवं खलु जंबू ! निक्खेवओ विइयवगगस्स ।

(154) (iii) उक्खेवो तइयवगगस्स । एवं खलु जंबू ! समणेणं० तइयवगगस्स चउपन्नं अज्ञयणा पन्नत्ता तंजहा — पढमे अज्ञयणे जाव चउपन्नत्तिमे अज्ञयणे । जइ णं भंते ! समणेणं० धम्मकहाणं तइयवगगस्स चउपन्नं अज्ञयणा पन्नत्ता पढमस्स णं भंते ! अज्ञयणस्स समणेणं के अटे पन्नत्ते ? एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए सामी समोसढे परिसा निगया जाव पञ्जुवासइ । तेणं कालेणं २ अलां देवी धरणाए रायहाणीए औलावडेसए भवणे अलंसि सीहासणांसि एवं कालीगमणं जाव नट्टविहिं उवदंसेत्ता पडिगया । पुञ्चभवपुञ्चा । वाणारसीए नयरीए काममहावणे चेइए अंले गाहावई अलसिरी भारिया ईला दारिया सेसं जहा कालीए नवरं धरणअगगमहिसित्ताए उववाओ साइरेगं अद्धपलिओवमं ठिईं सेसं तहेव । एवं खलु निक्खेवओ पढमज्ञयणस्स । एवं कमसोतरा सोयामणी इंदा घणया विज्जुया वि । सव्वाओ एयाओ धरणस्स अगमहिसीओ । एए छ अज्ञयणा वेणुदेवस्स वि अंविसेसिया भाणियव्वा । एवं जाव घोसस्स वि एए चेव छ अज्ञयणा । एवमेते दाहिणिलाणं इंदाणं चउपन्नं अज्ञयणा भवंति सव्वाओ वि वाणारसीए काममहावणे चेइए । तइयवगगस्स निक्खेवगो ।

(155) (iv) चउत्थस्स उक्खेवगो । एवं खलु जंबू ! समणेणं० धम्मकहाणं चउत्थवगगस्स चउपन्नं अज्ञयणा पन्नत्ता तंजहा — पढमे अज्ञयणे जाव चउपन्नइमे अज्ञयणे । पढमस्स अज्ञयणस्स उक्खेवगो । एवं खलु जंबू ! तेणं कालेणं २ रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पञ्जुवासइ । तेणं कालेणं २ रूया देवी रूयाणंदा रायहाणी रूयगवडेसए भवणे रूयगंसि सीहासणांसि जहा कालीए तहा नवरं पुञ्चभवे चंपाए पुण्णभदे चेइए रूयगगाहावई रूयगसिरी भारिया रूया दारिया सेसं तहेव

नवरं भूयाणंदा अगमहिसित्ताए उववाओ देसूणं पलिओवमं ठिई ।  
निक्खेवओ । एवं खलु सुरूया वि रूयंसा वि रूयगावई वि रूयकंता वि  
रूयप्पभा वि । एयाओ चेव उत्तरिल्लाणं इंदाणं भाणियव्वाओ जाव  
महाघोसस्स । निक्खेवओ चउत्थवग्गस्स ।

(156) (v) पंचमवग्गस्स उक्खेवओ । एवं खलु जंबू ! जाव बत्तीसं  
अज्ञयणा पत्रत्ता तंजहा — कमला कमलप्पभा चेव उप्पला य सुदंसणा ।  
रूववई बहुरूवा सुरूवा सुभगा वि<sup>१</sup> य ॥१॥ पुण्णा बैहुपुत्तिया चेव  
उत्तमाँ भारिया वि य । पउमा वसुमई चेव कणगा कणगप्पभा ॥२॥  
वडेंसा केऊमई चेव वइरसेणा रइप्पिया । रोहिणी नवमिया चेव हिरी  
पुफ्फवई वि य ॥३॥ सुयगा भुयगवई चेव महाकच्छा पैराइया । सुघोसा  
विमला चेव सुस्सरा य सरस्सई ॥४॥ उक्खेवओ पढमज्ञयणस्स । एवं खलु  
जंबू ! तेण कालेण २ रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पञ्जुवासइ ।  
तेण कालेण २ कमला देवी कमलाए रायहाणीए कमलवडेंसए भवणे  
कमलंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए तहेव नवरं पुठ्वभवे नागपुरे  
नयरे सहसंबवणे उज्जाणे कमलस्स गाहावइस्स कमलसिरीए भारियाए  
कमला दारिया पासस्स अंतिए निक्खंता कालस्स पिसायकुमारिंदिस्स  
अगमहिसी अद्वपलिओवमं ठिई । एवं सेसा वि अज्ञयणा दाहिणिल्लाणं  
वाणमंतरिंदाणं भणियव्वाओ नागपुरे सहसंबवणे उज्जाणे मायापियरो धूया सरिस-  
नामया ठिई अद्वपलिओवमं । पंचमो वग्गो समत्तो ।

(157) (vi) छष्टो वि वग्गो पंचमवग्गसरिसो नवरं महाकार्याईं  
उत्तरिल्लाणं इंदाणं अगमहिसीओ । पुठ्वभवे सागेए नयरे उत्तरकुरुउज्जाणे  
मायापियरो धूया सरिसनामया । सेसं तं चेव । छष्टो वग्गो समत्तो ।

(158) (vii) सत्तमस्स वग्गस्तु उक्खेवओ । एवं खलु जंबू ! जाव  
चत्तारि अज्ञयणा पत्रत्ता तंजहा — सूरप्पभा आयवा अच्चिमाली पभं-  
करा । पढमज्ञयणस्स उक्खेवओ । एवं खलु जंबू ! तेण कालेण तेण समएणं  
रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पञ्जुवासइ । तेण कालेण २ सूरप्पभा  
देवी सूरंसि विमाणंसि सूरप्पभंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए तहा

नवरं पुब्वभवो अरक्खुरीए नयरीए सूरप्पभस्स गाहावइस्स सूरसिरीए भारिया ए सूरप्पभा दारिया सूरस्स अगगमहिसी ठिई अद्वपलिओबमं पंचहिं वाससपहिं अब्भहियं सेसं जहा कालीए । एवं सेसाओ वि सब्बाओ अरक्खुरीए नयरीए । सत्तमो वग्गो समत्तो ।

(159) (viii) अट्टमस्स उक्खेवओ । एवं खलु जंबू ! जाव चत्तारि अज्ञयणा पन्नत्ता तंजहा – चंदप्पभा दोसिनाभा अचिमाली पभंकरा । पठमज्ञयणस्स उक्खेवओ । एवं खलु जंबू ! तेण कालेण तेण समएण रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पञ्जुवासइ । तेण कालेण २ चंदप्पभा देवी चंदप्पभंसि विमाणंसि चंदप्पभंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए नवरं पुब्वभवो महुराए नयरीए भंडिवडेंसए उज्जाणे चंदप्पभे गाहावई चंदसिरी भारिया चंदप्पभा दारिया चंदस्स अगगमहिसी ठिई अद्वपलि-ओबमं पन्नासवाससहस्सेहिं अब्भहियं । सेसं जहा कालीए । एवं सेसाओ वि महुराए नयरीए मायापियरो धूया सारिसनामा । अट्टमो वग्गो समत्तो ।

(160) (ix) नवमस्स उक्खेवओ । एवं खलु जंबू ! जाव अट्ट अज्ञयणा पन्नत्ता तंजहा – पउमा सिवा सई अंजू रोहिणी नैमिया इय । अयला अच्छरा ॥ पठमज्ञयणस्स उक्खेवओ । एवं खलु जंबू ! तेण कालेण २ रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पञ्जुवासइ । तेण कालेण २ पउमावई देवी सोहम्मे कप्पे पउमवडेंसए विमाणे सभाए सुहम्माए पउमंसि सीहासणंसि जहा कालीए एवं अट्ट वि अज्ञयणा कालीगमएणं नायवा नवरं सावत्थीए दोजणीओ हत्थिणाउरे दोजणीओ कंपिल्लपुरे दोजणीओ साएए दोजणीओ पउमे पियरो विजया मायराओ सब्बाओ वि पासस्स अंतियं पव्वइयाओ सक्स्स अगगमहिसीओ ठिई सत्त पलिओबमाइं महाविदेहे वासे अंतं काहिंति । नवमो वग्गो समत्तो ।

(161) (x) दसमस्स उक्खेवओ । एवं खलु जंबू ! जाव अट्ट अज्ञयणा पन्नत्ता तंजहा – कण्हा य कण्हराई रामा तह रामरक्खया वसू या । वसुगुत्ता वसुमित्ता वसुंधरा चेव ईसाणे ॥१॥ पठमज्ञयणस्स उक्खेवओ । एवं खलु जंबू ! तेण कालेण तेण समएण रायगिहे समोसरणं जाव

परिसा पञ्चुवासइ । तेण कालेण २ कणहा देवी ईसाणे कप्पे कणहबडेंसए  
विमाणे सभाए सुहम्माए कण्हंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए एवं  
अटु वि अज्ञयणा कालीगमणं नायब्बा नवरं पुञ्चभवो वाणारसीए नयरीए  
दोजणीओ रायगिहे नयरे दोजणीओ सावत्थीनयरीए दोजणीओ कोसंबीए  
नयरीए दोजणीओ रामे पिया धम्मा माया सब्बाओ वि पासस्स  
अरहओ अंतिए पञ्चइयाओ पुफ्फचूलाए अज्ञाए सिसिसणियत्ताए  
ईसाणस्स अगमहिसीओ ठिई नवपलिओवमाइं महाविदेहे वासे  
सिज्जाहिति बुज्जाहिति मुज्जाहिति सब्बदुख्खाणं अंतं काहिति । एवं  
खलु जंबू ! निक्खेवगो दसमवगास्स । दसमो वगो समत्तो ।

(162) एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं  
तित्थगरेणं सयंसंबुद्धेणं पुरिसोत्तमेणं पुरिससीहेणं जाव संपत्तेणं  
धम्मकहाणं अयमटु पन्नते । धम्मकहा सुयक्खंधो समत्तो । दसहिं  
वगोहिं नायाधम्मकहाओ समत्ताओ ॥

॥ बीओ सुयक्खंधो समत्तो ॥

॥ नायाधम्मकहाओ समत्ताओ ॥



# VARIANT READINGS

[A. B. C. E. are the MSS. collated. P. stands for the  
Āgamodaya Samiti Edition, Com.—commentary.]

[Page 1] 1. C. चैर्है० 2. C. बलसंपत्रे रूवसंपत्रे विणयनाणसंपत्रे दंसण...  
संपत्रे. 3. C. °लोभे. 4. C. °बंभचेरवय० and omits नय. 5. C. B. °चरित्त  
only. 6. B. नगरी. 7. C. °चैर्है० [Page 2] 1. C. आय० 2. C. omits  
पुरिसुत्तमेण...लोगुत्तमेण. 3 & 4. C. omits. 5. C. जिणएण. 6. C. B.A. °ख०.  
7-8. C. omits. 9. A.B. माई० 10. C. मंडु० 11. C. संम० B. सुसु०.  
12. C. omits. [Page 3] 1. C. इ० 2. C. has throughout °गहे० 3. B.  
A. नग० 4. C. सुव० A. सुमा० 5. C. कम्म०; B. कम्मइया० 6. C. चुवि०; B.  
चविव० 7. C.B. कुट० 8. C. वियन्न० 9. C. °क० 10. C. °भत्त० 11. C.  
°छहाऊ०; A. °धाऊथवल०. 12. B.A. °सत्थ० 13. C. पुम० 14. P. वंदन०;  
Com. notes the V. L. चंदन०. [Page 4] 1. C. B. A. °गंध० 2. A.  
changes °किरण० to °रयण० 3. C. °टी० 4. C. °य० 5. C. उव० 6. C. °भ०.  
7. C. °कार० 8. C.B. °सिया० 9. C. °यंव० 10. C. समूसिय०; A.B. समूसविय०.  
11. A.B. °रुभ० 12. C. omits °गंभीर०; A.B. omit °रिभिय० 13. C. °टी०.  
14. A. B. सि० 15. C. के सि थम्मं जाव; B. केसिमं जाव. 16. A.B. Gene-  
rally read सिमिण for सुमिण. [Page 5] 1. B. अणुपवि० 2. B.E. मिउ०;  
C.E. omit °रिभिय० 3. C.E. उराला० 4. C. तुव्वे० 5. A.B.E. omit.  
6. A.B.E. देवी० 7. B.E. °कारगा० 8. C. देवाणुपिष० 9. C. splits the  
Cpd. and has different sentences. 10. C. राय० 11. C. °वड०.  
12. C.A. omit. E. °तिलग० 13. A.B. विन्नय० 14. E. °विउल० 15. E. देवा-  
णुपिष्या after each word. 16. C. वद० 17. C. हमिहेति ति. [Page 6]  
1. C. कोटविय०; E. कोडं० 2. C. °गुरु० 3. C.E. °गंध० 4. C.E. एव०; B.  
एवम्मा० 5. C. °पंडरे; B.E. अहंपंडरे. 6. P. गुजद्धराग० 7. P. °जासुयण०; Com.  
reads °जासुमिण० 8. B. °गेर० 9. E. दिणकरपरंपरोयार०; B. दिणकरपरंपरा-  
यारपरुद्धभि० C. दिणकरकरफरसपरोवयार० 10. C. खचि०; E. खइ० 11. C. °णुपगा-  
सविक० 12. E. °यर; C. °कर० 13. B. °जुञ्ज्ञ० 14. C. °माई०; B. °मादि०.  
15. E. मइ०; B. मद० 16. C. वय०; E. omits. 17. C. अभिगो० 18. C.  
अभिभ० 19. C. पि० 20. C.E. अभिम० 21. E. °निम्मलगुणेहि० for निम्मापहि०.  
22. C. चुवि० 23. C.B. अवै० [Page 7] 1. E. °जालाकुलाभि०; B. समुत्त०.

2. E. omits. 3. C. generally reads मुकमाल. 4. E.B. °कासाइङू०.  
 5. E. पिण०. 6. C. मुड; cf. चुविह supra. 7. C.E. omit विमल. 8. C.  
 °संत०; B.A. सिंत०. 9. B. °रेट०. 10. E. reads उभओ before this. 11. C.  
 E. °कोड०. 12. C. °पाल०; 13. E. विविह for विव and joins it to the next  
 word. 14. E. नरिन्दे after this. 15. B.E. °भागे. 16. E. °मणिकणगरयण०.  
 17. C.B. omit मउअ. [Page 8] 1. E. मुत्तत्थधारए पारए. 2. E. सुमिणलकखण०.  
 3. E. सुविणलकखण०. 4. E. सुविणलकखण०; C. सुमिणलकखण०. 5. E. सषहिंतो. 6. E.  
 मिल०. 7. E. सुविण०. 8. E. सुमिणलकखण०. 9. E. संलवेति B. संलवेति [Page 9]  
 1. C. omits. 2. B.A. °उसह०. 3. E. °भुवन०. 4. C. सिंह०. 5. C.E. चत्तारि.  
 6. C. पर्ग०. 7. E. सामी after this. 8. C. पयाहि; E. पयाहिसि. 9. E. °मंचे.  
 10. C. वियक्ते. 11. B.C. °विपुल०. 12. C. वदह. [Page 10] 1.  
 C. वह०. 2. E. तर्ह०. 3. C. दोहद०. 4. B.E. डोहले. 5. E. मेहे. 6. E. omits.  
 7. E. °ज्ञाए; B. °ज्ञा०. 8. E. °न्नाए. 9. C. °पुम०. 10. C. केसूय०; B. केसूय०. 11. C.  
 °हिंगलोय०; B. °हिंगलुय०. 12. E. °गुलिय०. 13. C. °सुय०. 14. B. °सामग०; E.  
 °साम०. 15. E. °गण०. 16. E. °संस०; C. °सिक्कि०. 17. E. omits one उवरि.  
 18. E. °वियमेइणि०. 19. C. बेल्हि०; E. बेल्हिय०. 20. E. °पब्य०. 21. E.  
 °कुडग०. 22. E. °निम्मकदुय०. 23. E. °कुडय कुडय०. 24. C.E. °रथ०. [Page 11]  
 1. E.B. ओणय०. 2. Com. °भामिय०. 3. E. °तारगणपेषेसु; B. °तारगण०. 4.  
 C. °बंध०. 5. E. ओइन्नवलाइग०. 6. C. पाव०. 7. E. किन्नो for किते. 8. E.  
 °तिउयओविय०; Com. °उचिय०. 9. C.B. °खदुय०. 10. E. °गु०; E. B. omit  
 पवर. 11. E.B. °वशर०. 12. E. सद्धि after this. 13. C. °चुमुह०. 14. C.  
 आसिय०. [Page 12] 1. E. reads अवलंबियं after this. [Page 13]  
 1. C. तो. 2. C. चुविहाए; E. चउविहाए. 3. C.E. बुद्धीए. [Page 14] 1. E.  
 मणामाहिं instead. 2. E. उरालाहिं कलाणाहि. [Page 15] 1. C. पडिला-  
 मिए instead. 2. MSS. generally write उमुक०. 3. C. उपजेसु;  
 E. समुपजेमु. 4. E. reads जत्थं after this. [Page 16] 1. C.B.  
 °सोहे; E. °सोक्खे. 2. C.B. °गमणुगुणजणिय०; E. °गमणुठाण०. 3. B. °हासे.  
 4. E. °गब्म० for °मज्जा०. 5. C. उडु०. 6. C. °सम्मत०; E. °संसन्न०. 7. C.  
 E.B. गंध०. 8. E. विगुविच्च०; B. विगुविवत०. 9. E. °वंतो. 10. B. °लोग०.  
 11. E. णयर instead. 12. B. reads 'य तरस' after this 13. E.B. संगि०.  
 14. E. हियं इच्छियं. [Page 17] 1. MSS. write दोहल as well as डोहल.  
 2. C. always °माऊयाए. 3. B. °स्त्रि०. 4. C. गज्जइ; E. गच्छइ. 5. C.  
 पावस०. 6. C. °ऊ०. 7. C. °माऊयाए. 8. C.B. धारिणीए देवीए. 8. C. कोट०; E.  
 कोड०; B. कोट्ट०. I have retained कोडुविय throughout. 9. C. पव०.

[Page 18] 1. E. सेयवरचामर० 2. C. °द्विया 3. C नगर० 4. C. चेढीसु य जूएसु  
य etc; E. चोण्हीसु; B. चेण्डीसु 5. C. B. E. विश० 6. E. °भोए० [Page 19]  
1. C. generally सुकमाल. [Page 20] 1. C. एव० 2. C. after this adds  
उकिटुं अमेजँ अदेजँ. 3. E. B. अव्वाय० 4. E. B. सुइ० 5. E. गव्भगयस्स. [Page 21]  
1. E. छावणि०; B. वावणि० 2. C. °दवडिं० 3. B. °अङ्गणि० 4. C. हस्ति० 5. E.  
गहिज० 6. C. परिगिज्ज०; E. °गिज्ज०; B. परंगिज० 7. C. वालावणय०. [Page 22]  
1. C. वथ० 2. E. कट० 3. C. °रुव० 4. C. रुव० 5. E. B. omit वथ० 6. B. °विह०  
7. C. °पवर० for °वयर०. [Page 23] 1. E. B. आणियाळि० 2. C. °उववयाण० 3.  
C. °भोए० 4. C. E. उवलोए०. [Page 24] 1. C. °सह्ने० 2. C. तु०: E. तु०.  
[Page 25] 1. E. लक्खणओ ओलग०; 2. E. चेयगमइ०; 3. E. फरसु० 4. B. °महिमब्ब०  
[Page 26] 1. E. संकु०; 2. C. omits; 3. E. कामभोए for भवेण; 4. C. अनित्तिए;  
5. C. केस; 6. C. सरिसवयाओ; 7. E. आणिलि०. [Page 27] 1. C. E. have  
the whole Sentence के णं जाणड के पुत्रिं etc; 2. C. B. omit सार; 3. E. B.  
जाव after this; 4. E. omits तं; 5. C. संवुद्धे. [Page 28] 1. C. एव० 2. C.  
B. omit 'च'; 3. E. असिधारासंचरणवयं० 4. C. B. E. °तु०; 5. C. E. वीर०  
[Page 29] 1. C. E. कुमार०; 2. E. B. °वेर० [Page 30] 1. C. E. तुम्हेण०;  
2. C. E. चउपला०; 3. E. सेयपीयएहिं० 4. C. रथणमउड०; 5. C. B. ददुर०  
[Page 31] 1. C. सालि०; 2. C. अम्म०; 3. C. ओशा०; 4. B. दुवे उ०;  
5. B. पासे०; E. पासि०; 6. E. ओहीर०. [Page 32] 1. B. °किइ०; 2. C. सरिस-  
वयाण०; 3. C. °णीय०; 4. C. वुत्ता समाणा०; 5. B. supplies the whole passage  
indicated by जाव, but again reads as in the text; 6. C. °धणियवलि०-  
यवद्ध०; 7. C. भगवओ०. [Page 33] 1. B. जम्मणजरमरणाण०; 2. E. एवमगे०; B.  
एमेव मगे०; 3. C. Very often writes अम्हा०; 4. Com. अप्पसारे०; 5. B.  
°गुरु०; 6. E. B. ख०; [Page 34] 1. C. आयार०; 2. E. ममे after this; B.  
also मम above the line; 3. E. अणगार instead; 4. E. एवमेव०; 5. E.  
अणगारे०; 6. E. पडिच्छइ०; 7. E. From now on substitutes अणगार for  
कुमार after मेह०; 8. C. बार०; E. पाय०; 9. C. सीसेहिं०; 10. C. पिष्ठेह०. [Page 35]  
1. E. adds after this:—‘संयाराओ आयर्यति०’, and omits राओ०; 2. C.  
आगारवास०; 3. C. °रुवयं०; E. °संतियं०; 4. B. तं रथणि०; 5. C. B. E. °मज्जा०;  
6. E. पव्वइए०; C. B. omit०; 7. C. निव्वहश्य०; 8. E. B. संखुउल०; P. संखद-  
लउज्जल०; 9. C. समए०; 10. C. °गत्तवरे०. [Page 36] 1. C. पागटी० (ड्ही०?); 2. C.  
पट्टवहए०; 3. C. जूहाहिवहै०; 4. C. परिविट्रिए०; Com. °वट्टिए०; 5. C. °ई०; 6. C. °डे०;  
7. E. कु०. 8. C. °यरेसु य०; 9. C. पावस०; 10. C. omits मय०; 11. E. and Com.  
°किमिव०; Com. °किमिण०; 12. C. °वाइय०; 13. C. °पायपडिय०; B. °पायडिय०;  
14. C. वसंतेसु०; 15. B. गिम्महृउण्ह०; Com. गिम्महृउण्ह०; 16. B. संवद्वृहृएसु०;  
17. C. E. B. सीयर०. [Page 37] 1. E. B. °ला०; 2. C. E. विणिरुह०; 3. E.  
पाए०; 4. E. लेड०; B. लंड०. 5. E. झुंझिए०; B. Com. झुंजिए. They are  
Synonymous. 6. C. °सू०; 7. C. °पलिद्वे०; 8. C. omits the words  
चणं महं०; 9. C. B. °त्थेण०; 10. C. पविए०; 11. E. थिर०; 12. B. सु०; 13. C.

उद्भूँ; E. B. उद्भुँ; 14. B. adds तिउणा after this; Com. and P. तिउला; 15. B. हेत्था; 16. E. वीसं; 17. C. omits; 18. C. गयवरजुवा० 19. C. omits गय; 20. E. तुमे महागढ़भूँ etc. omits मेहा. [Page 38] 1. C. रत्नपल्लस्मूँ; E. उपलस्त्त०; 2. C. B. °मण०; 3. C. °पालियात०; B. °पालियत्तय०; 4. C. कणेषुहर्थी; E. गणियायार०; 5. B. Com. °संताण०; 6. C. °काईसि. [Page 39] 1. B. खुवे; 2. P. and Com. विवहण०; Dict. notes विवहण = विनाश; 3. B. °उद्धत०; 4. C. °कह०; B. °पसुघाओ; P. °पसु० Com. notes this; 5. B. °कुसुमकथचामर०; Com. notes the V. L. 'उउयकुसुम', his reading drops उउय; 6. B. °समय०; E. उउयसमय०; 7. E. B. Com. °सिहर०; Com. reads सिरहर and notes the V. L.; C. °भीमंतर०; 8. Com. reads आयवालमहंत० and notes आयवालोय as V. L. [Page 40] 1. C. पादपव्रंश०; 2. B. दसोदिसिं; 3. C. adds चिलगा after this, retaining चिलगा also; 4. E. B. °भयविहुया०; 5. E. B. अणुखिते०; 6. C. generally गयंदिय०; 7. E. °वलिततिय०; 8. C. झंझिए०; E. झंझिए०; Cp. supra page 37; 9. P. Com. add अचंकमणो वा; 10. B. °कडे०; P. Com. ठाणुखंडे०; 11. E. B. र्यंत० probably wrong for र्यत; Com. र्यया०; P. र्यत०. [Page 41] 1. E. °दात० (for °पत०) bad writing for °दंत० which is the Com.'s reading; 2. P. °जाईसंभरणे०; Com. notes °पुव्वमवे, and reads as in the text; 3. C. आणंदसंपुन्नमेहे०; E. आणंदसंपुन्न०; 4. E. सम्प्रविय०; 5. C. B. °मायाउत्तिय०; 6. E. °कवह०; 7. C. B. °उत्तिय०; 8. E. B. पडिच्छइ०. [Page 42] 1. C. एगारस०; 2. E. सोहेह०; 3. C. दोच्चाए०; 4. C. तच्चाए०; 5. C. °कहॄए०; E. °कडए०. [Page 43] 1. C. एगा०; 2. E. B. पंचदसमे०; 3. C. उदयगोण०; 4. C. कडिकडिं०; 5. C. B. तिलंडासगडिया०; E. तिलदड०; 6. E. भासभस्सरासि०. [Page 44] 1. E. B. आर०; 2. C. कडाहीएहि०; B. कडावेहि०; 3. E. मासीसलेहणाइूसियस्स०; 4. P. अह०; 5. C. कडाइएहि०. [Page 45] 1. C. Omits कहु०; 2. E. B. एवं०; 3. E. पाओव-गमणकाल०; 4. C. वासाइ०; 5. E. B. अणु०. [Page 46] 1. C. एयस्स०; 2. E. °ब्याइ०; 3. C. °पाण्याअच्चाए०; E. °पाण्याच्चाए०; 4. C. omits महा०; 5. C. अप्पोप०. [Page 47] 1. B. वितय०; C. वियस्स०; 2. C. Throughout °गेहे as in chapter I; 3. B. तस्स०; 4. E. पडि०; 5. C. B. E. जिण०; 6. E. किण्हा०; 7. P. धणे throughout; 8. C. सुक०. [Page 48] 1. C. °खुइ०; 2. C. आरासिय० and omits °रत्त०; 3. C. E. °फरस०; 4. C. °पयत्त० for °पहण०; 5. C. पभित्त०; B. पभइए०; 6. E. सव्वोगाही०; Com. सव्वगाही०; 7. C. उवटिए०; E. उब्बहिए०; 8. E. अभि०; 9. B. जूव०; 10. E. °सरपंतियासु य सरसरपंतियासु य०. [Page 49] 1. E. पसुयामि०; P. पयायामि०; 2. E. °मूले०; B. °मूलकक्ख००; 3. C. B. अइसर००; 4. E. B. निवेसियाण०; C. निवेसेइ०॒ 2 वेसियाण०; 5. E. C. धन्नेण०; The MSS. sometimes spell it thus, but usually it is 'धण०' and so for the sake of uniformity, I have retained single 'ण०' throughout; 6. P. पुफक्त्य०॒ 7. C. सद्ध०॒ 8. C. Invariably writes

°गे° for °गि°; for गिह also, it writes गेह; 9. C. महा°; 10. E. जाणु°; 11. C. प्यामि; 12. C. उवायं; 13. E. B. उववा°; C. उवायत्तए; 14. C. बहूय (Usually C. writes बहूय for बहूइं); 15. C. उवायं; 16. P. °गंधवत्थ°. [Page 50] 1. C. °साडगा; E. पडगसाडिया; 2. B. तथ्येव; 3. P. reads ताइ after this; 4. E. omits °वत्थ°; 5. E. B. omit; 6. C. महा°; 7. B. °गच्छइ; 8. C. जक्खा instead; 9. B. उववा°; 10. P. पुफ्कवत्थ°; 11. E. B. परि° [Page 51] 1. C. उवर्णेति; E. विणयंति; 2. C. ते; 3. E. नागर-महिलाए; 4. C. generally रायंदि°; 5. E. उवाय°; 6. C. होऊ. [Page 52] 1. C. °कारेण; E. 'करे संमु°; 2. E. °हा°; 3. E. जीविय°; 4. C. तहेव; 5. C. E. सुयं; 6. C. पवित्रि; 7. C. निवाए; E. omits; P. हते; The com., however, reads 'नीए'; हते is obviously wrong. None of the five MSS. read हते; 8. E. अवखिते. [Page 53] 1. C. चंपगलया य; but it is obviously wrong; 2. C. generally writes महुत्त°; Dict. notes this Spelling also, but I have retained मुहुत्त throughout; 3. C. °यं; 4. P. Com. °बद्धवभ्यकवया; 5. E. जीविय°; 6. C. °मगणम°; 7. E. निवाए°. [Page 54] 1. C. उक्खिरिएमाणा—but the Dict. does not note this word; E. पर्क्षिववमाणे; B. पकेर°; 2. B. राया°; E. अमचे; 3. P. एथुटे instead; Com. नन्त्रथ; 4. E. विणिवा°; 5. B. °नियगसयण°; 6. C. °दा°; 7. C. बहूय; 8. C. लहूयंसि; 9. D. संपलम्भे; 10. E. चारगसाला; 11. E. चारगसालं; 12. E. °डावेह°; 13. B. भायणाइ; 14. B. गच्छङ्घ—probably a formation from गच्छह + णं; 15. C. °पिंड; 16. C. °लिंग; 17. B. भायणाइ; E. omits this and the next word; 18. E. एत्तो. [Page 55] 1. C. °कर°; 2. C. पड°; 3. C. एयं instead; E. omits; 4. C. °पिंड; E. °पिंडगं; 5. E. B. °बमाण°; 6. C. °दुवावेहि; 7. C. म°; 8. A. धैणे विजएण [Page 56] 1. E. B. °पिंडय; C. °पिंड; 2. C. कारा°; 3. C. अद्यायमद्वियं; 4. E. B. सरीरकुसल पुच्छंति; 5. C. पुरिसा; 6. C. भवंति; 7. E. B. भहगा; C. भायया; 8. C. भाणेजा; 9. E. बाफ्मोचणे. [Page 57] 1. C. रज°; 2. C. मोयावेति; 3. B. संघाडियए; E. घोडियए; 4. B. E. परभमाणे; 5. C. उववाहिता; 6. P. reads after this—दीहमद्वं; 7. C. बुज्जंति instead; 8. P. 'धम्मघोसा नाम' before this: But none of the five MSS. give it; 9. E. अब्म°. [Page 58] 1. C. सरीरचिता; 2. E. B. omit 'बल'; 3. E. वहणयाए; P. वहणयाए; 4. C. °प्याणाणि; P. °प्पाड°; 5. C. अणायं. [Page 59] 1. Com. सब्बोउए and notes सब्बोउय°; 2. P. वर° for वण°; 3. C. परियाणए; 4. C. पिरुडी°; E. पिरुबुडी-पडेर; 5. E. B. किच्चाइं; 6. C. पब्या; 7. Com. notes संहिच्च; 8. C. चुसद्वि°. This is a peculiarity of MS. 'C' to form such samdhis; 9. C. omits चउसद्वि. [Page 60] 1. E. B. पुब्बावरण°; 2. B. पाउब्बौए; 3. E. B. °क्षुडेह; 4. C. °कलया°; (कलय = अर्जुनव्रक्ष); 5. E. C. से; 6. E. मे after this. [Page 61] 1. C. जाणु; 2. E. ष्ट्वायाए; 3. B. पञ्चावरण°; 4. C. हृथअंगुलीए; 5. E. B. देह°; 6. E. B. पञ्चव°. [Page 62] 1. B. गच्छङ्घ

Cp. Supra ; 2. B. सत्थाह० ; 3. C. उववत्तेति ; E. उच्छत्तेति ; 4. C. उववट्टिज्ज० ; E. उवट्टिज्ज० ; 5. E. एव ; 6. C. परा० [Page 63] 1. C. उववट्ट० ; 2. C. नद्वलंग० ; B. नदुलंग० ; E. पंदुलंग० ; 3. C. E. B. से ; 4. E. अवयारियपइन० ; 5. C. °चंदपखीयाकहय० [Page 65] 1. E. पडि० ; 2. E. °सयवत्त० ; 3. C. वरमाल्या० ; 4. C. reads खुदा after this ; 5. E. दिवा ; 6. E. पच्छत्रा ; 7. C. °दहाओ ; 8. C. B. उवि० [Page 66] 1. E. वि विलुपंति after this ; 2. E. उवट्टेति ; C. उवत्तेति ; 3. E. नियंग० ; or probably wrong for नियंग० ? ; 4. E. जविण० ; 5. E. निखुडेइ० ; C. नखडावेति० ; B. निक्खुडेति० [Page 67] 1. C. °नाय० ; 2. E. B. से instead ; 3. C. B. from से to °परियट्ट०—dropped and जाव instead. [Page 68] 1. E. B. °पाडी० ; 2. C. अनेकतडग० ; 3. C. °पुरो for पउरे ; Cp. चुविह for चउविह etc. ; 4. B. सब्बोउथ० ; 5. E. णीपा० ; 6. B. सत्थाह० ; 7. B. सायरपरिपेर० ; 8. C. °वयणी० throughout. [Page 69] 1. C. very often °कुसम० for °कुसुम० ; 2. C. E. वयासी instead ; 3. C. °तहाबार० ; 4. E. °संकुलसद० ; 5. C. E. °माणा० [Page 70] 1. C. °किण्ह० ; 2. P. after this : नवरं निक्खमणमिसेयं पासामो । तए णं से थावचापुत्ते तुरिणीए संचिट्ट० । 3. C. पडिहारादेसेण० ; 4. E. गंधहत्य०. [Page 71] 1. E. जीवियं निस्सए instead ; 2. E. °पडि० ; 3. C. उपाइत्तए० ; E. उपाइए० ; 4. E. अनत्य० ; 5. E. कम्माणं खओवसेमेण० ; 6. E. जम्मनजरा०. [Page 72] 1. C. B. दुरुदा० ; 2. C. समाण० ; 3. C. °तुडा० ; 4. C. सीया० ; 5. E. B. अरिहा० ; 6. C. सत्थवाही instead ; 7. C. पुमावई० ; 8. C. देवीए०. [Page 73] 1. C. B. °सड्ह० ; 2. C. °धिला० ; 3. C. सूए throughout ; 4. E. जजु० ; B. जजुर० ; 5. E. °जम० ; 6. P. °छत्तछलु (करोडियछण्णाल) यंकुस० ; 7. C. पत्तेहि०. [Page 74] 1. E. B. परिब्बायए instead ; 2. B. णीइ० ; 3. P. °कम्मगंठीओ० ; 4. C. °प्य० ; 5. C. B. °थ० ; 6. C. तए णं (Probably for तवए णं ?). [Page 75] 1. C. °लिप्तस्स य० ; 2. C. सोए० ; 3. P. वियस्स० ; 4. C. समंड० ; 5. C. पज्जवासेइ०. [Page 76] 1. C. °पि० ; 2. MSS. often write as सिद्धि० ; 3. C. जे० ; 4. C. °सवा० ; generally other MSS. not consistent ; [Page 77] 1. E. B. हिरण्मासा०. [Page 78] 1. C. सवं before this ; 2. E. दलयइ० ; 3. E. B. एवन्ने instead. (Page 79) 1. E. B. किमन्ने० ; 2. E. °होरे० ; 3. C. E. समणा० ; 4. C. पुमा० ; 5. C. तरसे य (for तारिसोहि० ?) ; 6. C. बलेहि instead. [Page 80] 1. C. Always writes फासू० ; 2. C. °दसेति० ; 3. E. B. गल० (Probably wrong for मल० read in P.) ; 4. C. writes पासत्थविहारी instead of 2 ; E. पमत्थविहारी etc. ; 5. C. omits उउ. [Page 81] 1. E. °खेलमत्तओसह० etc. 2. C. °वडियस्सय० ; 3. C. °ए० ; 4. C. णीएति० ; 5. C. पडिकमेयं खामेमि णं. [Page 82] 1. C. B. ते सेलगपामोकखा पंच etc. 2. E. has separate sentences for each ; 3. E. अंतेवासी after this ; [Page 83] 1. E. B. गुरु० ; 2. E. विट्टेइ० ; 3. E. B. अंतरा instead ; 4. E. B. गुरुयभारियाए after this ; 5. E. B. गरुयभारियाए instead ; 6. E. °गइ० (for °तल०) ; C. always °पयट्टाणा० ; 7. B. अह० ; 8. C. तेसिं० ; 9. C. पढमं लुगांसि०

10. C. धरणीतलआयवत्ताओ ; 11. C. सलिलपथ० [Page 84] 1. B. धणे throughout; 2. E. B. विदेसत्यंसि. [Page 85] 1. E. °निसणे for °वरगए; 2. C. E. °मित्ता ; 3. C. पलगाओ ; 4. C. चुत्यं. [Page 86] 1. C. उक्त्य०; E. B. °निक्त्वए ; 2. C. हरियफेरंडा ; E. हरियफेरंडा ; 3. E. पुणरवि instead ; 4. B. सु०; P. सूयाणं ; 5. E. °भूयाणं ( for पूयाणं ) ; 6. C. °दिसिसि; E. °देसं संठवेति ; 7. E. वप्तिति; B. चुप्तिति ; 8. E. B. उक्त्वणियहए ; 9. E. लवण (?) तलकरयलमलिए ; 10. E. पुणरवि ; 11. C. कडवा ; E. कुडवा ; B. मुरजा instead ; Com. मुरला ; 12. E. B. पलंति; P. पक्त्ववंति ; [Page 87] 1. C. omits ; B. reads after this—तव हृत्यंसि दलयामि again ; 2. B. °एहि. [Page 88] 1. B. and Com. समुच्छियं ; 2. E. B. °जिन्नयं ; 3. B. फालिं ; 4. E. सुह्वं after this. [Page 89] 1. E. B. दलाति ; 2. B. वट्टा० ; C. ठाकियं. [Page 90] 1. E. B. °क्त्वा ; 2. C. महवल throughout ; MS. E. gives the whole description about the arrival of the monk ; throughout the chapter MS. E. supplies the वर्णक्स which are merely referred to or omitted in other MSS.; 4. E. B. ठाकियमि ; 5. E. संहित्ता (The passage is reproduced in Ch. III where it is समेच्च ). [Page 91] 1. E. तओ अम्हाणं ; 2. E. छप्पियबालवयंसे सह before this ; 3. E. भंते instead ; 4. E. B. तए णं ; 5. C. B. वीसाएणं ; E. वीसाहिं ; 6. E. B. °चि० ; 7. E. B. पभा० ; 8. P. जीवो for सो उ ; Com. notes 'एसो' ; 9. C. B. उ and E. उवंसते ater this. [Page 92] 1. E. B. °सुत्ता० ; 2. E. B. विगइ० ; 3. E. थेरा भगवंतो ; 4. E. B. °त्तए. [Page 93] 1. E. विशुद्ध० ; 2. E. पंचालराया ; C. °रायाहिवई ; 3. P. °ट्राणिएसु ; 4. C. सवसउणेसु (probably for सब्ब०) ; 5. C. सुगालंसि ; 6. B. P. (and Com.). 'हेमताणं चउत्थे मासे अद्वेष पक्खे फग्गुणसुद्देत तस्स णं फग्गुणसुद्दस्स चउथि पक्खेणं ; Com. notes the reading in the text ; 7. E. महाविमा० ; 8. E. °बु० ; Com. notes this V. L. ; 9. C. °दु० ; 10. C. दो०. [Page 94] 1. B. अहो०. [Page 95] 1. C. °गा० ; 2. P. °सु० ; 3. E. B. °ग० ; 4. C. °डंड ; E. चउहिं बुझी उववेओ for सामदंड० ; 5. C. °चक्राय० ; 6. C. B. °दु० ; 7. C. तुलहए ; E. B. ओलएह. [Page 96] 1. E. B. निगच्छइ ; 2. E. °फलग० for °पटलग० ; 3. E. °कडुच्छ्य० ; 4. E. adds this sentence from तए णं at the bottom and reads '°गंड वर्त्यं भरियमेहवत्रं सुप्पणमंडगं सुहरं कालं etc. [Page 97] 1. C. अंतियं ; 2. MSS. read here महिलं, but not regularly and consistently ; 3. C. पहा० ; 4. C. संजुत्ता० ; 5. E. तत्थ ; 6. B. °कहाहिं संलावे ; 7. C. पारिज्जन (°च्छे being dropped). [Page 98] 1. E. °विवह ; 2. E. पयस्सय after this ; 3. P. तारिसेहिं instead ; 4. C. °नंदयंता ; 5. E. °संथुण्ता ; C. अभियुण० ; 6. C. विप्पयाहिं ; E. omits ; 7. E. सम्मा० ; 8. C. अभिनिक्षिततोसि ; 9. E. °वाइसुत्तंतरेसु जयंतेसु ; 10. E. वक्कं समुदाह ; 11. C. B. °सामवि ; 12. C. °नाणा० ( for °नावा० ) ; 13. E. वाव० ; B. °रि० ; Com. °वरि० ; 14. °ण० ; 15. E. B. °ऐहिं ; 16. B. विप्पमु० ; 17. E. B. °पक्खा ; 18. C. संणुलम० ; E. संछु० ; B. °द्व० ; 19. C. E. B.

म० [Page 99] 1. B. °लंग०; 2. C. आम०; E. B. आउ०; 3. E. °चिपट० (for °चिमठ०); Com. °चिपिड०. 4. E. °भमुंव०; 5. C. °देत०; 6. C. °वगंत०; 7. E. °मायच्छमाण०; 8. B. °कालंग०; 9. E. B. °चंचल०; 10. Com. अवच्छिय०; 11. E. °लाला०; 12. Com. notes आम्सिय०; 13. C. °चम्मेट०; B. °चम्मउट०; Com. notes this; 14. E. °चिमिड०; Com. °चिवड०; 15. E. घाडबमड०; B. घाडबमड०; P. Com. घाडबम०; 16. C. °चंचलीय०; 17. C. °लोयणगंग०; 18. E. °निलांड०; 19. E. °चिदं; C. °बिंब instead; 20. B. °कर०; 21. C. °घूघूवंत०; E. °घुरघुवंत०; 22. E. °तुंभल०; B. °कुंभल०; Dict. does not note these words; 23. E. °दिक्व०; 24., C. °भुक्ख० for °नह०; 25. P. °गिवसाण०; 26. C. B. °वितत०; 27. C. आणिद०. [Page 100] 1. C. E. उवातिणमाणा०; B. उवातिम०; 2. B. °क्खाए तिकट०; 3. B. °ताल०; 4. C. विहासं०; 5. B. °ब०; 6. Com. P. जेणं. [Page 101] 1. B. °तालाई०; 2. B. ताहे०; 3. E. चेव after this; 4. E. B. °थिमे दिसीमाए०; 5. E. °पियाण०; 6. C. दिट्टी०; 7. B. खमेसु०; C. खामेसु०; 8. E. मरि०. [Page 102] 1. P. पोयपटणे०; 2. C. B. °जु०; C. many times °जु० but not always; 3. E. चंपा नयरी पोयपटणे०; B. चंपाए पोयपटणे०. [Page 103] 1. E. दिट्टुपुचे०; 2. C. °मा०; 3. P. चउक्कंसि instead; 4. E. B. ओलयंति०; 5. E. °खंधे दुरुडे०; 6. B. सीया०; 7. E. B. °वंदिउ०. [Page 104] 1. B. Locative for Instrumental; 2. E. एरिसिए०; 3. C. एथ०; 4. E. इसीसे०; 5. C. से०; 6. E. एयमाण०. [Page 105] 1. E. °सि०; 2. B. सयाई०; 3. E. निगच्छंति०. [Page 106] 1. C. पमोद०; E. पटम० 2. MSS. use plural; 3. E. °षुभ्रय०; 4. E. निव०; 5. E. B. °गरदारए०; 6. E. B. एय०; 7. MSS. have plural; 8. E. °रुवे०; B. °रुवरुवे०. [Page 107] 1. B. विअडे०; 2. E. विलिए०; 3. B. विअडे०; 4. E. भइ०; 5. E. B. चित्तसमं०; 6. E. °षुरुयं रुवे०; 7. E. जोव्वणनिव्वत्तिए०; 8. E. °गार०; 9. C. छोदा०; 10. C. B. °ण०. [Page 108] 1. B. °पडिं०; 2. B. °गार०; 3. C. छेदा०; 4. B. रुवे after this; 5. C. °येरे०; E. °भावमंडोवयरे०; 6. E. °दिस०; 7. E. °इयावसहीओ०; 8. C. कन्नाअंते०; 9. B. °फा०. [Page 109] 1. B. तुबं०; 2. C. E. अम्हे०; B. अह०; 3. E. पणवेमि०; 4. C. E. धोव०; 5. C. इणमट०; 6. E. तुबं पि०; 7. MSS. धोव०; 8. C. कन्नाअंते०; 9. C. अंतोअंते०; 10. E. usually °उडे०. [Page 110] 1. B. अडहि०; 2. C. °सा०; 3. E. मह०; 4. C. कि०; B. के०; 5. E. संवुडे०; B. बुडे०; 6. C. तडागं०; 7. E. °पस्स०; 8. E. B. तुमे०; 9. E. usually उवरेहे०. [Page 111] 1. E. अंतिए after this; 2. E. °हा०; 3. B. अम्हे after this; 4. C. सव्व०; 5. C. चेव instead. [Page 112] 1. E. निगच्छइ०; 2. E. देसमगं०; B. देसगंते०; 3. E. B. °निवडिय०; 4. B. मिथिलं०; 5. C. E. °सेजे (or रोहासजे?) B. रोहोसजे०; 6. E. णयरि० instead; 7. E. ओरुद्दं०; B. ओरुद्दं०; 8. E. विरहाणि य after this; 9. E. °णम०. [Page 113] 1. E. B. °स्सियं०; 2. B. °पवे०; 3. C. B. रोहासजे or °रोहसजे? Cp. Supra; 4. E. तं before this; 5. E. Instr. for Loc.; B. also except in लावणे०; 6. E. देह०; 7. E. °वइ०; 8. E. एवं खलु instead. [Page 114] 1. B. दुख०; 2. C. E. °ज्ज०; 3. B. तुम्हे before this; 4. E. इमाओ०; 5. E. अणगारा after this; 6. C. निव०;

7. B. चोत्यं ; 8. E. B. तए; 9. E. वक्त्तिसं ; 10. B. सयाइं; 11. E. पयाया ;  
 12. B. थ instead ; 13. E. तुम्हे ; 14. B. °म्ह० ; C. °म्म० ; 15. C. च ;  
 B. Omits ; 16. E. विहाडवेइ ; 17. E. छपि य रायाणो वालवर्यंसा ; 18. E.  
 पव्वाह. [Page 115] 1. C. अम्हे ; 2. E. जम्मनजरमरणाणं ; 3. P. °याणं ;  
 4. E. पव्वाह ; 5. E. माणसे ; 6. B. जिय० ; 7. C. °यतिन्तए ; 8. C. अतीयं ;  
 E. असियं ; 9. C. दलयइत्तए. [Page 116] 1. E. Loc. for Accu.; 2. E. B.  
 कारो० ; Com. notes कायकोडियाणं ; 3. E. B. °विहायं. [Page 117] 1. E.  
 generally °दाणं ; 2. E. च after this ; 3. C. E. °हि. [Page 118]  
 1. E. B. Singular ; 2. E. दाहिण० ; 3. E. देकिदे देवराया after this ; 4. B.  
 साहु० ; 5. E. °पुब्बाए संपट्टिया ; 6. E. तयाणंतरं. [Page 119] 1. E. पकिखवइ ; B.  
 पखिखसति ; 2. E. °निणाए ; 3. E. माणुसगाओ गिहत्यवमाओ and omits उत्तरिए ;  
 4. P. राय० ; 5. E. अरहस्स ; 6. E. पच्चाव० ; 7. E. राजानो ; 8. C. सब०.  
 [Page 120] 1. E. केवलि उपजइत्ता ; 2. E. किंसुक० ; B. भिसग्म० ; 3. E. B.  
 omit अठ० ; 4. E. अजियासंपया होत्या ; 5. C. omits the Cpd.; E. some  
 confusion ; 6. C. चुरासी य ; 7. E. °स्साइ ; 8. E. B. omit the Cpd.; 9. E.  
 B. छस्या ; 10. B. पणवीसं ; 11. C. °कड ; E. °कर ; 12. C.  
 जुगंते कड० ; 13. B. दुवास० ; Com. also ; 14. C. पाओगमणुव० ;  
 15. C. B. केवल० ; 16. E. पक्खेण after this ; 17. E. बुद्धे  
 अंतगडे परिनिव्वुडे after this. [Page 121] 1. E. मांगदी ; B. मायदा ;  
 2. C. °पालए ; 3. C. B. °लसं पि ; 4. E. Generally वयासि ; 5. C. भो ;  
 6. E. ते ; C. भो ; 7. E. B. मांगदिय० Throughout ; 8. E. अणुजाणित्ता.  
 [Page 122] 1. B. अयाले ; 2. C. समुछिए ; E. °च्छिए ; 3. B. अतिअट्ट० ;  
 E. अणियट्ट० ; 4. E. °जणिं ; 5. E. भंज० ; 6. E. घुणा० ; 7. B. गलियगबंधणा  
 लंबणा ; 8. C. साय० ; 9. MSS. and P. °घोर० ; 10. P. °छोम० ; Dict. does  
 not note छोमणः But all MSS. write छोमण ; 11. C. °भट० ; 12. E. °धाविय० ;  
 13. E. °गार० ; B. °कार० ; 14. E. B. करकरस्स ; 15. E. °परणियभंड० ; P. °पडियं  
 भंड० etc. ; 16. C. B. निवज्जा ; E. णिवेज्जा. [Page 123] 1. B. फलगमखंड० ;  
 2. B. संदू० ; 3. E. B. आससंति ; 4. E. B. नालिएरा० ; 5. E. गत्ताइं ; 6. E. B.  
 सत्तड० ; 7. B. °ताल० ; 8. E. हो. [Page 124] 1. E. गंडरत्त० ; 2. E. माउयाइं ;  
 3. E. पाडेमि ; 4. B. एटेहिं ; E. तेएहिं ; 5. E. पूर्य० ; B. पुइय० ; 6. E. पाड० ; 7. C. B.  
 उविं ; Com. उपिच्छौ ; 8. B. उदू ; 9. E. °दणेण ; 10. C. ददुर० ; 11. C.B. °उद्मर(?) ;  
 but अम् & ज्ञ are very similar ; 12. E. °विंद० ; 13. C. उविग्मा generally ;  
 14. B. उदू. [Page 125] 1. B. °बेलो ; 2. E. B. °मयर० ; 3. C. तएणं ; 4. C. °कुजा० ;  
 5. E. संमुहं ; B. सुमुहि ; Com. समुहि ; 6. E. वयासि ; 7. C. महुत्तं ; 8. C.  
 B. संयं ; 9. C. र्यं ; 10. C. धियं. [Page 126] 1. B. °विए ; 2. C. कस्साधायणे ; Dict.  
 does not give आधायण ; 3. E. आवईं ; B. °वर्ति ; 4. C. B. ते ; many times,  
 MSS. write ते for से ; ( i. e. Plural for Sing. ). Cp. also the Verbal  
 forms : C. very often writes Plural for Sing. ). 5. C. B. E. °उबु० ;  
 6. P. ओहिणा after this. [Page 127] 1. C. °लहुगंसि ; 2. E. वयासि ; 3.

E. जक्ख० instead; 4. P. भे; 5. E. B. भे; 6. P. चेइयं: But the MSS. write व and च alike; चेइयं makes no sense; 7. E. जक्ख० instead. [Page 128] 1. C. E. सिद्धि; This word is often thus wrongly spelt by MSS.; 2. B. पड़ि०; 3. B. पुट्टातो०; 4. E. विशुणामि०; 5. E. °णाह०; 6. C. B. वत्तंति०; 7. E. तवंपि after this; 8. B. पट्टंसि०; 9. E. पट्टि०; 10. C. सत्तअट्ट०; 11. E. B. °तल०; 12. C. उवागए०; 13. C. सुयं०. [Page 129] 1. C. B. °खडगं०; 2. C. सत्तअट्ट०; 3. E. B. अप्प०; 4. E. पाडेमि०; B. पेडेमि०; 5. C. अणाढेमाणा०; 6. E. लोभेहि य before this; 7. E. जमिण०; 8. E. °दीवेदेवया०; 9. P. उ after this; 10. E. वह०; 11. & 12. B. सललियं०; C. सललियं०; Com. सलीलयं०. [Page 130] 1. C. निवृय०; 2. B. सव्व०; 3. E. B. सकलुसा०; 4. C. णिकठक०; E. णिच्चक०; 5. E. विणण० (?); Com. छिण—and explains as स्थ्यान which is from थिण०; 6. C. °क्रिय०; E. णिक्षिव०; 7. E. °हन्न०; 8. B. तुमें०; 9. E. omits; 10. E. °रिस०; 11. E. °विविह०; 12. E. B. °सयाउल०; 13. E. B. एका०; 14. B. °विउल० (for विमल); 15. E. °लागार०; 16. B. सरिसनयणवयण०; 17. C. सद्वामि०; 18. C. पि०; 19. C. जाए० (for जा ते); E. जाओ०; 20. C. B. °राहिं०; 21. E. B. omit °अणु०; 22. E. °लयण०; 23. C. Some confusion in this and the next Cpd.; 24. C. गलहथणोलियमई०; E. °गलणोलिं०; B. °गलत्थणो०; 25. E. B. °सडै०; Com. °सत्य०; 26. E. B. °प०; 27. E. °प्प०; 28. E. आसुरुतं०. [Page 131] 1. B. सरिस०; E. पुरिस०; 2. B. पहि०; 3. C. °थिं०; 4. C. °लिए०; P. °लओ०; 5. B. निरवेक्षयो०; 6. B. निरवेक्षयेण०; 7. B. °महुर० (for मउय); 8. C. सिद्धि०; 9. C. बहूय०; 10. E. B. °त्तार०; 11. E. °समुच्छलण०; 12. B. गेहण०; 13. E. omits; C. °विभूय०; B. भोगभोगाई॒ भूजमाणा॒. [Page 132] 1. E. अपाहरण०; 2. E. °विऊ०; 3. E. writes the Sentence in full. [Page 133] 1. E. throughout writes different sentences: नामं नये होत्था। तस्स णं etc.; 2. E. हीयंति०; 3. B. पण०; 4. E. दियाए०. [Page 134] 1. E. B. कह०; 2. E. °पत्ता० मुत्तपुष्टफला०; 3. C. °क्खाओ०; 4. C. देसआरा०; 5. C. B. स०. [Page 135] 1. E. writes full sentences; 2. C. महासमण०; 3. C. °जालाकुले०; 4. B. इणमट०; 5. E. निसत्रे० (for वरगए). [Page 136] 1. E. विस्सा०; 2. E. मदणिज्जे०; 3. C. वयणिज्जे०; 4. E. B. throughout सुधिम and दुधिम for सुरभि and दुरभि०; 5. E. पाओग०; 6. E. B. °णा०; 7. E. °वाहिं०. [Page 137] 1. E. उवाइणा०; 2. E. कार०; B. करा०; 3. B. संवासेति०; E. संवासावेइ०; 4. B. ग०; E. गं०; 5. E. संवसा०. [Page 138] 1. E. पाणिज्ज०; 2. C. °भत्तु०; 3. C. E. तुब्मे०; 4. E. तुम्हे तइया०. [Page 139] 1. E. वयासि०; 2. C. जाणिया०; 3. C. तुब्मे०; E. तुमं०; 4. E. Reads ते before this; 5. C. बु०; E. तु०; 6. B. °च्छंति०. [Page 140] 1. C. Always writes °उविग्गे० (single व०); 2. C. B. एगओ०; E. पच्छागए० (for पच्छा एगयओ०); 3. C. तुम्हे०. [Page 141] 1. E. reads after this:—तस्स णं रायगिहे स्तेणिए० णामं राया होत्था। तेणं कालेण २ समणे भगवं etc. ....; 2. C. Throughout ददुर०; 3. E. °सपरिवाराहिं०; B. सरिसाहिं०; 4. C. °क्खमंते०; 5. C. B.

अन्नयाइ. [Page 142] 1. E. B. °रोवि०; E. °पाड्य०; 2. C. E. °रिणि०; B. °रुणि०; 3. C. E. B. जाए॒; 4. C. °कोणा (Single क throughout); 5. E. °कत्त० (for पत्त); 6. B. °मथ०; E. °मथ or (च्छ ?); P. °मच्छ०; 7. B. °सदुन०; P. °सहन्न०; 8. C. पुरि०; 9. B. कार०; 10. C. E. B. °तिम; 11. C. E. °माणा; 12. C. E. °भय०; B. omits; 13. C. °न०. [Page 143] 1. E. सुयमणो॒; C. सुयमणो॒; 2. E. कार०; 3. E. °किविण०; 4. E. B. एथ०; 5. There is some confusion here. E. करोडिया य वायतणहारा॒; C. B. करोडिकारवा॒; P. करोडिया करिया॑ तणहारा॑ etc; 6. C. B. °मळ०; 7. C. B. °कुसम०; 8. B. साहमणो॒; E. सोवमाणे॒; In line 1 on this page, MSS. write सोहेमाणे॒; Com. सहै॒. [Page 144] 1. E. B. °कलंबं॒; 2. E. सम्भसिय०; 3. E. B. खासे॒; 4. C. अरसा॒; 5. E. कंहू य उदरे कोट्टे॒; B. कंहू उदरे कोट्टे॒; 6. E. उव्वे॒; B. उब्बलणेहि॒; C. उब्बलणाहि॒; 7. C. अब्बद्वावणेहि॒; B. °द्वावणाहि॒. [Page 145] 1. E. °णेहि॒; 2. C. निर्खोहि॒; B. निर्खेहि॒; 3. E. सज्जेपुड०; 4. C. गो०; 5. E. reads after this : आइज्जेहि॒ य ; B. बेल्लीहि॒ य ; 6. MSS. मणियारे after this; 7. E. B. विगिमुके॒; 8. C. पीयपाणियं॒; E. पियपाणियं॒; 9. C. एस; E. सो॒; [Page 146] 1. E. सालाझो॒; 2. P. °इणो॒; 3. B. पा॒; 4. E. सिरसावत्तं मत्थए अंजलि॒ कट्टु for जाव. [Page 147] 1. E. जावज्जीवाए after this; 2. E. °पुरे॒; B. °लीपुरे॒; 3. E. णयरे होथ्या॒; B. णगरे होथ्या॒; 4. E. writes complete sentences; 5. C. कलायरस्स॒; 6. B. अत्तिया॒; 7. C. usually पोटिला and sometimes पोटिला॒. [Page 148] 1. C. always कलायरस्स॒; E. कालायस्स॒; B. कलादस्स॒; 2. C. E. B. generally omit दारग; 3. C. E. B. °माणि॒; 4. E. B. रुवेण॒; 5. C. °वाहि॒; 6. C. Always writes कलायरस्स॒, B. sometimes E. कलायस्स॒ or °दस्स॒; but all MSS. also write कलाए॒. Thus there is no uniformity regarding the spelling of this word; 7. C. सत्तअट्ट॒; 8. C. omits; E. B. वा instead; 9. E. सुंके॒; 9. E. सुंके॒. [Page 149] 1. C. हत्थअंगु॒; E. °लियाए॒; 2. C. हत्थअंगु॒; 3. C. पायअंगु॒; 4. B. °सकुलीओ॒; 5. E. अंगमंगाइ॒; B. अंगमंगायं॒; 6. E. B. पयायामि॒; E. reads तं after this; 7. C. E. B. °सि॒; 8. C. अन्नसुहदायणे॒; 9. P. सयमेव॒; 10. E. °वङ्गुति॒. [Page 150] 1. B. °हाय॒; 2. C. तुच्चं॒; 3. E. अंबो॒; P. तंयलिगिहे after this; 4. E. B. °स्सियं॒; 5. E. B. °हा॒; 6. C. पेहेइ॒; 7. E. B. तं णं॒; 8. C. निक्खवेति॒; 9. C. E. °लाओ॒; 10. C. E. पेहेहि॒. [Page 151] 1. E. मय॒०; B. मालियं॒; 2. C. लोगहियाइ॒; E. लोगियाइ॒; 3. C. B. जाया॒; 4. E. °गोयस्स वि॒; 5. E. दरिसंण॒; 6. E. नाव॒; 7. E. °रासि॒; 8. C. °कलं॒; 9. C. B. बहूसुया॑०. [Page 152] 1. C. हियवुडावणे॒; 2. C. E. भूय॒०; 3. C. गोलिया॒; 4. C. जाणाहि instead; 5. E. हत्थे before this; 6. E. छाएति instead; 7. E. B. °यारं॒; 8. B. उव्वदे॒; 9. P. पडि० (for परि०); 10. C. कुटंब॒०. [Page 153] 1. C. तुच्चं॒; B. तुमे॒; 2. E. अन्नयरेसु॒; B. अणुत्तरेसु॒; 3. E. बोधे॒; 4. C. अनतरेसु॒ for अनन्तरेसु॒; E. अणुत्तरेसु॒; 5. B. संपत्ते॒. [Page 154] 1. C. वियंगे होथ्या॒; E. विगित्या॒; 2. P. °वट्टवए॒; 3. E. तए णं॒; 4. E. जा णं॒; B. जो णं॒; 5. C. °रहे॒;

6. Com. से ; 7. P. पसासेमाणे ; 8. E. कुमारं ; 9. C. तं ; B. omits ; E. इयं.  
 [Page 155] 1. B. से वडृति ; 2. E. B. मम after this ; 3. C. °ज्ञयं ; 4. C. °ज्ञयं रायं ; B. °ज्ञयं नं ; 5. E. पट्टओ. [Page 156] 1. E. सए before this ; 2. C. ओइला ; E. ( at the bottom in Com. )—ओइला ; 3. E. °लियाए सिलाए गीवं ; 4. E. ज्ञामिए ; 5. E. omits this sentence : and after this some words are not distinctly legible as the folios have stuck together ; 6. E. omits ; C. पोसेहिं ; 7. E. तेयलिपुत्रेण before this ; E. B. तालउडगे ; 8. E. B. आपा ; and E. मुक्खे ; 9. C. °पुत्तं. [Page 157] 1. E. वरसंति ; B. वरिसंति ; 2. E. अरन्ते ; 3. E. B. omit ; 4. E. तरिउँ ; 5. E. B. पवहणं ; 6. B. °णा ; 7. E. वयासी ; 8. E. सुभेण अज्ञवसाणेण after this ; 9. MSS. omit °पुत्तं ; 10. E. पंचमह० ; 11. E. °वट०. [Page 158] 1. B. धणे throughout. [Page 159] 1. MSS. वयासी ; 2. Com. पंडुरंग ; 3. Com. गिहिधम्मे वा धम्मचित्तए वा ; 4. C. आहिच्छ०. [Page 160] 1. B. नाइविगिद्देहिं ; 2. E. पयाणेहि instead ; 3. E. B. देसगंगेते ; 4. C. ससिरीया instead ; 5. E. केवि ; 6. E. After this 'ठिच्चा तथ्य ( for सत्थ ). [Page 161] 1. E. नो रज्जेइ after this. [Page 162] 1. C. E. °भौ ; 2. E. C. °वाराए ; 3. E. B. °खडेइ ; 4. E. °खडेइ ; 5. P. अभोजं after this ; 6. E. B. अह० ; 7. E. B. °लिंब० ; 8. E. B. omit ताव ; 9. E. B. तित्ता०. [Page 163] 1. E. B. °रा० ; 2. E. सुहंसुहेण विहरमाणा after this ; 3. E. उवगा० ; 4. C. °रुयं ; 5. P. निसिरणदुयाए ; 6. C. B. °गगहगे ; 7. E. °सि० ; B. °स्स० ; 8. E. ताओ० ; 9. E. B. तित्तगं. [Page 164] 1. C. °रुयं ; 2. E. यं ; 3. E. °वायं अचित्तं थडिलंसि एगंतं ; 4. C. °सू० ; 5. C. मम तं ; E. मम तं. [Page 165] 1. B. °केदेस० ; 2. E. B. अंतियं ; 3. C. B. °इयं ; 4. E. पुव्वा० ; 5. C. सा नागसिरी माहणी जाव निसिरइति after this ; 6. E. °चिंदे. [Page 166] 1. B. अह० ; 2. E. विगयसिरी after this ; 3. P. जाए instead ; 4. C. °याइ० ; 5. C. °णाइ० ; 6. B. वहिजमाणी before this ; 7. C. E. त्रु० ; [Page 167] 1. C. B. देह० ; E. देहिवलियाए ; 2. E. B. नरएसु ; 3. E. उक्कोसं तेतीससागरो० ; 4. C. उववटेता० ; 5. E. नरएसु ; B. नरए० ; 6. C. B. omit ; 7. B. पयाया० ; 8. C. सुक० ; 9. C. अम्हा० ; 10. and 11. E. सुकुमा० ; [Page 168] 1. C. generally उमुक० ; 2. C. °किं० ; 3. P. गिहस्स instead ; 4. E. रुवेण ; 5. E. °वेजा० ; 6. E. omits ; C. B. सि instead ; 7. C. भण after this ; 8. B. मम after this. [Page 169] 1. C. °ऊए० ; 2. E. B. जाव instead ; 3. E. B. पट्टयं ; 4. C. E. B. सी० ; 5. E. B. omit अग्गि० ; 6. B. पडिसं० ; 7. C. तिलगं ; B. तलिंग०. [Page 170] 1. C. always महुत्त० ; 2. B. सयणिज्जंसि० ; 3. E. अपास० ; 4. C. तलगाओ० ; B. तलिंग० ; 5. E. अणु० ; B. °ज्ञ० ; 6. C. °गणइ० ; B. अवंगणइ० ; P. °गुण्डइ०. [Page 171] 1. E. B. °दोसं only ; 2. C. तुब्मे० ; B. तुमे० ; 3. C. तए णं before this ; B. तेण० ; 4. C. सरप्प० ; 5. E. °पवेसं० ; B. जलपवेसं वा in addition to °पवायं वा ; 6. B. वे० ; 7. C. कुङ० ; B. कुङतरिए० ; E. °तरिए० ; 8. C. वलिए०

E. विलए; B. विलन्जिए; 9. E. मणोरमा; 10. C. E. दंड°; 11. E. °प्पवे°.  
 [Page 172] 1. C. E. क°; 2. C. उबलेहंति; 3. B. अभै°; 4. E. गंधुव्व°;  
 B. गंधु°; 5. E. °ला; B. °लाए; 6. C. तलगोंस; B. तिलगांसि. [Page 174]  
 1. B. वर्सी°; 2. B. °वतिश्याए; 3. C. E. रोंवद; B. रोश्वद; 4. E. B. °वियारा;  
 5. E. °भीओ; 6. E. °हुहइ; 7. E. °वाउसिया; B. °पाउसा; 8. E. उदयतिएण.  
 [Page 175] 1. C. आण°; 2. C. दुपाए; B. दूवाए; 3. B. धटुज्जणे. [Page 176]  
 1. E. B. होउ; 2. B. °हीया; 3. MSS. Sometimes °प° and sometimes  
 °व°; I have henceforth retained °व° throughout; 4. ' 2 ' after  
 दोवई stands for the word 'रायवरकता'; 5. E. B. Instr. for Loc.;  
 6. E. B. डाहे; 7. Some confusion here; C. अज्जोया(or पा?)ए;  
 E. अज्जोया(or पा?)एण; B अज्जोया(or पा?)एण; 8. E. B. वर्खामि; 9. E. B.  
 °झ°; 10. E. मह°. [Page 177] 1. E. °दाणियं; 2. E. °दाणिं°; 3. E. मह°.  
 [Page 178] 1. B. खिपामेव भो instead; 2. E. किवं; 3. C. अज्जुन्नं; 4. E.  
 सेळं; 5. E. °घोष°; 6. E. °सिंधु°; 7. E. B. भेसग°; 8. E. B. विराडं; 9. E.  
 कियंगं; B. कीयगं. [Page 179] 1. B. आगमं; 2. E. Singular; 3. E.  
 संतद्वा. [Page 180] 1. C. °भन्तु"; 2. E. B. पचावर°; 3. B. धटुज्ज°; 4. B.  
 नामंकएसु; 5. C. विहरह; 6. C. °किए"; 7. C. कल्ह. [Page 181] 1. E. णिसेइ;  
 2. C. निसेइ; E. omits; 3. E. °मयह°; 4. C. B. किडो"; 5. E. °रुहद;  
 6. C. °द्रुणि; 7. C. B. दर°. [Page 182] 1. C. °समत्थ°; 2. E. °विक्कंत°;  
 3. E. B. omit दस; 4. E. °पुरिसाणं तेलोङ्क° etc.; 5. E. B. पुणो; 6. E.  
 omits; B. लोति and 'omits होइ'; 7. E. वयद; 8. B. धटुज्जण° always;  
 9. MSS. °हृद; 10. E. करेइ; B. कारवेइ; 11. E. °कारी; B. °कारे. [Page 183]  
 1. E. B. °खंभ°; 2. E. B. सए आवास; 3. E. से°; 4. E. घ्हणेइ; 5. B.  
 °कारं. [Page 184] 1. E. B. °त्योवतिथए; 2. C. B. स°; 3. C. E.  
 उंडकमंडल°; 4. B. कच्छवीए; 5. E. B. °सेल°; 6. B. °आभि°; 7. B. °भ°; 8. C.  
 °कोऊरुल°; 9. P. and Com. एकमणि—obviously wrong for पक्कमणि;  
 10. E. गगण मौहि°; 11. Com. थिभियमेइणियं णिन्मरजनपद; 12. E. ओलोद्ययरमं;  
 B. ओलायंते; 13. E. समावयइ; 14. E. B. °पच्च°. [Page 185] 1. There  
 is hesitation among MSS. re. अमर° or अवर°; 2. B. सतिमं (omits पि).  
 [Page 186] 1. E. तं instead; B. एण; 2. C. ति वा; 3. E. पियत्ताए;  
 4. E. °ट्टुलो"; 5. C. उवसो°; 6. C. महु°; 7. E. इमे; 8. E. सओ पासाओ.  
 [Page 187] 1. C. जुहु°; 2. C. महु°; 3. B. कयं; 4. C. बहिया; 5. E.  
 उक्किखत्ता. [Page 188] 1. C. एव°; 2. E. जाव instead; 3. E. उक्किखत्ता;  
 4. C. करेइ; E. करिंति. [Page 189] 1. B. °उरवरगए; 2. C. एवं; 3. E. B.  
 omit. [Page 190] 1. B. तांडह; 2. C. B. सद्धं; 3. Not in MSS.; 4. P.  
 omit. [Page 191] 1. E. B. अङ्क°; 2. E. °नाहा"; B. जो ण; 8.  
 साहरिया; 5. C. मए; 6. E. °समुद्दमज्ज्ञे; 7. E. जेण; B. जो ण; 8.  
 C. सद्धं. [Page 191] 1. E. B. अङ्क°; 2. E. °नाहा"; B.  
 °णाहा"; 3. B. °धी° for घिइ; 4. E. आणमाणे; 5. C. दारए; 6. E.

आक०; B. अणुक०; 7. B. अवहा०; 8. E. B. निच्छ०; 9. E. B. अभि०;  
 10. C. B. °उवदेस०; 11. E. °विकपणाविकपेहि. [Page 192] 1. B. जुज्ज्वह;  
 E. जुज्ज्वहिह; 2. B. पिच्छेह; E. पेच्छिहिह; 3. E. °द्वयपडागा; B. °पडागा;  
 4. C. पुम०; 5. E. तषु०; 6. C. °यत्रं; B. °वत्रं; P. °वण्ण. [Page 193]  
 1. C. B. रोहासजे Cp. Supra; 2. C. करेण; 3. E. न याणामि; 4. E. उत्तम-  
 पुरिसाण after this; 5. E. मं for णं; 6. C. °भाणेमाणं; E. B. हव्वमाणे only;  
 7. E. भयमत्थ. [Page 194] 1. C. B. किमत्रे; 2. There seem to be  
 some confusion here; E. सहाइ; B. सहाइ सुणेइ (instead of  
 भद्धा); P. also; 3. MSS. किमत्रे. [Page 195] 1. B. एयं; 2. E. B.  
 वेलाउले; 3. E. पंचजन्मं; 4. C. आगयस्स; 5. E. न जाणसि. [Page 196]  
 1. E. द्विया णावं; 2. E. मुयंति instead; 3. E. °भागं; 4. C. महु०; 5. E.  
 उत्सेमो (?); 6. C. सुस्मरैइ; E. सुमस्मैइ; P. चूरैइ instead. [Page 197]  
 1. E. कोट्टे; B. कोट्टि; 2. C. वीइवयहत्ता; E. B. °वहत्ता; 3. E. तुच्छाइ; P.  
 notes जुज्ज्वह; 4. E. अब्मइवयणा; B. अपूर्व०. [Page 199] 1. C. B. °टु०;  
 2. B. सुरट्टु instead; 3. E. वंदए; 4. C. हत्यि०. [Page 200] 1. P.  
 एयमटुं after this; 2. B. पञ्चविक्खंति; 3. B. °गतियं; 4. MSS. सेत्तजं; 5. B.  
 अणवकंख०; 6. MSS. °जे०; 7. E. Throughout-जुहिद्विल; 8. C. दुविस्स;  
 B. दुवतीस्स. [Page 201] 1. E. B. संजत्ता०; 2. E. संज०; 3. E. B. उपाश्य०;  
 4. E. समुत्थिए०; 5. E. आधु(or पु?)निय०; 6. C. °सूर्वैइ; 7. E. गद्भेजगए;  
 C. B. गम्भेजगा०; 8. C. म०; 9. E. संवृद्धा०; B. °वू०; 10. C. °कइ. [Page 202]  
 1. E. °याए०; 2. C. तए०; 3. E. °न्नगारा०; above also; 4. B. °पोयवहणपट्टो०;  
 5. E. एगमगटियाहि०; 6. E. इव instead; 7. B. भो०; 8. E. कहि०; 9. E.  
 पुब्बदिट्टे०; 10. E. B. संवृद्धा०; 11. E. °ण्णगारा throughout. [Page 203]  
 1. E. सोइदिय०; 2. B. Supplies the passage; 3. B. पोयवहणट्टो०; 4. E.  
 उ(तु?)टुंति. [Page 204] 1. E. B. सोइ०; 2. E. तुट्टुति०; 3. C. निकरे०; 4. C. B.  
 पोर०; E. पोराणगस्स; 5. C. B. फासिंदिय only; E. फासिंदियाइ०; 6. C. B.  
 °गोउरा०. [Page 205] 1. E. चाएुति०; 2. C. पोयवहणे०; 3. E. संज०; 4. C. B.  
 अविलाणेहि०; 5. P. वेलपहारेहि० य after this; 6. P. चित्त० (Probably wrong  
 for वित्त०); 7. E. B. छिवप०; 8. E. B. °टिस्सइ०; 9. E. °ककुहाहिराम०; C. कवुहा०.  
 [Page 206] 1. P. कसायंवमहुरु०; B. omits अंविरं; 2. MSS.  
 °जे०; 3. C. विरिल्लिरो०; 4. Com. °सुहेसु०; 5. Com. °करेसु०. [Page 207]  
 1. C. सूसमा०; B. सुसमा०; E. सुसमा०; I have retained सुसुमा  
 throughout; 2. C. आडेलियाओ०; E. आलोडिइयाओ०; . C. पोतुलए०; E. पोतलए०;  
 4. E. साडुलए०; C. लंगोटा instead; 5. E. खिजणाहि०; 6. E. B.  
 उवलंभणियाहि०; 7. MSS. omit. [Page 208] 1. E. निबं०; B. निबंच्छ्वेइ०;  
 2. E. चिट्टुइ instead; 3. C. अणा०; E. °हट्टिं०; 4. E. चोर०; 5. E. °कोडंब०  
 6. E. °प्पवेसफसिसो व०; 7. B. क्रवियजणस्स; 8. B. तकरसेणा०; P. चोरेणा०;  
 9. C. कुडेयोणां वि०; B. कुडगे०; 10. E. निष्पाण०; 11. E. °भामाणे०; B. °भमाणे०.  
 [Page 209] 1. E. °णाहिवइ० 2. B. पि ह०; 3. C. B. तस्स; 4. C. सर्द०.

[Page 210] 1. C. E. असणें ४ ; 2. C. संसमा ; E. सुंसमा ; 3. C. पुव्वाव°; 4. E. णिक° ; B. णिक०; 5. E. अंसा° ; 6. Com. °लासियाहिं; 7. C. दीव° ; E. B. दावा° ; 8. C. छिप्पतरे; E. B. छिप्तरेहि; 9. C. पच्चावरण्हकालसमयासि after this ; 10. C. गेहं ; E. गहवनं णं ; 11. C. मुइ° ; 12. C. तालउगधा° ; E. तालाळु° ; B. तालुग्धाणि° ; 13. B. जो. [Page 211] 1. E. B. °ह० ; 2. C. °तयासे०. [Page 212]. E. अगा° ; 2. E. पम्हु० ; 3. E. °वियालिया ; B. °विएयालिया ; 4. E. फर° ; 5. E. पंचहि पुत्तेहिं ; 6. C. कुहस्स २ ; 7. C. प्रभमंते ; P. notes the V. L. परद्धते ; 8. C. तए णं ; 9. B. अवद्धटा ; P. अवहिटा (?) . [Page 213] 1. E. °हिह ; 2. C. E. दूव° ; B. ठा° ; 3. B. E. णिथरेह ; 4. E. अवथडा ; B. अवद्धटा ; 5. E. B. °युक्ते०. [Page 215] 1. E. वास after this ; 2. E. बहिया after this ; 3. C. कुंड°—but not consistent ; 4. E. gives the whole sentence ' घमयोसा नामे etc. [Page 216] 1. B. महया २ ; 2. C. °री० ; 3. E. संकंप ; 4. E. B. तेइच्छं ; 5. C. रोगातंकाओ ; 6. संमु०. [Page 217] 1. E. °डुइत्ता ; 2. E. B. विग्गो० ; 3. E. °वट्ट० ; 4. E. B. अम्म०. [Page 218] 1. C. °देह ; B. आसाइए. [Page 219] 1. B. विणिधाय° ; 2. E. B. एक° ; P. एक° ; (E. एकासराणि). [Page 220] 1. C. B. omits. [Page 221] 1. E. समणे भगवं महावीरे instead ; 2. E. °वडिसए विमाणे ; 3. E. जथ्य ; B. गथ्य ; 4. C. E. निसेइ ; B. निमेह ; 5. C. आभोगियं. [Page 222] 1. C. °पुथ्यणी ; B. पडिपुच्छ (थ ?) णी ; E. पडियथ्यणी ; 2. C. B. नवुस्सेहे ; 3. E. °दियं ; 4. E. °परिक्षित्ता. [Page 223] 1. C. °सुहेणं ; 2. C. जरमर० ; 3. C. छत्ताए ; E. छताहिईए ; 4. B. °राईसए. [Page 224] 1. E. कालिसिस्सिणि ; 2. E. सिस्सिणि ; 3. C. चेइए ; B. वे (or चे ?) तेइ ; 4. E. अजियं ; 5. E. B. °पाउ० ; 6. C. E. B. °पाउ०. [Page 225] 1. E. अब्रमन्न instead ; 2. C. B. वसित्ता ; 3. B. पडिकं ; C. पाडियकं ; 4. C. छेदेइ ; 5. E. अवतरिया only ; 6. E. °ज़इभाग° ; B. °जाएभाग° 7. E. उब्र०. [Page 226] 1. B. निह० ; 2. E. विमाणे instead. [Page 227] 1. E. धूया after this ; B. धूय ; 2. E. °तिमे ; B. °इमे ; 3. E. इला ; 4. E. इला० ; 5. C. अय्ले ; 6. C. अइला Probably confusion of the two spellings ; B. अला ; 7. E. °सोतरया ; P. कमासतेरा ? ; 8. C. °देवस्स विसेसा. [Page 228] 1. C. विझ य पुन्ना (ता ?) 2. E. बहुपुणिथा ; 3. B. उत्तरमायारया वि य ; 4. C. तारया ; E. भरिया वि य ; 5. C. फडाइया ; B. फलाइया ; B. कच्छकच्छार्वाईफडाइय ; 6. E. °कालिदाणं ; 7. C. अइखुराए ; B. अरक्खए ; 8. C. अइखुराए ; B. °क्ख०. [Page 229] 1. E. भंडी० ; B. भंडी ; C. omits भंडी ; 2. C. सुई० ; B. सूती० ; 3. C. B. नवमिया.



